

न. ५० ॥ श्री ॥

सज्जायभाला.

भाग पहलो

आ पुस्तकमां

अनेक उत्तम जैनपंक्ति विरचित, चित्तानंद दा-
यक, वैराग्यादि रसोत्पादक एवी सद्यायाने
सर्व नाधमीं जाइयांने जणवा वांच्वा योग्य
जाणी दाखल करेखी वे.

आ ग्रथने

यथामति सशोधन करावी,
[बीजी आवृत्ति]

श्रावक भीमसिंह साणकें

अमदावाद मध्ये

राजनगर नामक मुखायत्रमा मुद्रित कराव्यो वे

सवत् १९६४-सने १९०८ आशो शुद्ध १५

॥ प्रस्तावना ॥

आ सद्यायमाला नामनो ग्रंथ जैनधर्मी श्रावक श्राविका तथा साधु साध्वीने बहु उपयोगी ठे एम तेनी प्रथमनी आवृत्ति उपरथीज सिद्ध थयुं ठे. कारण के तेमां जक्ति अने वैराग्यने पुष्टि आपनारी तेमज वांचनारा उने हृदयमां आनंद प्रगट करनारी उत्तम सरस सद्यायो दाखल करवा मां आवेली ठे, तेथी ते सर्वेने बहु प्रीय थइ पडी ठे. जो के जैनधर्मना जक्ति अने वैराग्यमय बीजा बहु ग्रंथो ठे पण ते ग्रंथो संस्कृत अथवा प्राकृत ज्ञापामां होवाथी तेवा ग्रंथो गुरुवस्यता विना जाणी शकता नथी अने आ सद्यायमाला तो अक्षरोना जाण कोशपण सहेलाइथी वांची शके ठे, अने तेमां वली नवा नवा रागवाली सद्यायो होवाथी वांचनारने बहु आनंद आपे ठे.

आ सद्यायमालानी प्रथम आवृत्ति ठपावी त्यारे तेमां जे जे उत्तम अने शांतरसमय सद्यायो हती ते ते दाखल करी हती अने ते सद्यायोनी संख्या पण कांइ उठी नहोती. आशरे (५११) सद्यायो हती. तेज सद्यायो सुधारा वधारा साथे आ बीजी आवृत्तिमां पण दाखल करी ठे.

अमारा जैनधर्मी ज्ञाश्याने तेमज वाश्याने सद्यायो वांचवानो घणो अज्यास होवाथी तेउए अमारी पासे प्रथमनी आवृत्ति पुरी थवाने लीधे बीजी आवृत्ति ठापवानो आग्रह करवाथी तेमज बहु साधर्मी वंधुउं तरफ थी तेनी मागणी थवाने लीधे अमे सद्यायमालानी आ बीजी आवृत्ति ठपावीने प्रसिद्ध करेली ठे अने वली ते प्रथमनी आवृत्तिनी माफक शास्त्री अक्षरोथीज ठपावी ठे; कारण के साधु साध्वी तेमज मारवाड तथा दक्षिण विगेरे देशोमां निवास करनारा अमारा साधर्मी ज्ञाश्याने तेमज वाश्याने शास्त्री अक्षरोना ग्रंथो वांचवानो परीचय होय ठे. वली अमारा कड काठीयावाड तथा गुजरात देशमां वसनारा साधर्मी ज्ञाश्याने तथा वाश्याने पण शास्त्री अक्षरो वांचवानो अज्यास होय ठे, तेथी ते सर्वेने उपयोगमां आवे एम धारी शास्त्री अक्षरोथीज ठपावी ठे.

ठेवट आ प्रस्तावना पुरी करना पहेलां अमो अमारा साधमींठने विनंतीपूर्वक निवेदन करीए ठीए के, आ सहायमाला ग्रंथ जक्ति अने वैराग्य ना आनंदने आपनारो बहु रसीक होवाथी तेनो अवश्य वांचीने लाज लेशो एवी अमारी प्रार्थना ठे. वली अमोए आ सहायमाला ग्रंथ ठपावती बखते यथामति पुरतुं ध्यान आपीने शुरू कयों ठे ठतां कोइ ठेकाणे दृष्टिदोषथी अशुरूपणुं रही गयुं होय तो तेनुं अमारा साधमीं वंधुउं पासे 'मिठामि डुक्कड' मागीए ठीए. शुजं जवतु.

॥ अनुक्रमणिका

सद्वायनुं नाम.	सद्वायनुं प्रथमपद.	दोल. पृ०
१ सम्यक्त्वना सदसठवोलनीस०	सुकृतवद्विकादंविनी.	१—१
२ अढार पापस्थानक सद्वाय.	पापस्थानक पहेलुं कहुं रे.	१८—६
३ निदावारक सद्वाय.	निंदा म करजो कोरनी०	१—१६
४ नेम राजुल सद्वाय.	पियुजी रे पियुजी रे नाम जपुं०	१—१६
५ बलज्ज मुनिनी सद्वाय	शा माटे वांधव मुखथी न वोलो.	१—१७
६ मनज्जमरानी सद्वाय.	चूढ्यो मनज्जमरा तुं क्यां ज्जम्यो.	१—१७
७ आठ दृष्टिनी सद्वाय.	शिव सुखकारण उपदिसी.	८—१८
८ श्रीज्जगत्तीसूत्रनी सद्वाय.	वंदी प्रणमी प्रेमगुं रे.	१—२३
९ अगीयार अंगनी सद्वाय.	आचारांग पहेलुं कहुं रे.	११—२५
१० पांच कुगरुनी सद्वाय.	सेवो सफुरु गुणनिर्धारी.	६—३०
११ आंबिल तपनी सद्वाय.	समरी श्रुतदेवी शारदा.	१—३३
१२ श्री अमृतवेलीनी सद्वाय.	चेतन ज्ञान अजुवालीयें.	१—३३
१३ जीवहितं शिखनी सद्वाय.	जोयें जतन करी जीव०	१—३५
१४ पांचमा आरानी सद्वाय.	वीर कहे गौतम सुणो.	१—३६
१५ कलियुगनी सद्वाय.	सरस्वतीस्वामिनी पाय नमीने.	१—३७
१६ एकादशीनी सद्वाय.	आज महारे एकादशी रे.	१—३८
१७ वैराग्यनी सद्वाय.	उंचां मंदिर मालीयां.	१—३९
१८ अमल वर्जननी सद्वाय.	श्रीजिनवाणी मन धरी.	१—३९
१९ श्री शीखामणनी सद्वाय.	श्रीगुरुचरण पसाउले.	१—४०
२० बार जावनानी सद्वाय.	पास जिनेश्वर पय नमी.	१३—४१
२१ सीताजीनी सद्वाय.	जनकसुता हुं नाम धराबुं.	१—५०
२२ नोकरवालीनी सद्वाय.	धार जपुं अरिहंतना.	१—५०
२३ वणजारानी सद्वाय.	नरजव नयर सोहामणुं.	१—५१
२४ सोदागरनी सद्वाय.	सुन सोदागर बे.	१—५२
२५ आपस्वजावनी सद्वाय.	आपस्वजावमां रे.	१—५२
२६ सहेजानदीनी सद्वाय.	सहेजानंदी रे आतमा.	१—५२

सहायनुं नाम.	सहायनुं प्रथम पद.	हाल. पृ०
१७ चेतन शीखामणनी सहाय.	चेतन अब कटु चेतीयें.	१-५४
१८ आत्मबोधनी सहाय.	हो सुण आतमा मत पडे०	१-५४
१९ आत्मबोधनी बीजी सहाय.	सांजल सयणां साचि सुणावुं.	१-५४
२० रात्रिजोजननी सहाय.	पुण्यसंजोगे नरजव लाधो.	१-५५
२१ जोवन अस्थिरनी सहाय.	जोवनीयांनी मोजां फोजां.	१-५६
२२ शियलत्रिषे पुरुषशीखामण स०	सुण सुण कंता रे शीख सो०	१-५६
२३ नारीने शीखामणनी सहाय.	एक अनुपम शीखामणखरी.	१-५७
२४ धोवीडानी सहाय.	धोवीडा तुं धोजे मननुं.	१-५९
२५ जरत चक्रीनी सहाय.	मनहीमें वैरागी जरतजी.	१-५९
२६ बाहुबलजीनी सहाय.	बहेनी बोले हो बाहुबल०	१-६०
२७ ढंढणरुषिनी सहाय.	ढंढणरुषिने वंढणा.	१-६०
२८ अश्मंताजीनी सहाय.	श्रीअश्मंता मुनिवरजूकी.	१-६१
२९ करकंरू प्रत्येकबुधनी सहाय.	चंपानगरी अति जली.	१-६१
४० मनोरमा सतीनी सहाय.	मोहनगारी मनोरमा.	१-६२
४१ शोल सतीनी सहाय.	सरस्वती माता प्रणमुं.	१-६२
४२ जीवदयानी सहाय.	आदिजिनेश्वर पाय प्रणमेव.	१-६२
४३ क्रोधनी सहाय.	कडुवां फल ठे क्रोधनां.	१-६४
४४ माननी सहाय.	रे जीव मान न कीजीयें.	१-६४
४५ मायानी सहाय.	समकितनुं मूल जाणीयें जी.	१-६४
४६ लोचनी सहाय.	तुमें लक्षण जो जो लोचनां.	१-६५
४७ श्रावकनी करणीनी सहाय.	श्रावक तुं उठे परजात.	१-६५
४८ श्रीअनार्थी मुाननी सहाय.	श्रेणिक रयवाडी चढ्यो.	१-६६
४९ सारबोलनी सहाय.	सरस्वतिस्वामिनीपयप्रणमेव.	१-६७
५० सामायिकनावत्रीशदोषनीस०	शुजगुरु चरणे नामी शीश.	१-६८
५१ मुहपत्तीना पचास बोलनी स०	सिरिजंबु रे विनय ज०	१-६८
५२ कायाउपर सहाय.	काया रे वाडी कारमी.	१-७०
५३ अगीयार गणधरनी सहाय.	वीर पट्टोधर वंदीयें.	१-७०
५४ शोल सतीनी सहाय.	शोल सतीनां लीजे नाम.	१-७०

सहायनुं नाम.	सहायनुं प्रथम पद.	ढाल. पृ०
५५ वीश स्थानकना तपनी सहाय.अरिहंत पहेले स्थानक ग०		१-७१
५६ शीलविपे शीखामणी सहाय.एतो नारी रे.		१-७१
५७ प्रजाते वहाणलांनी सहाय.	मिथ्यामती रे रजनी अस०	१-७२
५८ क्षमाठत्रीशी सहाय.	आदर जीव क्षमागुण आदर.	१-७३
५९ श्रावकना एकवीश गुणनी स०	सकुरु कहे निसुणो जवि.	१-७५
६० नोकारवालीनी सहाय.	एक नारी रे धर्मतणे धुर.	१-७६
६१ तेर काठीयाली सहाय.	आलस पहेलोजी काठोयो.	१-७७
६२ महोटीहोंश नकरवा आश्रयीस०	होंशीडा चाई होंश न कीजें.	१-७७
६३ रसनानी सहाय.	बापडली रे जीजडली तुं.	१-७८
६४ सचित्त अचित्त विचारनी स०	प्रवचन अमरी समरी सडा.	१-७८
६५ वैराग्यनी सहाय.	कोउ काज न आवे रे.	१-८०
६६ चैतन्यशिक्षाज्ञासनी स०	आप विचारजो आतमा.	१-८०
६७ वैराग्यकारक सहाय.	कीतीकुं सव दिन सरखे न०	१-८१
६८ निडानी सहाय.	वेटी मोह जरिंदकी.	१-८१
६९ अज्ञव्यनेउपदेशनलागवाविषेस	उपदेश न लागे अज्ञव्यने.	१-८१
७० वैराग्यकारक सहाय.	प्राणी काया माया कारमी.	१-८२
७१ बलाण सुणती बखत स्त्रीक०स०	आठम पांखी पडवे.	१-८२
७२ लोचनी सहाय.	लोच न करीयें प्राणीया.	१-८५
७३ शिलनी नववाडनी सहाय.	श्री गुरुने चरणे नमी.	१०-८६
७४ तमाकु परिहारनी सहाय.	प्रीतमसेंती विनवे.	१-८९
७५ अरणिकमुनिनी सहाय.	अरणिकमुनिवरचाट्या गोचरी	१-९०
७६ मेघकुमारनी सहाय.	धारणी मनावे रे मेघकुमारने.	१-९१
७७ वैराग्यकारक स०	या मेवासमें वे.	१-९१
७८ कृतकर्मफलनी स०	देवदाणव तीर्थकर गणधर.	१-९२
७९ आत्मप्रबोधनी स०	जीव क्रोध म करजे लोच०	१-९३
८० रहनेमी राजिमतीजीनी स०	काउस्सगगथकी रे रहनेमी.	१-९३
८१ श्री शाखीचडनी स०	प्रथम गोवालीयातणे जवेंजी.	१-९४
८२ अज्ञान दोष अंधेरनगरीनी स०	अज्ञान महा अंधेर नगरें.	१-९६

सहायनुं नाम.	सहायनुं प्रथम पद.	हाल. पृ.
७३ अध्यात्मनी सहाय.	शांतिसुधारस कुंढमां.	१-१७७
७४ मधुबिंदुआना दृष्टांतनी स०	सरस्वती मुज रे.	१-१७८
७५ वैराग्यकारक सहाय.	कां नवि चिंते हो चित्तमें.	१-१७९
७६ परस्त्रीत्यागनी सहाय.	प्रचुसार्थे जो प्रीत वंढो तो.	१-१८०
७७ स्त्रीवर्जन शीखामणनी स०	धर्म जणी जातां धराजी.	१-१८०
७८ परस्त्रीवर्जननी सहाय.	शीख सुणो पियु माहा०	१-१८०
७९ दश दृष्टांताधिकारनी स०	प्रेमे पास जिणंदना.	१-१८१
८० समकितनी चोपाइनी स०	धुर प्रणमुं जिनवर च०	१-१८२
८१ श्री सुगुरुपच्चीशीनी स०	सुगुरु पीढाणो इण आचारे.	१-१८४
८२ आत्मशिक्षा सहाय.	आतमरामे रे मुनि रमे.	१-१८५
८३ मायानी सहाय.	माया कारमी रे माया मत०	१-१८६
८४ शीयलविषे सहाय.	रखे कोइ रमणीरागमां.	१-१८६
८५ कृतकर्म उपर सहाय.	सुखदुःख सरज्यां पामीयें रे.	१-१८७
८६ वणजारानी सहाय.	नरजव नयर सोहामणुं.	१-१८७
८७ सुमति विदाप सहाय.	पडजो कुमति गढना कांगरा.	१-१८८
८८ कुगुरुपच्चीशीनी स०	श्रीजिनवर प्रणमुं मुदा.	१-१८८
८९ शांतिनाथनोदशमेघण्तेनीस०	दशमे जवे श्री शांतिजी.	१-१८९
१०० एलाचीकुमारनी स०.	नाम एलापुत्र जाणीयें.	१-१९१
१०१ मनकमुनिनी सहाय.	नमो नमो मनकमहामुनि.	१-१९२
१०२ उपदेश बत्रीशी सहाय.	आतमराम सयाने तुं तो.	१-१९३
१०३ रहनेमीजीनी सहाय.	रहनेमी अंबर विण०	१-१९५
१०४ हितशिक्षोपदेश सहाय.	प्रथम प्रणमुं सरस्वती पाय.	१-१९७
१०५ श्री आठमदनी सहाय.	मद आठ महामुनि वा०	१-१९८
१०६ शीखामणनी स०	चड्या पड्यानो अंतर सम०	१-१९९
१०७ वैराग्यकारक स०	ए संसार असार ठे रे.	१-२०१
१०८ चउगति वेदनी स०	वर्द्धमान जिन वीनवुं.	६-२०२
१०९ अजह्य अनंतकाय स०	जिन शासन रे सूधि.	१-२०४
११० असहाइवारकनी स०	पवयण देवी समरी मात.	१-२०५

सहायनुं नाम.	सहायनुं प्रथम पद.	हाल. पृ०
१११ सुगुरु सहाय.	सङ्गुरु एवा सेवीये.	४-१४६
११२ पृथ्वी सचित्त अचित्तं स०	प्रथम नमुं सहगु०	१-१४९
११३ कर्मपञ्चीशीनी सहाय.	पेख करमगति प्रा०	१-१४९
११४ मनःस्थिरकरण सहाय.	मन धिर करजो रे. —	१-१५०
११५ नेमराजुलना पत्ररूप स०	स्वस्ति श्री रेवङ्गिरिव०	१-१५१
११६ घडपणनी सहाय.	घडपण कां तुं आवियो.	१-१५२
११७ आत्महितशिक्षा सहाय.	प्यारी ते पियुने एम.	१-१५३
११८ श्री सीता सतीनी सहाय.	सरस्वती जगवती जारती.	१-१५४
११९ आत्मशिक्षा सहाय.	समय संजालो रे आखर०	१-१५६
१२० आत्मा उपर सहाय.	सुमति सदा सुकुलिणी.	१-१५६
१२१ आशातनानी सहाय.	श्री जिनवरने करी प्र०	१-१५७
१२२ संसार स्वरूप सहाय.	संसारे रे जीव अनंत. —	१-१५८
१२३ प्रमादवर्जन सहाय.	अजरामर जगको न०	१-१५९
१२४ संग्राम सोनीनी सहाय.	श्री संखेश्वर पाय नमी.	१-१५९
१२५ चेलणानी सहाय.	वीर वंदी घेर आवतां जी.	१-१६०
१२६ शीखामणनी सहाय.	कामिनी कहे निजकंथने. —	१-१६१
१२७ कायापुर पाटणनी सहाय.	कायापुर पाटण रूयडुं.	१-१६२
१२८ मांकडनी सहाय.	मांकडनो चटको दोहीलो. —	१-१६२
१२९ होकानी सहाय.	होको रे होको रे शुं करो रे. —	१-१६३
१३० बादशाह प्रतिबोधन सहाय.	या दुनियां फना फुरमाए. —	१-१६४
१३१ श्रीप्रतिक्रमणहेतुगर्जित स.	श्री जिनवर प्रणमी क०	१९-१६४
१३२ शीयलविषे सहाय.	सोमविमल गुरु पय नमी०	१-१७८
१३३ पन्नरतिथि सहाय.	सकलविद्यावरदायिनी.	१-१७९
१३४ रेंटीयानी सहाय.	बाइ रे अमने रेंटियो वा०	१-१८०
१३५ घीनी सहाय.	जविषण जाव घणो धरी. —	१-१८२
१३६ स्त्रीनेशखामणनी सहाय.	नाथ कहे तुं सुण रे नारी. —	१-१८३
१३७ बार जावनानी सहाय.	विमलकुलकमलना हंस तुं०	१४-१८४
१३८ अष्टमीनी स.	श्री सरस्वती चरणे नमी.	१-१९०

सहायनुं नाम.	सहायनुं प्रथम पद.	बाल. पृ.
१३९ ज्ञाविज्ञावनी सहाय.	कर्म लखीयुं निश्च रे होय.	१-१९१
१४० सुगुरुगुणनी सहाय.	पंच महाव्रत सूधां पाले.	१-१९२
१४१ मूर्खनी सहाय.	मायाने वश खोटुं बोले.	१-१९३
१४२ अध्यात्म सहाय.	किसके चेले किसके वे पूत.	१-१९३
१४३ समकित सहाय.	समकित नवि लह्युं रे.	१-१९४
१४४ आत्मोपदेश सहाय.	सासरिये एम जइयें रे.	१-१९४
१४५ आत्मोपदेशनी बीजी स०	हुं तो प्रणमुं सजुरु राया रे.	१-१९५
१४६ शीखलविषे शीखामण स०	सुण सुण प्राणी शीखडी.	३-१९५
१४७ कुगुरुनी सहाय.	शुद्ध संवेगी किरियाधारी.	१-१९७
१४८ षट्साधुनी स०	मनहुं ते मोह्युं मुनि०	१-१९९
१४९ शीखामणकोनेआपवीतेविषेस. शीखामण देतां खरी रे.	आदित्य कहे ठे मानवीने.	१-२००
१५० सात वारनी स०	मारगमां मुनिवर मदयो.	१-२०१
१५१ प्रसन्नचंद्र राजर्षिनी स०	सेवो सहगुरु जविजनां.	१-२०१
१५२ जीवोपदेश स०	सोजागी ज्ञाइ.	१-२०२
१५३ तेरकाठीयानी सहाय.	श्रीसजुरुना प्रणमी पाय.	९-२०३
१५४ षट्ज्ञावत्रथवाज्ञावप्रकाशस०	श्रीसजुरुने सदा प्रणमीजे.	५-२०९
१५५ षडावश्यक सहाय.	श्रवण कीर्त्तन सेवन०	२१-२१३
१५६ वैराग्यकारक सहायो	श्रीगुरु पद प्रणमी करी	१-२१३
१५७ शोल सुपननी सहाय.	पवयणदेवी चित्त धरी जी.	३६-२१५
१५८ उत्तराध्ययननी सहाय.	राजगृही नगरीनो वासी.	१-२४४
१५९ नंदीषेण स०	आजखां ब्रूथ्यांने सांधो०	१-२४४
१६० आयु अस्थिरनी स०	ए नवकारतणुं फल सा०	१-२४५
१६१ नवकार फलनी स०	सुगुरु सुदेव सुधर्मनुं.	१-२४५
१६२ अष्टजंगीनी स०	चेतन अब कबु चेतियें.	१-२४६
१६३ चेतनबोधनी स०	महारा आतम.	१-२४६
१६४ आत्माने शिद्धानी स०	चेतन चेतजो रे.	१-२४७
१६५ जीव उपदेशनी स०	जो जो रे ए जोबनीयुं में.	१-२४८
१६६ जोवन अस्थिरनी स०		

सहायनुं नाम.	सहायनुं प्रथम पद.	हाल. पृ०
१६७ वैराग्यकारक सहाय	सुण वहेनी पियुडो०	१-२१९
१६८ आत्माने उपदेशनी सहाय.	जीव वारुं तुं मोरा. —	१-२४९
१६९ उपदेशनी सहाय.	रात दिवस काया मूढ पोपे.	१-२५०
१७० ते सुखीयानी सहाय.	ते सुखीया चाड ते सु०	१-२५०
१७१ पूर्वसेवालक्षण सहाय.	जव्यने कर्मना योगथी.	१-२५१
१७२ पन्नरतिथिनी उपदेशकारकस०	श्रीमजोडी जगधणी.	१५-२५२
१७३ सतासतीनी सहाय.	सुप्रजात नित्य वंदियें.	१-२६२
१७४ रात्रिचोजननी सहाय	श्री गुरुपद प्रणमी.	१-२६३
१७५ हितशिक्षानी सहाय	आपे आप सदा समजावे.	१-२६५
१७६ कार्यारूप कामिनीकृत उ०स०.	सुगुण सोप्रागी हो.	१-२६६
१७७ श्रावकनां वार व्रतनी सहाय.	श्रीजिनवीर वदे शुभ वाण.	५-२६७
१७८ अठार नातरांनी सहाय	पहेलाने समरुपासपंचासरारे	३-२७०
१७९ दशवैकालिकनी सहाय	श्रीगुरुपद पंकज नमीजी.	११-२७३
१८० विजयकुंवर ने विजयाकुंवरीस०	श्रीवीतरागजिन देव नमुं.	१-२८१
१८१ जांजरीया मुनिनी सहाय.	सरस्वती चरणे शीश नमावी.	४-२८४
१८२ चंदनवालानी सहाय.	श्रीसरस्वतीना रे पाय.	३-२८७
१८३ इकुकारकमलावतीषट्ढालीयुं.	चोवीशे जिनवर नमुं.	६-२९०
१८४ कलावतीनुं चोढालीयुं.	सालवदेश मनोहरुं.	४-२९७
१८५ श्री अर्हन्नकमुनिनो रास.	सरसतीसामिणी विनवुं रे.	८-३०१
१८६ कामकंदर्पनी सहाय.	कामविकारें मानवी रे.	१-३०७
१८७ नेमराजुलनी सहाय.	गोखमे सखीयो संघात.	१-३०८
१८८ आत्मशिक्षा सहाय.	जविकजन जज ले रे.	१-३०९
१८९ जंबुकुमारनुं चोढालीयुं.	सरसती पदपंकजनमी.	४-३११
१९० नेमराजुलनो वारमासो.	सरसती सामिणी विनवुं.	१-३१३
१९१ जीवशिखामणनी सहाय	सरसती सामिनी विनवुं ए.	१-३१४
१९२ उपशम सहाय.	जगवती चारती मन ध०	१-३१७
१९३ अर्जुनमालीनी सहाय.	सजुरुचरणे नमि कहुं सार.	१-३१८
१९४ श्रीजनरख अने जन पा०चोढा०अनंत सिद्ध आगे हुवा.		४-३२०

सहायनुं नाम.	सहायनुं प्रथम पद.	ढाल. पृ.
१३९ ज्ञाविज्ञावनी सहाय.	कर्म लखीयुं निश्चरे होय.	१-१९१
१४० सुगुरुगुणनी सहाय.	पंच महाव्रत सूधां पाले.	१-१९२
१४१ मूर्खनी सहाय.	मायाने वश खोटुं बोले.	१-१९३
१४२ अध्यात्म सहाय.	किसके चले किसके वे पूत.	१-१९३
१४३ समकित सहाय.	समकित नवि लखुं रे.	१-१९४
१४४ आत्मोपदेश सहाय.	सासरिये एम जइये रे.	१-१९४
१४५ आत्मोपदेशनी बीजी स०	हुं तो प्रणमुं सजुरु राया रे.	१-१९५
१४६ शीयलविषे शीखामण स०	सुण सुण प्राणी शीखडी.	३-१९५
१४७ कुगुरुनी सहाय.	शुरू संवेगी किरियाधारी.	१-१९७
१४८ षट्साधुनी स०	मनहुं ते मोहुं मुनि०	१-१९९
१४९ शीखामणकोनेआपवीतेविषेस.शीखामण देतां खरी रे.	आदित्य कहे ठे मानवीने.	१-२००
१५० सात चारनी स०	मारगमां मुनिवर मढ्यो.	१-२०१
१५१ प्रसन्नचंद्र राजर्षिनी स०	सेवो सहगुरु जविजना.	१-२०१
१५२ जीवोपदेश स०	सोजागी जाइ.	१-२०२
१५३ तेरकाठीयानी सहाय.	श्रीसजुरुना प्रणमी पाय.	९-२०३
१५४ षट्ज्ञावअथवाज्ञावप्रकाशस०	श्रीसजुरुने सदा प्रणमीजे.	५-२०९
१५५ षडावश्यक सहाय.	श्रवण कीर्त्तन सेवन०	२१-२१३
१५६ वैराग्यकारक सहायो	श्रीगुरु पद प्रणमी करी	१-२१३
१५७ शोद्ध सुपननी सहाय.	पवयणदेवी चित्त धरी जी.	३६-२१५
१५८ उत्तराध्ययननी सहाय.	राजगृही नगरीनो वासी.	१-२४४
१५९ नंदीषेण स०	आउखां वृद्ध्यांने सांधो०	१-२४४
१६० आयु अस्थिरनी स०	ए नवकारतणुं फल सा०	१-२४५
१६१ नवकार फलनी स०	सुगुरु सुदेव सुधर्मनुं.	१-२४५
१६२ अष्टजंगीनी स०	चेतन अब कहु चेतिये.	१-२४६
१६३ चेतनबोधनी स०	महारा आतम.	१-२४६
१६४ आत्माने शिद्धानी स०	चेतन चेतजो रे.	१-२४७
१६५ जीव उपदेशनी स०	जो जो रे ए जोबनीयुं में.	१-२४८
१६६ जोवन अस्थिरनी स०		

संख्या	संज्ञायनुं नाम.	संज्ञायनुं प्रथम पद.	हाल. पृ०
१६७	वैराग्यकारक संज्ञाय	सुण वहेनी पियुडो०	१-२४ए
१६८	आत्माने उपदेशनी संज्ञाय.	जीव वारुं तुं मोरा. —	१-२४ए
१६९	उपदेशनी संज्ञाय.	रात दिवस काया मूढ पोपे.	१-२५०
१७०	ते सुखीयानी संज्ञाय.	ते सुखीया जाइ ते सु०	१-२५०
१७१	पूर्वसेवालक्षण संज्ञाय.	जव्यने कर्मना योगथी.	१-२५१
१७२	पन्नरतिथिनी उपदेशकारकस०	श्रीमज्जोडी जगधणी.	१५-२५२
१७३	सतासतीनी संज्ञाय.	सुप्रजात नित्य वंदिथें.	१-२६२
१७४	रात्रिजोजननी संज्ञाय	श्री गुरुपद प्रणमी.	१-२६३
१७५	हितशिक्षानी संज्ञाय	आपें आप सदा समजावे.	१-२६५
१७६	कार्यारूप कामिनीकृत उ०स०.	सुगुण सोप्रागी हो.	१-२६६
१७७	श्रावकनां वार व्रतनी संज्ञाय.	श्रीजिनवीर वदे शुभ वाण.	५-२६७
१७८	अठार नातरांनी संज्ञाय	पहेलाने समरुपासपंचासरोरे	३-२७०
१७९	दशवैकालिकनी संज्ञाय	श्रीगुरुपद पंकज नमीजी.	११-२७३
१८०	विजयकुंवर ने विजयाकुंवरीस०	श्रीवीतरागजिन देव नमुं.	१-२८१
१८१	जांजरीया मुनिनी संज्ञाय.	सरस्वती चरणे शीश नमावी.	४-२८४
१८२	चंदनबालानी संज्ञाय.	श्रीसरस्वतीना रे पाय.	३-२८७
१८३	शुकुकारकमलावतीपट्टाळीयुं.	चोवीशे जिनवर नमुं.	६-२९०
१८४	कलावतीनुं चोढाळीयुं.	मालवदेश मनोहर.	४-२९७
१८५	श्री अर्हन्नकमुनिनो रास.	सरसतीसामिणी विनवुं रे.	८-३०१
१८६	कामकंदर्पनी संज्ञाय.	कामविकारें मानवी रे.	१-३०७
१८७	नेमराजुलनी संज्ञाय.	गोखमें सखीयो संघात.	१-३०८
१८८	आत्मशिक्षा संज्ञाय.	जविकजन जज ले रे.	१-३०९
१८९	जंबुकुमारनुं चोढाळीयुं.	सरसती पदपंकजनमी.	४-३११
१९०	नेमराजुलनो वारमासो.	सरसती सामिणी विनवुं.	१-३१३
१९१	जीवशिखामणी संज्ञाय	सरसती सामिनी विनवुं ए.	१-३१४
१९२	उपशम संज्ञाय.	जगवती चारती मन ध०	१-३१७
१९३	अर्जुनमाळीनी संज्ञाय.	सजुरुचरणे नंमि कहुं सार.	१-३१८
१९४	श्रीजनरख अने जन पा०चोढा०अनंत सिद्ध आगें हुवा.		४-३२०

सञ्चायनुं नाम.	सञ्चायनुं प्रथम पद.	ढाख. पृ०
१९५ श्रीरत्न गुरुनी जोड.	रतन गुरु गुणे मीठडा रे.	१-३१४
१९६ रत्नचिंतामणिनी सञ्चाय.	आ चवरत्नचिंतामणि स०	१-३१६
१९७ श्री थावच्चाकुमारनुं चोढालियुं.	द्वारामती नयरी वसे.	४-३१७
१९८ श्री धन्नाजीनी सञ्चाय.	शीयालामां शीत घणी रे धन्ना.	१-३३१
१९९ श्रीगजसुकुमारनी सञ्चाय.	जीरे सरस्वती समरुंशारदा.	२-३३३
२०० श्रीपर्युषण पर्वनी सञ्चाय.	पर्वपजूसणआवीयां रे लाख.	१-३३६
२०१ उपदेश कारक कक्कानी सञ्चाय.	कक्का करमनी वात.	१-३३७
२०२ जांग्य वारकनी सञ्चाय.	जोला जोगियडा रखे०	१-३३८
२०३ विष्णुकुमार मुनिनी सञ्चाय.	श्री मुनि सुव्रतस्वामीजी.	१०-३४०
२०४ श्री हीरविजय सूरि सञ्चाय.	बे करजोडी विनवुं जी.	१-३५०
२०५ ऋतुवंती सञ्चाय.	सुण सोजागी सुखकारी.	१-३५०
२०६ पर्युषणपर्वना नवव्याख्यान स०	पर्व पजूसण आवीयां.	११-३५१
२०७ श्री मृगापुत्र सञ्चाय.	सुग्रीवनयर सुहामणुं रे ला०	१०-३६०
२०८ सपरिकर श्रीखंधकरुषि स०	श्री सुव्रत जिनवर नमुं.	३-३७१
२०९ वैराग्योपदेश सञ्चाय.	एक घरे घोडा हाथीयाजी.	१-३७४
२१० पांच पांरुवनी सञ्चाय.	हस्ती नागपुर वर जळुं.	१-३७४
२११ श्री शूलिचद्रनी सञ्चाय.	आंबो मोख्यो हे आंगणे.	१-३७६
२१२ श्री शूलिचद्रनी सञ्चाय.	श्री शूलिचद्र मुनिगणमां.	१-३७६
२१३ श्री शूलिचद्रनी सञ्चाय.	श्री महावीर जिनेसरु.	१-३७७
२१४ अष्ट प्रवचन मातानी सञ्चाय.	सुकृतकटपतरु श्रेणिनी.	९-३७८
२१५ पृथ्वीचंद्र अने गुणसागर स०	शासन नायक सुखकरु.	३-३८६
२१६ रावणनें मं० आपेला उ० स०	सीताहरी रावण घरआणी.	१-३९१
२१७ तपनी सञ्चाय.	कीधां कर्म निकंदवा रे.	१-३९२
२१८ श्री सुंदरीनी सञ्चाय.	रूडे रूपें रे शील सोहागण.	१-३९२
२१९ श्री नंदा सतीनी सञ्चाय.	बेनातटनयरें वसे.	१-३९३
२२० राजिमतीनी सञ्चाय.	कांइ रीसाणा हो, नेम नगीना०	१-३९३
२२१ श्री चेलणासतीनी सञ्चाय.	वीरे वखाणी राणी चे०	१-३९४
२२२ श्री रुक्मिणीजीनी सञ्चाय.	कहे सीमंधर स्वामी.	१-३९४

११३ रोहिणीजीनी सद्याय.	श्रीवासुपूज्य जिनंदना ए	१--३९५
११४ कौशल्याजीनी सद्याय.	दशरथनृप कौशल्याने कहे.	१--३९६
११५ देवानंदाजीनी सद्याय.	जिनवर रूप देखी मनहर०	१--३९७
११६ नागेश्वरी ब्राह्मणीनी सद्याय.	चंपा नगरी वखाणीयें रे.	१--३९८
११७ श्रीनिश्चयव्यवहारनी सद्याय.	श्रीजिनवर रे, देशना दि०	१--४००
११८ स्याद्वादनी सद्याय.	स्याद्वादमत श्रीजिनवरनो.	१--४०१
११९ सनत्कुमारनी सद्याय.	सरस्वती सरस वचनरस०	१--४०३
१२० श्री एवंती सुकुमारजीनी स०	मनोहर मालवदेश.	१--४०४
१२१ श्री वयरमुनिनी सद्याय.	सांचलजो तुमे अफुतवातो.	१--४०६
१२२ श्री मेतारज मुनिनी सद्याय.	धन धन मेतारज मुनि.	१--४०७
१२३ सात व्यसननी सद्याय.	वार तुं वार तुं व्यसन स०	१--४०८
सर्व सद्यायो. १३३	सर्व ढाल.	५११

॥ अथ प्रश्नोत्तरवाक्यरत्नसंग्रहः ॥

॥ प्रश्न. जगतमां ग्राह्यं शुं ठे? उत्तर. गुरुवाक्य. प्र० त्याज्यं शुं? उ० संसारकार्यं. प्र० गुरु कोण? उ० विज्ञाततत्त्व तथा जीवदयातत्पर होय ते. प्र० उत्तमजनने शीघ्र कर्तव्यं शुं ठे? उ० संसार वृद्धिना कार्यं नुं ठेद नं. प्र० मोक्षतरुवीज कयुं? उ० सक्रिय सम्यग्ज्ञान. प्र० जीवने परलोक जतां पाथेयं शुं? उ० करेलुं धर्मा राधन. प्र० पवित्रजन कोण? उ० शुद्ध मनवालो, प्र० निद्रावान् कोण? उ० विवेकी जन. प्र० विप कयुं? उ० गुरु मां अविश्वास ते. प्र० संसारमां सारं शुं ठे? उ० पोतानुं वा परनुं सारुं करवुं ते, अथवा उद्योग करवो ते. प्र० मदिरापान कयुं? उ० मोहनुं उत्पन्न थवुं ते. प्र० स्नेह कोने कहेवो? उ० सुधर्ममां स्नेह ते. प्र० चोर कोण? उ० पंचेंद्रियना जे विषयो ते. प्र० संसारवह्वी कर्ह? उ० तृष्णा. प्र० वैरी को ण? उ० अनुद्योग. प्र० जगतमां जय कोनो ठे? उ० रणनो. प्र० घणोज अंध कोण? उ० संसाररागी. प्र० शूरवीर कोण? उ० कामिनीना कटा कथी नहिं पीडा पामे ते. प्र० श्रवणीयं शुं? उ० सद्गुपदेश. प्र० महत्तानुं मूल कयुं? उ० अयाचना. प्र० पार न पमाय एवुं शुं? उ० स्त्री चरित्र. प्र० चतुर कोण? उ० स्त्रीचरित्रथी अखंनित रहे ते. प्र० दा

रिद्ध कयुं? उ० असंतोष. प्र० लघु शुं? उ० याचना करवी ते. प्र० जीवित
 शुं? उ० परहित करतां जीवुं ते. प्र० जाड्य शुं? उ० बुद्धिमत्ता ठतां विद्या
 न्यासरहित होय ते. प्र० जाग्रण कोण? उ० विवेक जन. प्र० निद्रा कइ?
 उ० मूढपणुं. प्र० यौवन, धन, आयु, ते केवां ठे? उ० कमलपत्रपर पडेखा
 पाणीना टीपा जेवां ठे. प्र० चंद्रतुल्यशीतल शुं? उ० सुजनजननो समागम.
 प्र० नरक कयुं? उ० परवशता. प्र० सुख शुं? उ० आत्मविरति. प्र० सत्य शुं?
 उ० सर्व प्राणीनुं हित करवुं ते. प्र० जीवने वद्वज्ज शुं? उ० प्राण. प्र० दान
 कयुं? उ० जीवोने अजयदान आपवुं ते. प्र० मित्र कोण? उ० जे यापथी नि
 वृत्तावे ते. प्र० अलंकार शुं? उ० शील. वाग्भूषण कयुं? उ० सत्यवाक्य. प्र०
 अनर्थ फलदायक शुं? उ० चंचल-मन. प्र० सुखावह मैत्री कइ? उ० सत्सा
 धुनो समागम होय ते. प्र० डाह्यो कोण? उ० सर्वदुःसंगत्यागी. प्र० अंध,
 बहेरो अने मूक कोण? उ० अकृतकार्य करनार, हितवाक्य न सांजलनार
 अने समयानुकूल न बोलनार. प्र० मरण शुं? उ० अतिमूर्खपणुं. प्र० अमु
 द्य शुं? उ० जे समयमां काम आवे ते. प्र० मरणांत शक्य कयुं? उ० प्रह
 न्नीते अकृत कयुं होय ते. प्र० यत्न कयां करवो? उ० विद्यान्यास, सदै
 षध, अने दान तेमां. प्र० अप्रीति कयां राखवी? उ० खलमां, परस्त्रीमां, अने
 परधनमां. प्र० अहोनिश चिंतवन कोनुं करवुं? उ० संसारनी असारतानुं.
 प्र० मरण पर्यंत पण कोने वैराग्य न आवे? उ० मूर्खने, पाराधिने, गर्विष्ठने,
 अने कृतघ्नीने. प्र० पूज्य कोण? उ० सदाचरणी. प्र० अधम कोण? उ०
 ग्रहीतव्रतत्यागी. प्र० जगत् कोणें जित्युं ठे? उ० सत्य तितिदावान् पुरुषे,
 प्र० सुरवंदनीय कोण ठे? उ० परिपूर्ण दयाधर्मपालनार. प्र० बुद्धिमान्
 कोनाथी जय पामे? उ० संसारारण्यथी. प्र० प्राणीयो कोने वश रहे ठे?
 उ० सत्य, अने प्रिय वाक्य कहेनारने तथा विनयवान्ने. प्र० सुजनने
 कयां ऊचुं रहेवुं? उ० लाजालाजानो विचार ठोडी न्यायमार्गमां ऊचुं रहेवुं.
 प्र० विजली समान शुं ठे? उ० दुर्जनसंगति अने युवतिजननी प्रीति. प्र०
 क्या युगमां सुमनुष्यनी पण मति दुःशील आचरण करवामां तत्पर थाय
 ठे? उ० कलियुगमां. प्र० शोचनीय शुं ठे? उ० कार्पण्य. प्र० धनीनुं शुं
 प्रशंसनीय ठे? उ० औदार्य. प्र० पराजव पामेला अने निर्धननुं शुं प्रशं
 सनीय ठे? उ० सहनशीलपणुं ॥ इति प्रश्नोत्तर वाक्यरत्नसंग्रहः समाप्तः ॥

॥ महालब्धिनिधानेऽथः श्री गौतमगुरुभ्योनमः ॥

॥ अथ श्रीसम्यक्त्वना सदसठ बोलनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ सुकृतवद्वि कादंबिनी, समरी सरसति मात ॥ समकित सद
सठ बोलनी, कहिंशुं मधुरी वात ॥१॥ समकित दायक गुरुतणो, पञ्चुत्रयार
न थाय ॥ नव कोडाकोडे करी, करतां सर्व उपाय ॥ २ ॥ दानादिक किरि
या न दिये, समकित विण शिवशर्म ॥ तेमाटे समकित वडूं, जाणो प्रवच
न मर्म ॥ ३ ॥ दर्शन मोह विनाशशी, जे निर्मल गुणठाण ॥ ते निश्चय
समकित कह्यो, तेहनां ए अहिगाण ॥ ४ ॥ ढाल ॥ देइ देइ दरिसण
आपणुं ॥ ए देशी ॥ चउ सदहणा तिलिंग ठे, दशविध विनय विचारो रे
॥ त्रिण शुद्धि पण दूषण, आठ प्रजाविक धारो रे ॥ ५ ॥ त्रुटक ॥ प्रजा-
विक अड पंच नूषण, पंच लक्षण जाणियें ॥ पट जयण पट आगार जा
वन, उद्विहा मन आणियें ॥ पट गण समकित तणा सदसठ, जेद एह
उदार ए ॥ एहनो तत्वविचार करतां, लहीजे नवपार ए ॥ ६ ॥ ढाल ॥
चहु विह सदहणा तिहां, जीवादिक परमठो रे ॥ प्रवचनमां जे ज्ञापिया,
लीजे तेहनो अठो रे ॥ ७ ॥ त्रुटक ॥ तेहनो अर्थ विचार करीये, प्रथम
सदहणा खरी ॥ बीजी सदहणा तेहना जे, जाण मुनि गुण जवहरी ॥
संवेग रंग तरंग जीले, मार्ग शुद्ध कहे बुधा ॥ तेहनी सेवा कीजियें जिम,
पीजियें समता सुधा ॥ ८ ॥ ढाल ॥ समकेत जेणे ग्रही वमिऊं, निन्हव
ने अइठेवो रे ॥ पासणाने कुशीलिया, वेपविडंबक मंदा रे ॥ ९ ॥ त्रुटक
॥ मंदा अनाणी दूर ठंमो, त्रीजी सदहणा ग्रही ॥ परदर्शनीनो संग तजि
ये, चोथी सदहणा कही ॥ हीणातणो जे संग न तजे, तेहनो गुण नवि
रहे ॥ ज्यूं जलधि जलमां नड्यूं गंगा, नीर लूणपणूं लहे ॥ १० ॥ ढाल ॥
कपूर होवे अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ त्रण लिंग समकित तणां रे, पहि
लो श्रुतअजिलाष ॥ जेहथी श्रोता रस लहे रे, जेवो साकर डाख रे ॥ प्रा
णी धरियें समकित रंग, जिम लहियें सुख अजंग रे ॥ प्राणी ॥ ए टेक ॥
॥ ११ ॥ तरुण सुखी स्त्री परिवस्थो रे, चतुर सुणे सुरगीत ॥ तेहथी रा-
गे अति घणो रे, धर्म सुण्यानी रीत रे ॥ प्राणी ॥ १२ ॥ नूखयो अटवी

कृतस्थो रे, जिम द्विज गेवर चंग ॥ इच्छे तिम जे धर्मने रे, तेहिज बीजुं लिं
 ग रे ॥ प्राणी० ॥ १३ ॥ वैयावच्च गुरुदेवनू रे, त्रीजुं लिंग उदार ॥ विद्या
 साधक तणि परे रे, आलस नविय लगार रे ॥ प्राणी० ॥ १४ ॥ ढाल ॥
 प्रथम गोवालातणे जवेजी ॥ ए देशी ॥ अरिहतं ते जिन विचरता जी ॥
 कर्म खपी हुआ सिद्ध ॥ चेइय जिण पडिमा कही जी, सूत्र सिद्धानं प्रसि
 ढ ॥ चतुर नर समजो विनय प्रकार, जिम लहिये समकित सार ॥ चतुर०
 ॥ १५ ॥ धर्म खिमादिक ज्ञाखिउ जी, साधु तेहना रे गेह ॥ आचारय आ
 चारना जी, दायक नायक जेह ॥ चतुर० ॥ १६ ॥ उपाध्याय ते शिष्यने
 जी, सूत्र जणावणहार ॥ प्रवचन संघ वखाणिये जी, दरिसण समकित
 सार ॥ चतुर० ॥ १७ ॥ जगति बाह्य प्रतिपत्तिधी जी, हृदय प्रेम बहुमा
 न ॥ गुण श्रुति अवगुण ढांकवा जी, आशातननी हाण ॥ ॥ चतुर० ॥ १८
 ॥ पांच जेद ए दशतणो जी, विनय करे अनुकूल ॥ सीचे तेह सुधारसें
 जी, धर्म वृक्तनू मूल ॥ चतुर० ॥ १९ ॥ ढाल ॥ घोबीडा तूं धोए मननुं
 धोतीयूं रे ॥ ए देशी ॥ त्रण शुद्धि समकीततणी रे, तिहां पहिली मन
 शुद्धिरे ॥ श्री जिनने जिनमत विना रे, जूठ सकल ए बुद्धिरे ॥ चतुर
 विचारो चित्तमां रे ॥ ए आंकणी ॥ २० ॥ जिन जगतें जे नवि श्रयुं रे, ते
 बीजाधी नवि श्राय रे ॥ एतुं जे मुख ज्ञाखिये रे, ते वचनशुद्धि कहिवाय
 रे ॥ चतुर० ॥ २१ ॥ उद्यो जेद्यो वेदना रे जे सहतो अनेक प्रकार रे ॥ जिण
 विणपर सुर नवि नमे रे, तेहनी काया शुद्ध उदार रे ॥ चतुर० ॥ २२ ॥ ढाल ॥
 मुनि जन मारगनी देशी ॥ समकित दूषण परिहरो, तेमां पहिली ठे शंका ॥
 ते जिन वचनमां मत करो ॥ जेहने सम नृप रंका, समकित दूषण परिहरी
 ॥ ए आंकणी ॥ २३ ॥ कंखा कुमतनी वांगना, बीजुं दूषण तजिये ॥ पामी
 सुरतरु परगडो, किम बाउल जजिये ॥ सम० ॥ २४ ॥ संशय धर्मना फ
 लतलो, वित्तिगिन्ना नामें ॥ त्रीजुं दूषण परिहरो, निज शुद्ध परिणामें ॥ स
 म० ॥ २५ ॥ मिथ्यामति गुण वर्णना, टालो चोथो दोष ॥ उन्मारगि श्रुणतां
 हुवे, उन मारग पोष ॥ सम० ॥ २६ ॥ पांचमो दोष मिथ्यामती, परिचय
 नवि, कीजे ॥ इम शुद्ध मति अशविदनी, जली वासना लीजे ॥ सम० ॥
 ॥ २७ ॥ ढाल ॥ जोलिडा हंसारे विषय न राचीये ॥ ए देशी ॥ आठ प्र
 ज्ञाविक प्रवचनना कहा, पावयणी धुरि जाण ॥ वर्तमान श्रुतना जे अर्थ

नो, पार लहे गुणखाण ॥ धन धन शासन मंमन मुनिवरा ॥ ए आंकणी
 ॥ २७ ॥ धर्म कथी ते बीजो जाणिये, नंदिषेण परि जेह ॥ निज उपदेशे
 रे रंजे लोकने, जंजे त्दयसंदेह ॥ धन० ॥ २८ ॥ वादी त्रीजेरे तर्क
 निपुण ज्ञायो, मद्धवादी परि जेह ॥ राजठारे रे जयकमला वरे, गाजंतो
 जिम मेह ॥ धन० ॥ ३० ॥ ज्ञवाहु परि जेह निमित्त कहे, परमत जी
 पण काज ॥ तेह निमित्तीरे चोथो जाणिये, श्रीजिनशासन राज ॥ धन०
 ॥ ३१ ॥ तप गुण ऊपर रोपे धर्मने, गोपे नवि जिन आण ॥ आश्रव
 लोपेरे नवि कोपे कदा, पंचम तपसी ते जाण ॥ धन० ॥ ३२ ॥ ठठो
 विद्यारे मंत्र तणो दलि, जिम श्रीवयर गुणिंद ॥ सिद्धसातमोरे अंजन
 योगशी, जिम कालिक मुनिचंद ॥ धन० ॥ ३३ ॥ काव्य सुवारस
 मधुर अर्थज्ञत्या, धर्म हेतु करे जेह ॥ सिद्धसेनपरे नरपति रीजवे, अठ
 म वर कवि तेह ॥ धन० ॥ ३४ ॥ जव नवि होवे प्रज्ञाविक एइवा,
 तव विधि पूरव अनेक ॥ जात्रा पूजादिक करणी करे, तेह प्रज्ञाविक ठेक
 ॥ धन० ॥ ३५ ॥ ढाल ॥ सतीय सुज्जानी देशी ॥ सोहे समकित
 जेहशी, सखि जिम आजरणें देह ॥ जूषण पांच ते मन वस्यां, सखी मन
 वस्यां तेहमां नही संदेह, मुज्ज समकित रंग अचल होयो ॥ ए आंकणी ॥
 ॥ ३६ ॥ पहिलुं कुशलपणुं तिहां, सखी वंदन ने पञ्चखाण ॥ किरियानो
 विधि अति घणो, सखी आचरे तेह सुजाण ॥ मुज्ज० ॥ ३७ ॥ बीजूं तीर
 थ सेवना, सखी तीरथ तारे जेह ॥ ते गीतारथ मुनिवरा, सखी तेहसु की
 जे नेह ॥ मुज्ज० ॥ ३८ ॥ जगति करे गुरु देवनी, सखी त्रीजुं जूषण होय
 ॥ किणहि चलाव्यो नवि चले, सखि चोथुं जूषण जोय ॥ मुज्ज० ॥ ३९ ॥
 जिनशासन अनुमोदना, सखी जेहशी बहुजन हुंत ॥ कीजे तेह प्रज्ञाव
 ना, सखी पांचजूषणानी खंत ॥ मुज्ज० ॥ ४० ॥ ढाल ॥ इम नवि कीजे
 हो ॥ ए देशी ॥ लक्षण पांच कहां समकिततणां, धुर उपसम अनुकूल ॥
 सुगुण नर ॥ अपराधी सुं पण नवि चित्तथकी, चिंतवियें प्रतिकूल ॥ सुगुण
 नर, श्री जिनज्ञाषित वचन विचारियें ॥ ए आंकणी ॥ ४१ ॥ सुरनर सुख जे
 दुःख करि लेखवे, वंठे शिवसुख एक ॥ सु० ॥ बीजूं लक्षण ते अंगांकरे,
 सार संवेग सुटेक ॥ सु० ॥ श्रीजिन० ॥ ४२ ॥ नारक चारक समजव ऊ
 ज्ञयो, तारक जाणिने धर्म ॥ सु० ॥ चाहे निकलवुं निर्वेद ते, त्रीजुं लक्ष

ए मर्म ॥ सु० ॥ श्रीजिन० ॥ ४३ ॥ इय्यशकी दुःखियानी जे दया, धर्म
 हीणानी रे ज्ञावि ॥ सु० ॥ चोथुं लक्षण अनुकंपा कही, निज शकते मन लया
 वि ॥ सु० ॥ श्रीजिन० ॥ ४४ ॥ जे जिन ज्ञाख्युं ते नहि अन्यथा, एहवो
 जे दृढ रंग ॥ सु० ॥ ते आस्तिकता लक्षण पांचमुं, करे कुमतिनो ए जंग
 ॥ सु० ॥ श्रीजिन० ॥ ४५ ॥ ढाल ॥ जिन जिन प्रति वंदन दिसे, ए दे-
 शी ॥ पर तीर्थी परना सुर तेणे, चैत्य ग्रह्या वलि जेह ॥ वंदन प्रमुख ति-
 हां नवि करवुं, ते जयणा षट ज्ञेय रे, ज्ञविका समकित यतना कीजे ॥
 ए आंकणी ॥ ४६ ॥ वंदन ते करजोडन कहिये, नमन ते शीश नमाडे ॥
 बान इष्ट अन्नादिक देवुं ॥ गौरव ज्ञक्ति देखाडे रे ॥ ज० ॥ ४७ ॥ अनुप्र
 दाम ते तेहने कहिये, वार वार जे दान ॥ दोष कुपात्रे पात्रमतिथे ॥ न-
 हि अनुकंपा मान रे ॥ ज० ॥ ४८ ॥ अण बोलावे जेह ज्ञाखवुं, ते कहि-
 ये आलाप ॥ वारवार आलाप जे करवो, ते कहिये संलाप रे ॥ ज० ॥
 ॥ ४९ ॥ ए जयणाथी समकित दीपे, वलि दीपे व्यवहार ॥ एमां पण
 कारणाथी जयणा, तेह अनेक प्रकार रे ॥ ज० ॥ ५० ॥ ढाल ॥ ललना-
 नी देशी ॥ शुद्ध धरमथी नवि चले, अति दृढ गुण आधार ललना ॥ तो
 पण जे नवि तेहवा, तेहने एह आगार ॥ ललना ॥ ५१ ॥ बोळ्युं तेहवुं
 पालिये ॥ दंति दंत सम बोल ॥ ललना ॥ सज्जनना दुर्जन तणा, कछप
 कोटिने तोल ॥ ललना ॥ बो० ॥ ५२ ॥ राजा नगरादिक धणी, तस शा-
 सन अज्ञियोग ॥ ललना ॥ तेहथी कार्तिकनी परे, नहि मिथ्यात्व संयोग
 ॥ ललना ॥ बो० ॥ ५३ ॥ मेलो जननो घण कह्यो, बल चोरादिक जाण
 ॥ ललना ॥ खेत्रपालादिक देवता, तातादिक गुरु ठाण ॥ ललना ॥
 बो० ॥ ५४ ॥ वृत्ति दुर्लज्ज आजीविका, ते ज्ञीपण कंतार ॥ ललना ॥ ते
 हेते दूषण नही, करतां अन्य आचार ॥ ललना ॥ बो० ॥ ५५ ॥ ढाल ॥
 राग मळहार ॥ ज्ञाविजे रे समकित जेहथी रूअडुं, ते ज्ञावना रे ज्ञावो म
 न करि परवडुं ॥ जो समकित रे ताजुं साजुं मूल रे, तो व्रत तरु रे दीये
 शिवपद अनुकूल रे ॥ ५६ ॥ चुटक ॥ अनुकूल मूल रसाल समकित, ते-
 हविण मति अंध रे ॥ जे करे किरिया गर्व ज्ञरिया, तेह जूगे धंध रे ॥ ए
 प्रथम ज्ञावना गुणो रुअडी, सुणो बीजी ज्ञावना ॥ वारणुं समकित धर्म
 पुरनुं, एहवी ते पावना ॥ ५७ ॥ ढाल ॥ त्रीजी ज्ञावना रे समकित पीठ

जो दृढ सही, तो मोटो रे धर्म प्रासाद रुगे नही ॥ पाइये खोटे रे मोटो
मंमाण न शोनीयें, तेह कारण रे समकितशुं चित्त शोनीयें ॥ ५७ ॥ त्रु-
टक ॥ शोनीयें चित्त नित्त एम ज्ञावी, चोथी ज्ञावना ज्ञावियें ॥ समकित
निधान समस्त गुणनुं, एहवुं मन लावियें ॥ तेह विण वूटा रत्नसरिखा,
मूल उत्तर गुण सवे ॥ किम रहे ताके जेह हरवा, चोर जोर जवे जवे
॥ ५८ ॥ ढाल ॥ ज्ञावो पंचमी रे ज्ञावना शम दम सार रे, पृथ्वी परे रे
समकित तसु आघार रे ॥ ठी ज्ञावना रे ज्ञाजन समकित जो मले,
श्रुत शीलनो रे तो रस तेहमां नवि ढले ॥ ६० ॥ त्रुटक ॥ नवि ढले स-
मकित ज्ञावना रस, अमिष सम संवरतणो ॥ पट ज्ञावना ए कही एहमां,
करो आदर अति घणो ॥ श्म ज्ञावता परमार्थ जलनिधि, होय ननु ऊक
जोल ए ॥ घन पवन पुण्य प्रमाण प्रगटे ॥ चिदानंद कजोल ए ॥ ६१ ॥
॥ ढाल ॥ जे मुनिवेष सके नवी ठंकी ॥ ए देशी ॥ ठरे जिहां समकित ते
आनक, तेहना षट विध कहियें रे ॥ तिहां पहिलुं आनक ठे चेतन, लक्ष-
ण आतम लहियें रे ॥ खीर नीर परें पुजल मिश्रित, पण एहथी ठे अ-
ल्लगो रे ॥ अनुभव हंस चंच जो लागे, तो नवि दीसे वल्लगो रे ॥ ६२ ॥
बीजुं आनक नित्य आतमा, जे अनुभूत संज्ञारे रे ॥ बालकने स्तन पान
वासना, पूरव जव अनुसारे रे ॥ देव मनुज नरकादिक तेहना, ठे अनि-
त्यपर्याय रे ॥ इय्यथकी अविचलित अखंभित, निज गुण आतमराय रे
॥ ६३ ॥ त्रीजुं आनक चेतन कर्ता, कर्मतणे ठे योगे रे ॥ कुंजकार जिम
कुंजतणो जे, दंभादिक संयोगे रे ॥ निश्चयथी निज गुणनो कर्ता, अनुप
चरित व्यवहारें रे ॥ इय्यकर्मनो नगरादिकनो, ते उपचार प्रकारें रे ॥ ६४ ॥
चोथुं आनक ठे ते ज्ञोक्ता, पुण्य पाप फलकेरो रे ॥ व्यवहारें निश्चय न-
य दृष्टे, जुंजे निज गुण नेरो रे ॥ पंचम आनक ठे परम पद, अचल अनं-
त सुख वासो रे ॥ आधि व्याधि तन मनथी लहियें, तसु अज्ञावे सुख खा
सो रे ॥ ६५ ॥ उठु आनक मोहकतणुं ठे, संयम ज्ञान उपायो रे ॥ जो
सहिजे लहियें तो सघले, कारण निःफल आयो रे ॥ कहे ज्ञान नय ज्ञा-
नज साचुं, ते विण जूठी किरिया रे ॥ न लहे रूपूं रूपूं जाणी, सीप ज्ञ-
णी जे किरिया रे ॥ ६६ ॥ कहे किरियानय किरियाविण जे, ज्ञान तेह शुं
करशे रे ॥ जल पेसी कर पद न हलावे, तारू ते किम तरशे रे ॥ दूपण

झूषण ठे इहां बहुलां, नय एकेकने वादें रे ॥ सिद्धांती ते बेहु नय साधे,
ज्ञानवंत अप्रमार्दे रे ॥ ६७ ॥ इणिपरे सडसठ बोल विचारी, जे समकित
आराहे रे ॥ राग द्वेष टाळी मन वाली, ते समसुख अवगाहे रे ॥ जेह
नुं मन समकितमां निश्चल, कोइ नही तस तोलें रे ॥ श्री नयविजय
विबुध पयसेदक, वाचकजस इम बोलै रे ॥ ६८ ॥

॥ इति श्री सम्यक्त्वना सडसठ बोलनी सद्याय संपूर्ण ॥

॥ अथ अठार पापस्थानकनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ तत्र प्रथम ॥

॥ हिंसा पापस्थानक सद्याय ॥

॥ कपूर होये अति कृजलो रे ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक पहिले कहुं रे,
हिंसा नामे डुरंत ॥ मारे जे जग जीवने रे, ते लहे मरण अनंत रे ॥ १ ॥
प्राणी जिनवाणी धरो चित्त ॥ ए आंकणो ॥ मात पितादि अनंतनां रे,
पामे वियोग ते मंद ॥ दारिद्र दोहग नवि टले रे, मिले न वल्लभ वृंद रे
॥ प्राणी ॥ २ ॥ होय विपाके दशगुणुं रे, एकवार कियुं कर्म ॥ शत स
हस्र कोडि गर्भे रे, तीव्र जावना मर्म रे ॥ प्राणी ॥ ३ ॥ मर कहितां
पण दुःख हुवे रे, मारे किम नवि होय ॥ हिंसा जगिनी अति बुरी रे, वै
श्वानरनी जोय रे ॥ प्राणी ॥ ४ ॥ तेहने जोरें जे हुवा रे, रौडध्यान प्र
मत्त ॥ नरक अतिप्रि ते नृप हुआ रे, जिम सुजूम ब्रह्मदत्त रे ॥ प्राणी ॥
॥ ५ ॥ राय विवेक कन्या कृमा रे, परणावे जस साय ॥ तेहप्रकी दूरें ट
ले रे, हिंसा नाम बलाय रे ॥ प्राणी ॥ ६ ॥ इति प्रथम पापस्थानक ॥

॥ अथ द्वितीय मृषावाद पापस्थानक सद्याय प्रारंभः ॥

॥ लाठलदे मात मढहार ॥ ए देशी ॥ बीजुं पापनुं स्थान, मृषावाद
डुर्ध्यान, आज हो बंमो हो जवि मंमो धर्मसुं प्रीतडजी ॥ १ ॥ वैर खेद
अविश्वास, एदधी दोष अज्यास, आज हे आए रे नवि जाए व्याधि अ-
पण्यधी जी ॥ २ ॥ रहिवुं कालिक सूरि, परिजन वचन ते जूरि, आज हो
सहिवुं रे नवि कहिवुं ऊठ जयादिकें जी ॥ ३ ॥ आसन धरत आकाश,
वसु नृप हुन सुप्रकाश, आज हो ऊठें रे सुर हूठें घाढयो रसातलें जी ॥ ४ ॥
जे सत्यव्रत धरे चित्त, होय जगमांहे पवित्र ॥ आज हो तिहने रे नवि

जय सुर व्यंतर यक्ष्मी जी ॥ ५ ॥ जे नवि जांखे अलीक, बोले ठावुं ठी-
क, आज हो टेंकरे सुविवेकें सुयज्ञ ते सुख वरे जी ॥ ६ ॥ इति मृषावाद ॥

॥ अथ तृतीय अदत्त पापस्थानक सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ नींदरडी वेरण हुइ रही ॥ ए देशी ॥ चोरी व्यसन निवारियें, पाप
स्थानक हो त्रीजुं कहुं घोरके ॥ इहजव परजव डुःख घणां, एह व्यसनें
हो पामे जग चोरके ॥ चो० ॥ १ ॥ चोर ते प्राय दरिडी हूये, चोरीश्री
हो धन न ठरे नेटके ॥ चोरनो कोय घणी नही, प्राय जूख्युं हो रहे चो
रनुं पेटके ॥ चो० ॥ २ ॥ जिम जलमांही नाखिउ, तले आवे हो जलने
अयगोल के ॥ चोर कठोर करम करी, जाय नरकें हो तिम निपट निटो
लके ॥ चो० ॥ ३ ॥ नाठुं पड्युं वली वीसरयुं, रह्युं राख्युं हो थापण करयुं
जेहके ॥ तृण तुल मात्र न लीजियें, अण दीधुं हो किहां कोइनुं तेहके
॥ चो० ॥ ४ ॥ दूरें अनर्थ सकल टले, मिले वाला हो सघले जश थाय
के ॥ सुर सुखना हुये जेटणां, व्रत त्रीजुं हो आवे जस दायके ॥ चो० ॥
॥ ५ ॥ त्यजी चोरपणुं देवता, होय निश्चय हो रोहिणीया जेमके ॥ ए व्र-
तश्री जस सुख लहे, वली प्राणी हो वहे पुण्यसुं प्रेमके ॥ चो० ॥ ६ ॥ इति

॥ अथ चतुर्थ अब्रह्मचर्य पापस्थानक सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ तुमैं बहु मित्री रे साहिबा ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक चोथुं वर्जियें,
डुर्गति मूल अवंज ॥ जग सवि मूंज्यो ठे एहमां, ठामे तेह अवंज ॥ १ ॥
पाप० ॥ ए आंकणी ॥ रूहुं लागे रे ए धुरें, परिणामें अति क्रूर ॥ फल
किंपाकने सारिखुं, वरजे सज्जन दूर ॥ पाप० ॥ २ ॥ अधर विद्रुम स्मित
फूलडां, कुचफल कठिन विशाल ॥ रामा देखी न राचियें, ए विपवेली र-
साल ॥ पाप० ॥ ३ ॥ प्रबलज्वलित अयपूतली, आलिंगन जलुं तंत ॥
नरक डुआर नितंबिनी, जघन सेवन ए डुरंत ॥ पाप० ॥ ४ ॥ दावानल
गुण वन तणो, कुलमझी कूर्चक एह ॥ राजधानी मोह रायनी, पातक
कानन मेह ॥ पाप० ॥ ५ ॥ प्रभुतार्ये हरिसारिखो, रूपें मयण अवतार ॥
सीतार्ये रे रावण यथा, ठंमो तुमैं नरनार ॥ पाप० ॥ ६ ॥ दशशिर रज
मांहे रोलिया, रावण विवश अवंज ॥ रामें न्यार्ये रे आपणो, रोप्यो जग
जय थंज ॥ पाप० ॥ ७ ॥ पाप बंधाए रे अति घणा, मुकृत सकल हय
जाय ॥ अब्रह्मचारीनुं चिंतव्युं, कदिय सफल नवि आय ॥ पाप० ॥ ८ ॥

मंत्र फले जग जसवधे, देव करे सान्निह ॥ ब्रह्मचर्य धरे जे नरा, ते पामे
नव निह ॥ पापण ॥ ए ॥ शोठ सुदर्शनने टली, शूली सिंहासन होय ॥
गुण गाथे गगने रे देवता, महिमा शीलनुं जोय ॥ पापण ॥ १० ॥ मूल
चारित्रनुं ए जलुं, समकित वृद्धि निदान ॥ शील सखिल धरे जिके, तस
हुये सुजस वखाण ॥ पापण ॥ ११ ॥ इति चतुर्थ अब्रह्मचर्य पापस्थानकण

॥ अथ पंचम परिग्रह पापस्थानक सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ सुमति सदा दिवमां धरो ॥ ए देशी ॥ परिग्रह ममता परिहरो, प-
रिग्रह दोषनुं मूल ॥ सवृणे ॥ परिग्रह जेह धरे घणो, तस तप जप प्र-
तिकूल ॥ सण ॥ १ ॥ पण ॥ ए आंकणी ॥ नवि पलटे मूल राशिथी,
मार्गी कविय न होय ॥ सण ॥ परिग्रह ग्रह ठे अजिनवो, सहने दीये दुःख
सोय ॥ सण ॥ पण ॥ २ ॥ परिग्रह मद गरुअत्तणे, जव मांहि पडे जंत ॥
सण ॥ यान पात्र जिम सायरे ॥ ज्ञाराक्रांत अत्यंत ॥ सण ॥ पण ॥ ३ ॥
ज्ञान ध्यान हय गय वरे, तप जप श्रुत परतंत ॥ स० ॥ ठोडे सम प्रजुता
लहे, मुनि पण परिग्रहवंत ॥ सण ॥ प० ॥ ४ ॥ परिग्रह गृहवर्षे लिंगिया,
लेइ कुमति रज सीस ॥ सण ॥ जिम तिम जग लवता फिरे, उनमत्त हुइ
निश दीस ॥ सण ॥ पण ॥ ५ ॥ तृपतो न जीव परिग्रहे, इंधणथी जिम
आग ॥ सण ॥ तृसा दाह ते उपशमे, जलसम ज्ञान वैराग ॥ सण ॥ पण
॥ ६ ॥ तृपतो सगरसुते नही, गोधनथी कुचि कर्ण ॥ सण ॥ तिलकशोठ
वली धानथी, कनके नंद सकर्ण ॥ सण ॥ पण ॥ ७ ॥ असंतुष्ट परिग्रहज-
स्था, सुखीआ न इंद नरिंद ॥ सण ॥ सुखी एक अपरिग्रही, साधु सुजस
समकंद ॥ सण ॥ पण ॥ ८ ॥ इति पंचम पापस्थानकण ॥

॥ अथ षष्ठ क्रोधपापस्थानक सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ ऋषजनो वंश रयणायरू ॥ ए देशी ॥ क्रोध ते बोध निरोध ठे, क्रो-
ध ते संयम घाति रे ॥ क्रोध ते नरकनुं बारणुं, क्रोध डुरित पक्षपाति रे
॥ १ ॥ पापस्थानक ठहुं परिहरो ॥ मन धरि उत्तम खंति रे ॥ क्रोध जुयं
गनी जांगुली, एह कही जयवंती रे ॥ पाण ॥ ए आंकणी ॥ २ ॥ पूरव
क्रोडि चरणा गुणें, ज्ञाव्यो ठे आतम जेण रे ॥ क्रोध विवश हुता दोय घ-
डी, हारे सवि फल तेण रे ॥ पाण ॥ ३ ॥ वाले आश्रम आपणो, जजना
अन्यने दाहे रे ॥ क्रोध कशानुसमान ठे, टाले प्रशम प्रवाहे रे ॥ पाण ॥

॥ ४ ॥ आक्रोश तर्जना घातना, धर्मत्रंशने ज्ञावे रे ॥ अग्रिम अग्रिम
विरहश्री, लाज ते शुद्ध स्वज्ञावे रे ॥ पा० ॥ ५ ॥ न होय ने होय तो चिर
नही, चिर रहे तो फल ठेहो रे ॥ सज्जन क्रोध ते एहवो, जेहवो डुर
जन नेहो रे ॥ पा० ॥ ६ ॥ क्रोधी सुखे कटु बोलणा, कंटकिया कूट सा
खि रे ॥ अदिष्ट कष्टपाण करा कह्या, दोषतरु शत साखि रे ॥ पा० ॥ ७ ॥
कूरगडू चउ तप कख्या, चरित सुशि सम आणो रे ॥ उपशम सार ठे
प्रवचने, सुजश वचन ए प्रमाणो रे ॥ पा० ॥ ८ ॥ इति षष्ठ पापस्थानक ॥

॥ अथ सप्तम मान पापस्थानक सध्याय प्रारंभः ॥

॥ नदी यमुनाके तीर उभे दोय पंखियां ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक क-
हे सातमुं श्रीजिनराज ए, मान मानदने होय डुरित शिरताज ए ॥ आठ
शिखर गिरि राज तणां आडां वले, नावे विमला लोक तिहां किम तम
टले ॥ १ ॥ प्रज्ञामद तपमद वली गोत्रमदे जख्या, आजीविका मदवंत
न मुक्ति अंगी कख्या ॥ कयोपशम अनुसारे जो एह गुण वहे, श्यो मद
करवो एहमां निर्मद सुख लहे ॥ २ ॥ उच्चज्ञाव दृढदोषे मदज्वर आका-
रो, होय तेहनो प्रतिकार कहे सुनिवर खरो ॥ पूर्व पुरुष सिंधुरश्री लघुता
ज्ञाववुं, शुद्ध ज्ञावन ते पावन शिवसाधन नवुं ॥ ३ ॥ माने खोर्युं राज्य
लंकानुं रावणे, नरनुं मान हरे हरी आवी ऐरावणे ॥ शूलिज्जड श्रुतमद
श्री पाम्या विकार ए, माने जीवने आवे नरक अधिकार ए ॥ ४ ॥ वि-
नय श्रुत तप शील त्रिदग्ग हणे सवे, मान ते ज्ञाननो जंजक होय जवो-
जवे ॥ लुंपक ठेक विवेक नयणनो मान ठे, एहने ठाणे तास न दुःख र-
हे पठे ॥ ५ ॥ माने बाहुबद्धि वरस लगे कानस्सग्ग रख्या, निर्मद चक्री
सेवक दोय मुनि सम कख्या ॥ सावधान त्यजी मान जे ध्यान धवल धरे,
परमा सुजस रमा तस आलिंगन करे ॥ ६ ॥ इति सप्तम पापस्थानक ॥

॥ अथ अष्टम भाया पापस्थानक सध्याय प्रारंभः ॥

॥ स्वामी स्वयंप्रज्ञ सांज्ञलो अरिहंताजी ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक अठ
म कह्युं, सुणो संता जी ॥ ठांनो माया मूल, गुणवंता जी ॥ कष्ट करे व्रत
आदरे ॥ सु० ॥ मायाये ते प्रतिकूल ॥ गु० ॥ १ ॥ नगन मास उपवा-
सिया ॥ सु० ॥ सीध लीये कश अन्न ॥ गु० ॥ गर्ज अनंता पामशे ॥ सु०
॥ जो ठे माया मन्न ॥ गु० ॥ २ ॥ केश लोच मल धारणा ॥ सु० ॥ नू-

मंत्र फले जग जसवधे, देव करे सान्निह ॥ ब्रह्मचर्य धरे जे नरा, ते पामे
 नव निह ॥ पापण ॥ ए ॥ शैठ सुदर्शनने टली, शूली सिंहासन होय ॥
 गुण गाये गगनें रे देवता, महिमा शीलनुं जोय ॥ पापण ॥ १० ॥ मूल
 चारित्रनुं ए जळुं, समकित वृद्धि निदान ॥ शील सलिल धरे जिके, तस
 हुये सुजस वखाण ॥ पापण ॥ ११ ॥ इति चतुर्थ अत्रब्रह्मचर्य पापस्थानकण
 ॥ अथ पंचम परिग्रह पापस्थानक संश्राय प्रारंभः ॥

॥ सुमति सदा दिलमां धरो ॥ ए देशी ॥ परिग्रह ममता परिहरो, प-
 रिग्रह दोषनुं मूल ॥ सवृणे ॥ परिग्रह जेह धरे घणो, तस तप जप प्र-
 तिकूल ॥ सण ॥ १ ॥ पण ॥ ए आंकणी ॥ नवि पलटे मूल राशिथी,
 मार्गी कविय न होय ॥ सण ॥ परिग्रह ग्रह ठे अन्निनवो, सहने दीये दुःख
 सोय ॥ सण ॥ पण ॥ २ ॥ परिग्रह मद गरुअत्तणे, जव मांदि पडे जंत ॥
 सण ॥ यान पात्र जिम सायरे ॥ ज्ञाराक्रांत अत्यंत ॥ सण ॥ पण ॥ ३ ॥
 ज्ञान ध्यान हय गय वरे, तप जप श्रुत परतंत ॥ स० ॥ गेडे सम प्रजुता
 लहे, मुनि पण परिग्रहवंत ॥ सण ॥ प० ॥ ४ ॥ परिग्रह गृहवर्षे लिंगिया,
 लेइ कुमति रंज सीस ॥ सण ॥ जिम तिम जग लवता फिरे, उनमत्त हुइ
 निश दीस ॥ सण ॥ पण ॥ ५ ॥ तृपतो न जीव परिग्रहे, इंधणथी जिम
 आग ॥ सण ॥ तृष्णा दाह ते उपशमे, जलसम ज्ञान वैराग ॥ सण ॥ पण
 ॥ ६ ॥ तृपतो सगरसुते नही, गोधनथी कुचि कर्ण ॥ सण ॥ तिलकशेठ
 वली धानथी, कनकें नंद सकर्ण ॥ सण ॥ पण ॥ ७ ॥ असंतुष्ट परिग्रहज-
 ख्या, सुखीआ न इंद नरिंद ॥ सण ॥ सुखी एक अपरिग्रही, साधु सुजस
 समकंद ॥ सण ॥ पण ॥ ८ ॥ इति पंचम पापस्थानकण ॥

॥ अथ षष्ठ क्रोधपापस्थानक संश्राय प्रारंभः ॥

॥ रुषज्जनो वंश रयणायरू ॥ ए देशी ॥ क्रोध ते बोध निरोध ठे, क्रो-
 ध ते संयम घाति रे ॥ क्रोध ते नरकनुं बारणुं, क्रोध डुरित पक्षपाति रे
 ॥ १ ॥ पापस्थानक ठहुं परिहरो ॥ मन धरि उत्तम खंति रे ॥ क्रोध चुयं
 गनी जांगुली, एह कही जयवंती रे ॥ पाण ॥ ए आंकणी ॥ २ ॥ पूरव
 क्रोडि चरण गुणें, ज्ञाब्यो ठे आतम जेण रे ॥ क्रोध विवश हुता दोय घ-
 डी, हारे सवि फल तेण रे ॥ पाण ॥ ३ ॥ वाले आश्रम आपणो, जजना
 अन्यने दाहे रे ॥ क्रोध कृशानुसमान ठे, टाले प्रशम प्रवाहे रे ॥ पाण ॥

॥ ४ ॥ आक्रोश तर्जना घातना, धर्मघ्नंशने ज्ञावे रे ॥ अग्रिम अग्रिम
विरहप्री, लाज ते शुद्ध स्वज्ञावे रे ॥ पा० ॥ ५ ॥ न होय ने होय तो चिर
नही, चिर रहे तो फल वेदो रे ॥ सज्जन क्रोध ते एहवो, जेहवो डुर
जन नेहो रे ॥ पा० ॥ ६ ॥ क्रोधी सुखे कटु बोलणा, कंटकिया कूट सा
खि रे ॥ अदिठ कळयाण करा कह्या, दोपतरू शत साखि रे ॥ पा० ॥ ७ ॥
कूरगडू चउ तप कख्या, चरित सुणि सम आणो रे ॥ उपशम सार ठे
प्रवचने, सुजश वचन ए प्रमाणो रे ॥ पा० ॥ ८ ॥ इति पष्ठ पापस्थानक ॥

॥ अथ सप्तम मान पापस्थानक सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ नदी यमुनाके तीर उढे दोय पंखियां ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक क-
हे सातमुं श्रीजिनराज ए, मान मानवने होय डुरित शिरताज ए ॥ आठ
शिखर गिरि राज तणां आडां वले, नावे विमला लोक तिहां किम तम
टले ॥ १ ॥ प्रज्ञामद तपमद वली गोत्रमदे ज्ञख्या, आजीविका मदवंत
न मुक्ति अंगी कख्या ॥ ह्योपशम अनुसारें जो एह गुण वहे, श्यो मद
करवो एहमां निर्मद सुख लहे ॥ २ ॥ उच्चज्ञाव दृढदोषें मदज्वर आका-
रो, होय तेहनो प्रतिकार कहे सुनिवर खरो ॥ पूर्व पुरुष सिंधुरश्री लघुता
ज्ञाववुं, शुद्ध ज्ञावन ते पावन शिवसाधन नवुं ॥ ३ ॥ मानें खोयुं राज्य
लंकानुं रावणें, नरनुं मान हरे हरी आवी ऐरावणें ॥ शूलिन्नइ श्रुतमद
श्री पाम्या विकार ए, मानें जीवने आवे नरक अधिकार ए ॥ ४ ॥ वि-
नय श्रुत तप शील त्रिवर्ग इणे सवे, मान ते ज्ञाननो जंजक होय ज्ञवो-
ज्जवे ॥ लुंपक ठेक विवेक नयणनो मान ठे, एहने ठामें तास न दुःख र-
हे पठें ॥ ५ ॥ मानें बाहुबद्धि वरस लगें कानुस्सग्ग रह्या, निर्मद चक्री
सेवक दोय मुनि सम कह्या ॥ सावधान त्यजी मान जे ध्यान धवल धरे,
परमा सुजस रमा तस आलिंमन करे ॥ ६ ॥ इति सप्तम पापस्थानक ॥

॥ अथ अष्टम माया पापस्थानक सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ स्वामी स्वयंप्रज्ञ सांज्ञलो अरिहंताजी ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक अठ
म कह्युं, सुणो संता जी ॥ ठामो माया मूल, गुणवंता जी ॥ कष्ट करे व्रत
आदरे ॥ सु० ॥ मायार्यें ते प्रतिकूल ॥ गु० ॥ १ ॥ नगन मास उपवा-
स्तिया ॥ सु० ॥ सीध लीये कश अन्न ॥ गु० ॥ गर्ज अनंता पामशे ॥ सु०
॥ जो ठे माया मन्न ॥ गु० ॥ २ ॥ केश लोचं मल धारणा ॥ सु० ॥ चू-

मिशय्या व्रत याग ॥ गुण ॥ सुकर सकल ठे साधुने ॥ सुण ॥ डुक्कर मा-
यात्याग ॥ गुण ॥ ३ ॥ नयन वचन आकारनुं ॥ सुण ॥ गोपन मायावंत
॥ गुण ॥ जेह करे असती परें ॥ सुण ॥ ते नहि हितकर तंत ॥ गुण ॥
॥ ४ ॥ कुसुमपुरें घर शेठने ॥ सुण ॥ हेठें रह्यो संविद्ध ॥ गुण ॥ ऊपरें त
स बीजो रह्यो ॥ सुण ॥ मुत्कल पण सुगुणइ ॥ गुण ॥ ५ ॥ दंजि एक
निंदा करे ॥ सुण ॥ बीजो धरे गुण राग ॥ गुण ॥ पहेलाने जत्र डुत्तर कहे
॥ सुण ॥ बीजाने कहे वली ताग ॥ गुण ॥ ६ ॥ विधि निषेध नवि उप-
दिशे ॥ सुण ॥ एकांते जगवंत ॥ गुण ॥ कारणे निःकपटी हवुं ॥ सुण ॥ ए
आणा ठे तंत ॥ गुण ॥ ७ ॥ मायाथी अलग टलो ॥ सुण ॥ जिम मलो
सुगति सुरंग ॥ गुण ॥ सुजस विलास सुखी रहो ॥ सुण ॥ लक्षण आवे
अंग ॥ गुण ॥ ८ ॥ इत्यष्टम माया पापस्थानक संघाय समाप्त ॥

॥ अथ नवम लोचन पापस्थानक संघाय पारंजः ॥

॥ जीरे मारे जाग्यो कुमर जाम ॥ ए देशी ॥ जीरे मारे लोचन ते दोष
अधोचन, पापस्थानक नवमुं कह्युं ॥ जीरे जी ॥ जीण ॥ सर्व विनाशनुं मू
ल, एहथी कोणें न सुख लह्युं ॥ जीरे जी ॥ १ ॥ जीण ॥ सुणीयें बहु लो
नांध, चक्रवर्ति हरिनी कथा ॥ जीरे जी ॥ जीण ॥ पाम्या कटुक विपाक,
पीवत रक्त जलो यथा ॥ जीण ॥ २ ॥ जीण ॥ निर्धनने शत चाह, शत
लहे सहस लोडिए ॥ जी० ॥ जीण ॥ सहस लहे लख लोचन, लख लोचनें
मनकोडियें ॥ जीण ॥ ३ ॥ जीण ॥ कोटीश्वर नृपशक्ति, गृप चाहे चक्री-
पणुं ॥ जीण ॥ जीण ॥ चाहे चक्रि सुरजोग, सुर चाहे सुरपति सुख घणुं
॥ जी० ॥ ४ ॥ जीण ॥ मूल लघुपणे लोचन वाधे, सर्व परे सही ॥ जी० ॥
जी० ॥ उत्तराध्ययने अनंत, इच्छा आकाश समि कही ॥ जी० ॥ ५ ॥
जीण ॥ स्वथं चरमण समुद्र, कोइक अवगाही शके ॥ जी० ॥ जी० ॥ ते
पण लोचन समुद्र, पार न पामे वल शके ॥ जीण ॥ ६ ॥ जीण ॥ कोइक
लोचने हेत, तप श्रुत हारे जे जडा ॥ जी० ॥ जी० ॥ काग उडावण हेत,
सुरमणि नाखे ते खडा ॥ जीण ॥ ७ ॥ जीण ॥ लोचन तजे जे धीर, तस
सवि संपत्ति किंकरी ॥ जीण ॥ जीण ॥ सुणस सुपुण्य विलास, गावे तस
सुर सुंदरी ॥ जीण ॥ ८ ॥ इति नवम लोचन पापस्थानक संघाय ॥

॥ अथ दशम राग पापस्थानक सद्याय प्रारंभः ॥

॥ सुण मोरी सजनी रजनी न जाए रे ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक दश-
सु कह्युं राग रे, कुणहि न पाम्यो तेहनो ताग रे ॥ रागें वाह्या हरि हर वं
जारे, राचे नाचे करेय अचंजा रे ॥ १ ॥ राग केसरी ठे वड राजा रे, विष
याजिलाष ते मंत्री ताजा रे ॥ जेहना ठेरु इंडिय पंचो रे, तेहनो कीधो ए
सकल प्रपंचो रे ॥ २ ॥ जेह सदागमवश हुइ जाशे रे, अप्रमत्तता शि-
खरें वाशे रे ॥ चरण धरम नृप शैल विवेकें रे, तिहशुं न चले रागि टेके
रे ॥ ३ ॥ बीजा तो सवि रागें वाह्या रे, एकादश गुणगणें उमाह्या रे ॥
रागें पाह्या ते नर खूता रे, नरय निगोद महा दुःख जूता रे ॥ ४ ॥ रा-
गहरण तप जप श्रुत ज्ञाख्या रे, तेहथी पण जिणे जव फल चाख्या रे ॥
तेहनो कोइ न ठे प्रतिकारो रे, अमिय होय विप त्यां श्यो चारो रे ॥ ५ ॥
तपबले बूटा तरणुं ताणी रे, कंचन कोडि आषाढभूति नाणी रे ॥ नंदि-
षेण पण रागें नडिया रे, श्रुतनिधि पण वेश्यावश पडिया रे ॥ ६ ॥ वा-
वोश जिनपण रहि घरवासें रे, वर्त्या पूर्वरग अच्यसिं रे ॥ वज्रबंध पण
जस बल त्रुटे रे, नेह तंतुथी तेह न वूटे रे ॥ ७ ॥ देह उचाटन अग्निनुं
वहवुं रे, घणकुट्टन ए सवि दुःख सहवुं रे ॥ अति घणुं राति जे होय
मजिठ रे, रागतणो गुण एहज दिठ रे ॥ ८ ॥ राग न करजो कोइ नर को
इशुं रे, नवि रद्देवाय तो करजो मुनिशुं रे ॥ मणि जिम फणि विषनो तिम
तेहो रे, रागनुं जेषज सुजश सनेहो रे ॥ ९ ॥ इति दशम पापस्थानक ॥

॥ अथ एकादश द्वेष पापस्थानक सद्याय प्रारंभः ॥

॥ लालननी देशी ॥ द्वेष न धरियें लालन, द्वेष न धरियें ॥ द्वेष तज्या
थी लालन, शिव सुख वरियें ॥ ला० ॥ शि० ॥ पापस्थानक ए अग्यारसुं
कूडुं, द्वेष रहित चित्त होय सवि रूडुं ॥ ला० ॥ हो० ॥ १ ॥ चरण करण
गुण बनि चित्रशाली, द्वेष धूमें होय ते सवि काली ॥ ला० ॥ हो० ॥
॥ २ ॥ दोष वेतालीश शुद्ध आहारी, धूम्रदोषें होय प्रवल विकारी ॥
ला० ॥ प्र० ॥ ३ ॥ उग्र विहारने तप जप किरिया, करतां द्वेष ते जवमां
हे फरिया ॥ ला० ॥ ज० ॥ ४ ॥ योगनुं अंग अद्वेष ठे पहिलुं, साधन स-
वि लहे तेहथी वहेलुं ॥ ला० ॥ ते० ॥ ५ ॥ निर्गुण ते गुणवंत न जाणे,
गुणवंत ते गुण द्वेषमां ताणे ॥ ला० ॥ द्वे० ॥ ६ ॥ आप गुणीने वली गु-

ए रागी, जग मांहे तेहनी कीरति जागी ॥ ला० ॥ की० ॥ ७ ॥ राग ध
रीजे जिहां गुण लहिये, निर्गुण कूपरे समचित्त रहिये ॥ ला० ॥ स० ॥
॥ ८ ॥ ज्वरप्रति चिंतन सुजशविलासें, उत्तमना गुण एम प्रकाशे ॥ ला०
॥ ए० ॥ ए ॥ इति अग्यारमा द्वेष पापस्थानक सञ्चय समाप्त ॥

॥ अथ द्वादश कलह पापस्थानक सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ किसके चेले किसके पूत ॥ ए देशी ॥ कलह ते वारसुं पापनुं स्था
न, डुरगति वननुं मूल निदान ॥ साजन सांजलो ॥ महोठो रोग कलह
काच कामलो ॥ ए आंकली ॥ दंत कलह जे घर मांहे होय, लढी निवा-
स तिहां नवि जोय ॥ सा० ॥ १ ॥ शं सुंदरी तुं न करे सार, न करे नापे
कांइ गमार ॥ सा० ॥ क्रोधमुखी तुं तुजने धिक्कार, तुजथी अधिको कुण
कलिकार ॥ सा० ॥ २ ॥ साहासुं बोले पापणी नित्त, पापी तुजपिता जुद्ध
चित्त ॥ सा० ॥ दंत कलह इम जेहने आय, ते दंपतिनें सुख कुण ठाय ॥
सा० ॥ ३ ॥ कांटे कांटे आयें वाडि, बोलें बोलें वाधे राडि ॥ सा० ॥ जा-
णी मौन धरे गुणवंत, ते सुख पामे अनुल अनंत ॥ सा० ॥ ४ ॥ नित्त
कलहण कोइण शील, जंरुण शीलविवाद सलील ॥ सा० ॥ चित्त उताप
धरे जे एम, संयम करे निरर्थक तेम ॥ सा० ॥ ५ ॥ कलह करीने खमावे
जेह, लघु गुरु आराधक होय तेह ॥ सा० ॥ कलह समावे ते धन्य धन,
उपशम सार कहियो सामन्न ॥ सा० ॥ ६ ॥ नारद नारी निर्दय चित्त, क-
लह बुदीरे त्रण्ये मित्य ॥ सा० ॥ सज्जन सुजस सुशील महंत, वारे कलह
स्वजावें संत ॥ सा० ॥ ७ ॥ इति कलह नामक द्वादश पापस्थानक ॥

॥ अथ अज्ञ्याख्यान नामे तेरमा पापस्थानकनी सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ अरणीक मुनिदर चाढ्या गोचरी ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक ते तेरसुं
वांरीयें, अज्ञ्याख्यान डुरंतो जी ॥ अठतां आल जे परनां उच्चरे, दुःख
पामे ते अनंतो जी ॥ १ ॥ धन धन ते नर जे जिनमत धरे ॥ ए आंक-
ली ॥ अठते दोषे रे अज्ञ्याख्यान जे, करे न पूरे ठाणो जी ॥ ते ते दोषे
रे तेहने दूषीयें, इम ज्ञाखे जिन ज्ञाणो जी ॥ धन० ॥ २ ॥ जे बहु सु-
खरी रे वली मत्सररत्न्या, अज्ञ्याख्यानी ते होय जी ॥ पातक लागे रे अ
ए क्रीधां सही, ते कीधुं सवि खोय जी ॥ धन० ॥ ३ ॥ मिछ्यामतिनी रे
दश संज्ञा जिके, अज्ञ्याख्याना जेदो जी ॥ गुण अवगुणनोरे जे करे पा

लटो, ते पामे बहु खेदो जी ॥ धन० ॥ ४ ॥ परने दोप न अठता दीजीयें,
पीजीयें जो जिन वाणी जी ॥ उपशम रससु रे चित्तमां जींजीयें, कीजी-
यें सुजस कमाणी जी ॥ धन० ॥ ५ ॥ इति तेरमा पापस्थानक स० ॥

॥ अथ चौदमा पैशुन्य पापस्थानकनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ शिरोहीनो शाखुहो के उपर योधपुरी ॥ ए देशी ॥ पापस्थानक हो
के चौदमुं आकरुं, पैशुन्यपणानुं होके व्यसन ठे अति बुरुं ॥ अशन मा-
त्रनो होके शुनक कृतज्ञ ठे, तेहथी जूंनो होके पिशुन लवे पठे ॥ १ ॥ व
हु उपकरियें होके पिशुनने परें परें, कलहनो दाता होके होय ते ऊपरें ॥
दूर्ध्वे धोयो होके वायस उजलो, किम होय प्रकृतें होके जे ठे शामलो ॥
२ ॥ तिलह तिलक्षण होके नेह ठे त्यां लगें, नेह पिणठे होके खल कहि
यें जगें ॥ इम निःस्नेही होके निरदय त्दयथी, पिशुननी वार्त्ता होके न
वि जाये कथी ॥ ३ ॥ चाडी करतां होके वाडि गुणतयी, सूके चूके हो
के ख्याति पुण्यतणी ॥ कोइ नवि देखे होके वदन ते पिशुनतणुं, निर्मल
कुलनें होके दीये ते कलंक घणुं ॥ ४ ॥ जिम सज्जन गुण होके पिशुनने
दूषियें, तिम तिणे सहेजे होके त्रिजुवन जूषियें ॥ जस्में मांज्यो होके दर्पण
होय जलो, सुजस सवाइ होके सज्जन सुकुल तिलो ॥ ५ ॥ इति समाप्त ॥

॥ अथ पंदरमा रति अरति नाभें पापस्थानकनी सधाय ॥

॥ प्रथम गोवाला तणे जेवेंजी ॥ ए देशी ॥ जिहा रति कोइक कारणे
जी, अरति तिहां पण होय ॥ पापस्थानक ते पनरमुं जी, तेणे ए एकज
जोय ॥ १ ॥ सुगुण नर समजो चित्तमजार ॥ ए आकणी ॥ चित्त तो अ-
रति रति पाखणुं जी, उडे पंखी रे चित्त ॥ पिंजर शुद्ध समाधिमें जी, हं-
ध्यो रहे ते मित्त ॥ सु० ॥ २ ॥ मन पारद उडे नहीं जी, पामि अरति र-
ति आग ॥ तो हुये सिद्धि कळयाणानी जी, जावठ जाये जाग ॥ सु० ॥ ३ ॥
रतीवशें अरति करीजी, जुतारथ होय जेह ॥ तस विवेक आवे नहीं जी,
होये न दुःखनो बेह ॥ सु० ॥ ४ ॥ न रति अरति ठे वस्तुथी जी, ते उपजे
मनमांदिं ॥ अंगज वल्लज सुत हुठ जी, यूकादिक नहि कांही ॥ सु० ॥ ५ ॥
मनकल्पित रति अरति ठे जी, नहीं सत्य पर्याय ॥ नहीं तो वेची वस्तु-
मां जी, किम ते सवि मटि जाय ॥ सु० ॥ ६ ॥ जेह अरति रति नवि
गणे जी, सुख दुःख दोय समान ॥ ते पामे जस संपदा जी, वाधे जग

तस वान ॥ सु० ॥ ७ ॥ इति पंदरमा पापस्थानकनी सञ्चाय समाप्त ॥

॥ अथ शोलमा परपरिवाद पापस्थानकनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

साहेव वाहु जिनेसर विनवुं ॥ ए देशी ॥ सुंदर पापस्थानक तजो शो-
लमुं, पर निंदा असराल हो ॥ सुंदर निंदक जे मुखरी हुवे, ते चोथो चं-
माल हो ॥ सु० ॥ १ ॥ सुंदर जेहनें निंदानो ढाल ठे, तप किरिया तस
फोक हो ॥ सुंदर देव किब्विस ते ऊपजे, ए फल रोकारोक हो ॥ सु० ॥
॥ २ ॥ सुंदर क्रोध अजीरण तपतणुं, ज्ञानतणो अहंकार हो ॥ सुंदर
परनिंदा किरिया तणो, वमन अजीरण आहार हो ॥ सु० ॥ ३ ॥ सुंदर
निंदनो जेह स्वजाव ठे, तास कथन नवि नंद हो ॥ सुंदर नाम धरी जे
निंदा करे, तेह महामति मंद हो ॥ सु० ॥ ४ ॥ सुंदर रूप न कोई
धारियें, दाखीयें निज निज रंग हो ॥ सुंदर तेहमां कांइ निंदा नहीं,
बोले बीजुं अंग हो ॥ सु० ॥ ५ ॥ सुंदर एह कुशीलणी इम कहे, कोप
हुन जेह जांखे हो ॥ सुंदर तेह वचन निंदा तणुं, दश वैकालिक साखें
हो ॥ सु० ॥ ६ ॥ सुंदर दोष नजरणी निंदा हुवे, गुण नजरें हुए राग
हो ॥ सुंदर जग सवि चाले मादल मढ्यो, सर्व गुणी वीतराग हो ॥ सु०
॥ ७ ॥ सुंदर निजमुख कनक कचोदहे, निंदक पर मल लेइ हो ॥ सुंदर
जेह घणा परगुण ग्रहे, संत ते विरला कोइ हो ॥ सु० ॥ ८ ॥ सुंदर पर
परिवाद व्यसन तजो, म करो निज उत्कर्ष हो ॥ सुंदर पाप करम इम
सवि टले, पामे शुभ्र जस हर्ष हो ॥ सु० ॥ ९ ॥ इति शोलमा पापस्याप

॥ अथ सत्तरमा माया मोस नामें पापस्थानकनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ सखी चैतरज महीनें चाल्या ॥ ए देशी ॥ सत्तरमुं पापनुं गम, प-
रिहरजो सदगुण धाम, जिम वाधे जगमां माम हो लाल ॥ १ ॥ माया
मोस नवि कीजीयें ॥ ए आंकणी ॥ एतो विषनें वलीय वधारयुं, एतो श
खनें अवलुं धरयुं, एतो वाधनुं वाल वकारयुं हो लाल ॥ मा० ॥ २ ॥ ए
तो मायीने मोसावाइ, अइ महोटा करेय ठगाइ, तस हेठें गइ चनुराइ हो
लाल ॥ मा० ॥ ३ ॥ बगला परें पगलां जरतां, थोडुं बोले जाणे मरतां,
जग धंधें घाले फिरता हो लाल ॥ मा० ॥ ४ ॥ जे कपटी बोले जूतुं, तस
लागे पाप अपूतुं, पंक्तिमां होये मुख जूतुं हो लाल ॥ मा० ॥ ५ ॥ दंजो
नुं जूतुं मीतुं, ते नारी चरित्रें दीतुं, पण ते ठे डुर्गति चीतुं हो लाल ॥

मा० ॥ ६ ॥ जे जूठो थे उपदेश, जन रंजनने धरे वेश, तेहनो जूठो सक-
ल कलेश हो लाव ॥ मा० ॥ ७ ॥ तेलें त्रीजो मारग ज्ञांख्यो, वेशनिदे दं-
जें राख्यो, शुद्ध ज्ञापकें शम सुख चाख्यो हो लाव ॥ मा० ॥ ८ ॥ जूठुं
बोली नदर जे जरवुं, कपटीने वेशें फरवुं, ते जमवारें शं करवुं हो लाव ॥
मा० ॥ ९ ॥ पंमैं जाणे तो पण दंजे, माया मोसने अधिक अचंजें, समकि
तदृष्टि मन थंजे हो लाव ॥ मा० ॥ १० ॥ श्रुत मर्यादा निरधारी, रक्षा
माया मोस निवारी, शुद्ध ज्ञापकनी बलिहारी हो लाव ॥ मा० ॥ ११ ॥
जे मायार्ये जूठ न बोले, जग नहीं कोइ तेहनें तोलें, ते राजे सुजस अमो
लें हो लाव ॥ १२ ॥ इति सत्तरमा पापस्थानकनी सधाय संपूर्ण ॥

॥ अथ अठारमा मिथ्यात्व पापस्थानकनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आरा ॥ ए देशी ॥ अठारसुं जे पापनुं धा
नक, ते मिथ्यात्व परिहरियें जी ॥ सत्तरथी पण ते एक ज्ञारी, होये तुला
थें जो धरियें जी ॥ कष्ट करो परें परें दमो अप्पा, धर्म अर्थे धन खरचो जी
॥ पण मिथ्यात्व ठते ते जूठुं, तिणे तेहथी तुमे विरचो जी ॥ १ ॥ किरिया
कर्तो त्यजतो परिजन, दुःख सहतो मन रीजें जी ॥ अंध न जीपे परनी
सेना, निम मिथ्यादृष्टि न सीजे जी ॥ वीरसेन शूरसेन दृष्टांतें, समकित
नी निर्युक्तें जी ॥ जोइने ज्ञानीपरें मन ज्ञावो, एह अरथ वर युक्तें जी ॥ १ ॥
धम्म अघम्म अघम्म धम्मह, सन्ना मग्ग उमग्गा जी ॥ उन्मार्गे मारगनी
सन्ना, साधु असाधु संलग्गा जी ॥ असाधुमां साधुनी मति, जीवें अजीव
अजिय जिय वेदो जी ॥ मुत्तें अमुत्ति अमुत्तें सुत्तिह, सन्ना ए दश जेदो जी
॥ ३ ॥ अज्जिग्रहिक निज निज मते अज्जिग्रह, अनज्जिग्रहिक सहु सरिखा
जी ॥ अज्जिनिवेशि जाणतो कहे जूठुं, करे न तत्त्व परिखा जी ॥ संशय ते
जिन वचननी शंका, अव्यक्तें अनाज्ञांगा जी ॥ ए पण पांच जेद ठे विश्रुत,
जाणे समजु लोगा जी ॥ ४ ॥ लोक लोकोत्तर जेद ए षट्ठविध, देव धर्म
वली गुरु पर्व जी ॥ शक्तें तिहां लोकिक त्रण आदर, करतां प्रथम निगर्व
जी ॥ लोकोत्तर देव माने नीयार्ये, गुरु जे लक्षणहीना जी ॥ पर्वनिष्ट इह
लोकनें काजें, माने गुरुपद लीना जी ॥ ५ ॥ एम एकवीश मिथ्यात्व त्य-
जे जे, जजे चरण गुरुकरां जी ॥ सजे न पापें रजें न राखे, मत्सर शेह
अनेरा जी ॥ समकितधारी श्रुत आचारी, तेहनी जग बलिहारी जी ॥

शासन समकितने आराधे, तेहनी करो मनोहारी जी ॥ ६ ॥ मिथ्यात्व ते जग परम रोग ठे, वलीय महा श्रंधकारो जी ॥ परम शत्रुने परम शस्त्र ते, परम नरक संचारो जी ॥ परम दोहगने परम दरिद्र ते, परम संकट ते कहिये जी ॥ परम कंठार परम दुर्जिह्व ते, ते ठांने सुख लहिये जी ॥ ७ ॥ जे मिथ्यात्व लवलेश न राखे, शुद्धो मारग ज्ञांखे जी ॥ ते समकित सुरत रु फल चाखे, रहे वली अणीये आखे जी ॥ महोटाइ शी होय गुण पाखे, गुण प्रभु समकित दाखे जी ॥ श्रीनयविजय विबुध पय सेवक, वाचकज स इम ज्ञाखे जी ॥ ८ ॥ इति अठार पापस्त्रानक सव्याय समाप्त ॥

॥ अथ निंदावारक सव्याय ॥

॥ निंदा म करजो कोइनी पारकी रे, निंदानां बौढ्यां महा पाप रे ॥ वयर विरोध बाधे घणो रे, निंदा करतो न गणे माय वाप रे ॥ निं० ॥ १ ॥ दूर बलंती कां देखो तुम्हें रे, पगमां बलती देखो सहु कोय रे ॥ परना मलमां धोयां लुगडां रे, कदो केम ऊजलां होय रे ॥ निं० ॥ २ ॥ आप संजालो सहुको आपणो रे, निंदानी मूको पढी टेव रे ॥ थोडे घणे अवगुणो सहु जह्या रे, केहनां नलीयां चुंए केहनां नेव रे ॥ निं० ॥ ३ ॥ निंदा करे ते थाये नारकी रे, तप जप कीधुं सहु जाय रे ॥ निंदा करो तो करजो आपणी रे, जेम बुटकवारो थाय रे ॥ निं० ॥ ४ ॥ गुण ग्रह जो सहुको तणा रे, जेहमां देखो एक विचार रे ॥ कृष्णपरें सुख पामशो रे, समयसुंदर सुखकार रे ॥ निं० ॥ ५ ॥ इति निंदावारक सव्याय ॥

॥ अथ श्री नेमराजुलनी सव्याय ॥

॥ नवी जमुनांके तीर, उडे दोय पंखीयां ॥ ए देशी ॥

॥ पियुजी पियुजी रे नाम, जपुं दिन रातियां ॥ पियुजी चाळ्या परदेश तपे मोरी ठातीयां ॥ पग पग जोती वाट, वादेसर कव मिले ॥ नीर विठोयां मीन, के ते ज्युं टलवले ॥ १ ॥ सुंदर मंदिर सेज, साहिव विण नवि गमे ॥ जिहां रे वादेसर नेम, तिहां मारुं मन जमे ॥ जो दोवे सज्जन दूर, तोही पासें वसे ॥ किहां पंकज किहां चंद, देखी मन उल्लसे ॥ २ ॥ निःस्नेहीशुं प्रीत, म करजो को सही ॥ पतंग जलावे देह, दीपक मनमें नही ॥ वाहाला माणसनो विजोग, म होजो केहनें ॥ साखे रे साल स

मान, हइआमां तेहने ॥ ३ ॥ विरह व्यथानी पीढ, जोवन वय अति द-
हे ॥ जेनो पीयु परदेश, ते माणस दुःख सहे ॥ जुरी जुरी पंजर कीव,
काया कमलज जिली ॥ हजिअ न आव्यो नेम, मलि न नयणें हसी ॥ ४
॥ जेहने जेहशुं राग, टाळ्यो ते नवि टले ॥ चकवा रयणी विजोग, ते तो
दिवसें मले ॥ आंवाकेरो स्वाद, लिवू ते नवि करे ॥ जे नाह्या गंगा नीर,
ते ठिल्लर किम तरे ॥ ५ ॥ जे रम्यां मालती फूल, धतूरे किम रमे ॥ जेह
ने घृतशुं प्रेम ते, तेले किम जिमे ॥ जेहने चतुरशुं नेह ते, अवरनें शुं
करे ॥ नव जोवन तजी नेम, वैरागी अइ फरे ॥ ६ ॥ राजुल रूपनिधा-
न, पोहोती सहसावनें ॥ जइ वांध्या प्रचु नेम, संजम लेइ एकमनें ॥ पा
स्यां केवलज्ञान, पोती मननी रली ॥ रूपविजय प्रचु नेम, जेडे आशा
फली ॥ ७ ॥ इति नेमराजुलनी सञ्चाय ॥

॥ अथ बलिज्जम्मुनिनी सञ्चाय ॥

॥ शा माटे वंभव मुखथी न बोलो, आंशुडे आनन घोतां मोरारी रे ॥
पुण्यजोगें इडियो एकपाणी, जड्यो ठे जंगल जोतां मोरारी रे ॥ शाण ॥
॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ त्रीकम रीश चढी ठे तुजने, वनमांहे वनमाली मो
रारी रे ॥ वर्डभरे वाएनुं मनावुं तुं वाला, तुं तो वचन न बोले फरी वाली
मोरारी रे ॥ शाण ॥ २ ॥ नगरा रे दाधीने शुद्ध न लाधी, महारी वाणी
निष्ठुण वाला मोरारी रे ॥ आ वेलांमां लीधो अबोलो, कानजी कां अया
काला मोरारी रे ॥ शाण ॥ ३ ॥ शी शी वात कहुं शामलीया, वीठलजी
आ वेला मोरारी रे ॥ शाने काजें मुजने संतापे, हरि हसी बोलोने हेला
मोरारी रे ॥ शाण ॥ ४ ॥ प्राण माहारा जासे पाणी विण, अधघडीने अ-
णबोले मोरारी रे ॥ आरति सघली जाये अलगी, बांधवजो तुं बोले मोरा
री रे ॥ शाण ॥ ५ ॥ षटमास लगे पाळ्यो ठवीलो, हैया उपर अति हिते
मोरारी रे ॥ सिंधु तटे सुरने संकेते, हरि दहन करम शुजरीते मोरारी रे ॥
शाण ॥ ६ ॥ संयम लइ गयो सुरलोकें, कवि उदयरतन इम बोले मोरारी
रे ॥ संसारमाहे बलदेव मुनिने, कोइ न आवे तोले मोरारी रे ॥ शाण ॥ ७

॥ अथ मन जमरानी वैराग सञ्चाय ॥

॥ नूळ्यो मन जमरा तुं कयां जम्यो, जमियो दिवसने रात ॥ मायानो
दांध्यो प्राणियो, जमे परिमलजात ॥ नूळ्यो ॥ १ ॥ कुंज काचो रे

काया कारमी, तेहनो करो रे जतन्न ॥ विणसंतां वार लागे नहीं,
 निर्मल राखो रे मन्न ॥ जूढ्यो ० ॥ १ ॥ केहनां ठोरू केहनां वाठरू,
 केहनां मायने वाप ॥ प्राणी रे जावुं ठे एकलुं, साथे पुण्यने पाप ॥ जू०
 ॥ ३ ॥ आशा तो मुंगर जेवडी, मरवुं पगलां रे हेठ ॥ धन संची संची
 कांइ करो, करो दैवनी वेठ ॥ जू० ॥ ४ ॥ धंधो करी धन जोडियुं, लाखां
 उपर कोड ॥ मरणनी वेला मानवी, लीयो कंदोरो ठोड ॥ जू० ॥ ५ ॥
 मूरख कहे धन माहरू, धौखें धान्य न खाय ॥ वस्त्र विना जइ पोढवुं, ल-
 खपति लाकडांमांय ॥ जू० ॥ ६ ॥ जवसागर दुःखजल जख्यो, तरवो ठे
 रे तेह ॥ विचमां जय सबलो थयो, कर्म वायरोने मेह ॥ जू० ॥ ७ ॥ लख
 पति ठत्रपति सब गया, गया लाख बे लाख ॥ गर्व करी गोखें वेसता, स-
 र्व थया बली राख ॥ जू० ॥ ८ ॥ धमण धूखंती रे रहि गइ, बुज गइ लाल
 अंगार ॥ एरणको ठबको मद्यो, उठ चढ्यो रे लोहार ॥ जू० ॥ ९ ॥ ऊवट
 मारग चालतां, जावुं पहेले रे पार ॥ आगल हाट न वाणीयो, संबल लेजो
 रे सार ॥ जू० ॥ १० ॥ परदेशी परदेशमें, कुणसुं करो रे सनेह ॥ आया
 कागल उठ चढ्या, न गणे आंधीने मेह ॥ जू० ॥ ११ ॥ केइ चाढ्या रे के
 इ चालशे, केइ चालणहार ॥ केइ बेठा रे बुढां वापडा, जाये नरक मजार
 ॥ जू० ॥ १२ ॥ जिण घर नोबत वाजती, घाता ठत्रीशे राग ॥ खंडेर थइ
 खाली पढ्यां, बैठण लागा ठे काग ॥ जू० ॥ १३ ॥ जमरो आव्यो रे कम-
 लमां, लेवा कमलनुं फूल ॥ कमलनी वांगयें मांहे रह्यो, जिम आथमते
 सूर ॥ जू० ॥ १४ ॥ सहगुरु कहे वस्तु वोरियें, जे कोइ आवे रे साथ ॥
 आपणो लाज उगारीयें, लेखुं साहिव हाथ ॥ जू० ॥ १५ ॥

॥ अथ श्री यशोविजयजी उपाध्यायकृत आठदृष्टिनी सध्याय प्रारंभः ॥

॥ शिवसुखकारण उपदिशी, योगतणी अडदिठी रे ॥ ते गुणधुणी जि
 नवीरनो, करसुं धर्मनी पुठी रे ॥ वीरजिनेसर देशना ॥ १ ॥ सधन अधन
 दिनरयणिमां, बाल विकलने अनेरा रे ॥ अरथ जोये जेम जुजूआं, तेम
 उधनजरना फेग रे ॥ वी० ॥ २ ॥ दर्शन जे थयां जुजूआं, ते उधनजरने
 फेरे रे ॥ जेद थिरादिक दृष्टिमां, समकेतदृष्टिने हेरं रे ॥ वी० ॥ ३ ॥ द-
 र्शन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निजजावें रे ॥ दित करी जनने संजी

वनी, चारो तेह चरावे रे ॥ वी० ॥ ४ ॥ दृष्टि धिरादिक चारमां, मुगति प्र
याण न जाजे रे ॥ स्यणि सयन जेम श्रमहरे, सुरनर सुख तेम ठाजे रे
॥ वी० ॥ ५ ॥ एह प्रसंगथी में कहुं, प्रथमदृष्टि हवे कहिये रे ॥ जिहां
मित्रा तिहां बोधजे, ते तृण अग्नि सो लहिये रे ॥ वी० ॥ ६ ॥ व्रतपण
यम इहां संपजे, खेद नही शुभकार्जे रे ॥ द्वेष नही वली अवरसुं, एह मु
ण अंग विराजे रे ॥ वी० ॥ ७ ॥ योगनां वीज इहा प्रहे, जिनवर शुद्ध प्र
णामो रे ॥ ज्ञावाचारज सेवना, जवजद्वेग सुठामो रे ॥ वी० ॥ ८ ॥ इअ
अग्निग्रह पालवा, उंचधप्रमुखने दाने रे ॥ आदर आगम आस्तरी, लिख
नादिक बहु माने रे ॥ वी० ॥ ९ ॥ लेखन पूजन आपहुं, श्रुतवाचना उद
ग्राहो रे ॥ ज्ञावविस्तार सध्यायथी, चिंतन ज्ञावन चाहो रे ॥ वी० ॥ १० ॥
वीजकथा जली सांजली, रोमांचित हुइ देह रे ॥ एह अवंचक योगथी,
लहिय धरमसनेह रे ॥ वी० ॥ ११ ॥ सदगुरु योगे वंदनक्रिया, तेहथी
फल होये जेहो रे ॥ योगक्रिया फल जेदथी, त्रिविध अवंचक एहो रे ॥
वी० ॥ १२ ॥ चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती जोगी रे ॥ तेम जवि
सहज गुणें होये, उत्तमनिमित्त संयोगी रे ॥ वी० ॥ १३ ॥ एह अवंचकयो
ग ते, प्रगटे चरमावर्ते रे ॥ साधुनें सिद्धशासमो, वीजतुं चित्त प्रवर्ते रे ॥
वी० ॥ १४ ॥ करण अपूर्वना निकटथी, जे पहेलुं गुणठाणुं रे ॥ मुख्यपणे
ते इहां होये, सुयशविलासनुं टाणुं रे ॥ वी० ॥ १५ ॥

॥ ढाल वीजी ॥ मन मोहन मेरे ॥ ए देशी ॥

॥ दर्शन तारादृष्टिमां, मनमोहन मेरे ॥ गोमय अग्नि समान ॥ म०
॥ शौचसंतोषने तप जलो ॥ म० ॥ सध्याय ईश्वरध्यान ॥ म० ॥ १ ॥ नि
यमपंच इहां संपजे ॥ म० ॥ नही किरिया उद्वेग ॥ म० ॥ जिज्ञासा गु-
णातत्त्वनी ॥ म० ॥ पण नही निजद्वेग ॥ म० ॥ २ ॥ ए दृष्टें होय व-
रततां ॥ म० ॥ योगकथा बहुप्रेम ॥ म० ॥ अनुचित तेह न आचरे ॥
म० ॥ वाढ्यो वले जेम हेम ॥ म० ॥ ३ ॥ विनय अधिक गुणीनो करे
॥ म० ॥ देखे निजगुण हाण ॥ म० ॥ त्रास धरे जवजयथकी ॥ म० ॥ ज
व माने डखखाण ॥ म० ॥ ४ ॥ शास्त्र घणां मति थोडली ॥ म० ॥ शि-
ष्ट कहे ते प्रमाण ॥ म० ॥ सुयश लहे ए ज्ञावथी ॥ म० ॥ न करे जूठ
डफाण ॥ म० ॥ ५ ॥

॥ ढाल त्रीजी प्रथम गोवत्सा तणे ज्ञवेंजी रे ॥ ए देशी ॥

॥ त्रीजी दृष्टि बुद्धा कहीजी, काष्ठ अगनीसम बोध ॥ क्लेप नही आ-
सन सधेजी, श्रवणसमीहा सोध रे ॥ जिनजी ॥ धन धन तुज उपदेश ॥
१ ॥ तरुणसुखी स्त्री परिवर्त्योजी, जेम चाहे सुरगीत ॥ सांजलवा तेम त
त्वनेजी, ए दृष्टि सुविनीत रे ॥ जिनजी ॥ धन ॥ २ ॥ सरि ए बोधप्रवा-
हनीजी, ए विण श्रुत अलकूप ॥ श्रवणसमीहा ते किसीजी, शयित सुणे
जेम चूप रे ॥ जिण ॥ धण ॥ ३ ॥ मन रीजे तनु उल्लसेजी, रीजे बुजे ए
कतान ॥ ते इच्छाविणुं गुणकथाजी, बहिरा आगल गान रे ॥ जिण ॥ धण
॥ ४ ॥ विधन इहां प्रायें नहीजी, धर्महेतुमां कोय ॥ अनाचार परिहारथी
जी, सुयश महोदय होय रे ॥ जिण ॥ धनण ॥ ५ ॥

॥ ढाल चोथी ॥ जांजरीया मुनिवर धन धन तुम अवतार ॥ ए देशी ॥

॥ योगदृष्टि चोथी कहीजी, द्वास्ता तिहां न भ्रान ॥ प्राणायाम ते ज्ञा-
वथीजी, दीपप्रज्ञासम ज्ञान ॥ मनमोहन जिनजी, मीठी ताहरी वाण ॥
१ ॥ बाह्यज्ञाव रेचक इहांजी, पूरक अंतरज्ञाव ॥ कुंजक श्रितागुणें करी
जी, प्राणायाम स्वज्ञाव ॥ मण ॥ २ ॥ धर्मअरथे इहां प्राणनेजी, ठांने प-
ण नही धर्म ॥ प्राण अरथें संकट पडेजी, जून ए दृष्टिनो मर्म ॥ मण ॥ ३ ॥
तत्वश्रवण मधुरोदकेंजी, इहा होए बीजप्ररोह ॥ खार उदकसम जव त्य-
जेजी, गुरुजगति अज्ञोह ॥ मण ॥ ४ ॥ सूक्ष्मबोध तोपण इहांजी, सम-
केत विण नवि होय ॥ वेद्य संवेद्यपदें कहिनंजी, तेन अवेद्यं जोय ॥ मण
॥ ५ ॥ वेद्यबंध शिवहेतु ठेजी, संवेदन तस नाण ॥ नयनिकेपें अति ज्ञ-
लुंजी, वेद्यसंवेद्य प्रमाण ॥ मण ॥ ६ ॥ तेपद ग्रंथिविज्ञेदथी जी, ठेहली पा
पप्रवृत्ति ॥ तसलोह पदधृति समीजी, तिहां होय अंतनिवृत्ति ॥ मण ॥ ७ ॥
एहणकी विपरीत ठेजी, पद ते अवेद्य संवेद्य ॥ जवअजिनंदी जीवनेजी,
ते होय वज्र अज्ञेद्य ॥ मण ॥ ८ ॥ लोत्री कृपण दयामणोजी, मायी म-
ठरमाण ॥ जव अजिनंदी जय ज्ञथोजी, अफल आरंज अयाण ॥ मण
॥ ९ ॥ एहवा अवगुणवंतनुंजी, पद ठे अवेद्यकठोर ॥ साधुसंग आगम
तणुंजी, ते जीते धरि जोर ॥ मण ॥ १० ॥ ते जीतें सहजें टलेजी, विप-
म कुतर्कप्रकार ॥ दूर निकटहाथी हणोजी, जेम ए वठरविचार ॥ मण ॥
॥ ११ ॥ हुं पान्यो संशय नहीजी, मूर्ख करे ए विचार ॥ आलसुआ गु

रु शिष्यनोजी, ते तो वचनप्रकार ॥ म० ॥ १२ ॥ हीजे ते पति आववुं
 जी, आपमते अनुमान ॥ आगमने अनुमानधीजी, साचुं लहे सुज्ञान
 ॥ म० ॥ १३ ॥ नही सर्वज्ञ ते जूजूआजी, तेहना जे वली दास ॥ जगति
 देवनी पण कहीजी, चित्र अचित्र प्रकाश ॥ म० ॥ १४ ॥ देव संसारी अ
 नेक ठेजी, तेहनी जक्ति विचित्र ॥ एक राग पर छेपजी, एक मुगतिनी अ
 चित्र ॥ म० ॥ १५ ॥ इंद्रियार्थगत बुद्धि ठे जी, ज्ञान ठे आगमहेत ॥ अ
 संमोह शुभ्रकृति गुणेजी, तेणें फलजेद संकेत ॥ म० ॥ १६ ॥ आदर कि
 रिया रति घणीजी, विघ्न टले मिले लछि ॥ जिज्ञासा बुधसेवनाजी, शु
 भ्रकृति चिन्ह प्रत्यछि ॥ म० ॥ १७ ॥ बुद्धि क्रिया जवफल वीयेजी, ज्ञान
 क्रिया शिवअंग ॥ असंमोह किरिया दियेजी, औघ्र सुगतिफल चंग ॥ म०
 ॥ १८ ॥ पुजल रचना कारमीजी, तिहां जस चिच न दीन ॥ एक मार्ग
 ते शीवतणोजी, जेद लहे जग दीन ॥ म० ॥ १९ ॥ शिष्य जणी जिनदेश
 नाजी, कइ जन परिणति जिन ॥ कइ मुनिनी नयदेशनाजी, परमार्थधी
 अजिन ॥ म० ॥ २० ॥ शब्दजेद ऊगडो कियोजी, परमार्थ जो एक ॥
 कहो मंगा कहो सुरनदीजी, वस्तु फिरे नही ठेक ॥ म० ॥ २१ ॥ धर्म
 कृमादिक पण मिटेजी, प्रगटे धर्मसंन्यास ॥ तो ऊगडा जांटा तणोजी,
 मुनीने कवण अज्यास ॥ म० ॥ २२ ॥ अजिनिवेश सघलो त्यजीजी, चार
 लही जेणे दृष्टि ॥ ते लेसेहवे पांचमीजी, सुयश अमृत घनदृष्टि ॥ म० ॥ २३ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥ घन घन संप्रति साचो राजा ए ॥ देशी ॥

॥ दृष्टि श्रिसामांहे दर्शन नित्ये, रतनप्रज्ञासम जाणो रे ॥ आंति नही
 वली बोध ते सूक्ष्म, प्रत्याहार वखाणो रे ॥ १ ॥ ए गुण वीरतणो न वी
 सारुं, संज्ञारुं दिनरात रे ॥ पशु टाली सुररूप करे जे, समकेतने अवदा
 त रे ॥ ए गुण ॥ २ ॥, बालधुलि घरलीला सरिखी, जवचेष्टा इहां ज्ञासे
 रे ॥ सिद्धिवृद्धि घट्टमांसवि प्रगटे, अष्ट महासिद्धि पासे रे ॥ ए गुण ॥ ३ ॥
 विषयविकारें न इंद्रिय जोमे, ते इहां प्रत्याहारो रे ॥ केवलज्योति ते त
 त्व प्रकाशे, शेष उपाय असारो रे ॥ ए गुण ॥ ४ ॥ शीतल चंदनधी
 पण उपनो, अगनी दहे जेम वनने रे ॥ धरम जनितपण जोग इहां ति
 म, लागे अनिष्ट ते मनने रे ॥ ए गुण ॥ ५ ॥ अंशे होय इहां अवि

नाही, पुजल जाल तमासी रे ॥ चिदानंदघन सुयशविलासी, केम होय जगनो आसी रे ॥ ए गुण ॥ ६ ॥

॥ ढाल ठठी ॥ जोलीडा हंसा रे विषय न राचीर्ये ॥ ए देशी ॥

॥ अचपल रोगरहित निष्ठुर नही, अल्प होय होय नीति ॥ गंध ते सारो रे कांति प्रसन्नता, सुस्वर प्रथम प्रवृत्ति ॥ १ ॥ घनघन शासन श्री जिनवरतलुं ॥ ए आंकणी ॥ धीर प्रजावी रे आगळे योमश्री, मित्रादिक युतचित ॥ लाज इष्टनो रे दंड अधृष्यता, जनप्रियता होय नित्य ॥ घ० ॥ २ ॥ नाश दोषनो रे तृपति परम वलें, समता अचित संयोग ॥ नाश वयरनो रे बुद्धि संतंजरा, ए निष्पन्नह योग ॥ घ० ॥ ३ ॥ चिन्हयोगना रे जे परग्रंथमां, योगाचारय दिठ ॥ पंचमदृष्टिप्रकी ते जोडीर्ये, एहदा तेह गरिठ ॥ घ० ॥ ४ ॥ ठठि दिठि रे हवे कांता कहं, तिहां ताराजप्रकाश ॥ तत्वमीमांसा रे दृढ होये धारणा, नही अन्य श्रुतवाश ॥ घ० ॥ ५ ॥ मन महिलानुं रे वाहवा ऊपरें, बीजां काम करंत ॥ तेम श्रुतधर्मे रे एहमां मन धरे, ज्ञानाकेपकवंत ॥ घ० ॥ ६ ॥ एहवे ज्ञाने रे विघन निवारणे, जोग नही जवहेत ॥ नवि गुण दोष न विषयस्वरूपश्री, मनगुण अवगुण खेत ॥ घ० ॥ ७ ॥ मायापाणी रे जाणी तेहने, लंघी जाय अनोल ॥ साचुं जाणी रे ते बीहतो रहे, न चले मामानोल ॥ घ० ॥ ८ ॥ जोगत त्वने रे एम जय नवि टले, जूग जाणे रे जोग ॥ ते ए दृष्टि रे जवसायर तरे, लहे वली सुयश संयोग ॥ घ० ॥ ९ ॥

॥ ढाल सातमी ॥ ए ठिंनि किहां राखी ॥ ए देशी ॥

॥ अर्कप्रजासम बोध प्रजासां, ध्यानप्रिया ए दिठि ॥ तत्वतणी प्रतिपत्ते इहां वली, रोग नही सुख पुढी रे ॥ जविका वीरवचग चित्त धरियें ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ सघलुं परवश ते डुखलक्षण, निजवश ते सुख लहियें ॥ ए दृष्टे आतमगुण प्रगटे, कहे सुख ते कुण कहियें रे ॥ जविण ॥ २ ॥ नागरसुख पामर नवि जाणे, वल्लजसुख न कुमारी ॥ अनुभव विण तेम ध्यानतणुं सुद्ध, कुण जाणे नर नारी रे ॥ जण ॥ ३ ॥ एह दृष्टि मां निर्मलवोपें, ध्यान सदा होये साचुं ॥ दूषणरहित निरंतर ज्योति, रतन ते दीपें जाचुं रे ॥ जण ॥ ४ ॥ विषजाग कय शांत वाहिता, शिवमारग धुवनाम ॥ कहे असंगक्रिया इहां योगी, विमलसुयश परिणाम रे ॥ जण ॥ ५ ॥

॥ ढाल आठमी ॥ तुज साथें नहीं बोलुं महारा चाला तें
मुजने वीसारी जी ॥ ए देशी ॥

॥ दृष्टि आठमी सारसमाधें, नाम पुरा तस जाणुंजी ॥ आपस्वजावें
प्रवृत्ति पूरण, शशिसम बंध चखाणुंजी ॥ निरतिचारपद एहमां योगी, क
हियें नहिं अतिचारीजी ॥ आरोहे आरूढे गिरिने, तेम एहनी गति न्यारी
जी ॥ १ ॥ चंदनगंध समान खिमा इहां, वासकने न गवेपेजी ॥ आसंगें
चर्जित चली एहमां, किरिया निजगुण लेखेजी ॥ शिक्षाथी जेम रत्तनि
योजन, दृष्टिनित्र तेम एहोजी ॥ तास नियोगं करण, अपूरव, लहे मुनि
केवल गेहोजी ॥ २ ॥ क्लीणदोष सर्वज्ञ महामुनि, सर्वलब्धिफलज्ञोगी
जी ॥ परउपगार करी शिवमुख ते, पामे योग अयोगीजी ॥ सर्व अत्रुद्धय
सर्व व्याधिद्वय, पूरण सर्व समीहाजी ॥ सर्व अरथयोगें सुख तेद्वयी, अ-
नंत गुण निरीहाजी ॥ ३ ॥ ए अडदिठी कही संक्षेपे, योगशास्त्र संकेते
जी ॥ कुल योगीने प्रवृत्तचक्र जे तेहतणे हितहेतेंजी ॥ योगी कुलें जाया
तस धर्म, अनुगत ते कुलयोगेंजी ॥ अक्षेरी गुरुदेवद्विज प्रिय, दयावंत उ
पयोगेंजी ॥ ४ ॥ शुभ्रूपादिक अडगुण संपूरण, प्रवृत्तचक्र ते कहियेंजी ॥
यमद्वय लाज्जी परडुग अर्थी, आद्य अवंचक लहियेंजी ॥ चार आहिसादि
क यम इहा, प्रवृत्ति थिर सिद्धिनामेंजी ॥ शुद्ध रुचें पाले अतिचारद, टा
ले फल परिणामेंजी ॥ ५ ॥ कुलयोगीने प्रवृत्तचक्रने, श्रवणशुद्धि पक्षपातें
जी ॥ योगदृष्टि ग्रंथे हित होवे, तेषे कह्युं ए वातेंजी ॥ शुद्ध ज्ञावने सूनी
किरिया, बेहुमां अंतर केतोजी ॥ जलद्वलतो सूरजने खजुनु, तास तेजमां
तेतोजी ॥ ६ ॥ गुह्यज्ञाव ए तेदने कहियें, जेहसुं अंतर ज्ञाजेजी ॥ जेहसुं
चित्त पटंतर होवे, तेहसुं गुह्य न ठाजेजी ॥ योग्य अयोग्य विज्ञाग अलद-
तो, करसे मोठी वातोजी ॥ खमसे ते पंक्ति परषदमां, मुष्टि प्रहारने ला-
तोजी ॥ ७ ॥ सज्ञा त्रण श्रोतागुण श्रवणगुण, नंदिसूत्रें दीशेजी ॥ ते जाणि
ए ग्रंथयोग्यने, देजो सुगुण जगीशेजी ॥ लोकपूरयो निज निज इहा, योग
ज्ञाव गुणरथेजी ॥ श्रीनयविजय विबुधपयसेवक, वाचकयशने वयणेजी ॥ ८

॥ श्री विनयविजयजीकृत ऋगवतीसूत्रनी सद्याय ॥

॥ कपूर होये अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ वंदि प्रणामी प्रेमशुं रे, पूढे
गौतम स्वाम ॥ वीरर्जिनेसर हितकरी रे, अरथ कहे अजिराम रे ॥ ऋवि

नाशी, पुञ्ज जाल तमासी रे ॥ चिदानंदधन सुयशविवासी, केम होय जगनो आसी रे ॥ ए गुण ॥ ६ ॥

॥ ढाल ठठी ॥ चोलीडा हंसा रे विषय न राचीये ॥ ए देशी ॥

॥ अचपल रोगरहित निष्ठुर नही, अदृष्ट होय दोंय नीति ॥ मंध ते सारो रे कांति प्रसन्नता, सुस्वर प्रथम प्रवृत्ति ॥ १ ॥ धनधन शासन श्री जिनवरतपुं ॥ ए आंकणी ॥ धीर प्रजावी रे आगळे योमथी, मित्रादिक युतचित ॥ लाज इष्टनो रे दंघ्र अधृष्यता, जनप्रियता होय नित्य ॥ ध० ॥ २ ॥ नाश दोषनो रे तृपति परम बलें, समतल अचित संयोग ॥ नाश वयरनो रे बुद्धि संतंजरा, ए निष्पन्नह योग ॥ ध० ॥ ३ ॥ चिन्हयोगना रे जे परग्रंथमां, योगाचारय दिठ ॥ पंचमदृष्टिअकी ते जोडीये, एहका तेह गरिठ ॥ ध० ॥ ४ ॥ ठठि दिठि रे हवे कांता कहुं, तिहां ताराजप्रकाश ॥ तत्वमीमांसा रे दृढ होये धारणा, नही अन्य श्रुतवाश ॥ ध० ॥ ५ ॥ मन महिदानुं रे वाहवा ऊपरें, बीजां काम करंत ॥ तेम श्रुतधर्म रे एहमां मन धरे, ज्ञानाक्षेपकवंत ॥ ध० ॥ ६ ॥ एहवे ज्ञाने रे विघन निवारणे, जोग नही जवहेत ॥ नवि गुण दोष न विषयस्वरूपथी, मनगुण अवगुण खेत ॥ ध० ॥ ७ ॥ मायापाणी रे जाणी तेहने, लंघी जाय अहोल ॥ साचुं जाणी रे ते बीहतो रहे, न चले कामाहोल ॥ ध० ॥ ८ ॥ जोगत त्वने रे एम जय नवि टले, जूवा जाणे रे जोग ॥ ते ए दृष्टि रे जवसायर तरे, लहे वली सुयश संयोग ॥ ध० ॥ ९ ॥

॥ ढाल सातमी ॥ ए ठिंनि किहां राखी ॥ ए देशी ॥

॥ अर्कप्रजासम बोध प्रजाभां, ध्यानप्रिया ए दिठि ॥ तत्वतणी प्रतिप-
त्ते इहां वली, रोग नही सुख पुठी रे ॥ जचिका वीरवचग चित्त धरियें ॥
॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ सघलुं परवश ते डुखलक्षण, निजवश ते सुख ल-
हियें ॥ ए दृष्टे आतमगुण प्रगटे, कहो सुख ते कुण कहियें रे ॥ जविण
॥ २ ॥ नागरसुख पामर नवि जाणे, वद्वजसुख न कुमारी ॥ अनुजव
विण तेम ध्यानतणुं सुख, कुण जाणे नर नारी रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ एह दृष्टि
मां निर्मलवोपें, ध्यान सदा होये साचुं ॥ दूषणरहित निरंतर ज्योति, रतन
ते दीपें जाचुं रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ विषजाग कय शांत वाहिता, शिवमारग ध्रु
वनाम ॥ कहे असंगक्रिया इहां योगी, विमलसुयश परिणाम रे ॥ ज० ॥ ५

॥ ढाल आठमी ॥ तुज साथें नहीं बोलुं महारा चाला तें
मुजने वीसारी जी ॥ ए देशी ॥

॥ दृष्टि आठमी सारसमाधें, नाम पुरा तस जाणुंजी ॥ आपस्वप्नावें
प्रवृत्ति पूरण, शशिसम बंध वखाणुंजी ॥ निरतिचारपद एहमां योगी, क
दियें नहिं अतिचारीजी ॥ आरोहें आरूढे गिरिने, तेम एहनी गति न्यारी
जी ॥ १ ॥ चंदनगंध समान खिमा इहां, वासकने न गवेपेजी ॥ आसंगें
घर्जित कवी एहमां, किरिया निजगुण लेखेजी ॥ शिक्षाथी जेम रत्तननि
योजन, दृष्टिनिन्न तेम एहोजी ॥ तास नियोगें करण, अपूरव, लढे मुनि
केवल गेहोजी ॥ २ ॥ क्षीणदोष सर्वज्ञ महामुनि, सर्वलब्धिफलज्ञोगी
जी ॥ परब्रपगार करी शिवसुख ते, पामे योग अयोगीजी ॥ सर्व अत्रुक्षय
सर्व व्याधिबलय, पूरण सर्व समीहाजी ॥ सर्व अरअयोगें सुख तेहथी, अ-
नंत गुण निरीहाजी ॥ ३ ॥ ए अडदिठी कही संकेपे, योगशास्त्र संकेते
जी ॥ कुल योगीने प्रवृत्तचक्र जे तेहतणे दितहेतेंजी ॥ योगी कुलें जाया
तस धर्म, अनुगत ते कुलयोगेंजी ॥ अछेरी गुरुदेवद्विज प्रिय, दयावंत उ
पयोगेंजी ॥ ४ ॥ शुश्रूषादिक अडगुण संपूरण, प्रवृत्तचक्र ते कहियेंजी ॥
यमद्वय लाज्जी परडुग अर्थी, आद्य अवंचक लहियेंजी ॥ चार आहंसादि
क यम इहा, प्रवृत्ति थिर सिद्धिनामेंजी ॥ शुद्ध रुचें पाले अतिचारद, टा
ले फल परिणामेंजी ॥ ५ ॥ कूलयोगीने प्रवृत्तचक्रने, श्रवणशुद्धि पक्षपातें
जी ॥ योगदृष्टि ग्रंथे दित होवे, तेषे कह्युं ए वातेंजी ॥ शुद्ध ज्ञावने सूनी
किरिया, बेहुमां अंतर केतोजी ॥ जलद्वलतो सूरजने खजुळ, तास तेजमां
तेतोजी ॥ ६ ॥ गुह्यज्ञाव ए तेदने कहियें, जेहसुं अंतर ज्ञाजेजी ॥ जेहसुं
चित्त पटंतर होवे, तेहसुं गुह्य न ठाजेजी ॥ योग्य अयोग्य विज्ञाग अलद-
तो, करसे मोटी वातोजी ॥ खमसे ते पंक्ति परषदमां, मुष्टि प्रहारने ला-
तोजी ॥ ७ ॥ सज्ञा त्रण श्रोतागुण अवगुण, नंदिसूत्रें दीशेजी ॥ ते जाणि
ए ग्रंथयोग्यने, देजो सुगुण जगीशेजी ॥ लोकपूरयो निज निज इहा, योग
ज्ञाव गुणरयणेजी ॥ श्रीनयविजय विबुधपयसेवक, वाचकयशने वयणेजी ॥ ८

॥ श्री विनयविजयजीकृत ऋगवतीसूत्रनी सधाय ॥

॥ कपूर होये अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ वंदि प्रणामी प्रेमशुं रे, पूढे
गौतम स्वाम ॥ वीरजिनेसर दितकरी रे, अरथ कहे अनिराम रे ॥ जवि

का सुणजो जगवइ अंग, मनआणी नठरंग रे ॥ जण ॥ सुण ॥ १ ॥ गौत-
 मस्वामीयें पूढीयां रे, प्रश्न सहस ठत्रीश ॥ तेहना उत्तर एहमां रे, दीधा
 श्रीजगदीश रे ॥ जण ॥ २ ॥ एक सुअखंध एहनो रे, शतक एक चालीश
 ॥ शतकें शतकें अतिघणा रे, उद्देशा जगदीश रे ॥ जण ॥ ३ ॥ वांच्युं सू-
 जे तेहने रे, जेणे ठमासी योग ॥ वांच्यो होय गुरु आगले रे, तप किरिया
 संयोग रे ॥ जण ॥ ४ ॥ सांजलनार एकासणुं रे, पचखी करे त्रिविहार ॥
 ब्रह्मचारि जूईं सुवे रे, करे सचितपरिहार रे ॥ जण ॥ ५ ॥ देव वंदे त्रिण टं
 कना रे, पडिक्कमणुं बेवार ॥ कठिण बोल नवि बोलीयें रे, रागद्वेष निवार
 रे ॥ जण ॥ ६ ॥ कलह न कीजे केहशुं रे, पापस्थानक अठार ॥ यथाशक्ति
 एम वरजीये रे, धरमध्यान मन धार रे ॥ जण ॥ ७ ॥ उंमे मन आलोचि
 यें रे, एहना अर्थविचार ॥ वलि वलि एह संजारियें रे, जाणी जगमें सार
 रे ॥ जण ॥ ८ ॥ पंचवीश लोगस तणो रे, कीजीये कानसग ॥ एह सूत्र
 आराधवुं रे, स्थिरकरी चित्त अजंग रे ॥ जण ॥ ९ ॥ नाम त्रिणठे एह-
 नां रे, पहिलुं पंचसुं अंग ॥ विवाहपन्नती ए जलुं रे, जगवइसूत्र सुरंग रे
 ॥ जण ॥ १० ॥ जिणदिन सूत्र मंठावियें रे, तिणदिन गुरुनी जक्ति ॥ अंग
 पूजणुं कीजीयें रे, प्रजावना निजशक्ति रे ॥ जण ॥ ११ ॥ गौतमने नामें
 करो रे, पूजाजक्ति उदार ॥ लखमीनो लाहो लीयो रे, शक्तितणे अनुसा
 र रे ॥ जण ॥ १२ ॥ मांठवना व्यवहारिया रे, धन सोनी संग्राम ॥ जेणे
 सोनैयें पूजीयुं रे, गुरुगौतमनुं नाम रे ॥ जण ॥ १३ ॥ सौनइया अविच-
 ल थया रे, ते ठत्रीश हजार ॥ पुस्तक सोवन अकरें रे, दीसे घणा जंमार
 रे ॥ जण ॥ १४ ॥ जपिये जगवतीसूत्रनी रे, नोकारवाली वीस ॥ ज्ञानाव
 रणी बुटियें रे, एहथी वीसवावीस रे ॥ जण ॥ १५ ॥ सर्पजेर जेम न्त
 रे रे, ते जिम मंत्रप्रयोग ॥ तिम ए अकर सांजले रे, टाळे करमना रोग
 रे ॥ जण ॥ १६ ॥ सूत्र ए पूरुं थइ रहे रे, उंठव करो अनेक ॥ जक्ति साधु
 साइमी तणी रे, रातीजगा विवेक रे ॥ जण ॥ १७ ॥ विधेकरी इम सांज
 ले रे, जे अग्यारे अंग ॥ थोडा जवमांहे लहे रे, ते शिवरमणी संग रे ॥
 जण ॥ १८ ॥ संवत सत्तर अठत्रिंशमे रे, रह्या रांदेर चोमास ॥ संघें सूत्र
 ए सांजळ्युं रे, आणी मन उल्लास रे ॥ जण ॥ १९ ॥ पूजाजक्ति प्रजावना
 रे, तप किरिया सुविचार ॥ विधि इम सघलो साचव्यो रे, समयतणे अ

नुसार रे ॥ ज० ॥ १० ॥ कीर्तिविजय उवजायनो रे, सेवक करे सद्याय
॥ इणिपरे जगवती सूत्रनी रे, विनयविजय उवद्याय रे ॥ ज० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ श्रीमद्यशोविजयजीकृत अगियार अंगनी सद्याय ॥

॥ तत्र प्रथम आचारंगसूत्रनी सद्याय लिख्यते ॥

॥ कोइलो परवत धूँवलो रेलो ॥ ए देशी ॥ आचारांग पहेलुं कहुं रेलो,
अंग इग्यार मजार रे ॥ चतुरनर ॥ अठार हजार पदं जिहां रेलो, दाख्यो
मुनि आचार रे ॥ च० ॥ १ ॥ ज्ञावधरीने सांजलो रेलो, जिम ज्ञाजे जवज्जीति
रे ॥ च० ॥ पूजा जक्तिप्रज्ञावना रेलो, साचविये सविरीति रे ॥ च० ॥ ज्ञाव० ॥
ए आकणी ॥ दो सुअखंध सुहामणां रेलो, अऊयणां पणवीस रे ॥ च० ॥
शाश्वताअर्थे इहां कहे रेलो, युक्ति श्रीजगदीश रे ॥ च० ॥ ज्ञा० ॥ १ ॥ मीठडे
वयणें गुरु कहुं रेलो, मीठडुं अंगज एह रे ॥ च० ॥ मीठडीरीते सांजले
रेलो, सुख लहे मीठडां तेह रे ॥ च० ॥ ज्ञा० ॥ ३ ॥ सुरतरु सुरमणि
सुरगवी रेलो, सुरघट पूरे काम रे ॥ च० ॥ सांजलवुं सिद्धांतनुं रेलो, ते
दधी अति अजिराम रे ॥ च० ॥ ज्ञा० ॥ ४ ॥ श्रीनयविजयविवुद्धतणो
रेलो, वाचकजस कहे शीश रे ॥ च० ॥ तुमने पहिला अंगनो रे लो, शरण
होयो निशदीश रे ॥ च० ॥ ज्ञा० ॥ ५ ॥ इति ॥ १ ॥

॥ अथ बीजा अंग सूयगडांगसूत्रनी सद्याय ॥

॥ कपूर होवे अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ सूयगडांग हवे सांजलोजी, बी
जो मनने रंग ॥ श्रोताने आवे जे रुचिजी, पाठातर ॥ सातम ज्ञावे मन रुचे
जी, तेहज लागे अंग ॥ १ ॥ चतुरनर धारो समकितज्ञाव, ए ठे जवसायरमां
नाव ॥ च० ॥ ए आकणी ॥ सूअखंधा दोय इहां जलांजी, अऊयणां तेवीस
॥ तिसय तिसठि कुमतिताणुंजी, मतखंमन सुजगीस ॥ च० ॥ २ ॥ कहिउ
दविय अणुजोगमांजी, एह पढूत अधिकार ॥ साधु जवहरीनो ज्ञाजोजी,
जवहरनो व्यापार ॥ च० ॥ ३ ॥ अर्चक वर्चकना इहांजी, श्रोताना अंतर
होय ॥ गुरुजक्ता सुख पामशेजी, अवरजमे मति खोय ॥ च० ॥ ४ ॥ अंग
ज पूजा प्रज्ञावतांजी, पुस्तक लेखन दान ॥ गुरुउपकार संजारवोजी, आ
दर जक्ति निदान ॥ च० ॥ ५ ॥ वक्ता एहवो कोइ नहीजी, जिम ज्ञाख्यो
तुमे धर्म ॥ वाचकयश कहे हर्षशुंजी, इम ते विनयनो मर्म ॥ च० ॥ ६ ॥

॥ अथ त्रीजा अंगठाणांगसूत्रनी सञ्चाय ॥

॥ हूं वारी रे गोडीगामनी ॥ ए देशी ॥ त्रीजुं अंग हवे सांजलो, जिहां
एकादिक दसठाण ॥ मोहन ॥ नहेसा ठे अति घणा, अर्थ अनंतप्रमाण ॥
॥ मो० ॥ १ ॥ वारी रे हूं जिनवचननी, जेहना गुणानो नही पार ॥ मो०
॥ ए आंकणी ॥ जेह क्रूर अने बहुलंपटी, तेहनो पण करे नक्षर ॥ मो० ॥
२ ॥ वारी० ॥ गीतारथ मुख सांजळ्ये, लहे नयजाव नञ्जास ॥ मो० ॥ त
रणीकिरण फरसैंकरी, हुये सवि कमलविकास ॥ मो० ॥ वा० ॥ ३ ॥ जे
एहनी दिये श्रुतदेशना, तेम हूँ सद्गुरु दूर ॥ मो० ॥ तस अंगविलेपन
कीजीये, चंदन मृगमदशुंकपूर ॥ मो० ॥ वा० ॥ ४ ॥ जिम जमर कमल
वन सुख लहे, कोकिल पामी सहकार ॥ मो० ॥ तिम श्रोता वक्ताने म
ले, पामे श्रुत अर्थनो पार ॥ मो० ॥ वा० ॥ ५ ॥ खान गली साकर ग-
ली, वली अमृत गढ्युं कहेवाय ॥ मो० ॥ माहरे तो मन श्रुत आगले, ते
कांइ न आवे दाय ॥ मो० ॥ वा० ॥ ६ ॥ श्रुतना गुण मन लावीयें, वली
जावियें मन वैराग ॥ मो० ॥ ठाणांगे प्रेम जगावियें, उपजावियें सुय
शसोजाग ॥ मो० ॥ वा० ॥ ७ ॥ इति ॥ ३ ॥

॥ अथ चोथा अंग समवायांगसूत्रनी सञ्चाय लिख्यते ॥

॥ निंझडी वेरण हूँ रही ॥ ए देशी ॥ चोथुं समवायांग ते सांजलो,
मुकी आमलो रे मननो धरि जावके ॥ एना अर्थ अनोपम अतिघणा, जग
जागेरे एहनो सुप्रजावके ॥ १ ॥ उत्तम धरमें थिर रह्यो ॥ ए आंकणी ॥ सं
ख्याशत एगुणुत्तरा, अणेगुत्तरारे बीजीपण जाणके, सरवालो गणि पिटक
नो, एहमांठे रे जूँ युक्तिप्रमाणके ॥ उ० ॥ २ ॥ इगलखपद एहमां कथां,
वली ऊपर रे चुंआलहजारके ॥ अप्रस्त संघाते दोषजे, करे सद्गुरु रे तेह
नो परिहारके ॥ उ० ॥ ३ ॥ जिनवयणे न विरोध ठे, तस जासने रे मंदबुद्धि
होइके ॥ सद्गुरु विरहें अलपता, गीतारथ हो गुणग्राहक कोइके ॥ उ० ॥
॥ ४ ॥ बलिहारी सद्गुरु तणी, जे दाखे रे श्रुतअर्थ निचोळके ॥ कीजे को
डि वधामणां, लीजे ज्ञामणां रे नित नित रंगरोलके ॥ उ० ॥ ५ ॥ सद्गुरु
मुख जे सांजळे, श्रुतज्ञक्ति रे नजमणां सारके ॥ श्रीनयविजयविबुधतणो,
कहे सेवक हो तस हुये नवपारके ॥ उ० ॥ ६ ॥ इति ॥ ४ ॥

॥ अथ पांचमा अंग जगवतीसूत्रनी सद्याय लिख्यते ॥

॥ अहो मतवाले साजनां ॥ ए देशी ॥ अंग पांचमुं सांजलो तुमे, जग
वई नामे चंगो रे ॥ पूजा करो ने प्रजावना, आणी मनमांदि दृढरगो रे ॥
॥ १ ॥ सुगुणसनेही साजनां, तुमे मानो ने बोल अमारो रे ॥ हितकारी जे
हित कहे, ते तो जाणीजे मनप्यारो रे ॥ सु० ॥ १ ॥ ब्रह्मचारी जुइं सुए,
करी एकासणुं त्रिविहारो रे ॥ पडिकमणां दोइवारनां, करे सच्चिततणो
परिहारो रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ देव वांदे त्रिणटकना, वलि कठिणवचन नवि वो
ले रे ॥ पापस्थानक शक्ते त्यजे, धर्मीं सुं दइहुं खोले रे ॥ सु० ॥ ४ ॥
कीजे सूत्रआराधना, काजसग्लोगस्स पणवीसो रे ॥ जपिये जगवईना
मनी, नोकारवाली वीसो रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ जे दिन एह मंदाविये, गुरुजक्ति
ते देश विशेषे रे ॥ कीजे वली पूरे थये, उत्सव बहुजन देखे रे ॥ सु०
॥ ६ ॥ जक्ति साधुसाइमीतणी, वली रातिजगो सुविवेको रे ॥ लखमी ला
हो अतिघणो, वली गौतम नामे अनेको रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ त्रएय नाम ठे एह
नां, पहिलुं तिहां पंचम अंगो रे ॥ विवाहपत्रती वीजुं जलुं, त्रीजुं जगवई
सूत्र सुरंगो रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ एकसुयखंध एहनो वली, वली च्यालीश शतक
सुहाया रे ॥ उद्देसा तिहां अतिघणा, गमजंग अनंत कहाया रे ॥ सु० ॥
॥ ९ ॥ गौतम पूठे प्रज्जु कहे, तेतो नाम सुण्यां सुख होय रे ॥ सइसठती
स ते नामनी, पूजा कीजे विधि जोय रे ॥ सु० ॥ १० ॥ मंरुपगिरि विवहा
रियो, जयो धन्यसोनी संग्राम रे ॥ जिणे सोनैये पूजीयां, श्रीगुरुगौतमनाम
रे ॥ सु० ॥ ११ ॥ पुस्तकसोनाने अकरे, तेतो दीसे घणा जंमार रे ॥ क-
ट्याणे कट्याणनो, होय अनुबंध अतिविस्तार रे ॥ सु० ॥ १२ ॥ सफलम
नोरथ जस होये, ते पुण्यवंतमां पूरो रे ॥ उमाही अलगो रहे, तेतो पुण्य
थकी अधूरो रे ॥ पाठांतरे ॥ तेतो माणस नही ठोरो रे ॥ सु० ॥ १३ ॥
सूत्र सांजलीये जगवती, पाठांतरे ॥ मानव जव पामी करी, लीजे लखमी
नो लाहो रे ॥ ज्ञावजूषणमां धारीये, सइहणां उज्जाहो रे ॥ सु० ॥ १४ ॥
उत्कृष्टि आराधना, जगवइ सुणतां शिव लहिये रे ॥ त्रीजे जव वाचक्य-
श कहे, इम ज्ञाख्युं ते सहइये रे ॥ सु० ॥ १५ ॥

॥ अथ षठा अंग ज्ञाताधर्मकथानी सद्याय लिख्यते ॥

॥ प्यारो प्यारो करती हो लाज ॥ ए देशी ॥ ज्ञाताधर्मकथा ठुं अंग,

सांज्ञलिये मन धरी रंग ॥ सुअखंध दोइ इहां सारा, सुणि सफल करो अब
तारा हो लाल ॥ १ ॥ प्यारी जिनवर वाणी, लागे मीठी साकरवाणी हो
लाल ॥ प्याण ॥ ए आंकणी ॥ पहिलामां कथा नंगणीश, दसवग्ग बीजे
सुजगीस ॥ ऊठकोडी कथा तिहां सारी, ठठा अंगनी जानं बलिहारि हो
लाल ॥ प्याण ॥ २ ॥ उत्सव आणंद धारो, बीजा ध्याने जन तारो ॥ रोमां
चित हुइ चित्तधारो, समकित पर्याय वधारो हो लाल ॥ प्याण ॥ ३ ॥ सा-
हाज्य करे श्रुत सुणातां, ते सुख पामे मनगमतां ॥ जे विघन करे हुइ आ-
मो, ते तो माणस नही पण पामो हो लाल ॥ प्याण ॥ ४ ॥ वाचक जस
कहे सुणो लोग, श्रुत टाले विघननो सोग ॥ कहियें श्रुतज्ञक्ति नवि त्यजि
यें, गुरुचरण कमल नित ज्ञजियें हो लाल ॥ प्याण ॥ ५ ॥ इति ॥ ६ ॥

॥ अथ सातमा अंग उपासकदशांगनी सद्यय लिख्यते ॥

॥ चोपाइनी देशी ॥ सातमुं अंग उपासकदशा, ते सांज्ञलवा मन उ-
द्धस्यां ॥ टोलें मलि मनोहरज्ञाव, पाम्यो धर्मकथा प्रस्ताव ॥ १ ॥ श्रावक
धर्मप्रज्ञावक जया, आणंदादिक जे दृढ थया ॥ तेहनां एहमां सरसचरित्र,
सांज्ञली करियें जन्म पवित्र ॥ २ ॥ श्रावक जिम उपसर्गा खमे, तेडी मु
निनें वीर कहे तमे ॥ गृहीनें खमवुं इम चित्त वस्युं, श्रुत पाखें तुम कहे
वुं किश्युं ॥ ३ ॥ जिम जिम रीजे चित श्रुत सुणी, तिम तिम श्रोता होय
बहुगुणी ॥ रोमांचित हुये काया सद्य, जाये नाग सकल अवद्य ॥ ४ ॥
जिनवाणी जेहने मन रुची, ते सत्यवादि तेहज शुचि ॥ धर्मगोठि तेहशुं
कीजियें, वाचक जस कहे गुणें रीजियें ॥ ५ ॥ इति ॥ ७ ॥

॥ अथ आठमा अंग अंतगड दशांगसूत्रनी सद्यय लिख्यते ॥

॥ साहेलडीयांनी देशी ॥ आठमुं अंग अंतगडदशा साहेलडीयां, सुण
जो धरिय विवेक गुण वेलडीयां ॥ बोढ्या बोल ते पालियें साण ॥ नवि त्य
जियें गुणटेक गुण ॥ १ ॥ एक सुअखंध ठे एहनो साण ॥ मोटो ठे अडवग्ग
गुण ॥ चरित्र सुणो बहु वीरनां साण ॥ रोमांचित हूए अंग गुण ॥ २ ॥
धरम ते सोवन घटसमो साण ॥ जांगे पण नवि जाय गुण ॥ घाट घडाम-
ण जो गयुं साण ॥ वस्तुनुं मूल कहाय गुण ॥ ३ ॥ नित नित राचिये मा-
चिये साण ॥ याचिये एकज मुक्ति गुण ॥ पुण्यनी प्रकृति निकाचीये साण ॥
धर्मरंग एह युक्ति गुण ॥ ४ ॥ श्रीनयविजय विबुधतणो साण ॥ वाचकयश क

हे शीश गुण ॥ मुऊने जिनवाणीतणो साणानेह होजो निशदीश गुण ॥५॥

॥ अथ नवमा अंग अणुत्तरोववाइसूत्रनी सद्याय लिख्यते ॥

॥ रसियानी देशी ॥ नवमुं अंग हवे जवि सांजलो, अणुत्तरोववाइ नाम सोजागी ॥ सुणता रे सकल प्रमादने परिहरो, जिम होये समपरिणाम वैरागी ॥ नवमुं ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ वूजे रे रीजे रे श्रोता जो सुणी, तो सीजे सवि काम ॥ सोण ॥ वाधे रे रंग ते श्रुतवक्तातणो, विहुं प्रति बहु धाम ॥ वैण नण ॥ २ ॥ अंधा आंगे रे दरपण दाखवो, वहिरा आंगे रे गान सोण ॥ धर्मरहस्यकथा जड आगले, त्रण्ये एह समान ॥ वैण नण ॥ ३ ॥ जे जेहवो होये ते समजे तिस्युं, निःस्पृह करसे रे साच सोण ॥ धर्मगोठ धर्मीश्युं वाजशे, बीजुं मोरनुं नाच ॥ वैण नण ॥ ४ ॥ धर्म करी जे अनुत्तर सुर हुवा, तेहना इहां अवदात सोण ॥ वाचक जस कहे जे ए सांजले, धन तस मातने तात वैण ॥ नण ॥ ५ ॥ इति ॥ ए ॥

॥ अथ दशमा अंग प्रश्रव्याकरणसूत्रनी सद्याय लिख्यते ॥

॥ मोतीडानी देशी ॥ प्रश्रव्याकरणांग ते दशमुं, सांजलतां कांइ न हु ए विसमो ॥ ज्ञाविया प्रवचनना रंगी, आविया सुविहितना संगी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ आश्रवपंचने संवरपंच, दश अध्ययन इहां सुप्रपंच ॥ ज्ञावियाण ॥ टेक ॥ एहिज हित जाणीने धाख्या, अतिशय हुता ते कृताख्या ॥ ज्ञाण ॥ जेह अपुष्टालंबन सेवी, तेहने विद्या सबल न देवी ॥ ज्ञाण ॥ २ ॥ नाग कुमार सुवर्णकुमार, वर दीये नवि ले अणगार ॥ ज्ञाण ॥ एहवा इहां अक्षर संयोग, नंदीसूत्रनो दिउ उपयोग ॥ ज्ञाण ॥ ३ ॥ सर्वसूत्र महामंत्र नी वाणी, लब्धि अठावीश गुणनी खाणी ॥ ज्ञाण ॥ पण ए जगमां अधि क गवाणी, पाठ सिद्ध अतिशय सपराणी ॥ ज्ञाण ॥ ४ ॥ गुरुज्ज्जाने प्रवचनरागी, सुविहितसंग सदा सोजागी ॥ ज्ञाण ॥ वाचक जस कहे पातक दहशे, श्रुत सांजलतां ते सुख लहेशे ॥ ज्ञाण ॥ ५ ॥ इति ॥ १० ॥

॥ अथ अग्नीयारमा अंग विपाकसूत्रनी सद्याय लिख्यते ॥

॥ तेतरीया ज्ञाइ तेण ॥ ए देशी ॥ अंग इग्यारमो सांजलो, हवे चिरविपाक शुज्ज नाम रे ॥ अशुज्जविपाक ठेदशे, वली दशविपाक शुज्ज धाम रे ॥ १ ॥ अंगण ए ॥ आंकणी ॥ अशुज्ज कर्म ते ठांमीर्य, वली आदरिर्य शुज्जकर्म रे ॥ समजी व्यो रे ज्ञविया, ए सांजल्या केरो मर्म रे ॥ अंग ॥ २ ॥ मर्म

न जाणे मूलगो, कंठशोष करावे फोकरे ॥ तेहने हित किणि परे हुये, फ-
ल लीये ते रोकारोक रे ॥ अं० ॥ ३ ॥ मत कोइ जाणो रे उलटुं, अमें प्र-
वचनना हुं रागी रे ॥ शासननी उन्नति करे, ते श्रोताने कहुं सोजागी रे
॥ अं० ॥ ४ ॥ चेइय कुल गण संघनुं, आचारय, प्रवचन श्रुतनुं रे ॥ वै-
यावच्च तेणे नित करयुं, जेहनुं मन ठे तप संयमनुं रे ॥ अं० ॥ ५ ॥ पण
व्यवहारें शोनीयें, व्यवहार ते जक्ति साचो रे ॥ कृपणपणे जे वंचिये, ते
हनो जाव ते जाणो काचो रे ॥ अं० ॥ ६ ॥ जे उदार आगम गुण रसि-
या, कदिय नही आलसीया रे ॥ साधु वचन सुणावा उल्लसिया, ते श्रोता
चोकसिया रे ॥ अं० ॥ ७ ॥ एहवानें तुमे अंग सुणावो, धरियें धर्म सने-
हा रे ॥ धर्मगोठ एहवा शुं बाजे, जे एक जीव दोइ देहा रे ॥ अं० ॥ ८ ॥
घन्य तेह वर अंग उपंगे, जेहनो लागुं मन्न रे ॥ वाचक जस कहे तस गुण
गावा, कीजे कोडी यतन्न रे ॥ अं० ॥ ९ ॥ इति ॥ ११ ॥

॥ कलश ॥ टोडरमल्ल जीतिनु रे ॥ ए देशी ॥ अंग इग्यारे सांज्जट्यां रे,
पुहता मनना कोड ॥ टोडरमल्ल जीत्यो रे ॥ गइ आपदा संपदा मिलीए,
आवी होडाहोड ॥ टो० ॥ १ ॥ दलियें ते दुर्जन देखतां रे, विघनना कोडा-
कोड ॥ टो० ॥ सज्जनमांहि मलपता रें, चाले मोडामोड ॥ टो० ॥ २ ॥ जि
म जिन वरसी दानमां रे, न करे उडानुड ॥ टो० ॥ तिम सदगुरु उपदेश-
मां रे, वचन विचारशुं ठोड ॥ टो० ॥ ३ ॥ कर्मविवर चर पोलीयो रे, पोले
दीये ठे ठोड ॥ टो० ॥ तखत वखत वल पामशुं रे, दूइ रह्या दोडाहोड ॥
टो० ॥ ४ ॥ मात वगोइ मंगल पिता रे, रूपचंदजाइ उदार ॥ टो० ॥ मा-
णकशायें कांइ सांज्जट्यां रे, विधिशुं अंग अग्यार ॥ टो० ॥ ५ ॥ युगयुग-
मुनि विधुसंवहारे रे, श्रीजसविजय उवजाय ॥ टो० ॥ सुरत चोमासूं रही
रे, कीधो ए सुपसाय ॥ टो० ॥ ६ ॥ इति एकादशांगनी सद्यय ॥

॥ अथ श्री यशोविजयजीकृत पांच कुगुरुनी सद्यय प्रारंजः ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ सेवो सदगुरु गुण निरधारी, इहजव परजव जे उपगारी ॥ व
रजो कुगुरुसमय अनुसारें, पासठादिक पंच प्रकारें ॥ १ ॥ निज
श्रावकने जे वल सारे, सुविहित संगति करतां वारे ॥ कुलश्रितिजंगे ज
य देखाडे, सुगवलोकने नामे पाडे ॥ २ ॥ ज्ञानादिक गुण आप न राखे,

सूधो मारग मुखें नवि ज्ञाखे ॥ करे साधुनिंदा विस्तारे, पासडो ते सर्व प्रकारे ॥ ३ ॥ देशप्रकी सज्यातरपिंरु, नित्यपिंरु जुंजे नृपपिंरु ॥ अग्रपिंरु निःकारण सेवे, साहसुं आण्युं जोजन लेवे ॥ ४ ॥ देशनगर कुल ममता मांसे, आपित कुलमर्यादा ठामे ॥ विवाहउन्नव जोवे फिरतो, नरदे जननो परिचय करतो ॥ ५ ॥ जेह महाव्रत ज्ञारे जूतो, ठांमी तेह प्रमादे खूतो ॥ कर्मपाशमां रहतो कहियें, पासडो जिन वचनें लहियें ॥ ६ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ गलिया बलदत्तणी परे रे, जे न वहे व्रतज्ञार ॥ ते उसत्रो जाणीयें रे, सर्व देश वेहु प्रकारे रे ॥ १ ॥ जविजन सांजलो ॥ पाटि पाटला वावरे रे, शेपें कालें रे जेह ॥ आपित पिंरु जिमे सदा रे, सर्व उसत्रो तेहो रे ॥ ज० ॥ २ ॥ नुठां अधिकां जे करे रे, पडिकमणादिक ठाण ॥ सुगुरुवचन नवि जालवे रे, देश उसत्रो ते जाणो रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ राय वेठसम जयप्रकी रे, किरियाविण नपयोग ॥ जेह करे ते नवि लहे रे, परजवचारित्रयोगो रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ ते किरिया शिथिल करि रे, दीक्षित शीश अनेक ॥ जवसायर अधिको पडे रे, उसत्रो अविवेको रे ॥ ज० ॥ ५ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ नाण दंसण चरण जेदशी, कह्युं त्रिविध व्रत कुशील ॥ नाणशी नाण आचारनो, करे जंग डःशील ॥ १ ॥ वीर वाणी त्ददयें धारियें, दर्शनाचार दर्शनप्रकी, विशुधे सवि पापी ॥ बोलीयें चरण कुंशीलनां, हवे लक्षण व्यापी ॥ वी० ॥ २ ॥ स्नान सोज्जाग अर्थें करे, ज्वर औषध आपे ॥ प्रश्न विद्यादि बलशी कहे, निमित्तादिक आपे ॥ वी० ॥ ३ ॥ जाति कुल प्रमुख आजीविका, करे केलवे माया ॥ स्त्री प्रमुख अंगलक्षण कहे, वहे मंत्रनी ठाया ॥ वी० ॥ ४ ॥ इम अनाचार मलयोगशी, करे कुत्सिलशील ॥ घर त्यजी अधिक माया जख्यो, कहिंजं तेणे कुशील ॥ वी० ॥ ५ ॥

॥ ढाल चौथी ॥

॥ शंसतो जिहां जइ मिले, तिहां तेहवो होवे ॥ नट जिम बहुरूपी फरे, मुनिवेष विगोवे ॥ १ ॥ आगम अर्थ विचारियें ॥ विहुं जेदे ते जाणियें, शुभ्र अशुभ्र प्रकार ॥ मूलुत्तर गुण दोषने, योगि शुभ्रसार ॥ २ ॥ आ० ॥ पासडादिक शुं मळयो, ते थाये अधर्मी ॥ संवेगी साथे मळयो, प्रा

यै थाये धर्मी ॥ आ० ॥ ३ ॥ पंचाश्रव रतगारवी, स्त्रीजनशुं रत्तो ॥ जे
मोहें मातो रहे, ते अशुज संसत्तो ॥ आ० ॥ ४ ॥ एम अनवस्थित दोष ते,
संगतिथी पावे ॥ निवसंगथी अंभमां, जिम कटुता आवे ॥ आ० ॥ ५ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ चालै सूत्र विरुदाचारे, ज्ञाषे सूत्र विरुद ॥ यथा उंद इहायें चाले,
तै नही मनमां शुद्ध रे ॥ १ ॥ प्राणी वीर वचन चित्त धारो, सूत्र परंपर
शुं जे न मले, ते उत्सूत्र विचारो ॥ अंध परंपर चाळ्युं आव्युं, ते पण तिम
निरधारो रे ॥ २ ॥ प्राणी वीण ॥ ए आंकणी ॥ निजमति कळिपत जनने
ज्ञाषे, गारवरसमां माचे ॥ यथाउंद गृहिकाज करंतो, नवनवरूपें नाचे रे ॥
प्रा० ॥ ३ ॥ एकप्ररूपण तेहनी चरणो, बीजी गमने खोटी ॥ पडिलेहण मु
हपतियें करशुं, किसी घरवली मोटी रे ॥ प्रा० ॥ ४ ॥ मात्रकविधि पात्रकथी
होशे, पडलां काज चलोटे ॥ लेप दोष घणो इत्यादिक, चरण मृषा मलि
लोटे रे ॥ प्रा० ॥ ५ ॥ चोमासे जो मेह न वरसे, तो हींरुथे शो दोष ॥
राजविरुद गमनशुं वारीजं, मुनीने शो तनु पोष रे ॥ प्रा० ॥ ६ ॥ वर्षाका
लें वस्त्र विहरतां, खप करतां नही हाणी ॥ नित्यवासमां कांइ न दूपण,
साहसुं हुए नाणी रे ॥ प्रा० ॥ ७ ॥ इमगति विषय प्ररूपण खोटी, ए सवि
ठे विस्तारे ॥ आतमअरथी जोइ लेजो, ज्ञाप्यसहित व्यवहारें रे ॥ प्रा० ॥ ८ ॥

॥ ढाल उठी ॥

॥ एम पांचे कुगुरु प्रकास्यां, आवश्यकमां जिम ज्ञाप्या ॥ समकित प्र
करण बहुज्ञाखी, योगविंडु प्रमुख इहां साखि ॥ १ ॥ ए ध्यानक सर्व अश
क्ति, जो सेवे कारण विगति ॥ तो मुनिगुणानी नही हाणी, ए उपदेश मा
ला वाणी ॥ २ ॥ जसु परिग्रह प्रमुख अकाज, उन्मार्ग कहियें नवि लाज
॥ ते तो वोळ्यो विमणो वाल, जून पडिलो अंग विशाल ॥ ३ ॥ आधा क
र्मादिक आपे, यतिनाम धरावे आपें ॥ ते पापश्रमण जाणीजें, उत्तरा
ध्ययनें मन दीजें ॥ ४ ॥ जे कुगुरु होए गच्छनाथ, नवि लीजे तेहनो सा
थ ॥ अज्ञानी जे गच्छवारी, ते दोळ्यो अनंत संसारी ॥ ५ ॥ ज्ञावाचारय
जिनसरिखो, बीजा नवि लेखे परिखो ॥ पूठे गौतम कहे वीर, मध्य महा
निशीथ गंजीर ॥ ६ ॥ जे ज्ञानक्रियानो दरिज, ते सदगुरु गुणमणि जरि-
ज ॥ जे शुद्ध प्ररूपक नाणी, ते पण उत्तम गुणखाणी ॥ ७ ॥ उत्तमो प

ए रज टाले, जे जिनमारग अजुआले ॥ एम बोले गञाचार, गुरुज्ञानी
जगदाधार ॥ ७ ॥ ज्ञानी ठे केवलीकटप, ए कटपज्ञाप्यनो जटप ॥ जे शुद्ध
कथक गुणधारी, ते सदगुरुनी बलिहारी ॥ ८ ॥ गात्रा ॥ एसो कुगुरुसञ्चाउ,
जिणवयणाउ फुडं जणिउ ॥ सिरि एयविजयमुणीणं, सीसेण जणाण वो
हवा ॥ १० ॥ इति श्री पांच कुगुरुनी सद्याय संपूर्ण ॥

॥ अथ श्री विनयविजयजीकृत आंबिलतपनी सद्याय ॥

॥ समरी श्रुतदेवी शारदा, सरसवचन वर आपे सदा ॥ आंबिलतप
नो महिमा घणो, जविजन ज्ञावधकी ते सुणो ॥ १ ॥ विगय सकलनो जि
हां परिहार, अशनमांहि पण जेद विचार ॥ विदल सर्व तिल तूयर विना,
अलसी कोडव कांगनी मना ॥ २ ॥ खडधान पुंढक दूकट फल सर्व, व-
र्जीजे आंबिलने पर्व ॥ उत्तमण परें जो जल जले, तो आंबिल अंबिलर-
स टले ॥ ३ ॥ बिलवण सूंठि मरीच ने सूआ, मेशी संचल रामठ कहा
॥ अजमादिक जेला रंधाय, तो आंबिलमां लेवा आय ॥ ४ ॥ जीरुं जले
ते जेवडी कही, ते सूजे पण जीरुं नहीं ॥ गोमूत्र विना अठे अणाहार,
ते सवि लेवानो विवहार ॥ ५ ॥ सात जाति जे तंडुलतणी, ते सुऊती आंबि
लमां जणी ॥ सेकिलधान अपकी दाल, मांसा खाखर लेवा टाल ॥ ६ ॥
हलड लविंग पीपर पीपली, हरडे सेंधव वेसण बली ॥ खादिम स्वादिम
जे कहेवाय, ते आंबिलमां नवि लेवाय ॥ ७ ॥ उत्कृष्ट विधे नण्णजल
नीर, जघन्यविधे कांजीनुं नीर ॥ इम निरदूषण आंबिल करे, मुख धोव
ण दांतण नवि करे ॥ ८ ॥ जे निरदूषण लिये आहार, उदननो तेह
ने विवहार ॥ आटो किंगट पाणीवतुं, ते पण आंबिलमां सूऊतूं ॥ ९ ॥
अशठ गीतारथ अणमञ्जरी, जे जे विधि बोले ते खरी ॥ लाजालाज विचा
रे जेह, विधिगीतारथ कहिये तेह ॥ १० ॥ आंबिलतप उत्कृष्टो कस्यो,
विघनविदारण कारण लह्यो ॥ वाचक कीर्तिविजय सुपसाय, ज्ञाखे विनय
विजय उवद्याय ॥ ११ ॥ इति आंबिलमां आहार लेवानो विधि ॥

॥ अथ श्री अमृतवेलिनी सद्याय प्रारंभ ॥

॥ चेतन ज्ञान अजुआलीये, टालीये मोह संताप रे ॥ चित्तहुं रुमनो
लतुं वालीये, पालीये सहज गुण आप रे ॥ चेण ॥ १ ॥ उपशम अमृत
रस पीजीये, कीजीये साधु गुणगान रे ॥ अधम वयणें नवि खीजीये,

दीजीयें सङ्गनने मान रे ॥ चे० ॥ १ ॥ क्रोध अनुबंध नवि राखीयें,
 ज्ञांखीयें वयण मुख साच रे ॥ समकेत रत्नरुचि जोडीयें, गोडीयें कुमति
 मति काच रे ॥ चे० ॥ ३ ॥ शुद्ध परिणामने कारणें, चारनां शरण धरे
 चित्त रे ॥ प्रथम तिहां शरण अरिहंतनुं, जेह जगदीश जगमित्त रे ॥ चे०
 ॥ ४ ॥ जे समोसरणमां राजता, ज्ञांजता ज्ञविक संदेह रे ॥ धर्मनां वचन
 वरसे सदा, पुष्करावर्त्त जिम मेह रे ॥ चे० ॥ ५ ॥ शरण बीजुं जजे सिद्ध
 नुं, जे करे कर्म चकचूर रे ॥ जोगवे राज्य शिवनगरनुं, ज्ञान आनंद जरपू
 र रे ॥ चे० ॥ ६ ॥ साधुनुं शरण त्रीजुं धरे, जेह साधे शिवपंथ रे ॥ मू-
 ल उत्तर गुण जे वस्था, ज्ञव तस्था ज्ञाव निग्रंथ रे ॥ चे० ॥ ७ ॥ शरण
 चोथुं धरें धर्मनुं, जेहमां वर दया ज्ञाव रे ॥ जे सुखहेतु जिनवर कहुं,
 पापजल तारवा नाव रे ॥ चे० ॥ ८ ॥ चारनां शरण ए पडिवजे, वली
 जजे ज्ञावना शुद्ध रे ॥ डुरित सवि आपणां निंदियें, जेम होये संवर वृ-
 द्धि रे ॥ चे० ॥ ९ ॥ इहजव परजव आचस्थां, पाप अधिकरण मिथ्यात रे
 ॥ जे जिनाशातनादिक घणां, निंदियें तेह गुणघात रे ॥ चे० ॥ १० ॥
 गुरुतणां वचन ते श्रवगुणी, गुंधिया आप मत जाल रे ॥ बहुपरें लोक-
 ने ज्ञोलव्या, निंदियें तेह जंजाल रे ॥ चे० ॥ ११ ॥ जेह हिंसा करी आ-
 करी, जेह दोळ्या मृषावाद रे ॥ जेह परधन हरि हरखिया, कीधलो काम
 उनमाद रे ॥ चे० ॥ १२ ॥ जेह धन धान्य मूर्त्ता धरी, सेविया चार कपा-
 य रे ॥ रागने द्वेषने बश हुवा, जे कीयो कलह उपाय रे ॥ चे० ॥ १३ ॥
 जूठ जे आल परने दियां, जे कस्थां पिशुनता पाप रे ॥ रति अरति निंद
 माया मृषा, वलिय मिथ्यात्व संताप रे ॥ चे० ॥ १४ ॥ पाप जे एहवां से-
 वीयां, तेह निंदियें त्रिहुं काल रे ॥ सुकृत अनुमोदना कीजियें, जिम हो
 ये कर्म विसराल रे ॥ चे० ॥ १५ ॥ विश्व उपगार जे जिन करे, सार जिन
 नाम संयोग रे ॥ ते गुण तास अनुमोदियें, पुण्य अनुबंध शुद्ध योग रे ॥
 चे० ॥ १६ ॥ सिद्धनी सिद्धता कर्मना, क्यथकी उपनी जेह रे ॥ जेह
 आचार आचार्यनो, चरणवन सिंचवा मेह रे ॥ चे० ॥ १७ ॥ जेह उव-
 जायनो गुण ज्ञलो, सूत्र सञ्चय परिणाम रे ॥ साधुनी जे वली साधुता,
 मूल उत्तर गुण घाम रे ॥ चे० ॥ १८ ॥ जेह विरति देश श्रावकतणी, जे
 समकित सदाचार रे ॥ समकितदृष्टि सुरनरतणो, तेह अनुमोदियें सार

रे ॥ चे० ॥ १ए ॥ अन्यमां पण दयादिक गुणा, जेह जिन वचन अनुसा-
र रे ॥ सर्व ते चित्त अनुमोदिये, समकित वीज निरधार रे ॥ चे० ॥ १० ॥
पाप नवि तीव्रजावें करे, जेहने नवि जव राग रे ॥ उचित स्थिति जेह
सेवे सदा, तेह अनुमोदवा लाग रे ॥ चे० ॥ ११ ॥ थोडलो पण गुण प-
रतणो, सांजली हर्ष मन आण रे ॥ दोष लव पण निज देखतां, निजगु-
ण निजातमा जाण रे ॥ चे० ॥ १२ ॥ उचित व्यवहार अवलंबनें, एम
करी स्थिर परिणाम रे ॥ जावियें शुद्ध नय जावना, पावनाशन तणुं ठा-
म रे ॥ चे० ॥ १३ ॥ देह मन वचन पुद्गल शक्ती, कर्मथी जिन तुज रूप
रे ॥ अक्षय अकलंक ठे जीवनुं, ज्ञान आनंद सरूप रे ॥ चे० ॥ १४ ॥
कर्मथी कल्पना कृपजे, पवनथी जेम जलधि वेल रे ॥ रूप प्रगटे सहज
आपणुं, देखतां दृष्टि स्थिर मेल रे ॥ चे० ॥ १५ ॥ धारतां धर्मनी धार
णा, मारतां मोह वड चोर रे ॥ ज्ञान रुचि वेल विस्तारतां, वारतां कर्म
नुं जोर रे ॥ चे० ॥ १६ ॥ राग विष दोष कृतारतां, जारतां द्वेष रस शेष
रे ॥ पूर्व मुनि वचन संजारतां, सारतां कर्म निःशेष रे ॥ चे० ॥ १७ ॥
देखियें मार्ग शिव नगरनो, जे उदासीन परिणाम रे ॥ तेह अणवोडत
चाखियें, पामियें जिम परम धाम रे ॥ चे० ॥ १८ ॥ श्रीनयविजय गुरु
शिष्यनी, शीखडी अमृत वेल रे ॥ एह जे चतुर नर आदरे, ते लहे सुयश
रंगरेल रे ॥ चे० ॥ १९ ॥ इति श्री हितशिक्षा सञ्चाय समाप्त ॥

॥ अथ श्री लब्धिविजयजी कृत जीवहित शीखनी सञ्चाय प्रारंभ ॥

॥ जोये जतन करी जीवडा, आयु उजाणुं जाये रे ॥ लहे लाहो ल
खमीतणो, पठेतां कांइ नवि आय रे ॥ जो० ॥ १ ॥ डुलहो जव माणस
तणो, डुलहो देह निरोगो रे ॥ डुलहो दयाधरम वासना, डुलहो सुगुरु
संजोगो रे ॥ जो० ॥ २ ॥ दिन जगें दिन आश्रमे, न वले कोइ दिन पा
गे रे ॥ अवसर काज न कीघलुं, ते मनमांहि पष्टाशो रे ॥ जो० ॥ ३ ॥
लोज लगे लख वंचिया, ते घरघन हरी लीपां रे ॥ केडे न आवे कोइनें, के
डे करम रहां कीधां रे ॥ जो० ॥ ४ ॥ माता उदर उंधो रहे, कोडि गर्भे
डुःख दीगं रे ॥ योनि जनमडुःख जे हुवे, ते तुज लागे ठे मीगं रे ॥
जो० ॥ ५ ॥ है हें जव आवें गयो, एको अरथ न साध्यो रे ॥ सहगुरु
शीख सुणी घणी, तो पण संवेग न वाध्यो रे ॥ जो० ॥ ६ ॥ मान मन

कोइ मत करो, यम जीत्यो नवि केणें रे ॥ सुकृतकाज न कीधलुं, वे ज-
व हास्यो ठे तेणें रे ॥ जोण ॥ ४ ॥ जप जगदीशना नामने, कांइ निचिं-
तो तुं सूवे रे ॥ काज करे अवसर लही, सवि दिन सरखा न हुवे रे ॥
जोण ॥ ७ ॥ जग जातो जाणी करी, तिम एकदिन तुज जावो रे ॥ कर
करवो जे तुऊ हुवे, पढी होवे पसतावो रे ॥ जोण ॥ ९ ॥ तिथि परवें तप
नवि कस्यो, केवल काया तें पोषी रे ॥ परजव जातां जीवने, संबल विण
किम होसि रे ॥ जोण ॥ १० ॥ सुण प्राणी प्रेमे कही, लब्धि लही जिन
वाणी रे ॥ संबलसाथें संग्रहो, इम कहे जिन केवल नाणी रे ॥ ११ ॥

॥ अथ श्रीजिनदर्षजीकृत पांचमा आरानी सद्याय ॥

॥ वीर कहे गौतम सुणो, पांचमा आराना ज्ञाव रे ॥ दुखीया प्राणी
अति घणा, सांजल गौतम सुज्ञाव रे ॥ वीरण ॥ १ ॥ शहेर होशे रे गाम-
डां, गाम होशे समज्ञान रे ॥ विण गोवाळें रे घण चरे, ज्ञान नहिं निरवा
ण रे ॥ वीरण ॥ २ ॥ मुज केडे कुमती घणा, होशे ते निरधार रे ॥ जि-
नमतिनी रुचि नवि गमे, आपशे निजमति सार रे ॥ वीरण ॥ ३ ॥ कुम-
ति जाजा कदाग्रही, आपशे आपणा बोल रे ॥ शास्त्र मारग सवि मृकशे
करशे जिन मत मोल रे ॥ वीरण ॥ ४ ॥ पाखंकी घणा जागशे, ज्ञांगशें ध
रमना पंथ रे ॥ आगम मत मरडी करी, करशे नचा वली ग्रंथ रे ॥ वीरण
॥ ५ ॥ चारणीनी परें चालशे, धर्म न जाणे लेज्ञ रे ॥ आगम शाखाने
टालशे, पालशे निज उपदेश रे ॥ वीरण ॥ ६ ॥ चोर चरड बहु लागशे,
वोली न पाले बोल रे ॥ साधुजन सीदायशे, दुर्जन बहुला मोल रे ॥
वीरण ॥ ७ ॥ राजा प्रजाने पीडशे, हिंसशे निरधन लोक रे ॥ माग्या न
वरसशे मेहुला, मिथ्यात्व होशे बहु थोक रे ॥ वीरण ॥ ८ ॥ संवत् जगणी
श चौदोत्तरे, होशे कलंकी राय रे ॥ मात ब्राह्मणी जाणीर्य, वाप चंदाळ
कहेवाय रे ॥ वीरण ॥ ९ ॥ ठ्यासी वरषनुं आजखुं, पारुलीपुरमां होशे रे
॥ तस सुत दत्त नामें जलो, श्रावककुल शुज पोपे रे ॥ वीरण ॥ १० ॥ कौ
तुकी दाम चलावशे, चर्म तणा ते जोय रे ॥ चोथ लेशे जिह्वातणी, महा
अकरा कर होय रे ॥ वीरण ॥ ११ ॥ इंड अवधियें जोयतां, देखशे एइ
स्वरूप रे ॥ द्विज रूपें आवी करी, हणशे कलंकी जूप रे ॥ वीरण ॥ १२
॥ दत्तने राज्य आपी करी, इंड सुर लोकें जाय रे ॥ दत्त धरम पाले सदा,

जेटशे शेत्रुंज गिरिराय रे ॥ वी० ॥ १३ ॥ पृच्छी जिन मंजित करी, पाम
शे सुख अपार रे ॥ देव लोकें सुख जोगवे, नामें जयजयकार रे ॥ वीरण ॥
१४ ॥ पांचमा आराने ठेडले, चतुर्विध श्रीसंघ होशे रे ॥ ठठे आरो वेस-
ता, जिनधर्म पहिलो जाशे रे ॥ वीरण ॥ १५ ॥ वीजे अगनी जायशे, त्रीजे
राय न कोय रे ॥ चौथे प्रहरें लोपना, ठठे आरे ते होय रे ॥ वीरण ॥ १६ ॥

॥ दोहा ॥

॥ ठठे आरे मानवी, बिलवासी सवि होय ॥ वीश वरसनुं आल्लखुं, प-
टवर्षे गर्जज होय ॥ १७ ॥ सहस चोराशी वर्षपणे, जोगवशे जवि कर्म ॥
तीर्थकर होशे जलो, श्रेणिक जीव सुधर्म ॥ १८ ॥ तसु गणधर आ सुंद
रु, कुमारपाल जूपाल ॥ आगम वाणी जोइने, रचीयां रयण रसाळ ॥ १९ ॥
॥ पांचमा आराना जाव ए, आगमें जांख्या वीर ॥ ग्रंथ बोल विचार क-
ह्या, सांजलजो जवि धीर ॥ २० ॥ जणतां समकित संपजे, सुणतां मंगल
माळ ॥ जिनहर्षे कही जोड ए, जाख्यां वयण रसाळ ॥ २१ ॥ इति ॥

॥ अथ कलियुगनी सव्याय ॥

॥ सरसती स्वामिनी पाय नमीने, जलट मनमांहे आयो ॥ तीरथ न
हिं कोइ इण संसारें, तेणे ए कलियुग आयो ॥ देखो बे यारो कूडो कलि-
युग आयो ॥ ए आंकणी ॥ बाबो कहे महारी नानडी बेटी, दिन दिन
मूढ्य सवायो ॥ बे यारो कूडो कलियुग आयो ॥ १ ॥ राजा ते परजाने
पीडे, कुनर काम जलायो ॥ बोल बंध नही मंत्रीने, गोचर खेत्र खेडायो
॥ बे यारो कूण ॥ २ ॥ गुरुने गाल दीये निज चेलो, वेद पुराण पढायो ॥
सासु चूले ने बहु खाटलडे, फूके शरीर जलायो ॥ बे यारो कूण ॥ ३ ॥ एं
शी वर्षनो हींमे होशें, मूठे हाथ घलायो ॥ पंचतणी साखे परणीने, अ-
बला अर्थ गमायो ॥ बे यारो कूण ॥ ४ ॥ जोगी जंयम ने संन्यासी, जांग
जखे मदवायो ॥ चोर चाड परधननें खाये, साधुजन सीदायो ॥ बे यारो
कूण ॥ ५ ॥ निर्धनने बहु बेटा बेटी, धनवंत एक न पायो ॥ नीचतणे
घर अति घणी लखमी, उत्तम जन सीदायो ॥ बे यारो कूण ॥ ६ ॥ न मले
वाप संघातें बेटो, घणे रे मनोर्थे जायो ॥ हाथ उपाडे मायनें मारे, पर-
णीशुं उमाह्यो ॥ बे यारो कूण ॥ ७ ॥ घरडाने घडेलो, कहे बेटो, आप त
णो मद वाह्यो ॥ चडू सूती ने, वर हिंमोले, सासरे सूवाने धरायो ॥ बे

यारो कूण ॥ ७ ॥ इल खेडे वज्जण गो जुत्ति, निर्दय नाक फडायो ॥ मा
 वापें वेटी वेचीने, वेटाने परणायो ॥ वे यारो कू० ॥ ८ ॥ रागतणे वश
 गुरुने गुस्खी, कर्म करे परायो ॥ कांगानी पेरें कलहो मांही, कुलगुरु ना
 म धरायो ॥ वे यारो कू० ॥ १० ॥ बैयर वार वरसनीने वेटो, दीठो गोद
 खेलायो ॥ माग्या मेह न वरसे महीयल, लोत्रे धरव्यो सवायो ॥ वे यारो
 कूण ॥ ११ ॥ कूडा कलियुगनी ए माया, देखी गीत गवायो ॥ पज्जणे प्री-
 तिविमल परमारथ, जिन वचनें सुख पायो ॥ वे यारो कूण ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ अथ एकादशनी सद्याय ॥

॥ आज महारे एकादशी रे, नणदल मौन करी मुख रहिये ॥ पूठ्या
 नो पडुत्तर पाठो, केहने कांइ न कहिये ॥ आ० ॥ १ ॥ माहारो नणदोइ
 तुज्जने वहालो, मुज्जने ताहारो वीरो ॥ धूआडाना वाचका जरतां, हाथ
 न आवे हीरो ॥ आण ॥ २ ॥ घरनो धंधो घणो कखो पण, एक न आव्यो
 आडो ॥ परजव जातां पालव जाळें, ते मुज्जने देखाडो ॥ आण ॥ ३ ॥
 मागशिर शुदि अगीयारश महौटी, नेवुं जिननां निरखो ॥ दोदोदशो क-
 ळ्याणिक महोटां, पोथी जोइने हरखो ॥ आ ॥ ४ ॥ सुव्रत शेठ थयो शु-
 ळ आवक, मौन धरी मुख रहीयो ॥ पावकपुर सघलो परजाळ्यो, एहनो
 कांइ न दहीयो ॥ आ० ॥ ५ ॥ आठ पहोर पोसो ते करिये, ध्यान प्रचु-
 नुं धरिये ॥ मन वच काया जो वश करिये, तो नवसायर तरिये ॥
 आ० ॥ ६ ॥ ईर्या समिति ज्ञाषा न बोले, आमुं अवलुं पेखे ॥ पडिकम
 णाशुं प्रेम न राखे, कहो केम लागे लेखे ॥ आण ॥ ७ ॥ कर ऊपर तो
 माला फिरती, जीव फरे मनमांही ॥ चितहुं तो चिहुं दिशि मोले, इणें
 जजनें सुख नांही ॥ आ० ॥ ८ ॥ पौषवशालें जेगां थइने, चार कथा
 वली सांधे ॥ कांइक पाप मिटावण आवे, वारगणुं वलि वांधे ॥ आ०
 ॥ ९ ॥ एक उठंती आलस मोडे, वीजी नंधे वेठी ॥ नदियोमांथी कांइक
 निसरती, जइ दरियामां पेठी ॥ आ० ॥ १० ॥ आई वाई नणंद जोजाई,
 न्हानी मोहोटी वडूने ॥ सासु ससरो मा ने मासी, शीखामण ठे सहुने
 ॥ आण ॥ ११ ॥ उदयरतन वाचक उपदेशें, जे नर नारी रदेशे ॥ पोसा
 मांहे प्रेम धरीने, अविचल लीला लेशे ॥ आ० ॥ १२ ॥

॥ अथ वैराग्य सधाय ॥ मनजमरानी देशीमां ॥

॥ उंचां मंदिर माखीयां, सोड्य वालीने सूतो ॥ काहाडो काहाडो ए
ने सहु करे, ज्ञाणे जनम्योज नोतो ॥ १ ॥ एक रे दिवस एवो आवशे,
मने सवखे जी साखे ॥ भंत्री मध्यं सर्वे कारिमां, तेनुं कांइ न चाले ॥
एक रे दिवस ॥ २ ॥ ए आंकणी ॥ साव सोनांनं रे सांकलां, पहेरण नव
नवा वाघा ॥ घोळुं रे वस्तर एना कर्मनुं, तेतो शोधवा लाग्ना ॥ एक रे ॥
॥ ३ ॥ चरु कढाईया अति घणा, बीजानुं नही लेखुं ॥ खोखरी हांकी
एना कर्मनी, तेतो आगळ देखुं ॥ एक रे ॥ ४ ॥ केनां ठोरु ने केनां
वाठरु, केनां माय ने वाप ॥ अंतकावे जावुं जीवने एकलुं, साथे पुण्यने
पाप ॥ एक रे ॥ ५ ॥ सगीरे नारी एनी कामिनी, उज्जी टग मग जूवे
॥ तेनुं पण कांइ चाले नही, वेढी धूसके रूवे ॥ एक रे ॥ ६ ॥ वहालां ते
वाहालां शुं करे, वाहालां वोलावी वलशे ॥ वहालां ते वननां लाकडां, ते
तो साथे जी वलशे ॥ एक रे ॥ ७ ॥ नही सायी नही तुंवडी, नथी तरवा-
नो आरो ॥ उदयरतन प्रजु इम ज्ञे, मने पार उतारो ॥ एक ॥ ८ ॥

॥ अथ अमल वर्जन सधाय ॥ कंत तभाकू परिहसे ॥ ए देशी ॥

॥ श्रीजिनवाणी मन घरी, सहगुरु दीधे उपदेश ॥ मेरे लाव ॥ वावी
श अजक्यसांहे कहुं, अमल अजक्य विशेष ॥ मे ॥ अमल म खाजो सा
जनं ॥ १ ॥ अमल विगोवे तन्न ॥ मे ॥ उंध वगासां घेरणी, आवे आ
खो दिन्न ॥ मे ॥ अ ॥ २ ॥ अमली अमलने सारिखो, आवे आनंद
थाय ॥ मे ॥ उत्तरतां आरति घणी, धीरज जीव न धराय ॥ मे ॥
अ ॥ ३ ॥ आलस ने ऊजागरो, वेगो देवकां खाय ॥ मे ॥ अकल न

नाक चूए नयणां ऊरे, काम करी न शकाय ॥ मे० ॥ अ० ॥ ए ॥ अध-
 विच मारगमां पडे, जीवन मृत्यु समान ॥ मे० ॥ हाथ पगोनी नस गले,
 अमली आवी शान ॥ मे० ॥ अ० ॥ १० ॥ आगराई आठो कह्यो, माल
 वी मांहे जेल ॥ मे० ॥ आपदशुं सखरुं नही, मिशरीशुं मन मेल ॥ मे०
 ॥ अ० ॥ ११ ॥ नवटांक जे नर जीरवे, तसु अहि विष न जणाय ॥ मे०
 ॥ अमल घणुं खाधाथकी, कंदर्प बल मिट जाय ॥ मे० ॥ अ० ॥ १२ ॥
 अमलीने उन्हे रुचे, टाहुं नावे दाय ॥ मे० ॥ खोजी रोटी खांरु घी, ऊ
 पर दूध सुहाय ॥ मे० ॥ अ० ॥ १३ ॥ कुलवंती जे कामिनी, जाणे जुग
 ति सुजाण ॥ मे० ॥ काति विखी रुण करी, अमलीने दीए आण ॥ मे०
 ॥ अ० ॥ १४ ॥ प्रीतम आशा पूरती, न करे रीझ लगार ॥ मे० ॥ कथन
 न लोपै कंतनुं, ते विरली संसार ॥ मे० ॥ अ० ॥ १५ ॥ दुर्जागणी नारी
 जिका, बोले कर्कश वाणी ॥ मे० ॥ रे रे अधम अफीणिया, आलसवंत
 अजाण ॥ मे० ॥ अ० ॥ १६ ॥ परणी जाई पारकी, शुं कीधुं तें धीठ ॥
 मे० ॥ पोतानुं पण पेट ए, निठुर जराय न नीठ ॥ मे० ॥ अ० ॥ १७ ॥
 कान कोट चूषण सह, वेची खाधुं तेह ॥ मे० ॥ निर्लज तुज घरवासमां,
 कहे सुख पाम्युं जेह ॥ मे० ॥ अ० ॥ १८ ॥ अमल समो असुगो नही,
 मानो ए मुऊ शीख ॥ मे० ॥ वाले सुंदर देहदी, अंते मगावे जीख ॥ मे०
 ॥ अ० ॥ १९ ॥ दालिडीने दोहिलुं, सूर उग्यानुं शाल ॥ मे० ॥ श्रीमंतने
 पण नहीं जलुं, जोतां ए जंजाल ॥ मे० ॥ अ० ॥ २० ॥ सासु बहु वढतां
 वतां, रीझे अमल जखंत ॥ मे० ॥ बालक खाये अजाणतां, जो घर अमल
 हवंत ॥ मे० ॥ अ० ॥ २१ ॥ प्राणीवघ जिणशुं हुवे, ते तो तजीयें दूर ॥
 मे० ॥ कर्मादान दशमुं कहुं, विष व्यापार परूर ॥ मे० ॥ अ० ॥ २२ ॥ च-
 नुर विचार ए चित्त धरी, कीजे अमल परिहार ॥ मे० ॥ खिमाविजय पं-
 दित तणो, कहे माणिक मनोहार ॥ मे० ॥ अ० ॥ २३ ॥ इति ॥

॥ अथ शीखामणनी सञ्चय ॥

॥ श्रीगुरु चरण पसानलें, कदिशुं शीखामण सार ॥ मन समजावो रे
 आपणुं, जिम पामो जव पार ॥ १ ॥ कहे जाइ रूहुं तें शुं करधुं, आत-
 मने हितकार ॥ इहजव परजव सुख घणां, लहियें जयजयकार ॥ कहे०
 ॥ २ ॥ लाख चोराशी योनि तुं जमि, पाम्यो नर अवतार ॥ देव गुरु धर्म

न उलख्या, न जप्यो मन नवकार ॥ कहेण ॥ ३ ॥ नव मसवाना उदरें
 धव्यो, पाकी पोढो रे कीधी ॥ माय ताय सेवा कीधी नहीं, न्यायें मन
 नवि दीध ॥ कहेण ॥ ४ ॥ चानी कीधी रे चोतरे, दंभाव्यां जलां लोक ॥
 साधु सहने संतापिया, आल चढाव्यां तें फोक ॥ कहेण ॥ ५ ॥ लोत्रे
 हाथ घसीश ॥ कहेण ॥ ६ ॥ कपट बल जेद तें कख्या, जांख्या परनारे
 मर्म ॥ साते व्यसनने सौव्यां, नवि कीधो जिनधर्म ॥ कहेण ॥ ७ ॥ कृमा
 न कीधी तें खांतशुं, दया न कीधी रे रेख ॥ परवेदन तें जाणी नहीं.
 तो शुं लीधो तें जेख ॥ कहेण ॥ ८ ॥ संध्यारंग सम आउखुं, जल पपोंटो
 रे जेम ॥ नाज अणी उपर बिंदुज, अथिर संसार ठे एम ॥ कहेण ॥ ९ ॥
 अजदय अनंतकाय वावखां, पीधां अणगल नीर ॥ रात्रिजोजन ते कख्यां,
 किम पामीश जवतीर ॥ कहेण ॥ १० ॥ दान शीयल तप जावना, धर्मना
 चार प्रकार ॥ ते तें जावे न आदख्या, रजलीश अनंतो संसार ॥ कहेण
 ॥ ११ ॥ पांचे इंद्रि जे पापिणी, दुर्गति घाले रे जेह ॥ तें तो मेली रे
 मोकली, किम जाइश शिवगेह ॥ कहेण ॥ १२ ॥ क्रोधें वीढ्यो रे प्राणि
 यो, मान न मूके रे केरु ॥ माया सापणी संग्रही, लोत्रने लीधो ते तेरु
 ॥ कहेण ॥ १३ ॥ पररमणी रस मोहियो, परनिदानो रे ढाल ॥ परद्रव्य
 तें नवि पारहखुं, परने दीधी रे गाल ॥ कहेण ॥ १४ ॥ धर्मनी वेला तुं
 आलसु, पाप वेला उजमाल ॥ संच्युं धन कोइ खायशे, जिम मधमा-
 खी महुआल ॥ कहेण ॥ १५ ॥ मेली मेली मूकी गया, जे उपाजी रे आ
 थ ॥ संचय कीजे रे पुण्यनो, जिम आवे लुज साथ ॥ कहेण ॥ १६ ॥ शरु

जणो, जणशुं जावना बार ॥ १ ॥ प्रथम अनित्य अशरण पणुं, एह सं
सार विचार ॥ एकलपणुं अन्यत्व तिम, अशुचि आश्रव संज्ञार ॥१॥ संव
र निर्ज्जर जावना, लोक सरूप सुबोधि ॥ दुल्लह जावन जिन धरम, ए
णीपरें कर जीउ सोधि ॥३॥ रसकूपी रस वेधिउं, लोहथकी होये हेम ॥
जीउ इण जावन शुद्ध हुये, परम रूप लहे तेम ॥ ४ ॥ जावविना दाना
दिकां, जाणे अबूणुं धान ॥ जाव रसांग मढ्या थकी, त्रुटे करम निदाना ॥५

॥ ढाल पहेली ॥

॥ जावनानी देशी ॥ पहेली जावना एणी परें जावीयेंजी ॥ अनित्य
पणुं संसार ॥ राज अणी ऊपर जल बिंदुउं जी, इंद्र धनुष अनुहार ॥
॥ १ ॥ सहेज संवेगी सुंदर आतमा जी, धर जिन धर्मसुं रंग ॥ चंचल
चपलानी परें चिंतवे जी, कृत्रिम सविहु संग ॥ स० ॥१॥ इंद्रजाल सुहणें
शुभ अशुभशुं जी, कूनो तोष ने रोष ॥ तिम त्रम चूढ्यो अथिर पदारथें
जी, श्यो कीजें मन शोष ॥ स० ॥ ३ ॥ ठार त्रेह पामरना नेहज्युं जी,
ए यौवन रंग रोख ॥ धन संपद पण दीसे कारमी जी, जेहवा जलकह्लोख
॥ स० ॥ ४ ॥ सुंज सरिखे मागी ज्ञीखनी जी, राम रहा वनवास ॥
इण संसारें ए सुख संपदा जी, संध्या राग विलास ॥ स० ॥ ५ ॥ सुं
दर ए तनु शोजा कारमी जी, विणसंतां नहीं वार ॥ देवतणे वचनें प्रति
बूझीयो जी, चक्री सनत कुमार ॥ स० ॥ ६ ॥ सूरज राहु ग्रहणें सम
जीउं जी, श्री कीर्तिधर राय ॥ करकंठू प्रतिबूज्यो देखीने जी, वृषज
जराकुल काय ॥ स० ॥ ७ ॥ किहां लगे धूआ धवल हरा रहे जी, जल
परपोटा जोय ॥ आउखूं अथिर तिम मनुष्यनुं जी, गर्व म करसो कोय ॥
जे ऋणमां खेरु होय ॥ स० ॥ ८ ॥ अतुलि बल सुरवर जिनवर जिस्वा
जी, चक्रि हरिवल जोनी ॥ न रखो एणे जगें कोइ थिर थइ जी, सुरनर
चूपति कोनी ॥ स० ॥ ९ ॥

॥ दोहा ॥

॥ पल पल ठीजे आउखुं, अंजलि जल ज्युं एह ॥ चखते साथें संव
खो, खेइ सके तो खेह ॥ १ ॥ खे अचिंत्य गलशुं ग्रही, समय सींचाणो
आवि ॥ शरण नहीं जिनवयण विण, तेणे हवे अशरण जावि ॥ २ ॥

॥ ढाल वीजी ॥

॥ राग रामगिरी, राम जण्णे हरि ऊठियें ॥ ए देशी ॥ वीजी अशरण
जावना, जावो हृदय मजार रे ॥ धरम विना परजव जतां, पापें न लही
श पाप रे ॥ जाइश नरक दुवार रे, तिहां तुज कवण आधार रे ॥ १ ॥
लाळ सुरंगा रे प्राणीआ ॥ मूकने मोह जंजाल रे, मिथ्या मति सवि टाल
रे, माया आल पंपाल रे ॥ लाण ॥ २ ॥ मात पिता सुत कामिनी, जाइ
जयणि सहाय रे ॥ में में करतां रे अज परें, कमें ग्रहो जीउ जाय रे ॥
आडो कोइ नवी थाय रे, दुःख न लीये वहेचाय रे ॥ लाण ॥ ३ ॥ नंदनी
सोवन कुंगरी, आखर नावी कोकाज रे ॥ चक्री सुजूम ते जलधिमां, हा
खुं खट खंरु राज रे ॥ बूड्यो चरम जहाज रे, देव गया सवि जाज रे,
खोजें गइ तस लाज रे ॥ लाण ॥ ४ ॥ छीपायन दही छारिका, वलवंत गो
विंद राम रे ॥ राखी न शक्या रे राजवी, मात पिता सुत धाम रे ॥ तिहां
राख्यां जिननाम रे, शरण कीठ नेमिस्वाम रे ॥ व्रत लेइ अचिराम रे, पो
होता शिवपुर ठाम रे ॥ लाण ॥ ५ ॥ नित्य मित्र सम देहडी, सयणां
पर्व सहाय रे ॥ जिनवर धर्म उगारसे, जिम ते वंदनिक जाय रे ॥ रा
खे मंत्रि उपाय रे, संतोष्यो वली राय रे, टाट्या तेहना अपाय रे ॥ लाण ॥
६ ॥ जनम जरा मरणादिका, वयरी लाग्गा ठे केड रे ॥ अरिहंत शरणुं ते
आदरी, जव भ्रमण दुःख फेड रे ॥ शिवसुंदरी घर तेड रे, नेह नवल
रस रेड रे, सींची सुकृत सुरपेड रे ॥ लाण ॥ ७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ थावच्चा सुत थरहस्यो, जोर देखी जम धाड ॥ संयम शरणुं संग्रह्युं,
धण कण कंचण ठारु ॥ १ ॥ इण शरणें सुखिया थया, श्री अनाथी अणगार ॥
शरण लह्या विण जीवडा, इणी परें रुखे संसार ॥ २ ॥ इति द्वितीय जावना

॥ ढाल वीजी ॥

॥ राग मारुणी ॥ वीजी जावन इणीपरें जावीयें रे, एह स्वरूप संसार ॥
कर्मवशें जीव नाचे नवनव रंगशुं रे, ऐ ऐ त्रिविध प्रकार रे ॥ १ ॥ चेतन
चेतीयें रे, लही मानव अवतार ॥ चेण ॥ जव नाटकथी जो हुड उजगा रे,
तो ठांडो विषय विकार रे ॥ चेण ॥ २ ॥ कबही नूजल जलणानिल तरुमां
जम्यो रे, कबही नरक निगोद ॥ विति चजारेंद्रियमांहे केइ दिन वस्यो रे,

कवहींक देव विनोद ॥ चे० ॥ ३ ॥ कीमी पतंग हरि मातंगपणुं जजे
 रे, कवहीं सर्प सीयाल ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहावतो रे, होवे शूद्र
 चंमाल ॥ चे० ॥ ४ ॥ लख चोराशी चउटे रमतो रंगशुं रे, करी करी
 नव नव वेश ॥ रूप कुरूप धनी निर्द्वय सोजागिउं रे, दुर्जागी दरवे
 श ॥ चे० ॥ ५ ॥ द्रव्य क्षेत्र सूक्ष्मने वादर जेदशुं रे, काळ जाव पण तेम
 ॥ अतंत अनंता पुद्गल परावर्तन कस्यां रे, कस्यो पन्नवणा एम ॥ चे० ॥ ६
 ॥ जाइ बहिन नारी तातपणुं जजे रे, मातपिता होये पूत्र ॥ तेहज ना-
 री वेरीने वलि वालहो रे, एह संसारह सूत्र ॥ चे० ॥ ७ ॥ जवनजानु
 जिन जांख्यां चरित्र सुणी घणां रे, समज्या चतुर सुजाण ॥ कर्म वि-
 वरवश मूकी मोह विटंबना रे, मळ्या सुगति जिन जाण ॥ चे० ॥ ८ ॥

॥ दोहा ॥

॥ इम जव जव जे दुख सद्यां, ते जाणे जगनाथ ॥ जयजंजण जा-
 वठ हरण, न मळ्यो अविहरु साथ ॥ १ ॥ तिण कारण जीव एकलो,
 ठोकी राग गलपास ॥ सवि संसारीजीवशुं, धरी चित जाव उदास ॥ १॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ राग गोमी ॥ पूत न कीजे हो साधु विसासको ॥ चोथी जावना
 जवियण मन धरो, चेतन तुं एकाकी रे ॥ आव्यो तिम जाइश परजव
 वली, इहां मूकी सवि वाकी रे ॥ मम करो ममता रे समता आदरो
 ॥ १ ॥ आणो चित्त विवेको रे ॥ स्वारथियां सज्जन सहुए मळ्यां, सुख
 दुख सहेशे एको रे ॥ मम० ॥ २ ॥ वित्त वहेचण आवी सहुये मळे, वि
 पति समय जाय नाशी रे ॥ दव बलंतो देखी दश दिशें पुळे, जिम
 पंखी तरवासी रे ॥ मम० ॥ ३ ॥ खट खंरु नवनिधि चौद रयण धणी,
 चौसठ सहस्स सुनारी रे ॥ ठेहके ठोकी ते चाट्या एकला, हास्या जेम
 जूआरी रे ॥ मम० ॥ ४ ॥ त्रिजुवन कंटक विरुद धरावतो, करतो गर्व गु
 मानो रे ॥ त्रागा विण नागा तेहु चट्या, रावण सरिखा राजानो रे ॥ मम०
 ॥ ५ ॥ माळ रहे घर स्त्री विश्रामिता, प्रेतवना लगें लोको रे ॥ चय लगें
 काया रे आखर एकलो, प्राणी चले परलोको रे ॥ मम० ॥ ६ ॥ नित्य क
 लहो बहु मेळें देखीउं, विहुं पण खटपट थाय रे ॥ वलयानी परें विह
 रिस एकलो, इम बूज्यो नमीरायो रे ॥ मम० ॥ ७ ॥ इति चतुर्थ जावना ॥

॥ दोहा ॥

॥ जवसायर बहु दुख जलें, जामण मरण तरंग ॥ ममता तंतु तिणें
प्रह्यो, चेतन चतुर मतंग ॥ १ ॥ चाहे जो ठोरण जणी, तो जज जग-
वंत महंत ॥ दूर करे पर बंधने, जिम जलथी जलकंत ॥ २ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ राग केदारो गोनी ॥ कपूर हुवे अति उजलो रे ॥ ए देशी ॥ पांचमी
जावन जावीयें रे, जिउ अन्यत्व विचार ॥ आपसवारथी ए सहू रे, मलिउं
तुज परिवार ॥ १ ॥ संवेगी सुंदर, बूज मा मूंज गमार ॥ तहारुं को नहीं
इण संसार, तुं केहनो नहि निरधार ॥ सं० ॥ २ ॥ पंथसिरे पंथी मळ्या रे,
कीजें किणशुं प्रेम ॥ राति वसे प्रह उठ चले रे, नेह निवाहे केम ॥ सं०
॥ ३ ॥ जिम मेलो तीरथ मले रे, जन वणजनी चाह ॥ के त्रोटो के फाय
दो रे, खेइ लेइ निजघर जाय ॥ सं० ॥ ४ ॥ जिहां कारज जेहनां सरे रे,
तिहां लगें दाखे नेह ॥ सूरीकंतानी परे रे, ठटकी देखामे ठेह ॥ सं० ॥ ५ ॥
चुलणी अंगज मारवा रे, कुरुं करी जतुगेह ॥ जरत वाहुचलि जूजीया रे,
जो जो निजना नेह ॥ सं० ॥ ६ ॥ श्रेणिक पुत्रें बांधीउं रे, लीधुं वेहेची
राज्य ॥ दुःख दीधुं बहु तातने रे, देखो सुतनां काज ॥ सं० ॥ ७ ॥
इणजावन शिवपद लहे रे, श्री मरुदेवी माय ॥ वीरशिष्य केवल लखुं
रे, श्री गौतम गणराय ॥ सं० ॥ ८ ॥ इति पंचम जावना ॥

॥ दोहा ॥

॥ मोह वसु मन मंत्रवी, इंद्रिय मळ्या कलाल ॥ प्रमाद मदिरा पाइ
के, वांध्यो जीव नूपाल ॥ १ ॥ कर्म जंजीर जनी करी, सुकृत माळ स
वि लीध ॥ अशुच विरस डुरगंधमय, तनगो तहरें दीध ॥ २ ॥

॥ ढाल ठष्टी ॥

॥ राग सिंधु सामेरी ॥ ठष्टी जावना मन धरो, जीउ अशुचि चरी ए
काया रे, शी माया रे, मांके काचा पिंरुं ए ॥ १ ॥ नगर खाल परें नितु
वहे, कफ मल मूत्र जंमारो रे, तिम झारो रे, नर नव झादश नारिनां ए
॥ १॥ देखी डुरगंध झरथी, तुं मुह मचकोमे माणे रे, नवि जाणे रे, तिण
पुदगळ निज तनु जखुं ए ॥ ३ ॥ मांस रुधिर मेदारसें, अस्थि मज्जानर
बीजे रे, शुं रीजे रे, रूप देखी देखी आपणुं ए ॥ ४ ॥ कृमिवाखादिक को

थली, मोहरायनी चेटी रे, ए पेटी रे, चर्म जडी घणा रोगनी ए ॥५॥ ग
 र्चवास नव मासतां, कृमिपरें मलमां वसियो रे, तुं रसियो रे, उंधे माथें
 झम रह्यो ए ॥ ६ ॥ कनक कुमरी जोजन जरी, तिहां देखी डुरगंभ बूज्या
 रे, अति जूज्या रे, मद्धि मित्र निज कर्मशुं ए ॥७॥ इति बठी जावना ॥

॥ दोहा ॥

॥ तन बिल्वर इंद्री मष्टा, विषय कलण जंबाल ॥ पाप कखुष पाणी
 जखुं, आश्रव वहे गडनाल ॥१॥ निर्मल पख सहजें सुगति, नाण विनाण
 रसाल ॥ शुं बगनी परें पंकजल, चूंथे चतुर मराल ॥ २ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ राग धोरणी ॥ आश्रवजावना सातमी रे, समजो सुगुरु समीप ॥
 क्रोधादिक कांइ करो रे, पामी श्रीजिन दीपो रे ॥१॥ सुण सुण प्राणीया,
 परिहर आश्रव पंचो रे ॥ दशमे अंगें कह्या, जेहना दुष्ट प्रपंचो रे ॥ सुण ॥
 २ ॥ होंशें जे हिंसा करे रे, ते लहे कटुक विपाक ॥ परिहोसैं गोत्रासनी
 रे, जो जो अंगविपाको रे ॥ सुण ॥ ३ ॥ मिथ्या वयणें वसु नड्यो रे, मंदि
 क परधन लेई ॥ इण अब्रह्मों रोलव्या रे, इंद्रादिक सुर केई रे ॥ सुण ॥ ४ ॥
 महा आरंज परिग्रहें रे, ब्रह्मदत्त नरय पहुत्त ॥ सेव्यां शत्रुपणुं जजे रे,
 पांचे डुरगति छूतो रे ॥ सुण ॥ ५ ॥ बिद्र सहित नावा जळें रे, बूडे नीर
 जराय ॥ तिम हिंसादिक आश्रवें रे, पापें पिकु जरायो रे ॥ सुण ॥ ६ ॥
 अविरति लागे एकेंद्रिया रे, पाप स्थान अढार ॥ लागे पांचेही क्रीया रे,
 पंचम अंग विचारो रे ॥ सुण ॥ ७ ॥ कटुक क्रिया थानक फलां रे, बोढ्या
 बीजे रे अंग ॥ कहेतां हीयकुं कमकमे रे, विरुज तास प्रसंगो रे ॥ सुण ॥
 ८ ॥ मृग पतंग अलि माठलो रे, करी एक विषय प्रपंच ॥ दुखिया ते
 किम सुख छहे रे, जस परवस एह पंचो रे ॥ सुण ॥ ९ ॥ हास्य निंद वि
 कथा वसें रे, नरक निगोदे रे जात ॥ पूरवधर श्रुत हारीनें रे, अबरांनी
 शी वातो रे ॥ सुण ॥ १० ॥ इति सप्तम जावना ॥

॥ दोहा ॥

॥ शुज मानस मानस करी, ध्यान अमृत रस रेखि ॥ नवदल श्रीनव
 कार पय, करी कमलासन केखि ॥ १ ॥ पातक पंक पखाळीनें, करी संव
 रनी पाळ ॥ परम हंस पदवी जजो, ठोडी सकल जंजाल ॥ २ ॥

॥ ढाल आठमी ॥ - -

॥ उलूनी देशी ॥ आठमी संवर जावनाजी, धरी चितसुं एक तार ॥ स
मिति गुप्ति सूधी घरोजी, आपो आप विचार ॥ सलूणा, शांति सुधारस
चाख ॥ ए आंकणी ॥ विरस विषय फल फूलडेजी, अटतो मन अखि रा
ख ॥ स० ॥ १ ॥ क्षात्र अलाजें सुख दुखेंजी, जीवित मरण समान ॥ शत्रु
मित्र सम जावतो जी, मान अने अपमान ॥ स० ॥ २ ॥ कहीयें परिग्रह
गंरुं जी, लेखुं संयम चार ॥ श्रावक चिते हुं कदा जी, करीश संघा
रो सार ॥ स० ॥ ३ ॥ साधु आशंसा इम करे जी, सूत्र जणीश गुरु पा
स ॥ एकल मह्य प्रतिमा रही जी, करीश संलेशण खास ॥ स० ॥ ४ ॥
सर्व जीवहित चितवें जी, वयर मकर जगमिच ॥ सत्य वयण मुख चां
खियें जी, परिहर परतुं विच ॥ स० ॥ ५ ॥ काम कटक जेदण जणी जी,
धर तुं शीलसनाह ॥ नवविध परिग्रह मूकतां जी, लहियें सुख अथाह
॥ स० ॥ ६ ॥ देव मणुअ उपसर्गं जी, निश्चल होइ सधीर ॥ बावीश प
रिसह जीपीयें जी, जिम जीत्या श्रीवीर ॥ स० ॥ ७ ॥ इति अष्टम जावना ॥

॥ दोहा ॥

॥ दृढ प्रहारि दृढ ध्यान धरी, गुणनिधि गज सुकुमाल ॥ मेतारज मद
न ज्रमो, सुकोशल सुकुमाल ॥ १ ॥ इम अनेक मुनिवर तस्या, उपशम
संवर जाव ॥ कठिन कर्म सवि निर्झर्यां, तिण निर्झर प्रस्ताव ॥ २ ॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ राग गोडी, मन जमरा रे ॥ ए देशी ॥ नवमी निर्झर जावना ॥
चित चेतो रे ॥ आदरो व्रत पञ्चकाण ॥ चतुर चित चेतो रे ॥ पाप आ
खोचो गुरु कने ॥ चि० ॥ धरियें विनय सुजाण ॥ च० ॥ १ ॥ वेयावच्च
बहुविध करो ॥ चि० ॥ दुर्बल बाल गिलान ॥ च० ॥ आचारज वान्चक
तणो ॥ चि० ॥ शिष्य साधर्मिक जाण ॥ च० ॥ २ ॥ तपसी कुल गण सं
घनो ॥ चि० ॥ थिविर प्रवर्त्तक वृद्ध ॥ च० ॥ चैत्य जक्ति बहुनिर्झरा ॥
चि० ॥ दशमे अंग प्रसिद्ध ॥ च० ॥ ३ ॥ उजय टंक आवश्यक करो ॥ चि० ॥
सुंदर करि सहाय ॥ च० ॥ पोसह सामायिक करो ॥ चि० ॥ नित्य प्रत्ये
नियमन जाय ॥ च० ॥ ४ ॥ कर्मसूडन कनकावली ॥ चि० ॥ सिंहनिर्झरित
दोय ॥ च० ॥ श्रीगुण रयण संवत्सरू ॥ चि० ॥ साधु पश्चिम दश दोय ॥

च० ॥ ५ ॥ श्रुत आराधन साचवो ॥ चि० ॥ योग वह्न उपधान ॥ च०
॥ शुक्लध्यान सूधुं धरो ॥ चि० ॥ श्री आंबिल वरुमान ॥ च० ॥ ६ ॥
चौद सहस्स अणगारमां ॥ चि० ॥ धन धनो अणगार ॥ च० ॥ स्वयमुख
वीर प्रशंसीउं ॥ चि० ॥ खंधक मेघकुमार ॥ च० ॥ ७ ॥ इति नवम ज्ञावना ॥
॥ दोहा ॥

॥ मन दारु तननालि करि, ध्यानानल सलगावि ॥ कर्मकटक जेदण
जणी, गोला ज्ञान चलावि ॥ १ ॥ मोहराय मारीकरी, उंचो चढी अ-
वल्लोय ॥ त्रिजुवन मंरुप मांरणी, जिम परमानंद होय ॥ २ ॥

॥ दाल दशमी ॥

॥ राग गोनी, जंबूद्वीप मजार ॥ ए देशी ॥ दशमी लोक स्वरूप रे, जा
वन जावीयें, निसुणि गुरु उपदेशथी ए ॥ १ ॥ उर्ध्वपुरुष आकार रे, पग
पहूला धरी, कर दोउ कटि राखिये ए ॥ २ ॥ इण आकारे लोकरे, पुद्गल
पूरीउं, जिम काजलनी कूपली ए ॥ ३ ॥ धर्माधर्माकाश रे, देश प्रदेश ए,
जीव अनंते पूरीउं ए ॥ ४ ॥ सात राज देशोन रे, उर्ध्व तिरिय मली,
अधोलोक सात साधिकुं ए ॥ ५ ॥ चौदराज त्रसनामी रे, त्रसजीवाल
य, एक रज्जू दीर्घ विस्तरू ए ॥ ६ ॥ उर्ध्वसुरालय सार रे, निरय जुवन
नीचें, नाचें नर तिरि दो सुरा ए ॥ ७ ॥ द्वीप समुद्र असंख्य रे, प्रजु मुख
सांजली, राय ऋषि शिव समजीउं ए ॥ ८ ॥ लांबी पोहोली, पणयाल रे,
लखजोयण लही, सिद्धशिला शिर ऊजली ए ॥ ९ ॥ उंचा धनुसय तीन
रे, तेत्रीश साधिकें, सिद्ध योजनने ठेहके ए ॥ १० ॥ अजर असर निकलंक
रे, नाण दंसण मय, ते जोवा मन गह गहे ए ॥ ११ ॥ इति दशम ज्ञावना ॥

॥ दोहा ॥

॥ वार अनंती फरसीउं, ढाली वाटक न्याय ॥ नाण विना नवि संज
रे, लोक त्रमण जनुवाय ॥ १ ॥ रत्नत्रय त्रिहुं जुवनमें, दुल्लह जाणी द
याल ॥ बोधि रयण काजें चतुर, आगम खाणि संजाल ॥ २ ॥

॥ दाल अगीआरमी ॥

॥ राग खंजाती ॥ दश दृष्टांते दोहिलो रे, लाधो मणुअ जमारो रे ॥ दु
ल्लहो उंवर फूलज्युं रे, आरज घर अवतारो रे ॥ मोरा जीवन रे, बोधि
ज्ञावना अग्रमी रे, जावो त्ठदय मजारो रे ॥ मो० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥

उत्तम कुल तिहां दोहिलो रे, सहगुरु धर्म संयोगो रे ॥ पांचें इंद्रिय परव
 डां रे, दुल्लहो देह निरोगो रे ॥ मो० ॥ २ ॥ सांजलवुं सिद्धांतनुं रे, दोहि
 लुं तस चित्त धरवुं रे ॥ सूधी सदहणा धरी रे, दुक्कर अंगें करवुं रे ॥ मो०
 ॥ ३ ॥ सामग्री सघली लही रे, मूढ मुधा ममहारो रे ॥ चिंतामणि देवें
 दीउं रे, हाख्यो जेम गमारो रे ॥ मो० ॥ ४ ॥ लोह कीलकने कारणे रे, कु
 ण यान जलधिमां फोडे रे ॥ गुण कारण कोण नवलखो रे, हार हीयानो
 त्रोडे रे ॥ मो० ॥ ५ ॥ बोधि रयण उवेखीनें रे, कोण विषयायें दोडे रे ॥
 कांकर मणि समोवडि करे रे, गज वेचे खर होडे रे ॥ मो० ॥ ६ ॥ गीत
 सुणी नटणी कने रे, कुल्लकें चित्त विचाखुं रे ॥ कुमारादिक पण समजी
 या रे, बोधि रयण संजाखुं रे ॥ मो० ॥ ७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ परिहर हरिहर देव सवि, सेव सदा अरिहंत ॥ दोष रहित गुरु
 गणधरा, सुविहित साधु महंत ॥ १ ॥ कुमति कदाग्रह मूकतुं, श्रुत चा
 रित्र विचार ॥ जवजल तारण पोतसम, धर्म हियामां धार ॥ २ ॥

॥ ढाल बारमी ॥

॥ कुंगरीयानी देशी ॥ धन धन धर्म जगहित करु, जांख्यो जलो जि
 नदेव रे ॥ इह परजव सुख दायको, जीवडा जनम लागि सेव रे ॥ १ ॥
 जावना सरस सुर वेखडी, रोपि तुं हृदय आराम रे ॥ सुकृत तरु लहिय
 बहु पसरती, सफल फलशे अजिराम रे ॥ जा० ॥ २ ॥ क्षेत्रशुद्धि करिय
 करुणा रसें, काढि मिथ्यादिक शाल रे ॥ गुपति त्रिहुं गुपति रूडी करें,
 नीक तुं सुमतिनी वाल रे ॥ जा० ॥ ३ ॥ सींचजे सुगुरु वचनामृतें, कुम
 ति कंधेर तजी संग रे ॥ क्रोध मानादिक सूकरा, वानरो वारि अनंग रे
 ॥ जा० ॥ ४ ॥ सेवता एहने केवली, पन्नर सय तीन अणगार रे ॥ गौतम
 शिष्य शिवपुर गया, जावतां देव गुरु सार रे ॥ जा० ॥ ५ ॥ शुक परित्राजक
 सीधलो, अर्जुनमाळी शिव वास रे ॥ राय परदेशी जे पापिउं, कापिउं ता
 स दुखपास रे ॥ जा० ॥ ६ ॥ दुसम समय दुप्पसह लगें, अविहल शासन
 एह रे ॥ जावशुं जवियण जे जजे, तेह शुभमति गुण गेहरे ॥ जा० ॥ ७ ॥

॥ दोहा ॥ तपगणपति विजय देवगुरु, विजयासंय मुनिराय ॥ शुरु
 धर्म दायक सदा, प्रणमो एहना पाय ॥ १ ॥

॥ ढाल तेरमी ॥

॥ राग धनाश्री ॥ तुमें जावो रे, जवि इणी परें जावना जावो ॥ तन मन वयण धर्म लय लावो, जिम सुख संपद पावो रे ॥ ज० ॥ १ ॥ ललना खोचन चित न मोलावो, धन कारण कांइ धावो ॥ प्रचुशुं तारो तार मि लावो, जो होय शिवपुर जावो रे ॥ कांइ गर्जावास न आवो रे ॥ ज० ॥ २ ॥ जबूनी परें जीव जगावो, विषय थकी विरमावो ॥ ए हित शीख अमारी मानी, जग जस पडह वजावो रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ श्री जशसोम विबुध वैरागी, जग जस चिहु खंरु चावो ॥ तास शिष्य कहे जावन जण तां, घर घर होये वधावो रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ दोहा ॥ जोजन नच गुण वरस शुचि, सित तेरस कुजवार ॥ जगति हेतु जावन जणी, जेसलमेर मजार ॥ ज० ॥ ५ ॥ इति श्री जशसोम शिष्यजयसोम कृत द्वादश जावना संपूर्णा ॥

॥ अथ सीताजीनी सव्वाय प्रारंभ ॥

॥ जनक सुता हुं नाम धरावुं, राम ठे अंतरजामी ॥ पालव अमारो मे लने पापी, कुलने लागे ठे खामी ॥ अडशो मांजो, मांजो मांजो मांजो ॥ अ० ॥ माहारो नाहलीउं डुहवाय ॥ अ० ॥ मने संग केनो न सुहाय ॥ अ० ॥ महारुं मन मांहेथी अकुलाय ॥ अ० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ मेरु महीधर ठाम तजे जो, पठर पंकज जगे ॥ जो जलधि मर्यादा सूके, पांग खो अंबर पूगे ॥ अ० ॥ २ ॥ तो पण तुं सांजलने रावण, निश्चय शील न खंरुं ॥ प्राण अमारो परलोक जाये, तो पण सत्य न ठंरुं ॥ अ० ॥ ३ ॥ कु ण मणिधरना मणि लेवाने, हैयडे घाले हाम ॥ सती संघातें स्नेह करीने, कहो कुण साधे काम ॥ अ० ॥ ५ ॥ परदारानो संग करीने, आखो कोण उ गरियो ॥ उंरुं तो तुं जोए आलोची, सही तुज दाहाडो फरियो ॥ अ० ॥ ५ ॥ जनकसुता हुं जग सहु जाणे, जामंरुल ठे जाइ ॥ दशरथ नंदन शिर ठे स्वामी, लखमण करशे लडाइ ॥ अ० ॥ ६ ॥ तुं धणीयाती पीउ गुणराती, हाथ ठे महारे ठाती ॥ रहे अलगो तुज वयणें न चहुं, कां कुळें वाये ठे काती ॥ अ० ॥ ७ ॥ उदयरतन कहे धन्य ए अबला, सीता जेहनुं नाम ॥ सतियांमांहे शिरोमणि कहीयें, नित्य नित्य होजो प्रणाम ॥ अ० ॥ ८ ॥

॥ अथ नोकारवालीनी सव्वाय ॥

॥ वार जपुं अरिहंतना, जगवंतनारे गुण हुं निशदीस ॥ सिद्ध आठ गुण

जाणियें, बखाणीयें रे गुण सूरि बत्रीश ॥ नोकारवाली वंदीयें ॥ १ ॥ चिर
 नंदियें रे उठी गणीयें सवेर ॥ सूत्रतणा गुण गंधिया, मणिआ मोहन रे
 मह मोटो मेर ॥ नोकणा ॥ पंचवीश उवघायना, सत्तावीश रे गुण श्रीअण
 गार ॥ एकशो आठे गुणें करी, इम जपीये रे नवियण नवकार ॥ नोकण ॥
 ३ ॥ मोह जाप अंगुठडे, वैरी जूठडे रे तर्जनी अंगुली जोय ॥ बहु सुख
 दायक मध्यमा, अनामिका रे वर्यारथ होय ॥ नोकणा ॥ आकर्षण टची
 अंगुली, वली सुणजो रे गणवानी रीति ॥ मेरु उल्लंघन म स करो, म स
 करजो रे नख अग्रें प्रीति ॥ नोकणा ॥ निश्चल चित्तें जे गणे, जे गणे संख्या
 दिकथी एकांत ॥ तेहने फल होए अतिघणुं, इम बोले रे जिनवर सिद्धांत
 ॥ नोकणा ॥ शंख प्रवाल फटिक मणि, पत्ता जीव रतांजली मोती सार ॥
 रूप सोवन रयण तणी, चंदन अवर अग्रने घनसार ॥ नोकणा ॥ सुंदर
 फल रुद्राक्षनी, जपमालिका रे रेशमनी अपार ॥ पंच वरण सम सूत्र
 नी, वली वस्तुविशेष तणी उदार ॥ नोकण ॥ ७ ॥ गौतम पूठें कष्टो,
 महावीरें रे ए सयल विचार ॥ लब्धि कहे नवियण सुणो, गणजो नण
 जो रे नित्य नित्य नवकार ॥ नोकण ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ वणज्जारानी सहाय ॥

॥ नरचव नयर सोहामणुं ॥ वणज्जारा रे ॥ पामीने करजे व्यापार ॥
 अहो मोरा नायकरे ॥ सत्ताघन संवर तणी ॥ वण ॥ पोठी जरजे उदार
 ॥ अण ॥ १ ॥ शुभ परिणाम विचित्रता ॥ वण ॥ करियाणां बहु मूढ
 ॥ अण ॥ मोह नगर जावा जणी ॥ वण ॥ करजे चित्त अनुकूल ॥ अण ॥
 ॥ २ ॥ क्रोध दावानल उलवे ॥ वण ॥ मान विषय गिरिराज ॥ अण ॥
 उल्लंघजे हलवें करी ॥ वण ॥ सावधान करे काज ॥ अण ॥ ३ ॥ वंशजात
 माया तणी ॥ वण ॥ नवि करजे विशराम ॥ अण ॥ खानी मनोरथ नट
 तणी ॥ वण ॥ पूरणुं नहीं काम ॥ अण ॥ ४ ॥ रागद्वेष दोय चोरटा ॥ वण ॥
 वाटमां करशे हेरान ॥ अण ॥ विविध वीर्य उल्लासथी ॥ वण ॥ ते हण
 जे रे गाय ॥ अण ॥ ५ ॥ एम सवि विघन विदारीने ॥ वण ॥ पहोंचजे शि
 वपुर वास ॥ अण ॥ दयउपशम जे जावना ॥ वण ॥ पोठें न्ह्या गुण राश
 ॥ अण ॥ ६ ॥ खायक जावें ते थशे ॥ वण ॥ लाज होशे ते अपार ॥ अण ॥
 उत्तम वणज जे एम करे ॥ वण ॥ पद्म नमे वारं वार ॥ अण ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ सोदागरनी सहाय ॥

॥ लावो लावोने राज, मौंधां मुखनां मोती ॥ ए देशी ॥

॥ सुण सोदागर बे, दिलकी बात हमेरी ॥ तें सोदागर दूर विदेशी,
सोदा करनकुं आया ॥ मोसम आये माल सवाया, रतनपुरीमां गया ॥
॥ सु० ॥ १ ॥ तिनुं दलालकुं हर समजाया, जिनसें बहोत न फाया ॥
पांचुं दीवानुं पाजं जडाया, एककुं चोकी बिठाया ॥ सु० ॥ २ ॥ नफा देख
कर माल विहरणां, चुआ कटे न युं धरनां ॥ दोनुं दगावाजी दूर करनां,
दीपकी ज्योतें फिरनां ॥ सु० ॥ ३ ॥ उरदिन बली मेहेलमें रहनां, बंदरकुं
न हिलानां ॥ दश सहेरसें दोस्तिहिं करनां, उनसें चित्त मिलानां ॥ सु० ॥
॥ ४ ॥ जनहर तजनां जिनवर जजनां, सजना जिनकुं दखाइ ॥ नवसर
हार गलेमें रखनां, जखनां लखकी कटाइ ॥ सु० ॥ ५ ॥ शिरपर मुगट
चमर ढोलाइ, अम घर रंग बधाइ ॥ श्रीशुजवीर विजय घर जाइ, होत
सतावी सगाइ ॥ सु० ॥ ६ ॥ इति ॥ सोदागरनी सहाय ॥

॥ अथ आपखजावनी सहाय ॥

॥ आप खजावमां रे, अबधू सदा मगनमें रहेनां ॥ जगत जीव हे कर
माधीना, अचरिज कबुअ न लीना ॥ आ० ॥ १ ॥ तुम नहीं केरा कोइ
नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा ॥ तेरा हे सो तेरी पास, अवर सबे अने
रा ॥ आ० ॥ २ ॥ वपु विनाशी तुं अविनाशी, अब हे इनको विलासी ॥
वपु संग जब दूर निकाशी, तब तुम शिवका वासी ॥ आ० ॥ ३ ॥ राग
ने रीसा दोय खवीसा, ए तुम दुखका दीसा ॥ जब तुम उनकुं दूर करी
सा, तब तुम जगका ईसा ॥ आ० ॥ ४ ॥ परकी आसा सदा निरासा,
ए हे जग जन पासा ॥ ते काटनकुं करो अच्यासा, लहो सदा सुखवासा
॥ आ० ॥ ५ ॥ कबहींक काजी कबहींक पाजी, कबहींक हुआ अप त्रा
जी ॥ कबहींक जगमें कीर्ति गाजी, सब पुजलकी बाजी ॥ आ० ॥ ६ ॥
शुद्ध उपयोग ने समता धारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी ॥ कर्म कलंककुं
दूर निवारी, जीव बरे शिव नारी ॥ आ० ॥ ७ ॥ इति सहाय ॥

॥ अथ सहजानंदीनी सहाय ॥ बीजी असरण जावना ॥ ए देशी ॥

॥ सहजानंदी रे आत्मा, सूतो कांइ निश्चित रे ॥ मोह तणा रणीया
जमे, जाग जाग मतिवत रे ॥ लूंटे जगतना जंत रे, नाखी वांक अत्यंत

रे, नरकावास उवंत रे, कोइ विरला उगरंत रे ॥ से० ॥ १ ॥ राग छेप
परिणति जजी, माया कपट कराय रे ॥ काश कुसुम परें जीवडो, फोगट
जनम गमाय रे, माथे जय जमराय रे, श्यो मन गर्व धराय रे, सहु एक
मारग जाय रे, कोण जग अमर कहाय रे ॥ से० ॥ २ ॥ रावण सरिखा
रे राजवी, नागा चाल्या विण धाग रे ॥ दश माथां रण रडवड्यां, चांच
दीए शिर काग रे, देव गया सवि जाग रे, न रह्यो माननो ठाग रे, हरि
हाथें हरिनाग रे, जोजो चाइठना राग रे ॥ से० ॥ ३ ॥ केइ चाल्या केइ
चालशे, केता चालणहार रे ॥ मारग वहेतो रे नित्य प्रत्यें, जोतां लस
हजार रे ॥ देश विदेश सधार रे, ते नर एणें संसार रे ॥ जातां जम दर
वार रे, न जुवे वार कुवार रे ॥ से० ॥ ४ ॥ नारायण पुरीछारिकां, बलती
मेली निराश रे ॥ रोता रणमां ते एकला, नाठा देव आकाश रे ॥ किहां
तरु ठाया आवास रे ॥ जल जल करी गयो सास रे ॥ बलजड सरोवर पा
स रे, सुणी पांरुव शिववास रे ॥ से० ॥ ५ ॥ राजी गाजीने बोलता, करता
हुकम हेरान रे ॥ पोढ्या अग्निमां एकला, काया राख समान रे, ब्रह्मदत्त
नरक प्रयाण रे, ए कृद्धि अथिर निदान रे ॥ जेवुं पीपल पान रे, म ध
रो जूठ गुमान रे ॥ से० ॥ ६ ॥ बाखेसर विना एक घडी, नवि सोहातुं ल
गार रे ॥ ते विना जननारो वही गयो, नहीं कागल समाचार रे ॥ नहीं
कोइ कोइनो संसार रे, स्वारथीयो परिवार रे ॥ माता मरुदेवी सार रे,
पोहोतां मोह मोजार रे ॥ से० ॥ ७ ॥ मात पिता सुत बांधवा, अधिको
राग विचार रे ॥ नारी असारि रे चित्तमां, वंठे विषय गमार रे, जुवो
सूरिकांता जे नार रे, विख देती जरतार रे, नृप जिन धर्म आधार रे,
सज्जन नेह निवार रे ॥ से० ॥ ८ ॥ हसी हसी देता रे तालीयो, शय्या
कुसुमनी सार रे ॥ ते नर अंते माटी थया, लोक चणे घर बार रे, घड
ता पात्र कुंजार रे, एहवुं जाणी असार रे ॥ ठाड्यो विषय विकार रे,
धन्य तेहनो अवतार रे ॥ से० ॥ ९ ॥ थावचासुत शिव वस्या, वली ए
लाची कुमार रे ॥ धिक् धिक् विषया रे जीवने, लइ वैराग्य रसाख रे,
मेहेली मोह जंजाख रे, घर रमे केवल बाल रे, धन्य करकंभू चूपाल रे
॥ से० ॥ १० ॥ श्री शुचविजय सुगुरु लही, धर्मरण धरो ठेक रे ॥ वीर
वचन रस शेखडी, चाखे चतुर विवेक रे, न गमे ते नर जेक रे, धरता ध

मैनी टेक रे, जवजल तरिया अनेक रे ॥ सेण ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ चेतन शिखामणनी सद्वाय ॥

॥ चेतन अब कबु चेतीये, ज्ञान नयण उघाडी ॥ समता सहजपणुं
जजो, तजो समता नारी ॥ चे० ॥ १ ॥ या दुनीयां हे बाधरी, जैसी बा
जीगर बाजी ॥ साथ कीसीके नां चले, ज्युं कुलटा नारी ॥ चे० ॥ २ ॥
माया तरुबाया परें, न रहे थिरकारी ॥ जानत हे दिलमें जनी, पण क
रत विगारी ॥ चे० ॥ ३ ॥ मेरी मेरी तुं क्या करे, करे कोणशुं घारी ॥
पलटे एकण पलकमें, ज्युं घन अंधीघारी ॥ चे० ॥ ४ ॥ परमात्म अविच
ल जजो, चिदानंद आकारी ॥ नय कहे नियत सदा कगे, सब जन सुख
कारी ॥ चे० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ आत्मबोधनी सद्वाय ॥

॥ हो सुण आतमा मत पड मोहपंजर मांहे ॥ माया जाल रे ॥ धन रा
ज्य जोवन रूप रामा, सुत सुता घरवार रे ॥ हुकुम होदा हाथी घोडा,
कारिमो परिवार ॥ माया जाल रे ॥ हो० ॥ १ ॥ अतुल बल हरि चक्री रा
मा, जुजोर्जित मदमत्त रे ॥ क्रूर जमबल निकट आवे, गलित जाये स
त्त ॥ माया० ॥ हो० ॥ २ ॥ पुहवीने जे ठत्र परें करे, मेरुनो करे दंरु रे ॥
ते पण गया हाथ घसता, मूकी सर्व अखंक ॥ मा० ॥ हो० ॥ ३ ॥ जे त
खत बेसी हुकुम करता, पेहेरी नवला वेश रे ॥ पाघ सेहेरा धरत टेढा,
मरी गया जमदेश ॥ मा० ॥ हो० ॥ ४ ॥ सुख तंबोलने अधर राता, करत
नव नव खेल रे ॥ तेह नर बल पुण्य घाठे, करत परधर टेढ ॥ मा० ॥
हो० ॥ ५ ॥ जज सदा जगवंत चेतन, सेव गुरुपदपद्म रे ॥ रूप कहे कख
धर्मकरणी, पामे शाश्वत सद्म ॥ मा० ॥ हो० ॥ इति० ॥

॥ अथ आत्मबोधनी सद्वाय ॥

॥ सांजल सयणा साची सुणावुं, पूरव पुण्यें तुं पाम्यो रे जाइ ॥ नरक
निगोदमां जमतां नरजव, तें निःफल केम वाम्यो रे जाइ ॥ सां० ॥ १ ॥
जैनधर्म जयवंतो जगमां, धारी धर्म न साध्या रे जाइ ॥ मेघघटा सरि
खां गज साटे, गर्दज घरमां वांध्यो रे जाइ ॥ सा० ॥ २ ॥ कल्पवृक्ष कू
हाडे कापी, धंतुरो घेर धारे रे जाइ ॥ चिंतामणि चिंतित पूरण ते, काग

उडाडण डारे रे चाइ ॥ सां० ॥ १ ॥ एम जाणी जावा नवि दीजें, नर नारी नर चवनें रे चाइ ॥ उलखी शुद्ध धर्मने साधो, जे मान्यो मुनि मननें रे चाइ ॥ सां० ॥ ४ ॥ जे विज्ञाव परज्ञावमां जजियें, रमण स्वज्ञावमां करीयें रे चाइ ॥ उत्तमपदपद्मने अवलंबी, ज्ञावयण चवजल तरीयें रे चाइ ॥ सां० ॥ ५ ॥ इति आत्म हित शिक्षा सधाय ॥

॥ अथ रात्रिज्ञोजननी सधाय प्रारंभः ॥

॥ पुण्य संजोगें नरचव लाधो, साधो आत्म काज ॥ विषया रस जाणो विष सरखो, एम चांखे जिनराज रे ॥ प्राणी ॥ रात्रिज्ञोजन वारो ॥ आगम वाणी साची जाणी, समकित गुण सही नाणी रे ॥ प्राणी ॥ रात्रिण ॥ १ ॥ ॥ ए आंकणी ॥ अज्ञह्य बावीशमां रयणीज्ञोजन, दोष कळा परधान ॥ तेणें कारण रातें मत जमजो ॥ जो हुवे हड्डे शान रे ॥ प्रा० ॥ २ ॥ दान स्नान आयुधने जोजन, एटलां रातें न कीजें ॥ ए करवां सूरजनी साखें, नीतिवचन समजीजें रे ॥ प्रा० ॥ ३ ॥ उत्तम पशु पंखी पण रातें, टाले जोजन टाणो ॥ तुमें तो मानवी नाम धरावो, किम संतोप न आणो रे ॥ प्रा० ॥ ४ ॥ माखी जू कीडी कोलीआवडो, जोजनमां जो आवे ॥ कोढ जलोदर वमन विकलता, एवा रोग उपावे रे ॥ प्रा० ॥ ५ ॥ ठनुं चव जीवहत्या करतां, पातक जेह उपायुं ॥ एक तलाव फोडंतां ते टळुं, दूषण सुगुरु वतायुं रे ॥ प्रा० ॥ ६ ॥ एकलोत्तर चव सर फोड्या सम, एक दव देतां पाप ॥ अठलोत्तर चव दव दीधा जिम, एक कुवणिज संताप रे ॥ प्रा० ॥ ७ ॥ एक शो चुम्मालीश चव लगे कीधा, कुवणिजना जे दोष ॥ कूहुं एक कलंक दियंतां, तेहवो पापनो पोष रे ॥ प्रा० ॥ ८ ॥ एक शो एकावन चव लगे दीधां, कूडां कलंक अपार ॥ एक वार शील खंड्या जेवो, अनर्थनो विस्तार रे ॥ प्रा० ॥ ९ ॥ एक शो नवाशुं चव लगे खंड्या, शीयल विषय संबध ॥ तेहवो एक रात्रिज्ञोजनमां, कर्म निकाचित बंध रे ॥ प्रा० ॥ १० ॥ रात्रिज्ञोजनमां दोष घणाठे, श्यो कहीयें विस्तार ॥ केवली केहतां पार न पावे, पूरव कोडी मजार रे ॥ प्रा० ॥ ११ ॥ एवुं जाणीने उत्तम प्राणी, नित्य चोविहार करीजे ॥ मासें मासें पासखमाणो, लाज एणे विधें लीजें रे ॥ प्रा० ॥ १२ ॥ मुनि वसतानी एह शिखाम

ए, जे पाखे नर नारी ॥ सुर नर सुख विलसीनें होवे, मोक्ष तणा अधि
कारी रे ॥ प्रा० ॥ १३ ॥ इति रात्रिचोजननी सद्याय ॥

॥ अथ जोवन अस्थिरनी सद्याय ॥ राग प्रजाती ॥

॥ जोवनियांनी मोजां फोजां, जाय नगरां देती रे ॥ घडी घडी घडि
याळां वाजे, तोही न जागे तेथी रे ॥ जो० ॥ १ ॥ जरा राक्षसी जोर करे
ठे, फेलावी फजेती रे ॥ आवी अवधें उंशंके नहीं, लखपतिने लेती रे
॥ जो० ॥ २ ॥ माळें बैठो मोज करे ठे, खातें जोवे खेती रे ॥ जमरो जम
रो ताणी लेशे, गोफण गोळा संती रे ॥ जो० ॥ ३ ॥ जे ते ऊपर जोर करो
ठे, चतुर जुवोने चेती रे ॥ मांधाता सरखा नरवलिया, राजविया थया
रेती रे ॥ जो० ॥ ४ ॥ जिनराजाने शरणे जाठ, जोराखो को न जेथी रे ॥
डुनियामां डूजो दीसे नहीं, आखर तरशो तेथी रे ॥ जो० ॥ ५ ॥ दंत
पड्याने मोसो थयो, काज सखुं नहीं केथी रे, उदयरल कहे आपें सम
जों, कहीयें वातो केती रे ॥ जो० ॥ ६ ॥

॥ अथ शीयल विषे पुरुषने शिखामणनी सद्याय ॥

॥ चाल ॥ सुण सुण कंता रे, शीख सोहामणी ॥ प्रीत न कीजें रे, परना
री तणी ॥ उथलो ॥ परनारी साथें प्रीत पिउडा, कहो किय परें कीजि
यें ॥ उंघ वेची आपणी, उजागरो किम लीजियें ॥ काठडीबूटो कहे लंपट,
लोकमांहे लाजियें ॥ कुल विषय खंणण रखे लागे, सगामां केम गाजियें
॥ १ ॥ चाल ॥ प्रीति करंतां रे, पेहेळां बीहीजीयें ॥ रखे कोइ जाणे रे, मन
शुं धूजीयें ॥ उ० ॥ धूजीयें मनशुं फूरीयें पण, जोग मलवो ठे नहीं ॥
रात दिन विलपतां जाये, अवटाइ मरवुं सही ॥ निज नारिथी संतोष न
वड्यो, परनारिथी कहो शुं हशे ॥ जो जरे जाणे तृप्ति न वळी तो, एठ चाटे
शुं हशे ॥ २ ॥ चाल ॥ मृग तृष्ठाथी रे, तृष्ठा नवि टले ॥ वेळु पीट्यां रे,
तेल न नीसरे ॥ उ० ॥ न नीसरे पाणी वलोवतां, लव लेश मांखणनो व
ली ॥ बूडतां बाचक जस्या केणें, ते तस्यावात न सांचली ॥ तेम नार रम
तां परतणी, संतोष न वड्यो एक घडी ॥ चित्त चटपटी उच्चाट लागे, नय
णें नावे निडडी ॥ ३ ॥ चाल ॥ जेवो खोटो रे, रंग पतंगनो ॥ तेवो चटको
रे, परस्त्री संगनो ॥ उ० ॥ परत्रीयाकेरो प्रेम पिउडा, रखे तुं जाणे खरो ॥
दिन चार रंग सुरंग रूडो, पठी नहीं रहे निर्धरो ॥ जे घणा साथें नेह मांने,

ठांन तेहशुं प्रीतडी ॥ एम जाणी म म कर नाहला, परनारि सायें प्रीतडी
 ॥ ४ ॥ चाल ॥ जे पति वाहालो रे, वंचे पापिणी ॥ परशुं प्रेमें रे, राचे सा
 पिणी ॥ ७ ॥ सापिणी सरखी वेंण निरखी, रखे शीयलथकी चले ॥ आं
 खने मटके अंग लटके, देव दानवने ठले ॥ ए मांहे काली अति रसा
 ली, वाणी मीठी शेलडी ॥ सांजली जोला रखे चूलो, जाणजो विप
 बेलडी ॥ ५ ॥ चाल ॥ संग निवारो रे, पररामा तणो ॥ शोक न कीजे रे,
 मन मिलवा तणो ॥ ७ ॥ शोक शाने करो फोगट, देखवुं पण दोहिलुं ॥
 क्षिण मेडियें क्षिण शेरीयें, जमतां न लागे सोहिलुं ॥ उच्चासने निःश्वास
 आवे, अंग जांजे मन जमे ॥ वलि कामिनी देखी देह दाजे, अन्न दीतुं
 नवि गमे ॥ ६ ॥ चाल ॥ जाये कलामी रे, मनशुं कल मले ॥ उन्मत्त
 यश्ने रे, अलल पलल लवे ॥ ७ ॥ लवे अलल पलल जाणे, मोहधेलो
 मन रडे ॥ महामदन वेदन कठिन जाणी, मरण वारु त्रेवडे ॥ ए दश
 अवस्था कामकेरी, कंत कायाने दहे ॥ एम चित्त जाणी तजे प्राणी, पार
 की ते सुख लहे ॥ ७ ॥ चाल ॥ परनारीना रे, परान्नव सांजलो ॥ कंता
 कीजें रे, जाव ते निर्मलो ॥ ७ ॥ निर्मलें जावे नाह समजो, परव धूरस
 परिहरो ॥ चांपीठ कीचक ज्रीमसेनें, शिला हेठल सांजलो ॥ रण पड्यां
 रावण दशे मस्तक, रडवड्यां अर्थें कद्यां ॥ तिम मुंजपति डुख पुंज पाम्यो,
 अपजश जगमांहे लह्या ॥ ७ ॥ चाल ॥ शीयल सवूणा रे, माणस सोहि
 ये ॥ विण आजरणें रे, जग मन मोहीयें ॥ ७ ॥ मोहियें सुर नर करे
 सेवा, विष अमिय थइ संचरे ॥ केसरी सिंह शीयाल थाए, अनल अति
 शीतल करे ॥ साप थाए फूलमाला, लहो घर पाणी जरे ॥ परनारि परि
 हरि शीयल मन धरि, मुक्तिवधू हेला वरे ॥ ७ ॥ चाल ॥ ते माटे हुं रे,
 वालम वीनतुं ॥ पाए लागीनें रे, मधुर वयणे चतुं ॥ ७ ॥ वयण माहारुं
 मानीयें, परनारीथी रहो वेगला ॥ अपवाद माथे चढे मोटा, नरकें थइ
 यें दोहिला ॥ धन्य धन्य ते नर नारि जे जग, शीयल पाले कुल तिलो,
 ते पामशे यश जगत मांहि, कुमुद चंद सम उजलो ॥ १० ॥ इति ॥

॥ अथ शीयलविषे नारीने शिखामणनी सञ्चाय ॥

॥ चाल ॥ एक अनोपम, शिखामण खरी ॥ समजी लेजो रे, सघली
 सुंदरी ॥ ७ ॥ सुंदरी सेहेजें हृदय हेजें, पर सेजें नवि बेसीयें ॥ चित्तय

की चूकी लाज मूकी, पर मंदिर नवि पेसीयें ॥ बहु घेर हींभी नार नि-
 र्खज, शाखें पण तजवी कही ॥ जेम प्रेत दृष्टें पडयुं जोजन, जमवुं ते जु
 गतुं नहीं ॥ १ ॥ चाल ॥ परशुं प्रेमे रे, हसीय न बोलीयें ॥ दांत देखा-
 डी रे, गुह्य न खोलीयें ॥ ७० ॥ गुह्य घरनुं परनी आगें, कहौने केम प्रका
 शीयें ॥ बली वात जे विपरीत चासे, तेहथी दूरे नाशीयें ॥ असुर सवा
 रा अने अगोचर, एकलां नवि जाइयें ॥ सहसातकारें काम करतां, सहेजें
 शील गमावीयें ॥ २ ॥ चाल ॥ नट विट नरशुं रे, नयण न जोडीयें ॥
 मारग जातां रे, आघुं उंढीयें ॥ ७१ ॥ आघुं ते उंढी वात करतां, घणुंज
 रूडां शोत्रीयें ॥ सासू अने माना जण्या विण, पलक पास न थोत्रीयें ॥
 सुख दुःख सरज्युं पामीयें पण, कुलाचार न मूकीयें ॥ परवश वसतां प्रा-
 ण तजतां, शीयलथी नवि चूकीयें ॥ ३ ॥ चाल ॥ व्यसनी साथें रे, वात
 न कीजीयें ॥ हाथो हाथे रे, ताली न लीजीयें ॥ ७२ ॥ ताली न लीजें
 नजर ने दीजें, चंचल चाल न चालीयें ॥ एक विषय बुझें वस्तु केहनी,
 हाथे पण नवि जालीयें ॥ कोटि कंदर्प रूप सुंदर, पुरुष पेखी न मोहियें
 ॥ तृणखलां तोले गणी तेहने, फरिय सामुं न जोइयें ॥ ४ ॥ चाल ॥ पु-
 रुष पीयारो रे, बलि न बखाणीयें ॥ वृद्ध ते पिता रे, सरखो जाणीयें ॥
 ७३ ॥ जाणीयें पियु विण पुरुष सघला, सहोदर समो बडे ॥ पतिव्रतानो
 धर्म जोतां, नावे कोइ तडोवडें ॥ कुरूप कुष्टी कूबडो ने, दुष्ट दुर्वल निर्गु-
 णो ॥ जरतार पामी जामिनी ते, इंद्रथी अधिको गुणो ॥ ५ ॥ चाल ॥
 अमरकुमारे रे, तजी सुरसुंदरी ॥ पवनंजये रे, अंजना परिहरी ॥ ७४ ॥
 परिहरी सीता रामे वनमां, नलें दमयंती बली ॥ महासती माथे कष्ट
 पड्यां पण, शीयलथी ते नवि चली ॥ कसोटीनी परें कसीअ जोतां, कं-
 तशुं विहडे नहीं ॥ तन मन्न वचनें शीयल राखे, सती ते जाणो सही ॥
 ६ ॥ चाल ॥ रूप देखाडी रे, पुरुष न पाडीयें ॥ व्याकुल थइने रे, मन न
 बगाडीयें ॥ ७५ ॥ मन बगाडीयें पण पुरुषपरनुं, जोग जोतां नवि मले ॥
 कलंक माथे चढे कूडां, सगां सहू दूरें टले ॥ अणसरज्यो उच्चाट थाये,
 प्राण तिहां लागी रहे ॥ इह लोक पामे आपदा, परलोक पीडा बहु सहे
 ॥ ७ ॥ चाल ॥ रामने रूपें रे, शूर्पनखा मोही ॥ काज न सीधुं रे, अने
 इजत खोइ ॥ ७६ ॥ इजत खोइ देख अजया, शेठ सुदर्शन नवि चख्यो ॥

जतरार आगल पडी जौठी, अपवाद सघले उल्लव्यो ॥ कामनी बुद्धे का-
मिनीयें, बंकचूल वाह्यो घणुं ॥ पण शीयलथी चूक्यो नहीं, दृष्टांत एम
केतां जणुं ॥ ७ ॥ चाल ॥ शीयल प्रजावे रे, जुवो शोले सती ॥ त्रिजुवन
मांहे रे, जेह थई ठती ॥ ७० ॥ सती अइने शीयल राख्युं, कल्पना की
धी नहीं ॥ नाम तेहनां जगत जाणे, विश्वमां जगी रही ॥ विविध रत्नें
जडित जूषण, रूपसुंदरि किन्नरी ॥ एक शीयल विण शोजे नहीं, ते सत्य
गणजो सुंदरी ॥ ७१ ॥ चाल ॥ शीयल प्रजावे रे, सहु सेवा करे ॥ नवे वाडें
रे, जेह निर्मल धरे ॥ ७२ ॥ धरे निर्मल शीयल उज्जाल, तास कीर्त्ति जल
हले ॥ मनकामना सवि सिद्धि पामे, अष्ट जय दूरें टले ॥ धन्य धन्य ते
जाणो धरा, जे शीयल चोखुं आदरे, आनंदना ते उध पामे, उदय महा
जस विस्तरे ॥ १० ॥ इति नारीने शिखामणनी सद्याय ॥

॥ अथ धोबीडानी सद्याय ॥

॥ धोबीडा तुं धोजे मननुं धोतीयुं रे, रखे राखतो मेल लगार रे ॥ एणे
रे मेलें जग मेलो कस्यो रे, अण धोयुं न राखे लगार रे ॥ धोण ॥ १ ॥
जिनशासन सरोवर सोहामणुं रे, समकित तणी रूडी पाल रे ॥ दाना
दिक चारे बारणां रे, मांही नवतत्त्व कमल विशाल रे ॥ धोण ॥ २ ॥ ति
हां जीले मुनिवर हंसला रे, पीये ठे तप जप नीर रे ॥ शम दम आदें जे
सिला रे, तिहां पखावे आतम चीर रे ॥ धोण ॥ ३ ॥ तपवजे तप तडके
करी रे, जालवजे नवब्रह्म वाड रे ॥ ठांटा उकाडे पाप अढारना रे, एम
उजळुं होशे ततकाल रे ॥ धोण ॥ ४ ॥ आलोयण साबूडो सूधो करे रे, रखे
आवे माया शेवाल रे ॥ निश्चें पवित्रपणुं राखजे रे, पठें आपणा नियम
संजाल रे ॥ धोण ॥ ५ ॥ रखे मूकतो मन मोकळुं रे, पड मेलीने संकेल
रे ॥ समय सुंदरनी शीखडी रे ॥ सुखडी अमृतवेल रे ॥ धोण ॥ ६ ॥

॥ अथ ज़रतचक्रीनी सद्याय ॥

॥ मनहीमें वैरागी ज़रतजी, मनहीमें वैरागी ॥ सहस बत्रीश मुकुट
बंध राजा, सेवा करे वडजागी ॥ चोसठ सहस अंतैजरी जाके, तोहि न
हुवा अनुरागी ॥ जण ॥ १ ॥ लाख चोराशी तुरंगम जाके, ठनुं कोड हे
पागी ॥ लाख चोराशी गज रथ सोहीयें, सुरता धर्मशुं लागी ॥ जण ॥
॥ २ ॥ चार करोड मण अन्नज उपडे, दूण दश लाख मण लागे ॥ तिन

कोड तो गोकुल डूजे, एक कोड हल सागी ॥ जण॥३॥ सहस बत्रीश देश
वडजागी, जये सरवके त्यागी ॥ ठनुं कोड गामके अधिपति, तोहे न हुआ
सरागी ॥ जण॥४॥ नव निधि रतन चोगडा बाजे, मन चिंता सब जांगी ॥
कनक कीर्त्ति मुनिवर वंदत हे, देजो मुक्ति में मागी ॥ जण॥५ ॥ इति ॥

॥ अथ बाहुबलजीनी सद्यय ॥

॥ बहेनी बोखे हो, बाहुबल सांजलो जी ॥ रूडा रूडा रंगनिधान ॥
गयवर चढिया हो, केवल केम हुवे जी ॥ जाण्युं जाण्युं पुरुष प्रधान ॥
ब० ॥ १ ॥ तुज सम उपशम जगमां कुण गणे जी, अकल निरंजन देव ॥
जाइ जरतेसर वाहाला वीनवे जी, तुऊ करे सुरनर सेव ॥ ब० ॥ २ ॥
जरवरसालो हो वनमां वेठीउ जी, जिहां घणां पाणीनां पूर ॥ ऊरमर
वरसे हो मेहुलो घणुं जी, प्रगट्या पुण्य अंकूर ॥ ब० ॥ ३ ॥ चहु दिसी
वीट्यो हो वेलडीए घणुं जी, जेम वादल ढायो सूर ॥ श्री आदिनाथें
हो अमने मोकट्यां जी, तुम प्रतिबोधन नूर ॥ ब० ॥ ४ ॥ वर संवेगरसें
हो मुनिवर जस्या जी, पाम्युं पाम्युं केवल नाण ॥ माणकमुनि जस नामें
हो हरख्यो घणुं जी, दिन दिन चढतो ठे वान ॥ ब० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ ढंढण ऋषिजीनी सद्यय ॥

॥ ढंढण ऋषिने वंदणा ॥ हुं वारी लाल ॥ उत्कृष्टो अणगार रे ॥ हुं
वारी लाल ॥ अजिग्रह लीधो आकरो ॥ हुं वारी ० ॥ लब्धे लेशुं आ
हार रे ॥ हुं वारी लाल ॥ ढं ॥ १ ॥ दिन प्रति जावे गोचरी ॥ हुं ॥
न मले शुद्ध आहार रे ॥ हुं ॥ न लीए मूल असूक्तो ॥ हुं ॥ पीजर
हूवो गात रे ॥ हुं ॥ ढं ॥ २ ॥ हरि पूठे श्री नेमने ॥ हुं ॥ मुनिवर
सहस अठार रे ॥ हुं ॥ उत्कृष्टो कोण एहमें ॥ हुं ॥ मुजने कहो वि
चार रे ॥ हुं ॥ ढं ॥ ३ ॥ ढंढण अधिको दाखीउ ॥ हुं ॥ श्रीमुख
नेम जिणंद रे ॥ हुं ॥ कृष्ण उमाह्यो वांदवा ॥ हुं ॥ धन्य जादवकु
ल चंद रे ॥ हुं ॥ ढं ॥ ४ ॥ गलीआमां मुनिवर मट्या ॥ हुं ॥ वांदे
कण नरेश रे ॥ हुं ॥ किणही मिथ्यात्वियें देखीने ॥ हुं ॥ आव्यो जा
व विशेष रे ॥ हुं ॥ ढं ॥ ५ ॥ आवो अम घर साधुजी ॥ हुं ॥ ट्यो
मोदक ठे शुद्ध रे ॥ हुं ॥ ऋषिजी लेश आवीया ॥ हुं ॥ प्रभुजी पास
विशुद्ध रे ॥ हुं ॥ ढं ॥ ६ ॥ मुजलब्धे मोदक मिट्या ॥ हुं ॥ पूठे ठे

कहो कृपाल रे ॥ हुं० ॥ लब्धि नहीं वत्स ताहरी ॥ हुं० ॥ श्रीपति लब्धि
निहास रे ॥ हुं० ॥ ढं० ॥ ७ ॥ तो मुजने खेवो नहीं ॥ हुं० ॥ चाल्यो
परतण काज रे ॥ हुं० ॥ इंट निंजाडे जाइने ॥ हुं० ॥ चूरे कर्म समाज रे
॥ हुं० ॥ ढं० ॥ ८ ॥ आवी सूधी जावना ॥ हुं० ॥ पाम्यो केवलनाण रे ॥
॥ हुं० ॥ ढंढण ऋषि मुगते गया ॥ हुं० ॥ कहे जिनवर्ष सुजाण रे ॥ हुं० ॥
ढं ॥ ९ ॥ इति ढंढण ऋषिनी सद्वाय ॥

॥ अथ अश्मंताजीनी सद्वाय ॥

॥ श्री अश्मंता मुनिवरजूकी, करणीकी बलिहारी वे ॥ खट वर्षनके
संजम लीनो, वीरवचन चित्त धारी वे ॥ श्री० ॥ १ ॥ त्रिजय नृपति श्री
देवी नंदन, पोलासपुर अवतारी वे ॥ अंग अग्यार पढे गुण आदर, त्रि
विध त्रिविध अविकारी वे ॥ श्री० ॥ २ ॥ तप गुण रयण संवठर आदिक,
करके काय उरूारी वे ॥ प्रभु आदेशें विपुलाचल पर, करी अणसण अति
चारी वे ॥ श्री० ॥ ३ ॥ केवल पाय मुक्ति गये मुनिवर, कर्म कलंक निवा
री वे ॥ अढारसें अडताले तिहिं गिरि, कीनी थापना सारी वे ॥ श्री० ॥ ४ ॥
वाचक अमृत धर्म सुगुरुके, सुपसायें सुविचारी वे ॥ शिष्य द्रमा कट्याण
हरख धर, गुण गावे जयकारी वे ॥ श्री० ॥ ५ ॥ इति अश्मंता मुनिनी ॥

॥ अथ करकंरू प्रत्येक बुधजीनी सद्वाय ॥

॥ चंपा नगरी अति जली ॥ हुं वारी लाल ॥ दधिवाहन चूपाल रे ॥
हुं वारी लाल ॥ पद्मावती कूखें उपनो ॥ हुं ॥ कर्म कीधो चंफाल रे ॥
हुं ॥ १ ॥ करकंरूने करुं वंदणा ॥ हुं ॥ पहिलो प्रत्येक बुध रे ॥ हुं ॥
गिरुवाना गुण गावतां ॥ हुं ॥ समकित थाये शुद्ध रे ॥ हुं ॥ २ ॥ लाधी
वांशनी लाकडी ॥ हुं ॥ थयो कंचनपुर राय रे ॥ हुं ॥ बापशुं संग्राम
मांकीडं ॥ हुं ॥ साधवी लीडं समजाय रे ॥ हुं ॥ ३ ॥ वृषज रूप देखी
करी ॥ हुं ॥ प्रतिबोध पाम्यो नरेश रे ॥ हुं ॥ उत्तज संजम आदस्यो
॥ हुं ॥ देवता दीधो वेश रे ॥ हुं ॥ ४ ॥ कर्म खपाय मुगते गया ॥ हुं
॥ करकंरू ऋषिराय रे ॥ हुं ॥ समयसुंदर कहे साधुने ॥ हुं ॥ प्रणम्यां
पातक जाय रे ॥ हुं ॥ ५ ॥ इति ॥ करकंरू सद्वाय ॥

॥ अथ मनोरमा सतीनी सद्वाय ॥

॥ मोहनगारी मनोरमा, शेठ सुदर्शन नारी रे ॥ शील प्रजावें शासनसु

री, थइ जस सान्निध्यकारी रे ॥ मो० ॥ १ ॥ दधिवाहन नृपनी प्रिया,
अज्ञया दीए कलंक रे ॥ कोप्यो चंपापति कहे, शूली रोपण वंकरे ॥
मो० ॥ २ ॥ ते निसुणीने मनोरमा, करे काउसग्ग धरी ध्यान रे ॥ दंपती
शीख जो निर्मलुं, तो वधो शासन माम रे ॥ मो० ॥ ३ ॥ शूली सिंहासन
थइ, शासन देवी हजूर रे ॥ संजम ग्रही थयां केवली, दंपती दोय स
नूर रे ॥ मो० ॥ ४ ॥ ज्ञानविमल गुण शीलथी, शासन शोच चढावे रे ॥
सुर नर सवि तस किंकरा, शिवसुंदरी ते पावे रे ॥ मो० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ शोल सतीनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ चोपाई ॥ सरसती माता प्रणमुं मुदा, तुं तूठी आपे संपदा ॥ शोल
सतीनां लीजें नाम, जेम मनवांछित सिजे काम ॥ १ ॥ ब्राह्मी सुंदरी सु
लसा सती, जपतां पातक न रहे रती ॥ कौशल्या कुंती सति सार, प्रजा
वती नामें जयकार ॥ २ ॥ जगवती शीलवती जय हरे, सुखसंपत्ति पद्मा
वती करे ॥ द्रोपदी पांरुव घरणी जेह, शियल अखंरु वखाएथुं तेह ॥ ३ ॥
चूला दमयंती दुःख हरे, शिवादेवी नित्य सान्निध्य करे ॥ चंदनवाला
चडती कला, वीरपात्र दीधा बाकुला ॥ ४ ॥ राजिमती नवि परण्या नेम,
तोहे राख्यो अविहड प्रेम ॥ सीतातणुं शीयल जग जयो, अग्नि टलीने
पाणी थयो ॥ ५ ॥ धन्य धन्य सती सुजडा धीर, काचे तांतणे चालणी
नीर ॥ चंपापोलि उघाडी चंग, मृगावती प्रणमुं मनरंग ॥ ६ ॥ प्रह उठी
सती जपियें शोल, जिम लहियें रुद्धि वृद्धि घृत गोल ॥ श्रीविनयविजय
वाचक सुपसाय, रूपविजय जावें गुण गाय ॥ ७ ॥ इति शोल सतीनी सञ्चाय ॥

॥ अथ जीवदयानी सञ्चाय ॥ चोपाइनी देशी ॥

॥ आदि जिणेसर पाय प्रणमेव, सरसती स्वामीनी मन धरेव ॥ जी
व दया पाखो नर नार, जेम तरो निश्चें संसार ॥ १ ॥ पाणी गलतां जय
णा करो. खारां मीठां जूदां धरो ॥ जेहने मनें दया परधान, ते घर दी
ने बहु संतान ॥ २ ॥ मारे जूने फोडे लीख, नर नारीनें एहज शीख ॥
तेहनें घरे नहिं संतान, दुःख देखे ते मेरु समान ॥ ३ ॥ पत्नी उंदर मा
णसनां बाल, जे पापी मारे चिर काल ॥ तेहने परजवें एहज दुःख, ठोरु
तणां नवि होये सुख ॥ ४ ॥ माखण मधु वीली अथाण, आइ सूरण व
जें जाण ॥ गाजर मूला रताबु जेह, शुद्ध श्रावक ते ठंके एह ॥ ५ ॥ फो

गट फूले माया करे, कहो केम ते जवसागर तरे ॥ जेहने देव गुरुशुं छेप,
 रूप न पामे ते लव लेश ॥ ६ ॥ बहु दाहाडानुं मेली करी, माखण तावे
 अश्रियें धरी ॥ ते मरीने नरके जाय, मानव होय तो दाघज्वर थाय ॥
 ॥ ७ ॥ छूध तणे वली लोचें जेह, पामा चूखे मारे तेह ॥ फरता ढोरमां
 ते जाये वली, चूखे तरशे मरे टलवली ॥ ८ ॥ आंख्य फूटी दीये जे गाल,
 परज्वर आंधो थाये बाल ॥ मरो फीटो दीये जे गाल, परज्वर सुख न पा
 मे बाल ॥ ९ ॥ पाट पाटलानें वख्र दान, सविसेक्युं वली रांध्युं धान ॥ मु
 निवरने दे मन उह्वास, तस घर लक्ष्मी रहे थिरवास ॥ १० ॥ देतां दान
 विमासण करे, देइ दान मन चिंता धरे ॥ सुखसंपत्ति पामे अचिराम, ठे
 हडे न होये वसवा ठाम ॥ ११ ॥ धन्य श्रोतुं ने दिये दान, महिअल ते
 हने वाधे वान ॥ ऋषिने देइ करे रंगरोल, तस घर लखमी करे कल्लोल
 ॥ १२ ॥ सुखसंपत्ति जो आवी मली, मोसाने देवा मति टली ॥ धन उ
 पर राखे जे नेह, परज्वर सापपणे थाय तेह ॥ १३ ॥ अधिको उठो बांधे
 तोख, दे वाचा नवि पाखे बोल ॥ तेहनी लोकमां न होय लाज, परज्वर
 तेहनां न सरे काज ॥ १४ ॥ पोथी बाळे बोळे जेह, परज्वर मूरख थाये
 तेह ॥ जणे गुणे दे पोथीदान, परज्वर नर ते विद्यावान ॥ १५ ॥ नाना
 महोटा कुवला हरि, खांते चूटे लीला करी ॥ कीधां कर्म नवि ठेलाय,
 मरीने नर ते कोढीयो थाय ॥ १६ ॥ पांख पंखीनी काढे जेह, परज्वर
 वूंठो थाये तेह ॥ पग कापे ने करे गल गलो, मरी नर ते थाये पांगलो
 ॥ १७ ॥ पाडोशीशुं वढे दिन रात, परज्वरे तेसो न पामे संघात ॥ मात
 पिता सुत बड्यर धणी, परज्वर तेहने वढावढ घणी ॥ १८ ॥ अण दीतुं
 अण सांजद्वयुं कहे जेह, परज्वर बहेरो थाये तेह ॥ पारकी निंदा करे नर
 नार, यश नवि पामे तेह लगार ॥ १९ ॥ परना अवगुण ढांके जेह, नर
 नारी यश पामे तेह ॥ निंदा करे ने दीये जे गाल, परज्वर नर ते पामे आ
 ल ॥ २० ॥ रात्रिजोजन करे नर नार, ते पामे घुअड अवतार ॥ राते पंखी
 न खाये धान, माणस ह्ये न दीसे शान ॥ २१ ॥ सूर्य सरखो आथ
 मे देव, मानवने खावानी टेव ॥ धर्मी लोकज होये जेह, रात्रिजोजन टाले
 तेह ॥ २२ ॥ गौतम पृष्ठाने अनुसार, ए सध्याय करी श्रीकार ॥ पंक्ति हर्ष
 सागर शिष्य सार, शिवसागर कहे धर्मविचार ॥ २३ ॥ इति सध्याय संपूर्ण ॥

॥ अथ क्रोधनी सद्वाय ॥

॥ कर्तुवां फल ठे क्रोधनां, ज्ञानी एम बोले ॥ रीशतणो रस जाणीयें,
ह्लाहल तोलें, ॥ क० ॥ १ ॥ क्रोधें क्रोड पूरव तणुं, संजम फल जाय ॥
क्रोध सहित तप जे करे, तेतो खेखें न थाय ॥ क० ॥ २ ॥ साधु घणो तपी
यो हुतो, धरतो मन वैराग ॥ शिष्यना क्रोधथकी थयो, चंक्रुकोशीयो
नाग ॥ क० ॥ ३ ॥ आग उठे जे घरथकी, ते पहेळुं घर बाळे ॥ जलनो
जोग जो नवि मळे, तो पासेनुं परजाळे ॥ क० ॥ ४ ॥ क्रोधतणी गति ए
हवी, कहे केवलनाणी ॥ हाण करे जे हेतनी, जालवजो एम जाणी ॥
॥ क० ॥ ५ ॥ उदयरतन कहे क्रोधने, काढजो गळे साही ॥ काया कर
जो निरमळी, उपशम रस नाहीं ॥ क० ॥ ६ ॥ इति क्रोधनी सद्वाय ॥

॥ अथ माननी सद्वाय ॥

॥ रे जीव मान न कीजीयें, मानें विनय न आवे रे ॥ विनय विना
विद्या नहीं, तो किम समकित पावे रे ॥ रे० ॥ १ ॥ समकित विण चा
रित्र नहीं, चारित्र विण नहीं मुक्ति रे ॥ मुक्तिनां सुख ठे शाश्वतां, ते के
म ल्हियें जुक्ति रे ॥ रे० ॥ २ ॥ विनय वडो संसारमां, गुणमां अधिका
री रे ॥ मानें गुण जाये गळी, प्राणी जो जो विचारी रे ॥ रे० ॥ ३ ॥ मान
कखुं जो रावणें, ते तो रामें माख्यो रे ॥ डुर्योधन गरवे करी, अंतें सवि
हाख्यो रे ॥ रे० ॥ ४ ॥ शूकां लाकडां सारिखो, डुःखदायी ए खोटो रे ॥
उदयरत्न कहे मानने, देजो देशोटो रे ॥ रे० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ मायानी सद्वाय ॥

॥ समकितनुं मूल जाणीयें जी, सत्य वचन साक्षात ॥ साचामां सम
कित वसे जी, मायामां मिथ्यात्व रे ॥ प्राणी म करीश माया लगार ॥ १ ॥
ए आंकणी ॥ मुख मीठो जूठो मनें जी, कूड कपटनो रे कोट ॥ जीजें
तो जी जी करे जी, चित्तमांहे ताके चोट रे ॥ प्रा० ॥ २ ॥ आप गरजे
आघो पडे जी, पण न धरे विश्वास ॥ मनशुं राखे आंतरो जी, ए माया
नो पास रे ॥ प्रा० ॥ ३ ॥ जेहशुं बांधे प्रीतडी जी, तेहशुं रहे प्रतिकूल ॥
मेल न ठंके मन तणो जी, ए मायानुं मूल रे ॥ प्रा० ॥ ४ ॥ तप कीधुं
माया करी जी, मित्रशुं राख्यो रे जेद ॥ मलीजिनेश्वर जाणजो जी, तो
पाम्या स्त्रीवेद रे ॥ प्रा० ॥ ५ ॥ उदयरतन कहे सांजलो जी, मेखो माया

नी बुद्ध ॥ मुक्तिपुरी जावा तणे जी, ए मारग ठे शुद्ध रे ॥ प्रा० ॥ ६ ॥

॥ अथ लोचनी सधाय ॥

॥ तुमें लक्षण जो जो लोचनां रे, लोचें जन पामे क्षोचना रे ॥ लोचें
काह्या मन मोह्या करे रे, लोचें दुर्घट पंथें संचरे रे ॥ तु० ॥ १ ॥ तजे
लोच तेहनां लेउं जामणां रे, वली पाये नमी ने करुं खामणां रे ॥ लोचें
मरजादा न रहे केहनी रे, तुमें संगत मेलो तेहनी रे ॥ तु० ॥ २ ॥ लोचें
घर मेंहेली रणमां मरे रे, लोचें उंच ते नीचुं आखरे रे ॥ लोचें पाप च
णी पगलां चरे रे, लोचें अकारज करतां न उंसरे रे ॥ तु० ॥ ३ ॥ लोचें
मनकुं न रहे निर्मकुं रे, लोचें सगपण नासे वेगकुं रे ॥ लोचें न रहे प्रीति
ने पावकुं रे, लोचें धन मेले बहु एककुं रे ॥ तु० ॥ ४ ॥ लोचें पुत्र प्रत्ये
पिता हणे रे, लोचें हत्या पातक नवि गणे रे ॥ ते तो दाम तणे लोचें क
री रे, उपर मणिधर थाये ते मरी रे ॥ तु० ॥ ५ ॥ जोतां लोचनो थोच
दीसे नहीं रे, एवुं सूत्र सिद्धांतें कहुं सही रे ॥ लोचें चक्री सुचुम नामे
जुवो रे, तेतो समुद्र मांहे कूबी सुत्रो रे ॥ तु० ॥ ६ ॥ एम जाणीने लोच
ने ठंरुजो रे, एक धर्मशुं ममता मंरुजो रे ॥ कवि उदयरल जांखे मुदा
रे, वंडूं लोच तजे तेहने सदा रे ॥ तु० ॥ ७ ॥ इति लोचनी सधाय ॥

॥ अथ श्री श्रावकनी करणीनी सधाय ॥

॥ चोपाई ॥ श्रावक तुं ऊठे परजात, चार घडी ले पाठली रात ॥ मन
मां समरे श्री नवकार, जेम पामे चवसायर पार ॥१॥ कवण देव कवण गुरु
धर्म, कवण अमारुं ठे कुलकर्म ॥ कवण अमारो ठे व्यवसाय, एवुं चित्तव
जे मनमांय ॥२॥ सामायिक लेजे मन शुद्ध, धर्मनी हैडे धरजे बुद्ध ॥ पडि
क्रमणुं करे रयणीतणुं, पातक आलोई आपणुं ॥३॥ कायाशक्तें करे पचखा
ण, सूधि पाले जिननी आण ॥ चणजे गणजे स्तवन सधाय, जिण हुंति
निस्तारो थाय ॥४॥ चितारे नित्य चउदे नीम, पाले दया जीवतां सीम ॥
देहरे जाइ जुहारे देव, अव्यजावथी करजे सेव ॥५॥ पूजा करतां लाज अ
पार, प्रचुजी महोटा मुक्ति टातार ॥ जे उछापे जिनवर देव, तेहने नव मंरुक
नी टेव ॥६॥ पोशालें गुरु वंदजे जाय, सुणे वखाण सदा चित्त लाय ॥ निर्दू
षण सुजंतो आहार, साधुने देजे सुविचार ॥ ७ ॥ सामिवत्सल करजे घ
णुं, सगपण मोहोडुं सामितणुं ॥ दुःखिया हीणा दीनने देख, करजे ता

स दया सुविशेष ॥ ७ ॥ घर अनुसारें देजे दान, मोहोटाशुं म करे अजि
मान ॥ गुरुने मुख लेजे आखडी, धर्म न मूकीश एके घडी ॥ ८ ॥ वारु
शुरू करे व्यापार, उठा अधिकानो परिहार ॥ म जरजे केनी कूडी साख,
कूडा जनशुं कथन म जांख ॥ ९ ॥ अनंतकाय कही वत्रीश, अजदय वा
वीशे विश्वावीश ॥ ते जदण नवि कीजें किमे, काचां कूखां फल मतजि
मे ॥ १० ॥ रात्रिजोजनना बहु दोष, जाणिने करजे संतोष ॥ साजी साबू
लोहने गळी, मधु धावडी मत वेचो वळी ॥ ११ ॥ वखी म करावे रंगण
पास, दूषण घणां कहां ठे तास ॥ पाणी गळजे वे वे वार, अणगळ पीतां
दोष अपार ॥ १२ ॥ जीवाणीनां करजे यत्न, पातक ठंढी करजे पुण्य ॥
ठांणां इंधण चूलो जोय, वावरजे जिम पाप न होय ॥ १३ ॥ घृतनी परें
वावरजे नीर, अणगळ नीर म थोइश चीर ॥ ब्रह्मव्रत सूधुं पालजे, अति
चार सघला टालजे ॥ १४ ॥ कहां पन्नरे कर्मादान, पापतणी परहरजे
खाण ॥ माथे म लेजे अनरथ दंरु, मिथ्या मेल म जरजे पिरु ॥ १५ ॥
समकित्त शुरू हेंडे राखजे, बोल विचारीने जांखजे ॥ पांच तिथि म करे
आरंज, पाले शीयल तजी मन दंज ॥ १६ ॥ तेल तक्र घृत दूधने दहि,
उघाडां मत मेले सही ॥ उत्तम ठामें खरचे वित्त, पर उपगार करे शुज
चित्त ॥ १७ ॥ दिवसचरिम करजे चोविहार, चारे आहार तणो परिहार ॥
दिवस तणां आलोए पाप, जिम जांजे सघला संताप ॥ १८ ॥ संध्यायें
आवश्यक साचवे, जिनवर चरण शरण जवजवे ॥ चारे शरण करी दढ
होय, सागारी अणसण ले सोय ॥ १९ ॥ करे मनोरथ मन एहवा, तीरथ
शेत्रुंजे जायवा ॥ समेतशिखर आबू गिरनार, जेटीश हुं धन्य धन्य अव
तार ॥ २० ॥ श्रावकनी करणी ठे एह, एहथी थाय जवनो ठेह ॥ आठे
कर्म पडे पातळां, पापतणा बूटे आमला ॥ २१ ॥ वारु लहियें अमर वि
मान, अनुक्रमें पामे शिवपुरधाम ॥ कहे जिनहर्ष घणे ससनेह, करणी
डुःखहरणी ठे एह ॥ २२ ॥ इति श्री श्रावकनी करणीनी सद्वाय ॥

॥ अथ श्रीअनार्थी मुनिनी सद्वाय ॥

॥ श्रेणिक रयवाडी चढ्यो, पेखीयो मुनि एकंत ॥ वर रूप कातें मो
हीठ, राय पुढे रे कहोने विरतंत ॥ श्रेणिक राय, हुंरे अनार्थी निर्ग्रथ ॥
तिण में लीधो रे साधुजीनो पंथ ॥ श्रेणिक ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ इणें

कोसंबी नयरी वसे, मुज पिता परिघल धम ॥ परिवार पूरें परिवस्यो, हुं
 हुं तेहनो रे पुत्ररतन ॥ श्रेण ॥१॥ एक दिवस मुऊनें वेदना, उपनी में न
 खमाय ॥ मात पिता ऊरी रखा, पण किणहिं रे ते न खेवाय ॥ श्रेण ॥
 ॥ ३ ॥ गोरडी गुण मणिऊरडी, ऊरडी अखला नार ॥ कोरडी पीडा में स
 ही, न केणें कीधी रे मोरडी सार ॥ श्रेण ॥ ४ ॥ बहु राज वैद्य बोलावि
 या, कीधला कोडि उपाय ॥ बावना चंदन चरचिया, पण तोहीरे समाधि
 न थाय ॥ श्रेण ॥ ५ ॥ जगमां को केहनो नहीं, ते जणी हुं रे अनाथ ॥
 वीतरागना धम बाहिरो, नहिं कोइ बीजो रे मुक्तिनो साथ ॥ श्रेण ॥ ६ ॥
 वेदना जो मुऊ उपशमे, तो लेजं संजम चार ॥ इम चिंतवतां वेदन गइ,
 व्रत लीधुं रे हर्ष अपार ॥ श्रेण ॥ ७ ॥ कर जोडी राय गुण स्तवे, धन्य धन्य
 ए अणगार ॥ श्रेणिक समकित तिहां लह्यो, वांदी पोहतो रे नगर मजार
 ॥ श्रेण ॥ ८ ॥ मुनि अनार्थी गावतां, तूटे कर्मनी कोडि ॥ गणि समयसुंदर
 तेहना, पाय वंदे रे वे कर जोडि ॥ श्रेण ॥ ९ ॥ इति अनार्थीनी सद्याय ॥
 ॥ अथ सार बोखनी सद्याय लिख्यते ॥

॥ सरसती सामिनी पय प्रणमेव, सहगुरुनाम सदा समरेव ॥ बोखिश
 एणि परें आचार, जोइ खेजो जाण विचार ॥ १ ॥ पंक्ति ते जे नाणे गर्व,
 ज्ञानी ते जे जाणे सर्व ॥ तपस्वी ते जे नाणे क्रोध, कर्म आठ जीते ते
 जोध ॥ २ ॥ उत्तम ते जे बोले न्याय, धर्मी ते जे मन निरमाय ॥ ठाकुर
 ते जे पालें वाच, सहगुरु ते जे जांखे साच ॥ ३ ॥ गिरुऊं ते जे गुण आग
 लो, स्त्री परिहार करे ते जलो ॥ मेलो ते जे निंदा करे, पापी ते हिंसा
 आचरे ॥ ४ ॥ मूर्ति ते जे जिनवरतणी, कीर्ति ते जे बीजे सुणी ॥ ल
 षिध ते गौतम गणधार, बुद्धि अधिको अजय कुमार ॥ ५ ॥ श्रावक ते जे
 लहे नवतत्व, कायर ते जे मूके सत्व ॥ मंत्र खरो ते श्रीनवकार, देव ख
 रो जे मुक्ति दातार ॥ ६ ॥ पदवी ते तीर्थकर तणी, मति ते जे उपजे आ
 पणी ॥ समकित ते जे साचुं गमें, मिथ्यामति ते जूलो जमे ॥ ७ ॥ मोटो
 जे जाणे परपीड, धनवंतो जे जांगे जीड ॥ मनवश आणे ते बलवंत, आ
 लसथी अलगो पुण्यवंत ॥ ८ ॥ कामी नर ते कहीयें अंध, मोहजाल ते
 मोटो बंध ॥ दारीझी जे धमें हीन, दुर्गतिमांहे रुले ते दीन ॥ ९ ॥ आग
 म ते ज्यां बोली दया, मुनिवर ते जे पाले क्रिया ॥ संतोषी ते सुखिया थ

या, दुःखिया ते जे लोचें ग्रह्यां ॥ १० ॥ नारी ते जे होये सती, दर्शन ते उद्यो मुहपति ॥ राग द्वेष टाळे ते यति, सूधूं जाणे ते जिनमती ॥ ११ ॥ काया ते जे शीलें पवित्र, मायारहित होए ते मित्र ॥ वृद्धपणुं पाळे ते पुत्र, धर्म हाण पाडे ते शत्रु ॥ १२ ॥ वैरागी ते विरमे राग, तारू ते जव तरे अथाग ॥ रौरव नरकतणो ए माग, ठाग हणीने मागे त्याग ॥ १३ ॥ देहमांहे ते सारी जीह, धर्म थाय ते लेखे दीह ॥ रसमांही उपशम रस लीह, थूलीजद्र मुनिवरमां सिंह ॥ १४ ॥ साचुं ते जे जिननुं नाम, जिन नुं देरुं ज्यां ते गाम ॥ न्यायवंत कहियें ते राम, योगी ते जे जीते काम ॥ १५ ॥ एह बोल बोल्या में खरा, सार नथी एथी उपरा ॥ कहे पंक्ति लक्ष्मी कल्लोल, धर्म रंग मन धरजो चोल ॥ १६ ॥ इति सद्यय ॥

अथ सामायिकना वत्रीश दोषनी सद्यय ॥

॥ चोपाई ॥ शुभ गुरु चरणें नामी शीश, सामायिकना दोष वत्रीश ॥ कहिशुं त्यां मनना दश दोष, दुःशमन देखी धरतो रोष ॥ १ ॥ सामायिक अविवेकें करे, अर्थ विचार न हेंडे धरे ॥ मन उद्वेग वंठे यश घणो, न करे विनय वडेरातणो ॥ २ ॥ जय आणे चिंते व्यापार, फल संशय नीआणुं सार ॥ हवे वचनना दोष विचास्य, कुवचन बोले करे दुंकार ॥ ३ ॥ ले कुंची जा घर उघाड, मुख लवरी करतो वढवाड ॥ आवो जावो बोले गा ल, मोह करी हुलरावे बाल ॥ ४ ॥ करे विकथाने हास्य अपार, ए दश दोष वचनना वार ॥ कायाकेरां दूषण वार, चपलासन जोवे दिशि चार ॥ ५ ॥ सावद्य काम करे संघात, आलस मोडे उंचे हाथ ॥ पग लंबे वेसे अवनित, उठिंगन द्ये थांचो जीत ॥ ६ ॥ मेल उतारे खरज खणाय, पग ऊपर चढावे पाय ॥ अति उघाणुं मेले अंग, ढांके तेम वली अंग उ पंग ॥ ७ ॥ निद्रायें रस फल निर्गमे, करहा कंटक तरुए जमे ॥ ए वत्रीशे दोष निवार, सामायिक करजो नर नार ॥ ८ ॥ समता ध्यान घटा ऊज ली, केशरी चोर हुवो केवली ॥ श्रीशुभवीर वचन पावती, स्वर्गे गइ सुल सा रेवती ॥ ९ ॥ इति सामायिकना वत्रीश दोषनी सद्यय ॥

॥ अथ मुहपत्तीना पच्चाश बोलनी सद्यय ॥

॥ ढाल ॥ सिरि जंबू रे, विनयजक्ति शिर नामिने ॥ करजोडी रे, पूठे सोहमस्वामीने ॥ जगवंता रे, कहो शिवकांता किम मखे ॥ कहे सोहम रे,

मिथ्या त्रम दूरें टले ॥ त्रुटक ॥ दूरें टले विष गरल ईहा, उच्चय मार्ग अनुसरि ॥ एक ज्ञान दूजी करत किरिया, अज्ञेदारोपण करी ॥ जिम पंगु दर्शित चरण कर्षित, अंध बिहुं निज पुर गया ॥ तिम सत्त्व सजता तत्त्व जजता, जविक केइ सुखिया थया ॥ १ ॥ ढाल ॥ वैकल्य ज्युं रे, कष्ट ते करवुं सोहिदुं ॥ पण जंबू रे, जाणपणुं जग दोहिदुं ॥ तेणें जाणी रे, आ वश्यक किरिया करो ॥ उपगरणें रे, रजहरणो मुहपत्ती धरो ॥ त्रुटक ॥ मुहपत्ती श्वेतें मानोपेतें, शोल निज अंगुल जरी ॥ दोय हाथ जाळी दग निहाळी, दृष्टि पडिलेहण करी ॥ त्यां सूत्र अर्थ सुतत्त्व करीने, सद्दुं ए म जावियें ॥ नचा वच्चा रूप तिग तिग, पखोडा षट लावियें ॥ २ ॥ ढाल ॥ समकित मोहनी रे, मिश्र मिथ्यात्वने परिहरुं ॥ काम राग रे, स्नेह दृष्टि राग संहरुं ॥ ए साते रे, बोल कहा हवे आगलें ॥ अंगुलि वच्चे रे, त्रण वधूटक कर तलें ॥ त्रुटक ॥ करतले वामें अंजली धरि, अखोडा नव कीजियें ॥ प्रमार्जन नव तिमज करियें, तिग तिगंतर लीजियें ॥ सुदेव सु गुरु सुधर्म आदरुं, प्रतीपद्दी परिहरुं ॥ वलि ज्ञान दर्शन चरण आदरुं, विराधन त्रिक अपहरुं ॥ ३ ॥ ढाल ॥ मनोगुप्ति रे, वचन कायगुप्ति जजुं ॥ मनोदंरु रे, वचन काय दंरुने तजुं ॥ पचवीश रे, बोल ए मुहपत्तीना ल ह्या ॥ हवे अंगना रे, परिहरुं एम सचला कहा ॥ त्रुटक ॥ कहा वधूटक करि परस्पर, वाम हाथें त्रिक करो ॥ हास्य रतिने अरति ठंडी, इतर कर त्रिक अनुसरो ॥ जय शोक दुगह्या तजीने, पयाहिणे आचरो ॥ कृष्ण ले श्या नील कापोत, ललाटें त्रिक परिहरो ॥ ४ ॥ ढाल ॥ रस गारव रे, रिद्धि शाता गारवा ॥ मुख हेंडे रे, त्रण त्रण एम धारवा ॥ माया शल्य रे, निया ण मिथ्यात्व टाळियें ॥ वाम खंधें रे, क्रोध मान दोय गालियें ॥ त्रुटक ॥ गालीयें माया लोच दक्षिण, खंध ऊर्ध्व अधो मळी ॥ त्रिक वाम पादें पु ढवी अप वली, तेजनी रक्षा करी ॥ जमणे पणे त्रण वाळ वणसइ, त्रस कायनी रक्षा करुं ॥ पंचाश बोलें पडीलेहण, करत ज्ञानी जव हरुं ॥ ५ ॥ ढाल ॥ एह मांहेथी रे, चाळीश बोल ते नारीने ॥ शीश हृदयना रे, खंध बोल दश वारीने ॥ इणविधिश्युं रे, पडिलेहणथी शिव लहो ॥ अषधि क री रे, उकायनो विराधक कह्यो ॥ त्रुटक ॥ कह्यो किंचित् आवश्यकथी, तथा प्रवचन सारथी ॥ जावना चेतन पावना कही, गुरु वचन अनुसारथी ॥

शिव लहे जंबू रहे जो शुभ, वीरविजयनी वाणीएं ॥ मन मांकमुं वनवास
रमतुं, वश करी घर आणिएं ॥ ६ ॥ इति मुह्यपत्तिनी सद्वाय संपूर्ण ॥

॥ अथ काया उपर सद्वाय ॥

॥ काया रे वाडी कारमी, सीचंतां रे शूके ॥ उंठ कोड रोमावली, फल
फूल न मूके ॥ का० ॥ १ ॥ काया माया कारमी, जोवंतां जाशे ॥ मारग
खेजो मोहनो, जीवडो सुख पाशे ॥ का० ॥ २ ॥ अरिहंत आंबो मोरीयो,
सामायिक थाणे ॥ मंत्र नवकार संजारजो, समकित शुद्ध ठाणे ॥ का० ॥
॥ ३ ॥ वाडी करो विरतां तणी, सवि लोच निवारो ॥ शील संयम दोनुं
एकठां, जलीपेरें पारो ॥ का० ॥ ४ ॥ पांच पुरुष देशावरी, बेठा एणी ना
ली ॥ फल चूटीने चोरीआं, न करी रखवाली ॥ का० ॥ ५ ॥ इण वाडी
एक शूडलो, सुख पिंजर बेठो ॥ बहुत जतन करी राखिउं, जातो किणही
न दीठो ॥ का० ॥ ६ ॥ कां जोलपणें जव हारीयो, मति मोडी संताली ॥ रत्न
चिंतामणि सारिखी, कांइ गांठ न वाली ॥ का० ॥ ७ ॥ रत्न तिलक सेवक जणे,
सुणजो वनमाली ॥ वाड जली परें पाखजो, करजो डंग वाली ॥ का० ॥ ८ ॥

॥ अथ श्री अगियार गणधरनी सद्वाय ॥

॥ अजित जिणंदशुं प्रितडी ॥ ए देशी ॥

॥ वीर पटोधर वंदीयें, गणधार हो श्रीगौतमस्वाम ॥ रुद्धि वृद्धि सुख
सपदा, नवे निधि हो प्रगटे जस नाम ॥ वी० ॥ १ ॥ अग्निभूति वायुभू
तिशुं, पन्नर सत्त हो लहे संजम जार ॥ व्यक्त सुधर्मा सहसशुं, ते तरिया
हा श्रुतदरीया संसार ॥ वी० ॥ २ ॥ मंफित मौरिय पुत्रजी, साडा त्रण हो
शत संयम लीध ॥ अकंपित त्रण सत्तशुं, अचखत्राता हो त्रण शत प्रसी
ध ॥ वी० ॥ ३ ॥ भेतारज प्रजासना, शुद्ध साधुजी हो त्रण त्रण सत्त ॥
चउद सहस मुनि वंदिये, साहुणी हो ठत्रीश सहस महंत ॥ वी० ॥ ४ ॥
वीर विमल कहे विधि शुद्धिशुं, विशुद्ध वंदो हो एवा अणगार ॥ तरण
तारण तरी समा, समरथ हो शासन शणगार ॥ वी० ॥ ५ ॥

॥ अथ श्री शोल सतीयोनी सद्वाय ॥

॥ शोल सतीनां लीजें नाम, जेथी मन वंठित शुभ काम ॥ जक्ति जा
व अनि आणी घणो, जाव धरीने जवियण सुणो ॥ १ ॥ ब्राह्मी चंदन वा
ला नाम, राजिमती ड्रौपदी अजिराम ॥ कौशट्याने मृगावती, सुखसा सी

ता ए महासती ॥ १ ॥ सती सुजडा सोहामणी, पोल उघाडी चंपों त
णी ॥ शिवा नाम जपो जगवती, जगीश आपे कुंती सती ॥ ३ ॥ शीलव
ती शीलें शोचती, जजो जावें ए निर्मल मती ॥ दमयंतीने चूला सती,
प्रजावतीने पद्मावती ॥ ४ ॥ शोल सतीनां नाम उदार, जणतां गणतां शिव
सुखकार ॥ शाकिनी काकिनी व्यंतर जेह, सति नामें न पराजवे तेह ॥
॥ ५ ॥ आधिव्याधि सवि जाये रोग, मन गमता सवि पामे जोग ॥ संक
ट विकट जाए सवि दूर, तिमिर समूह ज्यम जगे सूर ॥ ६ ॥ राज कृद्दि
घरें होए बहु, राय राणा ते माने सहु ॥ वाचक धर्मविजय गुरुराय, रत्न
विजय जावें गुण गाय ॥ ७ ॥ इति शोलसतीनी सद्याय ॥

॥ अथ वीशस्थानकना तपनी सद्याय ॥

॥ श्रीसीमंधर साहेब आगें ॥ ए देशी ॥ अरिहंत पहेले थानक गणी
यें, बीजे पद सिद्धाणं ॥ त्रीजे पवयण आयरिय चौथे, पांचमे पद थेराणं
रे ॥ जविया ॥ त्रीश थानक तप कीजें ॥ उंकी वीश करीजें रे ॥ ज० ॥
गणुं एह गणीजें रे ॥ ज० ॥ जिम जिनपद पामीजें रे ॥ ज० ॥ नर
जव लाहो वीजें रे ॥ ज० ॥ वी० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ उवजाए ठठे
सबसाहूणं, सातमे आठमे नाण ॥ नवमे दंसण दसमे विणयस्त, चारित्र
अगियारमे जाण रे ॥ ज० ॥ वी० ॥ २ ॥ बारमे बंचवय धारीणं, तेरसमे
किरियाणं ॥ चउदमे तव पन्नरमे गोयम, सोलसमें नमो जिणाणं रे ॥ ज०
॥ वी० ॥ ३ ॥ चारित्तस्स सत्तरमे जपीयें, अठारसमे नाणस्स ॥ उंगणी
शमे नमो सुयस्स संजारो, वीशमे नमो तिठस्स रे ॥ ज० ॥ वी० ॥ ४ ॥
एकासणादिक तप देव वंदन, गणुं दोय हजार ॥ संघ विनय बुध
शिष्य सुदर्शन, जंये एह विचारो रे ॥ ज० ॥ वी० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ शीलविषे शीखामणी सद्याय ॥

॥ ढाख ॥ एतो नारी रे, वारी ठे डुर्गति तणी ॥ ठांरु संगत रे मूरख
तुं परस्त्री तणी ॥ जीव जोला रे, मोला तेहशुं म म करे ॥ शीख मानी
रे, ठानी वात तुं पारहरे ॥ १ ॥ त्रुटक ॥ जो वात करीश परनारी साथें,
लोक सहु हेरे अठे ॥ राय रांक थइ ने रख्या रामें, सुखें नहीं बेसे पठें ॥
ए मदनमाती विषय राती, जेसी काती कामिनी ॥ पहेखुं तो वखी सुख
देखाडे, पठे पठाडे जामिनी ॥ २ ॥ ढाख ॥ कर पगना रे, नयण वयण

चाला करी ॥ बोलावी रे, नर लेइ धाइ सुंदरी ॥ जोलावी रे, हाव जाव
 देखाडशे ॥ पगें लागी रे, मरकलडे मन पाडशे ॥ ३ ॥ त्रुटक ॥ ए पास
 पाडे धन गमाडे, मान खंके ले लठी ॥ बोळंती रूडी चित्त कूडी, कूड कप
 टनी कोथली ॥ ए नर अमूलक व्यसन पडिउं, पठे न पोसाय पायको ॥
 दीवान दंके मान खंके, मार सहे पठे रायको ॥ ४ ॥ ढाल ॥ बांभी वेशे
 रे, वेश्याना लंपट नरा ॥ सहु सधवा रे, विधवा दासी झूरें करा ॥ जा
 नाशी रे, रूप देखी जीव एह तणुं ॥ ऊजो रही रे, एह साहामुं म म जो
 घणुं ॥ ५ ॥ त्रुटक ॥ घणुं म जोइश एह साहामुं, कुलस्त्री दीठे नवि गमे ॥
 जिम शूनी पूठें श्वान हींके, तिम परनारि पूठें कां जमे ॥ जिम विद्धाडो
 दूध देखे, मोले नांग न देखे ए ॥ परनार पेधो पुरुष पापी, किस्यो जय
 न लेखे ए ॥ ६ ॥ ढाल ॥ फूल वेणी रे, शिर सिंझूर सेंथो जस्यो ॥ ते
 देखी रे, फट मूरख मन कां कस्यो ॥ देखी टीलां रे, ढीलां इंद्रिय करी
 गह गह्यो ॥ शिर राखडी रे, आंखें देइ तुं कां रह्यो ॥ ७ ॥ त्रुटक ॥ कां रह्यो
 मूरख आंखें देइ, शणगार चार एणें धर्या ॥ ए ऊली जीहा, आंखे पी
 हा, कान कूपा मल जस्यो ॥ नारी अग्नि पुरुष माखण, बोल बोलतां वी
 गरे ॥ स्त्री देहमां शुं सार दीठो, मूढ महिआं कां करे ॥ ८ ॥ ढाल ॥
 इंद्रिय वाह्यो रे, जीव अज्ञानी पापिउं ॥ माने नरगह रे, सरग करी विष
 व्यापीउं ॥ कां चूलो रे, शणगार देखी एहना ॥ जाणो प्राणी रे, ए ठे
 दुःखनी अंगना ॥ ए ॥ त्रुटक ॥ अंगना तुं ठोडी ठोकरे, जश कीर्ति सघ
 ले लहे ॥ कुशीलतुं जो नाम लीए को, परलोक दुर्गति दुःख सहे ॥
 विजयजड बोले जे नवि मोले, शीयलथकी जे नरवरा ॥ तस पायें लागुं
 सेवा मागुं, जे जगमांहे जयकरा ॥ १० ॥ इति ॥ शील सञ्चाय ॥

॥ अथ प्रजातें वाहाणलां गावानी सञ्चाय ॥

॥ मिथ्यामति रे रजनी असरावके ॥ वाहाणलां जले वायां रे ॥ जिहां
 उंचे रे प्राणी बहुकाल के ॥ वाहाणां ० ॥ नवि जाणे रे जिहां यमनी फाल
 के ॥ वा० ॥ तिहां पामे रे पग पग जंजाल के ॥ वा० ॥ १ ॥ जिहां जड
 पे रे क्रोध दवनी जाल के ॥ वा० ॥ मानरूपी रे अजगर विकराल के ॥
 वा० ॥ कंसे माया रे सापणी रोपाल के ॥ वा० ॥ जिहां चावो रे लोन
 रूप चंजाल के ॥ वा० ॥ २ ॥ रागादिक रे राक्षस महावृंद के ॥ वा० ॥

आठकर्मना रे जिहां मांड्या फंद के ॥वाण॥ जिहां देखे रे डुरगति दुःख
दंद के ॥ वाण ॥ नवी दीसे रे जिहां ज्ञान दिणंद के ॥ वाण ॥ ३ ॥ धस
मसतां रे जिहां विषयनी जाल के ॥ वाण ॥ छीये छूटी रे नगणे पखिवाल
के ॥वाण॥ अटवी अनंती रे जिहां विकट उजाड के ॥ वाण ॥ चाले नही
रे जिहां व्रतनी वाड के ॥ वाण ॥ ४ ॥ निरखंतारे श्रीजिनमुख नूर के ॥
वाण॥ हवे ऊग्यो रे महासमकेत सूर के ॥वाण॥ दुःखदायी रे दोषि गया
डूर के ॥ वाण ॥ वली प्रगट्या रे पुण्यतणा अंकूर के ॥ वाण ॥ ५ ॥ सुता
जागो रे देसविरतिना कंत के ॥ वाण ॥ वली जागो रे सर्वविरति गुणवंत
के ॥ वाण ॥ तमे जेठो रे ज्ञावे जगवंत के ॥ वाण ॥ पडिक्रमणां रे करो
पुण्यवंत के ॥ वाण ॥ ६ ॥ तमे लेजो रे देवगुरुनुं नाम के ॥ वाण ॥ वली
करजो रे तमे धर्मनां काम के ॥ वाण ॥ गुरुजनना रे गाळ गुणग्राम के ॥
वाण ॥ प्रेम धरीनें रे करो पूज्य प्रणाम के ॥ वाण ॥ ७ ॥ तमे करजो रे
दशविध पञ्चस्काण के ॥ वाण ॥ तुमे सुणजो रे श्रीसूत्रवखाण के ॥ वाण ॥
आराधो रे श्रीजिननी आण के ॥ वाण ॥ जिमपामो रे शिवपुर संठाण के
॥ वाण ॥ ८ ॥ सांजलीने रे श्रीमुखनी वाण के ॥ वाण ॥ तमे करजो रे सही
सफल विहाण के ॥ वाण ॥ वदे वाचक रे उदयरल सुजाण के ॥ वाण ॥
एह जणतां रे लहीये कोड कट्याण के ॥ वाण ॥ ९ ॥ इति वाहणलां ॥

॥ अथ हमामत्रीशी प्रारंभः ॥

॥ आदर जीव हमामगुण आदर, म करिश रागने द्वेष जी ॥ समतायें
शिव सुख पामीजें, क्रोधें कुगति विशेष जी ॥ आण ॥ १ ॥ समता संजम
सार सुणी जें, कटपसूत्रनी साख जी ॥ क्रोध पूर्वकोडि चारित्र वाले, जग
वंत शणी परें ज्ञाख जी ॥ आण ॥ २ ॥ कुण कुण जीव तस्या उपशमथी,
सांजल तुं दृष्टांत जी ॥ कुण कुण जीव जम्या जवमांहे, क्रोध तणे विरतं
त जी ॥ आण ॥ ३ ॥ सोमिल ससरे शीश प्रजाद्वयुं, बांधी माटीनी पाल
जी ॥ गजसुकुमाल हमाम मन धरतो, मुगति गयो ततकाल जी ॥ आण ॥
४ ॥ कुलवालुर्ज साधु कहातो, कीधो क्रोध अपार जी ॥ कोणिकनी ग
णिका वश पडियो, रडवडियो संसार जी ॥ आण ॥ ५ ॥ सोवनकार करी
अति वेदन, वाध्रशुं वींठयुं शीश जी ॥ मेतारजरुषि मुगतें पोहोतो, उप
शम एह जगीश जी ॥ आण ॥ ६ ॥ कुरुड अकुरुड बे साधु कहाता, रखा कु

णाला खाल जी ॥ क्रोध करी कुगतें ते पहोता, जनम गमायो आल जी
 ॥ आ० ॥ ७ ॥ कर्म खपावी मुगतें पहोता, खंधक सूरिना शिष्य जी ॥
 पालक पापीयें घाणी पीड्या, नाणी मनमां रीश जी ॥ आ० ॥ ८ ॥ अठं
 कारी नारी अठंकी, त्रोट्यो पीयुशुं नेह जी ॥ बब्वर कुल सद्यां दुःख व
 हुलां, क्रोध तणां फल एह जी ॥ आ० ॥ ९ ॥ वधणे सर्व शरीर वदूखुं,
 ततक्षण ठोट्यां प्राण जी ॥ साधु सुकोशल शिव सुख पाम्या, एह क्कमा
 गुण जाण जी ॥ आ० ॥ १० ॥ कुण चंमाल कहीजें विहुमें, निरति नही
 कहे देव जी ॥ ऋषि चंमाल कहीजें वढतो, टाले वेढनी टेव जी ॥ आ०
 ॥ ११ ॥ सातमी नरक गयो ते ब्रह्मदत्त, काढी ब्राह्मण आंख जी ॥ क्रोध
 तणां फल कहुआं जाणी, राग द्वेष द्यो नाख जी ॥ आ० ॥ १२ ॥ खंधक
 ऋषिनी खाल ऊतारी, सद्यो परिसह जेण जी ॥ गरजावासना दुःखथी
 वूद्यो, सबल क्कमा गुण तेण जी ॥ आ० ॥ १३ ॥ क्रोध करी खंधक आचा
 रिज, हुठं अशिकुमार जी ॥ दंभक नृपनो देश प्रजाद्यो, जमशे जवह
 मजार जी ॥ आ० ॥ १४ ॥ चंद्रौद्र आचारिज चलतां, मस्तक दीध प्रहा
 र जी ॥ क्कमा करंतां केवल पाम्यो, नव दीक्षित अणगार जी ॥ आ० ॥ १५
 ॥ पांच वार ऋषिनें संताप्यो, आणी मनमां द्वेष जी ॥ पंच जव सीम द
 ह्यो नंद नादिक, क्रोध तणां फल देख जी ॥ आ० ॥ १६ ॥ सागरचंदनुं शीस
 प्रजाळी, निशि नजसेन नरिंद जी ॥ समता जाव धरी सुरलोके, पढुतो
 परमानंद जी ॥ आ० ॥ १७ ॥ चंदना गुरुणीयें घणुं निचंठी, धिग् धिग्
 तुज आचार जी ॥ मृगावती केवलसिरि पामी, एह क्कमा अधिकार जी
 ॥ आ० ॥ १८ ॥ सांब प्रद्युम्न कुमारें संताप्यो, कृष्ण द्वैपायन साह जी ॥
 क्रोध करी तपनुं फल हास्यो, कीधो द्वारिकादाह जी ॥ आ० ॥ १९ ॥ ज
 रतने मारण मूठी उपाडी, वाहवल वलवंत जी ॥ उपशम रश मनमांहे
 आणी, संजम ले मतिमंत जी ॥ आ० ॥ २० ॥ काजसगमां चडियो अति
 क्रोधें, प्रसनचंद ऋषिराय जी ॥ सातमी नरक तणां दल मेल्यां, कहुआं
 तेण कषाय जी ॥ आ० ॥ २१ ॥ आहारमांहे क्रोधें ऋषि थूंक्यो, आण्यो
 अमृत जाव जी ॥ कूरगमूयें केवल पाम्युं, क्कमातणे परजाव जी ॥ आ०
 ॥ २२ ॥ पार्श्वनाथने उपसर्ग कीधा, कमठ जवांतर धीठ जी ॥ नरक ति
 यंच तणां दुःख लाधां, क्रोध तणां फल दीठ जी ॥ आ० ॥ २३ ॥ क्कमावंत

दमदंत मुनीश्वर, वनमां रह्यो काजसग जी ॥ कौरव कटक हणयो ईटा
 खे, श्रोत्र्या कर्मना वर्ग जी ॥ आ० ॥ २४ ॥ सज्यापालक कानें तरुं,
 नाम्यो क्रोध उदीर जी ॥ विहुं कानें खीला ठोकाणा, नवि बूटा महावीर
 जी ॥ आ० ॥ २५ ॥ चार हत्यानो कारक हुंतो, दृढप्रहार अतिरेक जी ॥
 दामा करीने मुक्तें पढोतो, उपसर्ग सहा अनेक जी ॥ आ० ॥ २६ ॥ पो
 होरमांहे उपजंतो हास्यो, क्रोधें केवल नाण जी ॥ देखो श्रीदमसार मुनी
 सर, सूत्र गुणयो उठाण जी ॥ आ० ॥ २७ ॥ सिंह गुफावासी ऋषि की
 धो, शूलिजद्र ऊपर कोप जी ॥ वेश्या वचन गयो नेपालें, कीधो संजम
 लोप जी ॥ आ० ॥ २८ ॥ चंद्रावतंसक काजसग रहियो, दामा तणो जं
 कार जी ॥ दासी तेल जस्यो निशि दीवो, सुरपदवी लही सार जी ॥ आ०
 ॥ २९ ॥ दम अनेक तस्या त्रिभुवनमें, दामागुणें जवि जीव जी ॥ क्रोध क
 री कुगर्ते ते पढोता, पाडंता मुख रीव जी ॥ आ० ॥ ३० ॥ विष हलाहल
 कहींयें विरुं, ते मारे एक वार जी ॥ पण कषाय अनंती वेला, आपे म
 रण अपार जी ॥ आ० ॥ ३१ ॥ क्रोध करंतां तप जप कीधां, न पडे कांई
 ठाम जी ॥ आप तपे परने संतापे, क्रोधशुं केहो काम जी ॥ आ० ॥ ३२ ॥
 दामा करंतां खरच न लागे, जांगे क्रोड कलेश जी ॥ अरिहंत देव आरा
 धक थाये, व्यापे सजस प्रदेश जी ॥ आ० ॥ ३३ ॥ नगरमांहे नागोर न

णाला खाल जी ॥ क्रोध करी कुगतें ते पढोता, जनम गमायो आल जी
 ॥ आ० ॥ ७ ॥ कर्म खपावी मुगतें पढोता, खंधक सूरिना शिष्य जी ॥
 पालक पापीयें घाणी पीड्या, नाणी मनमां रीश जी ॥ आ० ॥ ८ ॥ अठं
 कारी नारी अठंकी, त्रोट्यो पीयुशुं नेह जी ॥ बब्बर कुल सहां दुःख व
 हुलां, क्रोध तणां फल एह जी ॥ आ० ॥ ९ ॥ व.घणे सर्व शरीर वल्लुखुं,
 ततक्षण ठोड्यां प्राण जी ॥ साधु सुकोशल शिव सुख पाम्या, एह द्रमा
 गुण जाण जी ॥ आ० ॥ १० ॥ कुण चंमाल कहीजें विहुमें, निरति नही
 कहे देव जी ॥ ऋषि चंमाल कहीजें वढतो, टाले वेढनी टेव जी ॥ आ०
 ॥ ११ ॥ सातमी नरक गयो ते ब्रह्मदत्त, काढी ब्राह्मण आंख जी ॥ क्रोध
 तणां फल कहुआं जाणी, राग द्वेष द्यो नाख जी ॥ आ० ॥ १२ ॥ खंधक
 ऋषिनी खाल जतारी, सह्यो परिसह जेण जी ॥ गरजावासना दुःखथी
 वूढ्यो, सबल द्रमा गुण तेण जी ॥ आ० ॥ १३ ॥ क्रोध करी खंधक आचा
 रिज, हुज अशिकुमार जी ॥ दंरुक नृपनो देश प्रजाड्यो, जमशे जवह
 मजार जी ॥ आ० ॥ १४ ॥ चंद्ररौद्र आचारिज चलतां, मस्तक दीध प्रहा
 र जी ॥ द्रमा करंतां केवल पाम्यो, नव दीक्षित अणगार जी ॥ आ० ॥ १५
 ॥ पांच वार ऋषिनें संताप्यो, आणी मनमां द्वेष जी ॥ पंच जव सीम द
 ह्यो नंद नादिक, क्रोध तणां फल देख जी ॥ आ० ॥ १६ ॥ सागरचंदनुं शीस
 प्रजाली, निशि नजसेन नरिंद जी ॥ समता जाव धरी सुरलोके, पढतो
 परमानंद जी ॥ आ० ॥ १७ ॥ चंदना गुरुणीयें घणुं निचंठी, धिग् धिग्
 तुळ आचार जी ॥ मृगावती केवलसिरि पामी, एह द्रमा अधिकार जी
 ॥ आ० ॥ १८ ॥ सांव प्रद्युम्न कुमारें संताप्यो, कृष्ण द्वैपायन साह जी ॥
 क्रोध करी तपनुं फल हास्यो, कीधो द्वारिकादाह जी ॥ आ० ॥ १९ ॥ ज
 रतने मारण मूठी उपाडी, वाहवल वलवंत जी ॥ उपशम रश मनमांहे
 आणी, संजम खे मतिमंत जी ॥ आ० ॥ २० ॥ काजसगमां चडियो अति
 क्रोधें, प्रसनचंद ऋषिराय जी ॥ सातमी नरक तणां दल मेळ्यां, कहुआं
 तेण कषाय जी ॥ आ० ॥ २१ ॥ आहारमांहे क्रोधें ऋषि थुंक्यो, आण्यो
 अमृत जाव जी ॥ कूरगकूयें केवल पाम्युं, द्रमातणे परजाव जी ॥ आ०
 ॥ २२ ॥ पार्श्वनाथने उपसर्ग कीधा, कमठ जवांतर धीठ जी ॥ नरक ति
 र्यंच तणां दुःख साधां, क्रोध तणां फल दीठ जी ॥ आ० ॥ २३ ॥ द्रमावंत

दमदंत मुनीश्वर, वनमां रह्यो काजसग जी ॥ कौरव कटक हण्यो ईटा
 ले, त्रोट्या कर्मना वर्ग जी ॥ आ० ॥ १४ ॥ सज्यापालक कानें तरुठ,
 नाम्यो क्रोध उदीर जी ॥ विहुं कानें खीला ठोकाणा, नवि बूटा महावीर
 जी ॥ आ० ॥ १५ ॥ चार हत्यानो कारक हुंतो, दृढप्रहार अतिरेक जी ॥
 क्षमा करीने मुक्तें पढोतो, उपसर्ग सहा अनेक जी ॥ आ० ॥ १६ ॥ पो
 होरमांहे उपजंतो हास्यो, क्रोधें केवल नाण जी ॥ देखो श्रीदमसार मुनी
 सर, सूत्र गुण्यो उठाण जी ॥ आ० ॥ १७ ॥ सिंह गुफावासी ऋषि की
 धो, श्रूलिजद्र ऊपर कोप जी ॥ वेश्या वचन गयो नेपालें, कीधो संजम
 लोप जी ॥ आ० ॥ १८ ॥ चंद्रावतंसक काजसग रहियो, क्षमा तणो जं
 कार जी ॥ दासी तेल जस्यो निशि दीवो, सुरपदवी लही सार जी ॥ आ०
 ॥ १९ ॥ इम अनेक तस्या त्रिभुवनमें, क्षमागुणें जवि जीव जी ॥ क्रोध क
 री कुगर्ते ते पढोता, पाडंता मुख रीव जी ॥ आ० ॥ २० ॥ विष हलाहल
 कहींयें विरुठ, ते मारे एक वार जी ॥ पण कषाय अनंती वेला, आपे म
 रण अपार जी ॥ आ० ॥ २१ ॥ क्रोध करंतां तप जप कीधां, न पडे कांई
 ठाम जी ॥ आप तपे परने संतापे, क्रोधशुं केहो काम जी ॥ आ० ॥ २२ ॥
 क्षमा करंतां खरच न लागे, जांगे क्रोड कलेश जी ॥ अरिहंत देव आरा
 धक थाये, व्यापे सुजस प्रदेश जी ॥ आ० ॥ २३ ॥ नगरमांहे नागोर न
 गीनो, जिहां जिनवर प्रासाद जी ॥ श्रावक लोक वसे अति सुखिया, धर्म
 तणे परसाद जी ॥ आ० ॥ २४ ॥ क्षमा ठत्रीशी खातें कीधी, आतम पर
 उपगार जी ॥ सांजलतां श्रावक पण समज्या, उपशम धस्यो अपार जी ॥
 आ० ॥ २५ ॥ जुगप्रधान जिणचंड सुरीसर, सकलचंद तसु शिष्य जी ॥
 समयसुंदर तसु शिष्य जणे इम, चतुर्विध संघ जगीश जी ॥ २६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रावकना एकवीश गुणनी सध्याय ॥

॥ चोपाई ॥ सशुरु कहे निसुणो जवि लोक, धर्म विना जव होये फो
 क ॥ गुण विण धर्म किठ पण तथा, आंक विना मीडां होय यथा ॥ १ ॥
 धर्मरयणने तेहज योग, जेहने अंगें गुण आजोग ॥ श्रावकना गुण ते ए
 कवीश, सूत्रें जांख्या श्रीजगदीश ॥ २ ॥ पडेंले गुणें बल ठलियो न होय,
 बीजे इंद्रियपटुता जोय ॥ त्रीजे सौम्यस्वजाकी जाण, चोथे लोकप्रिय शुज
 वाण ॥ ३ ॥ चित्त संक्लेश तजे पांचमे, ठठे अपजसथी वीरमे ॥ परने वंच

क नहिं सातमे, दाक्षिणवंत होए आठमे ॥ ४ ॥ लज्जावंत नर नवमे क
ह्यो, करुणाकारि दशमें लह्यो ॥ एकादशमे होए मध्यस्थ, द्वादशमे गुण
रागी प्रशस्त ॥ ५ ॥ धर्मकथा वद्वज्ज तेरमे, शुभपरिवार सहित चउदमे ॥
उत्तर कालें निजहितकार, करे काज पन्नरमे विचार ॥ ६ ॥ षोडशमे गुण
दोष विशेष, जाणे निज पर समवडलेख ॥ सदाचार ज्ञानादिक वृद्ध, सत्त
रमे सेवे ते सिद्ध ॥ ७ ॥ अडदशमे गुणवंत महंत, तेहनो विनय करे म
न खंत ॥ न वीसारे कीधो उपगार, श्रावकगुण उंगणीशमो सार ॥ ८ ॥
गीतार्थ साधे परअन्न, वीशमा गुणनो धारो अन्न ॥ धर्मकार्य कावे होए
दक्ष, एकविशमो गुण ए प्रत्यक्ष ॥ ९ ॥ ए मांहेला उंगणीश विरहिति,
श्रावक धर्मनी नहिं प्रतिपत्ति ॥ चोथा चउदशमा गुण विना, अंगीकख्यो
पण हारे जना ॥ १० ॥ ते माटे गुण अंगें धरो, जिम श्रावकपणुं सूधुं वरो ॥
पंक्ति शांतिविजयनो शिष्य, मानविजय कहे धरी जगीश ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ नोकरवालीनी सद्वाय ॥

॥ ढाल ॥ एक नारी रे, धर्म तणे धुरि जाणियें ॥ तस महिमा रे, मन
रंगें वखाणियें ॥ तेह नारी रे, आपणडे मन आणियें ॥ षटदर्शनी रे,
ते पण सघले मानीयें ॥ १ ॥ त्रूटक ॥ मानियें पण नारी रूडी, नहिं
कूडी ते वली ॥ करकमल कीजें काज सीजे, ध्यान धरियें मन रुली ॥
त्रिभुवन सोहे रूप मोहे, देव दानव कर चडी ॥ नोकरवाली मुहपत्तीने,
आदिपुरुषें आदरी ॥ २ ॥ ढाल ॥ जिनशासन रे, नोकरवाली सहु कहे
॥ परशासनी रे, जपमाली कहि सवि गणे ॥ तुरकाणे रे, तसवी बोले म
न रुली ॥ अक्षमाला रे नाम कहियें, चोथुं वली ॥ ३ ॥ त्रूटक ॥ तस
नाम लीजे काम सीजें, लोक बुजे अति घणा ॥ दरसण दीठे दुःख नीठे,
पाप जाये जव तणां ॥ हरि हर पुरंदर सकल मुनिवर, हाथे रूडी दीस
ए ॥ नोकरवाली हाथ लेतां, देव दानव तूस ए ॥ ४ ॥ ढाल ॥ एक शोहे
रे, मूरति मोहनवेलडी ॥ शोहामणी रे, चतुरपणे ते गुणें चडी ॥ दोय
चोपन रे, मली करी अष्टोत्तरी ॥ ध्यान धरिये रे, तरिये जवसायर वली ॥
५ ॥ त्रूटक ॥ संसार तरिये ध्यान धरियें, तरिये जवसायर वली ॥ नोक
रवाली ध्यान धरतां, मुक्ति पामे केवली ॥ सवि आश पूरी कर्म चूरी, सह

जें सोहे मन रुली ॥ कहें कविअण सुणो लोको, आराधो एक मन वली
॥ ६ ॥ इति नोकरवाली सद्याय ॥

॥ अथ तेर काठीयानी सद्याय ॥

॥ आलस पहेलो जी काठियो, धमें ढील कराय रे, निवारोजी काठि
या तेर घूरें करो ॥ बीजो ते मोह पुत्र कलत्रशुं, रंगें रहे लपटाय रे ॥
निवारोजी ॥ का० ॥ १ ॥ त्रीजो ते अवरण धर्ममां, बोले अवरण वाद
रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ चौथो ते दंजज काठियो, न लहे विनयें सवाद
रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ २ ॥ क्रोध ते काठियो पांचमो, रीशें रहे अम
लाय रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ षष्ठो प्रमाद ते काठियो, व्यसनें विगूतो
आय रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ ३ ॥ कृपण काठियो सातमो, न गमे द्वा
ननी वात रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ आठमो जयथी नवी सुणे, नरका
दिक अवदात रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ ४ ॥ नवमो ते शोक नामे क
ह्यो, शोकें ठांमे धर्म रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ दशमो अज्ञाने ते नवि
लहे, धर्म अधर्मनो मर्म रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ ५ ॥ विकथा नामें
अग्यारमो, लोक वातें धरे प्रीत रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ कुतुहल काठियो
बारमो, कौतुक जोवा धरे चित्त रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ ६ ॥ विषय ते
काठियो तेरमो, नारि साथें धरे नेह रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ श्री महि
मा प्रजसूरिनो, जाव साधु धन तेह रे ॥ निवारोजी ॥ का० ॥ ७ ॥ इति
श्री तेर काठियानी सद्याय ॥

॥ अथ महोटी होंस न करवा आश्रयी सद्याय ॥

॥ होंशीडा जाई (प्राणि) होश न कीजें महोटी ॥ वावी ठे वरटी वा
जरी, तो शाली केम लहियें मोटी रे ॥ हों० ॥ प्राणी जेणें दीधुं तेणे ली
धुं, जे देशे ते लेशे ॥ जेणे नवि दीधुं तेणे नवि लीधुं, दीधा विना केम
लेशे रे ॥ हों० ॥ १ ॥ वाव्या विना कर्षण केम लहिये, सेव्या विना केम
ठरियें ॥ पुण्य विना मनोरथ मोटा, दीधा विना केम करियें रे ॥ हों० ॥
॥ २ ॥ शीस्तानी अकोटी आपी, आपी तरुवानी त्रोटटी ॥ ते सोनार कने
केम मागीश, सोनानी करी मोटी रे ॥ हों० ॥ ३ ॥ शालीजड धन्नो कयव
न्नो, मूलदेव धनसार ॥ पुण्य विशेषें प्रत्यक्ष पाम्या, अलवेसर अवतार रे

॥ ह्ये० ॥ ४ ॥ एवं जाणी रूकुं पामी, करजो धर्मसखाई ॥ साधु हर्ष कर
जोडी विनवे, दीधुं लेशे लाई रे ॥ ह्ये० ॥ ५ ॥ इति ह्ये०सीडा सद्वाय ॥

॥ अथ रसनानी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ वापडली रे जीजडली तुं, कां नवि बोले मीतुं ॥ विरुआ वचन तणुं
फल विरुडं, ते शुं तें नवि दीतुं रे ॥ वापड० ॥ १ ॥ अन्न पान अण ग
मतुं तुज्जे, जो नवि रुचे अनीतुं ॥ अण बोलावी तुं शा माटे, बोले कुव
चन धीतुं रे ॥ वा० ॥ २ ॥ अग्निदह्युं नवपद्धव थाये, कुवचन दुर्गति
घाले ॥ अग्निथकी ते अधिकुं कुवचन, तेतो ऋण ऋण शाले रे ॥ वा० ॥
॥ ३ ॥ क्रोध जखुं ने कूकुं बोले, अजिमानि अणशक्ति ॥ आप तणा अव
गुण नवि देखे, ते केम जाशे मुक्ति रे ॥ वा० ॥ ४ ॥ ते नर मान सहोत
नवि पामे, जे नर होय मुखरोगी ॥ तेहने कोई नवि बोलावे, तेह तो प्र
त्यह शोगी रे ॥ वा० ॥ ५ ॥ जन्म जन्मनी प्रीति विणाशे, कडवे वयणें
बोले ॥ मीठां बोलथकी विण गरथें, जग लीजें सवि मोलें रे ॥ वा० ॥ ६ ॥
आगम वयण तणे अनुसारे, जे नवि रुकुं जाखें ॥ प्रगट थडे परमेश्वर तेह
नी, लाज जगमांहि राखे रे ॥ वा० ॥ ७ ॥ सुवचन कुवचनतुं फल जाणी,
गुण अवगुण मन आणी ॥ वात कही जें अमिय समाणी, लब्धि कहे
सुण प्राणी रे ॥ वा० ॥ ८ ॥ इति रसनागीत समाप्तम् ॥

+ ॥ अथ सचित्त अचित्त विचार सद्वाय ॥

॥ प्रवचन अमरी समरी सदा, गुरुपयपंकज प्रणमी मुदा ॥ वस्तु त
णुं कहुं काल प्रमाण, सचित्त अचित्त विधि जिम लियो जाण ॥ १ ॥
वेहु ऋतु मली चोमासा मान, षट्ऋतु मलिने वर्ष प्रमाण ॥ वर्षा शीत
उष्ण त्रिहुं काल, त्रिहुं चोमासे वर्ष रसाल ॥ २ ॥ श्रावण चाडवो आ
शो मास, कार्तिकें वरसालो वास ॥ मागशीर पोष माहाने फाग, ए चारे
शीयाला लाग ॥ ३ ॥ चैत्र वेशाख ने जेठ आपाढ, उष्णकाल ए चारे
गाढ ॥ वर्षा शरद शिशिर हेमंत, वसंत ग्रीष्म षट्ऋतु एम तंत ॥ ४ ॥
वर्षा पनर दिवस पकवान, त्रीश दिवस शीआले मान ॥ वीश दिवस उ
नाले रहे, पठी अजह्य श्री जिनवर कहे ॥ ५ ॥ रांध्युं विदल रहे चिहुं
जाम, उंदर आठ प्रहर अजिराम ॥ शोल प्रहर दहिं कांजी ठास, पठी
रहे तो जीवनिवास ॥ ६ ॥ पापड लोइया वटक प्रमाण, चार प्रहर पो

लीनुं मान ॥ मात्र प्रमुख निविगय पकवान, चखितरसें तस कालनुं मान
 ॥ ७ ॥ धान धोयण ठ घडी परमाण, दोय घडी जलवाणी जाण ॥ फल
 धोयण एक प्रहर प्रमाण, त्रिफलाजल बे घडीने मान ॥ ८ ॥ त्रण वार
 उकाले जेह, शुरू उल्लजल कहियें तेह ॥ प्रहर तीन चउ पंच प्रमाण,
 वर्षा शीत उनाले जाण ॥ ९ ॥ श्रावण चाडवडे दिन पंच, मिश्र खोट अ
 णचाखित संच ॥ आशो कार्तिक चिहु दिन जाण, मागशीर पोष दिन
 तीन प्रमाण ॥ १० ॥ माह फागणे कहा पण जाम, चैत्र वैशाख चिहुं पो
 र अजिराम ॥ जेठ आषाढ प्रहर त्रण जोइ, तद उपरांत सचित ते होइ
 ॥ ११ ॥ अलसी कोडवा कांग ने ज्वार, साते वरसें अचित्त विचार ॥ वि
 दल सर्व तिल तूयरी वाल, पांचे वरसें अचित्त रसाल ॥ १२ ॥ गहुं शा
 लि खडधान कपास, जव त्रिहुं वरसे अचित्त ते खास ॥ सीत ताप वर्षा
 दिक जोइ, सचित योनी अचित्त ते होइ ॥ १३ ॥ हरडे पीपर मरिच व
 दाम, खारेक डाख एका अजिराम ॥ शत जोयण जलवटमां वहे, शाठ
 जोयण थलवटमां कहे ॥ १४ ॥ धूम अग्नि परियट्टण करी, अचित्तयोनि
 तस थाये खरी ॥ सचित वस्तु प्रवहणनी जेह, थाये अचित्त प्रवचन क
 हे तेह ॥ १५ ॥ गेरु मणशिल लूण हरियाल, आवे जलवट मांहे रसाल
 ॥ ते अचित्त होये प्रवचन साख, पण लेवानी नहिं तस जाख ॥ १६ ॥
 धोलो सिंधव कह्यो अचित्त, श्राऊविधे अहार परतीत ॥ इलादिक उला
 जे थाय, तेह अचित्त थापना नवि थाय ॥ १७ ॥ खोरुं घृत जे कालातीत,
 पलटाए वरणादिक रीत ॥ काचूं दूध विदल संयोग, थाये अजह्य कहे
 मुनि लोग ॥ १८ ॥ बार प्रहर रहे जूगली राव, शोल प्रहर राशुं अजाव
 ॥ दाहिं राई विदले देवाय, उल्ल करे तो शुरूज थाय ॥ १९ ॥ कडाविगय
 परि शेक्युं धान, मुहूर्त चोवीश गोमूत्रनुं मान ॥ तुंढणियादिक विदलनी
 दाख, शेक्यां धान परें तस काल ॥ २० ॥ चार प्रहर शीरो खापशी, विद
 ल परें ते प्रवचन वशी ॥ जिहां जेहनो काल पूरो थाय, तिहां ते वस्तु
 अजह्य कहेवाय ॥ २१ ॥ अथाणा प्रमुख सहु जाण, चखित रसें तस
 कालनुं मान ॥ बीलवणादिक केरो काल, शाखमांहे बे तेह विशाल ॥
 ॥ २२ ॥ तेह जणी इहां नाण्यो एह, अदपनुडिने पडे संदेह ॥ आर्द्रधान
 अंकूरा निकले, ते सहु वस्तु अजह्यमां जले ॥ २३ ॥ ए बोड्यो खव लेश

विचार, विस्तार प्रवचनसारोद्धार ॥ धीरविमल पंक्ति सुपसाय, कवि नय
विमल कीर्धी सदाय ॥१४॥ इति सचित्त अचित्तविचार सदाय संपूर्ण ॥

॥ अथ वैराग्य सदाय ॥

॥ कोउ काज न आवे रे दुनियांके लोको, कोउ काज न आवे ॥ जूठी
बातका आन जरोसा, पीठे सें पस्तावे रे ॥ दु० ॥ १ ॥ मतलबकी सब
मलि लोकाई, बहोतहिं रंग बनावे रे ॥ दु० ॥ २ ॥ अपना अर्थ न देखे
सो तो, पलकमें पीठ देखावे रे ॥ दु० ॥ ३ ॥ बाजीगरकी बाजी जेसा, अ
जब दिमक देखेवे रे ॥ दु० ॥ ४ ॥ देखो दुनियां सकल खीली है, युंहीं
मन ललचावे रे ॥ दु० ॥ ५ ॥ जिनें जान्या तिने आप पिठान्या, वे खब
री दुःख पावे रे ॥ दु० ॥ ६ ॥ हंस सयाने एक सांइसुं ठर, काहेकुं चित्त
न लावे रे ॥ दु० ॥ ७ ॥ इति

॥ अथ चैतन्यशिक्षाज्ञास प्रारंभ ॥

॥ आप विचारजो आतमा, ज्ञाते शुं जूले अधिर पदारथ उपरें, फोगट
शुं फूले ॥ आ० ॥ १ ॥ घटमांहे ठे घरधणी, महेलो मननो जामो ॥ बोले
ते बीजो नथी, जोने धरी तामो ॥ आ० ॥ २ ॥ पामीश तुं पासे थकी, बाहेर
शुं खोले ॥ वेसे कां तुं बूडवा, मायानी उले ॥ आ० ॥ ३ ॥ प्रीठ्या विण
केम पामीयें, सुण मूरख प्राणी ॥ पीवाये किम पशलीयें, कांजवानां
पाणी ॥ आ० ॥ ४ ॥ आप स्वरूप न उलखे, मायामांहे जूले ॥ गरथ पो
तानी गांठनो, व्याजमां जिम सूले ॥ आ० ॥ ५ ॥ जोतां नाम न जाणि
यें, नहिं रूप न रेख ॥ जगमांहे ते केम जडे, अरूपी अलेख ॥ आ० ॥
६ ॥ अंध तणी पेरें आफले, सघदा संसारी ॥ अंतरपट आमो रहे, को
ण जूवे विचारी ॥ आ० ॥ ७ ॥ पहेले पड पातुं करी, पठी जोने निहा
ली ॥ नजरें देखीश नाथने, तेहशुं ले ताली ॥ आ० ॥ ८ ॥ बंधणहारो
को नथी, नथी ठोडावण हारो ॥ प्रवृत्तें वांधीयें पोते, निवृत्तें निस्तारो ॥
आ० ॥ ९ ॥ चेदाचेद बुद्धें करी, चासे ठे अनेक ॥ चेद त्यजीने जो जजे,
तो दीशे एक ॥ आ० ॥ १० ॥ काले धोलुं जेलियें, तो ते थाये वे रंगुं ॥ वे
रंगें बुडे सहि, मन न रहे चंगुं ॥ आ० ॥ ११ ॥ मन मरे नहिं जिहां लगें,
घुमे मद घेस्यो ॥ तव लगें जग जूद्युं जमे, न मटे जब फेरो ॥ आ० ॥
१२ ॥ उंध तणे जोरें करी, शुं मोस्यो सुहणे ॥ अलगी मेली उंधने, खो

ली जोने खूणे ॥आ०॥१३॥ त्यारें जगमां तुजविना, बीजो नवी दीशे ॥
जिन्न जाव मटशे तदा, सेहेजें सुजगीशें ॥ आ० ॥ १४ ॥ माहं ताहं नवि
करे, सहुथी रहे न्यारो ॥ शणे एहिनाणे उंखळ्यो, प्रजु तेहने प्यारो ॥
आ० ॥ १५ ॥ सिद्धदिशायें सिद्धने, मलियें एकांति ॥ उदयरल कहे आ
तमा, तो जांगे त्रांति ॥ आ० ॥१६॥ इति चैतन्यशिक्षाज्ञास संपूर्ण ॥

॥ अथ वैराग्य सद्याय ॥ राग आशावरी ॥

॥ किसीकुं सब दिन सरखे न होय ॥ प्रहउगत अस्तंगत दिनकर, दि
नमें अवस्था दोग्या ॥ कि० ॥१॥ हरि बलिजद्र पांभव नल राजा, रहे षटखंरु
रिदि खोय ॥ चंफालके घर पाणी आण्युं, राजा हरिचंद जोय ॥ कि० ॥२॥
गर्व म कर तुं मूढ गमारा, चडत पडत सब कोय ॥ समय सुंदर कहे इ
तर परत सुख, साचो जिनधर्म सोय ॥ कि० ॥३॥ इति वैराग्य सद्याय ॥

॥ अथ निज्ञानी सद्याय ॥

॥ बेटी मोह नरिंदकी, निद्रा नामे विख्यात वे ॥ धर्म छेविणी पापणी,
न गमे धर्मनी वात वे ॥ निंद न लहे जे सज्जानां, सज्जानां वे दुःखचंजना वे
॥ टेका ॥ नि० ॥१॥ घेरे सघला जीवने, जिहां जमनो पास वे ॥ जा घडि निंद
न पाइयें, ता घडि प्रजुको वास वे ॥ नि० ॥२॥ आलस उमराव एहनो,
जालिम जोरु जुवान वे ॥ इत बगासू जाणजो, चाले आगेवान वे ॥ नि०
॥३॥ जाति पांच ठे जेहनी, पसरि विश्व प्रमाण वे ॥ केवली विना एक
जेहनी, कोई न लोपे आण वे ॥ नि० ॥ ४ ॥ कमें न आवे टूकडी, धमें
पाडे जंगाण वे ॥ वाजां वाजे जिहां उंघनां, तिहां होय सुखनी हाण वे
॥ नि० ॥ ५ ॥ उदयरल कहे उंघने, जीत्यानो एह उपाय वे ॥ पहेलां
आहार जो जीतियें, तो निद्रावश थाय वे ॥ नि० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अज्ञव्यने उपदेश न लागवा विषे सद्याय ॥

॥ उपदेश न लागे अज्ञव्यने, बहुविधशुं बूजवे कोय रे ॥ गंगाजल न
वरावीयें, पण वायस हंस न होय रे ॥ उ० ॥ १ ॥ जेम जेम प्रतिबो
धियें, तिम तिम वमाणो थाय रे ॥ हांजी कुटिल अश्वतणी पेरें, अजलो
अवलो उजाय रे ॥ उ० ॥ २ ॥ पयने शाकर पातां थकां, विषधरने वधे
विषपूर रे ॥ हांजी हाण करे हित दाखतां, ते माटें वशीयें दूर रे ॥ उ०
॥ ३ ॥ अजाण दुःखें समजावीयें, सुजाण घणुं सुलज रे ॥ हांजी दाधा

रंगी मानवी, बूजवंतां महाडुर्लभ रे ॥ ७० ॥ ४ ॥ मारक उदाइ रायनो,
नमुची नामें प्रधान रे ॥ ते तो बार वरस लगें बूजव्यो, पण न वली तस
शान रे ॥ ७० ॥ ५ ॥ शीखामण देतां थकां, जे समजे नहिं कलपंत रे ॥
हांजी अवगुणकारी जाणवो, सुग्रीव वानर दृष्टांत रे ॥ ७० ॥ ६ ॥ कुसंगा
संग न कीजीयें, धरियें नवपद ध्यान रे ॥ उदय सदा सुख संपजे, उत्त
म संग निदान रे ॥ ७० ॥ ७ ॥ इति उपदेश न लागवा विषे सधाय ॥

॥ अथ वैराग्य सधाय ॥

॥ प्राणी काया माया कारमी, कूडो ठे कुटुंब परिवार रे जीवडला ॥ स
मरण कीजें सिद्धुं ॥ माहरुं माहरुं मकर रे मानवी, पंथ वहेवुं परले
पार रे जीवडला ॥ सम० ॥ १ ॥ प्राणी सहुने वलावे सांकट्या, मलिया
ठे मोहने संबंध रे जीवडला ॥ प्राणी आयु क्षयें अलगं थयां, धीठो ए
वो संसारी धंध रे जी० ॥ सम० ॥ २ ॥ प्राणी काष्ठ परें रे काया वले, व
ली केश वले जेम घास रे जी० ॥ प्राणी मानवी मर्कट वैरागीया, वली
पडे माया विश्वास रे जी० ॥ सम० ॥ ३ ॥ प्राणी पडाइ उमे जीव ऊपरें,
दोरी पवन वलें लेइ जाय रे जी० ॥ प्राणी त्रूटी दोरी संघाय ठे, आउखुं
त्रूटुं न संघाय रे जी० ॥ सम० ॥ ४ ॥ प्राणी काचे कुंजें पाणी केम रहे,
हंस उडी जाय काय रे जी० ॥ प्राणी आश्या अतिघणी आदरे, थावा
वालो तेहिज थाय रे जी० ॥ सम० ॥ ५ ॥ प्राणी जेने घरे नोवत गडगडे,
गावे वली षट राग रे जी० ॥ प्राणी गोखें तेहने घूमता, शून्य थये वली
उडे काग रे जी० ॥ सम० ॥ ६ ॥ प्राणी एम संसार असार ठे, सारमां
श्री जिनधर्म सार रे जी० ॥ प्राणी शांति समर समता धरी, चार त्यजी
वली आदरो चार रे जी० ॥ सम० ॥ ७ ॥ प्राणी पांचे तजो रे पांचे जजो,
त्रण्य जीपो त्रण गुणधार रे जी० ॥ प्राणी रयणीचोजन परिहरो, सात
व्यसन तजो सुविचार रे जी० ॥ सम० ॥ ८ ॥ प्राणी समता करो ठ काय
नी, सांजलो सदगुरुनी वाण रे जी० ॥ प्राणी साची शीखामण एह ठे,
एम कहे ठे मुनि कल्याण रे जी० ॥ सम० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ वखाण सुणती वखते स्त्रीयोना कथलानी सधाय ॥

॥ आघा आम पधारो पूज्य अमघर वोहरण वेला ॥ ए देशी ॥ अथवा
आज महारे एकादशी रे, नणदल मौनधरीने रहियें ॥ ए देशी ॥ आठम

पाखी पडवे दिवसें, उपासरामां आवे ॥ नारी वीश पचीश मखिने, वखा
 ण सुणवा जावें ॥ १ ॥ रूडे रंग धरीने राज, सुणजो वात सयाणी ॥ ए
 आंकाणी ॥ पाटें बेसी पूज्यं तिवारें, धर्मकथा उपदेशे ॥ श्राविका मलीने
 मांहोमांहे, कथलो करवा वेशे ॥ रू० ॥ २ ॥ एक कहे सांजल रे सजनी,
 महारी सासु महोटी ॥ महारा ऊपर मन नवि राखे, ए वातो ठे खोटी
 ॥ रू० ॥ ३ ॥ बीजी नारी कहे सुण बाइ, मुज सासु मुखमीठी ॥ पण
 सारी वस्तु संग लेइ, आपे जइने बेटी ॥ रू० ॥ ४ ॥ त्रीजी नारी तुरत
 कहे तव, मुज सासु सुकुलीणी ॥ महारी ऊपर कदीय न कोपे, जतन करे
 मनजीणी ॥ रू० ॥ ५ ॥ चोथी नारी बोले बाइ, मुज बहुअर गुणवंती.
 घरनुं काम उपाडी लीधुं, मुजने करी निचिंती ॥ रू० ॥ ६ ॥ पांचमी ना
 री प्रेमधरीने, बोले सांजल बाइ ॥ विनयवती ठे महारी बहुअर, रीश न
 ही तिल राइ ॥ रू० ॥ ७ ॥ ठठी नारी बोले ठानी, तुज बहुअर गुणजारी ॥
 वातो करती किमहि न थाके, बेसे पर घर बारी ॥ रू० ॥ ८ ॥ सातमी
 नारी कहे सुण सजनी, शी कहुं मुजघर वातो ॥ माहारी सासु माहरी
 साथें, वढ्याकरे दिनरातो ॥ रू० ॥ ९ ॥ आठमी नारी कहे सुण आइ,
 मुज प्रीतमने नचावे ॥ मुज सासु ठे अति अणखीली, ते देखी दुःख
 पावे ॥ रू० ॥ १० ॥ नवमी नारी बोले नेहें, मुजपुत्र मुजने ठारे ॥ बहु
 अर क्यारें वेढ करेतो, आवी तेहने वारे ॥ रू० ॥ ११ ॥ दशमी दयिता
 बोले देखी, बाइ तुम बलीहारी ॥ बहुअरने हुं रीश करंतो, पुत्रथी थाउं
 खारी ॥ रू० ॥ १२ ॥ एकादशमी इणियरे आवे, मुज बहुअर विकराली
 ॥ शीख देयंता सूली दे ठे, चपल महा चंमाली ॥ रू० ॥ १३ ॥ द्वादश
 मी इम बोले बांला, मुजबहु घणिय सयाणि ॥ सघली घरनी त्रेवड सम
 जे, पण आंखे ठे कांणी ॥ रू० ॥ १४ ॥ एक कहे सांजल रे अंबा, मुज
 पाडोसण पापी ॥ विना सवारथ वेढ करावे, थोथी वातो थापी ॥ रू० ॥
 १५ ॥ एक कहे बाई हुं शुं आवुं, उपासरे इणिवेला ॥ नूख्यो ठैयो जोजन
 मागें, टलेजो रांघण वेला ॥ रू० ॥ १६ ॥ एक कहे मुज बहुअर जोली, हठ
 घणुं ते ताणे ॥ एकण हाथें कामज करवुं, ते परमेश्वर जाणे ॥ रू० ॥ १७ ॥
 एक कहे सुण सजनी माहरी, दुःखनी शी कहुं वातो ॥ सासु सूली नणंद
 हठीली, तिम दीअरीउं तातो ॥ रू० ॥ १८ ॥ एक कहे सुण माहारी मांता,

में हवे किम रहेवाय ॥ सासू ससरो पीउ पनोतो, सघलां खावा धाय ॥
 ॥ रू० ॥ १९ ॥ एक कहे सुण साथण आपणे, एकज लगने परणी ॥ ता
 हारे ठैया ठाकम ठोला, महारे नहीं अघरणी ॥ रू० ॥ २० ॥ एक कहे
 माहारे पाको आव्यो, एक कहे माहारे पाकी ॥ वाई तुं लेवाने आवजे,
 वास करेशुं जाकी ॥ रू० ॥ २१ ॥ एक कहे इम महारी सासु, मुजने लाड
 लडावे, वस्ये वावस्ये सारो सुघरो, मुजविण मूख न जावे ॥ रू० ॥ २२ ॥
 एक कहे तुं वहुअर वारु, तुजने जखेंज जाइ ॥ माहारी वहुअर मुजने
 विगोवे, खटरस जोजन खाइ ॥ रू० ॥ २३ ॥ एक कहे सांजल तुं फूइ, स
 खर वाइनी वातुं ॥ महारे व्हाणुं उंढुं मलियुं, में जोवराव्युं खातुं ॥ रू०
 ॥ २४ ॥ एक कहे सुण अमुकी बाइ, आघरणीने खोले ॥ सात सोपारी मु
 जने नापी, में आपीती शोले ॥ रू० ॥ २५ ॥ जोइती बाइयें जमवा तेड्यां,
 सीरो सघलो खूटो ॥ शाठ दिवसनी सुखडी आणी, खवरावी करी कूटो
 ॥ रू० ॥ २६ ॥ एक कहे मुज मांचो तूटो, पायो एकज जांगो ॥ सज्ज कत्या
 विण केम सूवाये, अणचिंत्यो दुःख लागो ॥ रू० ॥ २७ ॥ एक कहे मुज
 अंग अकलाये, आलस अधिकुं आवे ॥ मांकण मुआ करडे रातें, तेहथी
 उंघज नावे ॥ रू० ॥ २८ ॥ एक कहे मुज चूलो जांगो, ते जइ करवो रू
 डो ॥ एक कहे मुज प्रीतम प्यारे, चूपे आख्यो चूडो ॥ रू० ॥ २९ ॥ एक
 कहे महारा रेंटीयडानो, त्राकलडो त्रटकाणो ॥ एक कहे मुज माखज का
 पी, किशुं नहीं कंताणो ॥ रू० ॥ ३० ॥ एक कहे उपासरें आव्या, कहो
 किशुं कोइ आले, वे कोकडी कांतुं जो वाई, घरमां शाकज चाले ॥ रू०
 ॥ ३१ ॥ एक कहे धोवाने जश्यें, जो वाई तुं आवे ॥ एक कहे मुज
 धान्य सड्यो ते, घर धंधे मन धावे ॥ रू० ॥ ३२ ॥ एक कहे हे माहा
 री साथण, जो तुं मुजघर आवे ॥ माथो गुंथीने मनगमती, करशुं वातो
 जावें ॥ रू० ॥ ३३ ॥ एक कहे में कुलथी रांधी, एक कहे में चोला ॥ एक
 कहे में बाल वधास्या, ते थया ठाकमठोला ॥ रू० ॥ ३४ ॥ एक कहे मुज
 घेवर मीठा, एक कहे दल खाजां ॥ एक कहे मुज खानु जावे, सखर ज-
 लेवी जाजां ॥ रू० ॥ ३५ ॥ एक कहे देशमालव मीठो, एक गुजरात
 वखाणे ॥ एक कहे ठे मरुधर महोटो, सारठ सकल सुजाणें ॥ रू० ॥
 ॥ ३६ ॥ एक तो आपणुं राज वखाणे, अपरराज एक निंदे ॥ एक कहे

राजातो तेहज, नहीं वेरो नहीं दंके ॥ रू० ॥ ३७ ॥ एहवे एक बुद्धिवंति
बोली, शुं बाश्यो तुम कहिये ॥ कचपच करीने कानज फोड्या, वखाण
केणीपरें सुणीये ॥ रू० ॥ ३८ ॥ धर्मथानके आवो धाश, वातो करवा मां
डो ॥ पापपोटलां बांधो प्राये, कार्य धर्मनां ठांडो ॥ रू० ॥ ३९ ॥ एहवे
अक्राल थयो इम जाणी, उपदेश पूरो कीधो ॥ श्राविका सरवे वांदी गुरु
ने, मारग घरनो लीधो ॥ रू० ॥ ४० ॥ रे वाश्यो तमे इणविध आवी, वि
कथा वातज वारो ॥ मनशुद्धि विण मुक्तिपुरीनो, कारज किणिविध सा
रो ॥ रू० ॥ ४१ ॥ वली कहे गुरुजी सुणो श्राविका, कथलो कांइ न कीजे
॥ श्रुतवाणी मनशुद्धे सुणतां, सघलां कारज सीजे ॥ रू० ॥ ४२ ॥ परनो
दोष देखाडी पोतें, निजआतम नवि वंचो ॥ दोष पोतानो देखी दृष्टें,
सुकृत इणिपरें संचो ॥ रू० ॥ ४३ ॥ दशदृष्टांतें दुर्लक्ष एहवुं, मनुष्यपणुं
जो पायो ॥ देव गुरु धर्म तत्व ए त्रणये, सेवो सदा सुखदायो ॥ रू० ॥
॥ ४४ ॥ कथलो सुणीने कथलो वारो, गुरुवाणी रस चाखो ॥ परनिंदा
थी दुर्गति पामे, निजमन निर्मल राखो ॥ रू० ॥ ४५ ॥ त्रिकरण शुद्धें ती
थंकरनी, शुद्धकथा जे सुणशे ॥ महानंद कहे मनने रंगें, ते जवसायर त
रशे ॥ रू० ॥ ४६ ॥ संवत् अठारशत दशने वर्षें, आसोमास उदारो ॥
पालणपुरमां प्रीतें कीधो, विकथानो विस्तारो ॥ रू० ॥ ४७ ॥ इति ॥

॥ अथ लोचनी सद्याय ॥ इतर आंवा आंबली रे ॥ ए देशी ॥

॥ लोच न करीए प्राणीया रे, लोच बुरो संसार ॥ लोच समो जगमां
नही रे, दुर्गतीनो दातार ॥ जविक जन, लोच बुरो रे संसार ॥ १ ॥ कर
जो तुमें निरधार ॥ ज० ॥ जिम पामो जवपार ॥ ज० ॥ लोच बुरो रे सं
सार ॥ ए आंकणी ॥ अती लोचने लखमीपती रे, सागरनामे शेठ ॥ पूर
पयोनिधिमां पड्यो रे, जई वेठो तस हेठ ॥ ज० ॥ लो० ॥ २ ॥ सोवन मृ
गना लोचथी रे, दशरथ सुत श्रीराम ॥ सीता नारि गमावीने रे, जमीयो
गामो ठाम ॥ ज० ॥ लो० ॥ ३ ॥ दशमा गुणगाणां लगे रे, लोच तणुं ठे
जोर ॥ शिवपुर जातां जीवने रे, एहज महोदो चोर ॥ ज० ॥ लो० ॥ ४ ॥
क्रोध मान माया लोचथी रे, दुर्गति पामे जीव ॥ परवश पडीयो बापडो
रे, अहोनिश पाडे रीव ॥ ज० ॥ लो० ॥ ५ ॥ परिग्रहना परिहारथी रे,
खडीये शिवसुख सार ॥ देव दाणव नरपति थई रे, जाशे मुक्ति मजार ॥

ज० ॥ लो० ॥ ६ ॥ ज्ञावसागर पंक्ति जणे रे, वीरसागरबुध शिष्य ॥ लो०
तणे त्यागें करी रे, पहोन्वे सयल जगीश ॥ ज० ॥ लो० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री उदयरत्नजी कृत शीयलनी नववाड प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ श्री गुरुनें चरणे नमी, समरी शारद माय ॥ नवविध
शीलनी वाडनो, उत्तम कहुं उपाय ॥ १ ॥

॥ ढाल पहेली ॥ वधावानी ॥ पहेलोने पासो होजी ॥ ए देशी ॥

॥ पहेलीने वाडें होजी वीर जिनवरें कह्यो, सेवो सेवो हो वस्ति विचा
रीनें जी ॥ स्त्री पशु पंरुंग होजी वासो वसे जिहां, तिहां नवि रहेवुं हो
शीलव्रतधारीनें जी ॥ २ ॥ जिम तरुमालें होजी वसतो वानरो, मनमां
वीये रखे जूँइ पंरुं जी ॥ मंजारी देखी होजी पिंजरमांहेथी, पोपट चिंते
हो रखे दोटें चरूं जी ॥ ३ ॥ जिम सिंहलंकी होजी सुंदरी शिर धरी, ज
खुं वेरुं हो जुगतिशुं जालवे जी ॥ तिम मुनि मनमें होजी राखे गोप
वी, नारीने निरखी होजी चित्त नवि चालवे जी ॥ ४ ॥ जिहां होवे वा
सो होजी सेहेजे मंजारनो, जोखम लागे हो मुषकनी जातने जी ॥ तेम
ब्रह्मचारी होजी नारीनी संगतें, हारे हो हारे रे शीयल सूधांतनें जी ॥
५ ॥ त्रुटक ॥ एम वाड विघटे विषय प्रगटे, शंका कंखा नीपजे ॥ तीव्र
कामें धातु बिगडे, रोग बहुविध ऊपजे ॥ मन्नमांहे विषय व्यापे, विषयशुं
मन रहे मली ॥ उदय रत्न कहे तिणे कारण, नव वाड राखो निर्मली ॥ ६ ॥

॥ ढाल वीजी ॥ विदर्भदेश कुंमनपुर नयरी ॥ ए देशी ॥

॥ सुरपति सेवित त्रिभुवन धणी, अज्ञान तिमिरहर दिनमणि ॥ शीय
लरत्ननां जतन तंते, ज्ञांखी वाड वीजी जगवंते ॥ १ ॥ त्रुटक ॥ जगवंत
ज्ञाखे संघ साखे, शीयल सुरतरु राखवा ॥ मुक्ति महाफल हेतु अद्भुत, चा
रित्रनो रस चाखवा ॥ २ ॥ मीठे वचनें माननीशुं, कथा न करे कामनी ॥
वाड विधशुं जेह पाळे, बलिहारी तस नामनी ॥ ३ ॥ वात व्रतने घातका
री, पवन जिम तरुपातनें ॥ वात करतां विषय जागे, ते माटे तजो ए वात
ने ॥ ४ ॥ लींवु देखी डूरथी जिम, खटागे माढा गले ॥ गगनें गर्जारव सु
णीनें, हडकवा जिम उछले ॥ ५ ॥ तिम ब्रह्मचारीना चित्त विणसे, वयण सुं
ढरीनां सुणी ॥ कथा तजो तिणे कारणे, इम प्रकागे त्रिभुवन धणी ॥ ६ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ तट जमुनानो रे अति रक्षीयामणो रे ॥ ए देशी ॥
 ॥ त्रीजीने वाडें रे त्रिचुवन राजीयो रे ॥ एणी परे दीये उपदेश ॥ आ
 सन ठंभेरे साधुजी नारीनो रे, मुहूर्त्तखणें सुविशेष ॥ हुं बलिहारी रे - जा
 उं तेहनी रे ॥ १ ॥ धन्य धन्य तेहनी हो मात ॥ शील सुरंगी रे रंगाणी
 रागशुं रे, जेहनी साते हो धात ॥ हुं ॥ २ ॥ शयनासनें रे पाटीनें पा
 ट्खे रे, जिहां जिहां ब्रसे हो नार ॥ वेघडी खगे रे तिहां वेसे नहीं रे, शी
 खवत राखणहार ॥ हुं ॥ ३ ॥ कोहेला केरी रे गंधसंयोगथी रे, जेम
 जाये कणकनो वाक ॥ तिम अबलानुं रे आसण सेवतां रे, विणसे शियल
 सुपाक ॥ हुं ॥ ४ ॥

॥ ढाल चोथी ॥ हुं वारी रंगढोलणा ॥ ए देशी ॥

॥ चोथीने वाडे चेतजो हो राज, झम चांखे श्रीजिन चूप रे ॥ संवेगी
 सूधा साधुजी ॥ नयण कमल विकासीने हो राज, रखे निरखो रमणीनुं
 रूप रे ॥ सं ॥ १ ॥ रूप जोतां रढ लागशे हो राज, हेला उल्लसशे अनं
 ग रे ॥ सं ॥ मनमांहे जागशे मोहनी हो राज, त्यारें होशे व्रतनो जंग रे
 ॥ सं ॥ २ ॥ दिनकर साहामुं देखतां हो राज, नयण घटे जिम तेज रे ॥ सं ॥
 तिम तरुणी तन पेखतां हो राज, हीणुं थाये शीयलशुं हेज रे ॥ सं ॥ ३ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥ थांपर वारी मारा साहिवा कंबल मत चालो ॥ ए देशी ॥

॥ पांचमी वाडी परमेसरें, वखाणी हो वारू ॥ सांजलजो श्रोता तुमें,
 धर्मी व्रतधारू ॥ १ ॥ कुड्यांतर वरकामिनी, रमे जिहां रागें ॥ स्वरकंकणा
 दिकनो सुणी, जिहां मन्मथ जागे ॥ २ ॥ तिहां वसतुं ब्रह्मचारिनें, न कहुं
 वीतरागें ॥ वाड जांगे शील रत्ननी, जिहां लांठन लागे ॥ ३ ॥ अग्निपासें
 जिम जंगखे, जाजनमांहे धरिया ॥ लाखने मीण जाए गळी, न रहे रस
 चरिया ॥ ४ ॥ तिम हाव जाव नारीतणा, वली हांसुने रुदना ॥ सांजल
 तां शीयल वीघरे, मन वेधे हो मदना ॥ ५ ॥

॥ ढाल ठठी ॥ सहीयां मारा नयण समारो ॥ ए देशी ॥

॥ ठठीने वाडे ठयल ठवीलो, गुण रलें गाढो नख्यो जी ॥ सिद्धारथ
 ने कुखे नगीनो, वीर जिणंद झम उच्चख्यो जी ॥ १ ॥ अव्रतीपणे जे जे
 आगें, काम क्रीडा बहुविध करी जी ॥ व्रत खेडनें विलसित पेहेलां, रखे
 संजारो दीख धरी जी ॥ २ ॥ अग्नि जास्यां ऊपर पूखो, मेळे जिम

ज्वाला वमे जी ॥ वरस दिवसें जिम विषधरनुं, शंकायें विष संक्रमे जी ॥
॥३॥ विषय सुख जे विलसित पेह्लां, तिम शीयल व्रती संचारतो जी ॥
व्याकुल थडनें शीयल विराधे, पठें थाय वलि उरतो जी ॥ ४ ॥

॥ ढाल सातमी ॥ गढ बुंदीरा वाला ॥ ए देशी ॥

॥ सातमी वाडें वीर पयंपे, सुणो संजमना रागी हो ॥ शीखरथना
हो धोरी ॥ सूधा साधु वैरागी, मुऊ आणाकारी, ब्रह्मचारी विषय रस त्या
गी हो ॥ शी० ॥१॥ सरस आहार ते तजजो सहेजें, विगय थोडी वावर
जो हो ॥ शी० ॥ मोदक आहारें मन्मथ जागे, ते जाणी परिहरजो हो ॥
शी० ॥ २ ॥ सैन्निपातें जिम घृत जोगें, अधिज करे उलावा हो ॥ शी० ॥
पांचे इंद्रिय तिम रसें पोख्या, चारित्रमां करे चाला हो ॥ शी० ॥ ३ ॥

॥ ढाल आठमी ॥ राग मारु गोठण खोलो कमाड ॥ ए देशी ॥

॥ त्रिशला सुत हो त्रिगडे बेसी एम, आठमी वाड वखाणी शीलनीजी
॥ अतिमात्रा हो आहार तजो अणगार, लालच राखो जो संयम शील
नी जी ॥१॥ अतिआहारें हो आवे उंध अपार, स्वपनमांहे हो थाये शील
विराधना जी ॥ वली थाये हो तेणे मदवंत देह, संयमनी हो नवी थाये
आराधना जी ॥ २ ॥ जिम शेरना हो मापमांहि दोड शेर, उरीने ऊपर
दीजें ढांकणुं जी ॥ जांजे तोलडी हो स्त्रीचडी खेरु थाय, तेम अतिमा
त्राए व्रत विगडे घणुं जी ॥ ३ ॥

॥ ढाल नवमी ॥ काय थके सवारे ॥ अथवा गरवानी देशी ॥

॥ नवमी वाडें नवारजो रे, साधुजी शणगार ॥ शरीर शोचाए शोचने
नही रे, अवनितले अणगार ॥ १ ॥ एम उपदेशे धीरजी रे, मुनिवर धर
जो रे मन्न ॥ शीखामण ए माहरी रे, करजो शील जतन्न ॥२॥ स्नान विले
पन वासना रे, उत्तम वस्त्र अपार ॥ तेल तंबोल आदें तजो रे, उद्भट वेश
म धार ॥ ३ ॥ धोई नें धरणी धर्यो रे, जिम रत्न हाख्यो कुंजार ॥ तिम
शीखरत्नने हारगो रे, जो करशो शणगार ॥ ४ ॥

॥ ढाल दशमी ॥ जटीयाणीनी देशी ॥

॥ एकली नारी साथें, मारगें नवि जावुं हो, वली वात विशेष न की
जियें ॥ एक सेजें नर दोय. शीखवंत नवि सूवे हो, वली सहेजें गाल न
टीजियें ॥ १ ॥ न सूवारे निज पास, साडा ठ वरमनी हो कांड, पुत्रीने

पण हेजमां ॥ सात वरस उपरांत, सुतने पण न सूवारे हो, कांइ शीलवंति तेम सेजमां ॥ १ ॥ स्त्रीसंगें नव लाख, जीव पंचेंद्रि हणाये हो, कांइ जग वंते जांख्युं इस्थुं ॥ असंख्याता पण जीव, संमूर्छिम पंचेंद्रिय हणाये हो, वली घणुं कहीणं किस्थुं ॥ ३ ॥ इम जाणी नर नार, शीयलनी सदहणा हो, सूधी दिलमां धारजो ॥ एह दुर्गतिनुं मूल, अब्रह्मसेवामांहि हो, जातां दिलने वारजो ॥ ४ ॥ तपगञ्ज गयण दिणंद, मन वंठित फल दाता हो, श्री हीररत्नसूरीश्वरू ॥ पामी तास पसाय, वाडो एम वखाणी हो, शीयलनी मनोहरू ॥ ५ ॥ खंजात रही चोमास, सत्तरशें त्रेशठें हो, श्रावण वदि बीज बुधें जणे ॥ उदयरत्न कहे कर जोड, शियलवंत नर नारी हो, तेहनें जाऊं जामणे ॥ ६ ॥ इति श्रीशीयलनी नववाडनी सञ्चाय संपूर्ण ॥

॥ अथ श्रीआनंदमुनिजीकृत तमाकू परिहारनी सञ्चाय लिख्यत ॥

॥ प्रीतमसेंती वीनवे, प्रेमदा गुणनी खाण ॥ मेरे लाल ॥ मन मोहन एकण चित्तें, सांचलो चतुर सुजाण ॥ मेण ॥ १ ॥ कंत तमाकू परिहरो ॥ ए आंकणी ॥ मूको एहनो संग ॥ मेण ॥ पंचमांहे जिम जस लीजीयें, मीलें वाधे रंग ॥ मेण ॥ कंण ॥ २ ॥ तमाकू ते जाणिये, खुरासाणीनो आक ॥ मेण ॥ उत्तम जन ते इम कहे, पीवानी तलाक ॥ मेण ॥ कंण ॥ ३ ॥ दूध दहीं ते पीजियें, पीजियें साकर खांरु ॥ मेण ॥ घृत पीधे तन उल्लसे, तमाकू परि ठांरु ॥ मेण ॥ कंण ॥ ४ ॥ मोहोटा सार्थें बोलतां, मनमां आवे लाज ॥ मेण ॥ दिवस ते एलें नीगमे, वीणसाडे निज काज ॥ मेण ॥ कंण ॥ ५ ॥ होठ लिहाला सारिखा, श्वास गंधाये जेण ॥ मेण ॥ दांत होवे पण श्यामला, हैयकुं दाजे तेण ॥ मेण ॥ कंण ॥ ६ ॥ एठ पराइ आचरे, विटलावे निज जात ॥ मेण ॥ व्यसनी वास्यो नवि रहे, न गणे जात परजात ॥ मेण ॥ कंण ॥ ७ ॥ एकण फूंकें जेटला, वायुकाय हणाय ॥ मेण ॥ खस खस सम काया करे, तो जंबुद्वीप न माय ॥ मेण ॥ कंण ॥ ८ ॥ गुडाकू करी जे पीये, ते नर मूढ गमार ॥ मेण ॥ जल नाखे जे स्थानकें, माखीनो संहार ॥ मेण ॥ कंण ॥ ९ ॥ चोमासाना कुंथुआ, ते किम शुद्ध ज आय ॥ मेण ॥ तमाकू पीतां थकां, पापें पिंरु जराय ॥ मेण ॥ कंण ॥ १० ॥ तलक तमाकू वापस्यां, परोणाने ज्ञांग ॥ मेण ॥ आगें करता लापसी, हवे ठीकरुं ने आग ॥ मेण ॥ कंण ॥ ११ ॥ पाणी एक

ने विंदुयें, जीव कह्या जिनराय ॥ मे० ॥ वडबीज सम काया करे, जंबु
 द्वीप न माय ॥ मे० ॥ कं० ॥ १२ ॥ अग्नि एकने खोडले, जीव कह्या जिन
 राय ॥ मे० ॥ सरशवसम काया करे, तो जंबूद्वीप न माय ॥ मे० ॥ कं०
 ॥ १३ ॥ धूकें संमूर्तिम ऊपजे, नर पंचेंद्रिय जाण ॥ मे० ॥ तेह असं
 ख्याता कह्या, श्री जगदीशनी वाण ॥ मे० ॥ कं० ॥ १४ ॥ जखमां जीव
 कह्या वली, संख्य असंख्य अनंत ॥ मे० ॥ नील फूल तिहां ऊपजे, अग्नि
 प्रजाले जंत ॥ मे० ॥ कं० ॥ १५ ॥ तमाकू पीतां थकां, षट काय जीव हणाय
 ॥ मे० ॥ ज्योति घटे नयणा तणी, श्वासें पिंड जराय ॥ पाठांतरें ॥ उत्तम
 कोइ पीये नही, पंचोमां पत जाय ॥ मे० ॥ कं० ॥ १६ ॥ तमाकूनी संगतें,
 आवे सात व्यसन ॥ मे० ॥ दोय घडी निवृत्त करो, सेवो श्रीजगवंत ॥
 मे० ॥ कं० ॥ १७ ॥ दया धर्म जाणी करी, सेवो चतुर सुजाण ॥ मे० ॥
 आनंद मुनि एम उच्चरे, ते लहे कोडि कल्याण ॥ मे० ॥ कं० ॥ १८ ॥ इति
 श्री तमाकूपरिहार सञ्चाय संपूर्ण ॥

॥ अथ अरुणिक मुनिनी सञ्चाय ॥

॥ अरुणिक मुनिवर चाळ्या गोचरी, तडके दाजे शीशो जी ॥ पाय अ
 णवाणे रे वेळू परजले, तनु सुकुमाल मुनीशो जी ॥ अरुणि० ॥ १ ॥ मुख
 करमाणुं रे मालती फूल ज्युं, ऊजो गोखनी हेठो जी ॥ खरेरे वपेरें रे दी
 ठो एकलो, मोही माननी देठो जी ॥ अरुणि० ॥ २ ॥ वयण रंगीली रे न
 यणें वेधियो, ऋषि थंच्यो तेणें ठाणो जी ॥ दासीने कहे जारे उतावली,
 ए ऋषि तेडी आणो जी ॥ अरुणि० ॥ ३ ॥ पावन कीजें रे ऋषि घर आं
 गणुं, वहेरो मोदक सारो जी ॥ नवयौवनवय काया कां दहो, सफळ क
 रो अवतारो जी ॥ अरुणि० ॥ ४ ॥ चंद्रावदनी रे चारित्र चूकव्युं, सुख
 विदसे दिन रातो जी ॥ एकदिन रमतां रे गोखें सोगठे, तव दीठी निज
 मातो जी ॥ अरुणि० ॥ ५ ॥ अरुणिक अरुणिक करती मा फिरे, गळियें गळि
 यें मजारो जी ॥ कहो केणें दीठो रे महारो अरुणिको, पूठे लोक हजारो
 जी ॥ अरुणि० ॥ ६ ॥ हुं कायरतुं रे मारी मावडी, चारित्र खांमानी धारो
 जी ॥ धिग्धिग् विपया रे माहरा जीवने, में कीधो अविचारो जी ॥ अ
 रुणि० ॥ ७ ॥ उतख्यो तिहांथी रे जननी पाय पड्यो, मनशुं लाज्यो ति
 वारो जी ॥ वठ तुज न घटे रे चारित्र चूकवुं, जेहथी शिवसुख सारो

जी ॥ अरिण० ॥ ७ ॥ एम समजावी रे पाठो वालीयो, आण्यो गुरुने
पासो जी ॥ सदगुरु दीए रे शीख जली परें, वैरागें मन चास्यो जी ॥
॥ अरिण० ॥ ८ ॥ अग्नि धखंती रे शिला ऊपरें, अरिणिकें अणसण कीधो
जी ॥ रूपविजय कहे धन्य ते मुनिवरू, जिणें मनवंठित लीधो जी ॥ अ० १० ॥

॥ अथ मेघकुमारनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ धारिणी मनावे रे मेघकुमारने रे, तुं मुऊ एकज पूत ॥ तुऊ विण
सुनां रे मंदिर मालियां रे, राखो राखो घर तणां सूत ॥ धारिणी० ॥ १ ॥
तुऊने परणावुं रे आठ कुमारिका रे, सुंदर अति सुकुमाल ॥ मलपति चा
ले रे वन जेम हाथणी रे, नयण वयण सुविशाल ॥ धारिणी० ॥ २ ॥ मुऊ
मन आशा रे पुत्र हती घणी रे, रमाडीश बहूनां रे बाल ॥ दैव अटारो
रे देखी नवि शक्यो रे, उपायो एह जंजाल ॥ धारिणी० ॥ ३ ॥ धण कण
कंचन रे रुद्धि घणी अठे रे, जोगवो जोग संसार ॥ ठती रुद्धि विलसो
रे जाया घर आपणे रे, पठें लेजो संयम चार ॥ धारिणी० ॥ ४ ॥ मेघकुमारें
रे माता प्रत्यें बूजवी रे, दीक्षा लीधी वीरजीनी पास ॥ प्रीतिविमल रे
इणि परें उच्चरे रे, पोहोती महारा मनडानी आश ॥ धारिणी० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ वैराग्य सद्याय ॥

॥ या मेवासमें बे, मरदो मगन जया मेवासी ॥ कायारूप मेवास व
न्यो है, माता ज्युं मेवासी ॥ साहेबकी शिर आण न माने, आखर क्या
खे जासी ॥ या० ॥ १ ॥ खाई अति दुर्गंध खजाना, कोटमां बहुंतेर कोठा ॥
वणसी जातां वार न लागे, जेसा जल पंपोटा ॥ या० ॥ २ ॥ नव दरवाजा
वहे निरंतर, दुखदायी दुर्गंधा ॥ क्या उसमें तल्लीन जया हे, रेरे आतम
अंधा ॥ या० ॥ ३ ॥ ढिनमें ठोटा ढिनमें मोहोटा, ढिनमें ठेह दिखासी ॥
जब जमरेकी नजर लगेंगी, तब ढिनमें उड जासी ॥ या० ॥ ४ ॥ मुलक
मुलककी मली लोकाइ, बोहोत करे फरीयादी ॥ पण मुजरो माने नही
पापी, अति ठाक्यो उन्मादी ॥ या० ॥ ५ ॥ सारा मुलक मेळ्या संतापी,
काम किराडी कोटो ॥ लोच तळाटी लोचा वाले, तो किम नावे त्रोटो ॥
॥ या० ॥ ६ ॥ उदयरल कहे आतम मेरा, मेवासीपणुं मेळो ॥ जगवंतने
चेटो जखी जातें, मुक्तिपुरीमें खेळो ॥ या० ॥ ७ ॥ इति वैराग्य सद्याय ॥

॥ अथ कृतकर्मफल सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ देवदाणव तीर्थकर गणधर, हरिहर नरवर सबला ॥ कर्म संयोगें ते
सुख दुःख पाम्या, सबल हुआ महा निबला रे ॥१॥ प्राणी कर्म समो न
ही कोय ॥ कीधां कर्म विना जोगवीयां, बूटकवारो न होय रे ॥ प्राणी
कर्म० ॥ २ ॥ ए आंकणी ॥ आदीसरने कर्म अटारे, वर्ष दिवस राख्यो
चूखें ॥ वीरने वार वर्ष दुःख दीधुं, उपना ब्राह्मणी कूखें रे ॥ प्राणी कर्म०
॥ ३ ॥ शाठ सहस सूत मूआ एक दिन, योध युवान नर जैसा ॥ सगर
हूठ निज पुत्रें दुखीयो, करम तणा फल ऐसा रे ॥ प्राणी० ॥ ४ ॥ वत्रीश
सहस देसांरो साहेव, चक्री सनतकुमार ॥ शोल रोग शरीरें ऊपना,
करमें कीयो तस खुवार रे ॥ प्राणी० ॥ ५ ॥ सुचूम नामें आठमो चक्री,
करमें सायर नाख्यो ॥ पच्चीस सहस यद्धें उजो दीगो, पण किणहीं नवि
राख्यो रे ॥ प्राणी० ॥ ६ ॥ ब्रह्मदत्त नामे वारमो चक्री, करमें कीधो अंधो
॥ एम जाणी प्राणी विण कामें, कर्म कोई मत बंधो रे ॥ प्राणी० ॥ ७ ॥
वीश जुजा दश मस्तक हूता, लखमणें रावण माख्यो ॥ एकलडे जग सह
ने जीत्यो, कर्मथी ते पण हाख्यो रे ॥ प्राणी० ॥ ८ ॥ लखमण राम महा
बलवंता, बली सत्यवंती सीता ॥ वार वरस लगें वनमांहे जमिया, वीतक
तस बहु वीता रे ॥ प्राणी० ॥ ९ ॥ ठपन्नक्रोड यादवनो साहेव, कृष्ण
महाबलि जाणी ॥ अटवीमांहे मूठ एकलडो, विल विलतो विण पाणी रे
॥ प्राणी० ॥ १० ॥ पांरुव पांच महा जूजारा, हारी द्रौपदी नारी ॥ वार
वरस लगे वन दुःख दीठां, जमिया जेम जिखारी रे ॥ प्राणी० ॥ ११ ॥
सतीय शिरोमणी द्रौपदी कहियें, ए सम अवर न कोय ॥ पंच पुरुषनी
थई ते नारी, पूरव कर्मशुं होय रे ॥ प्राणी० ॥ १२ ॥ कमें हवाल कीया
हरिचंदने, वेची सुतारा राणी ॥ वार वरस लगें माथे आण्युं, नीच तणे
घर पाणी रे ॥ प्राणी० ॥ १३ ॥ दधिवाहन राजानी वेटी, चावी चंदनवा
ला ॥ चोपटनी परें चउटे वेचाणी, करम तणा ए चाला रे ॥ प्राणी०
॥ १४ ॥ समकितधारी श्रेणिक राजा, वेटे वांध्यो मुसके ॥ धर्मी नर पण
कमें दवाया. करमथी जोर न किसके रे ॥ प्राणी० ॥ १५ ॥ ईश्वरदेवने
पार्वती राणी, करता पुरुष कहावे ॥ अहोनिशि महोदमसाणमां वामो.
जिह्वा जोजन खावे रे ॥ प्राणी० ॥ १६ ॥ सदसकिरण सूरज परतापी.

रात दिवस रहे अटतो ॥ शोलकला ससिहर जग जाचो, दिन दिन जाये घटतो रे ॥ प्राणी० ॥ १७ ॥ एम अनेक नर खंड्या कर्म, जांज्या जव ते साजा ॥ रुद्धिहरख करजोडीने कहे, नमो कर्म महाराजा रे ॥ प्राणी० ॥ ॥ १८ ॥ इति कृतकर्मफल ऊपर सधाय ॥

॥ अथ आत्मप्रबोध सधाय प्रारंभ ॥

॥ जीव क्रोध म करजे, लोभ म धरजे, मान म लाईश जाइ ॥ कूडां करम म बांधीश, धर्म म मूकीश, विनय म चूकीश ॥ जाई रे जीवडा ॥ दोहिलो मानव जव लाधो ॥ काई आप सवारथ साधो रे चोला ॥ दो हि० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ घर पठवाडे देरासर जातां, वीशविमासण थाय ॥ चूख्यो तरश्यो राउले रोक्क्यो, माथे सहेतो घाय रे ॥ जीवडा दोहि० ॥ २ ॥ धर्मतणी पोसालें चाढ्या, सुणवा सदगुरु वाणी ॥ एक वात करे वीजो उठी जाये, नयणे निंद जराणी रे ॥ जीव० ॥ ३ ॥ नामें वेठो लोचें पेठो, चार पोहोर निशि जाग्यो ॥ बे घडीनुं पडिक्कमाणुं करतां, चोखो चित्त न राख्यो रे ॥ जीव० ॥ ४ ॥ आठम चउदश पूनम पाखी, पर्व पर्यूषणा सारो ॥ बे घडीनुं पच्चरकाण करंतां, एक वीजाने वारो रे ॥ जीव० ॥ ५ ॥ कीर्ति का रण पगरण मांकी, अरथ गरथ सवि वूटे, पुण्यने काजें प्रारकुं पोतानुं, गांठडीयें नवी वूटे रे ॥ जीव० ॥ ६ ॥ घर घरणीने घाट घडाव्या, पहेरण आठा वाघा ॥ दश आंगुली दश वेढज पहेस्या, निर्वाणें जावुं ठे नागारे ॥ जीव० ॥ ७ ॥ वांको अक्षर माथे मींमुं, नीलवट आधो चंदो ॥ मुनि लाव ण्य समय झम बोले, जिम चिरकालें नंदो रे ॥ जीव० ॥ ८ ॥ इति सधाय ॥

॥ अथ रहनेमि राजीमतीजीनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ काउस्तग्गथकी रे रहनेमि राजुल निहाली, चित्तमुं चलयुं तव बोले नार रे ॥ देवरिया मुनिवर ध्यानमां रेजो, ध्यानथकी होये जव नो पार रे ॥ देव० ॥ १ ॥ उत्तम कुलना यादव कुल रे अजुआली, लीधो ठे संयम जार रे ॥ देव० ॥ हुं रे व्रती रे तुं ठे संयमधारी, जाशो सरवे व्रतहारी रे ॥ देव० ॥ ध्या० ॥ २ ॥ विषधर विष वमी आप न लेवे, करे पावक परिचार रे ॥ देव० ॥ तुऊ रे बांधव नेमजीयें मुजने रे वामी, व म्यो न घटे तुमने आहार रे ॥ देव० ॥ ध्या० ॥ ३ ॥ नारी अठे रे जग मां विषनी रे वेळी, नारी ठे अचगुणनो जंमार रे ॥ देव० ॥ नारी मोहें

॥ अथ कृतकर्मफल सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ देवदाणव तीर्थंकर गणधर, हरिहर नरवर सबला ॥ कर्म संयोगें ते सुख दुःख पाम्या, सबल हुआ महा निबला रे ॥१॥ प्राणी कर्म समो न ही कोय ॥ कीधां कर्म विना जोगवीयां, बूटकवारो न होय रे ॥ प्राणी कर्म० ॥ २ ॥ ए आंकणी ॥ आदीसरने कर्म अटारे, वर्ष दिवस राख्यो चूखें ॥ वीरने बार वर्ष दुःख दीधुं, उपना ब्राह्मणी कूखें रे ॥ प्राणी कर्म० ॥ ३ ॥ शाठ सहस सूत मूआ एक दिन, योध युवान नर जैसा ॥ सगर दूठ निज पुत्रें दुखीयो, करम तणा फल ऐसा रे ॥ प्राणी० ॥ ४ ॥ बत्रीश सहस देसारा साहेब, चक्री सनतकुमार ॥ शोल रोग शरीरें ऊपना, कर्में कीयो तस खुवार रे ॥ प्राणी० ॥ ५ ॥ सुचूम नामें आठमो चक्री, कर्में सायर नाख्यो ॥ पच्चीस सहस यहेँ उजो दीगो, पण किणहीं नवि राख्यो रे ॥ प्राणी० ॥ ६ ॥ ब्रह्मदत्त नामे बारमो चक्री, कर्में कीधो अंधो ॥ एम जाणी प्राणी विण कामें, कर्म कोई मत बंधो रे ॥ प्राणी० ॥ ७ ॥ वीश जुजा दश मस्तक दूता, लखमाणें रावण माख्यो ॥ एकलडे जग सहु ने जीत्यो, कर्मथी ते पण हाख्यो रे ॥ प्राणी० ॥ ८ ॥ लखमाण राम महा बलवंता, वली सत्यवंती सीता ॥ बार वरस लगें वनमांहे जमिया, वीतक तस बहु वीता रे ॥ प्राणी० ॥ ९ ॥ ठपन्नक्रोड यादवनो साहेब, कृष्ण महाबलि जाणी ॥ अटवीमांहे मूठ एकलडो, विल विलतो विण पाणी रे ॥ प्राणी० ॥ १० ॥ पांरुव पांच महा जूजारा, हारी द्रौपदी नारी ॥ बार वरस लगे वन दुःख दीठां, जमिया जेम जिखारी रे ॥ प्राणी० ॥ ११ ॥ सतीय शिरोमणी द्रौपदी कहियें, ए सम अवर न कोय ॥ पंच पुरुषनी थई ते नारी, पूरव कर्मशुं होय रे ॥ प्राणी० ॥ १२ ॥ कर्में हवाल कीया हरिचंदने, वेची सुतारा राणी ॥ बार वरस लगें माथे आण्युं, नीच तणे घर पाणी रे ॥ प्राणी० ॥ १३ ॥ दधिवाहन राजानी वेटी, चावी चंदनवा ला ॥ चोपदनी परें चउटे वेचाणी, करम तणा ए चादा रे ॥ प्राणी० ॥ १४ ॥ समकितधारी श्रेणिक राजा, वेटे वांध्यो मुसके ॥ धर्मी नर पण कर्में दवाया, करमथी जोर न किसके रे ॥ प्राणी० ॥ १५ ॥ ईश्वरदेवने पार्वती राणी, करता पुरुष कहावे ॥ अहोनिशि महोद्यमसाणमां वासो, जिह्वा जोजन खावे रे ॥ प्राणी० ॥ १६ ॥ सहसकिरण सूरज परतापी,

रात दिवस रहे अटतो ॥ शोलकदा ससिहर जग जाचो, दिन दिन जाये
घटतो रे ॥ प्राणी० ॥ १७ ॥ एम अनेक नर खंड्या कर्मे, जांज्या जव ते
साजा ॥ रुद्धिरख करजोडीने कहे, नमो कर्म महाराजा रे ॥ प्राणी० ॥
॥ १८ ॥ इति कृतकर्मफल ऊपर सधाय ॥

॥ अथ आत्मप्रबोध सधाय प्रारंभ ॥

॥ जीव क्रोध म करजे, लोभ म धरजे, मान म लाईश जाइ ॥ कूडां
करम म बांधीश, धर्म म मूकीश, विनय म चूकीश ॥ जाई रे जीवडा ॥
दोढिलो मानव जव लाधो ॥ काई आप सवारथ साधो रे जोला ॥ दो
हि० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ घर पठवाडे देरासर जातां, वीशविमासण थाया ॥
चूख्यो तरश्यो राउलें रोख्यो, माथे सहेतो घाय रे ॥ जीवडा दोहि० ॥ २ ॥
धर्मतणी पोसालें चाल्या, सुणवा सदगुरु वाणी ॥ एक वात करे वीजो
उठी जाये, नयणे निंद जराणी रे ॥ जीव० ॥ ३ ॥ नामें वेठो दोजे पेठो,
चार पोहोर निशि जाग्यो ॥ बे घडीनुं पडिकमणुं करतां, चोखो चित्त न
राख्यो रे ॥ जीव० ॥ ४ ॥ आठम चउदश पूनम पाखी, पर्व पर्युषणा सारो ॥
बे घडीनुं पच्चरकाण करतां, एक बीजाने वारो रे ॥ जीव० ॥ ५ ॥ कीर्ति का
रण पगरण मांकी, अरथ गरथ सवि लूटे, पुण्यने काजे पारकुं पोतानुं,
गांठडीये नवी बूटे रे ॥ जीव० ॥ ६ ॥ घर घराणीने घाट घडाव्या, पहेरण
आठा वाधा ॥ दश आंगुली दश वेढज पहेस्या, निर्वाणे जावुं ठे नागारे
॥ जीव० ॥ ७ ॥ वांको अक्षर माथे मींमुं, नीलवट आधो चंदो ॥ मुनि लाव
ण्य समय इम बोले, जिम चिरकालें नंदो रे ॥ जीव० ॥ ८ ॥ इति सधाय ॥

॥ अथ रहनेमि राजीमतीजीनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ काउस्सगथकी रे रहनेमि राजुल निहाली, चित्तमुं चक्षियुं तव
बोले नार रे ॥ देवरिया मुनिवर ध्यानमां रेजो, ध्यानथकी होये जव
नो पार रे ॥ देव० ॥ १ ॥ उत्तम कुलना यादव कुल रे अंजुआली, लीधो
ठे संयम जार रे ॥ देव० ॥ हुं रे व्रती रे तुं ठे संयमधारी, जाशो सरवे
व्रतहारी रे ॥ देव० ॥ ध्या० ॥ २ ॥ विषधर विष वमी आप न क्षेत्रे, करे
पावक परिचार रे ॥ देव० ॥ तुळ रे बांधव नेमजीये मुजने रे वामी, व
म्यो न घटे तुमने आहार रे ॥ देव० ॥ ध्या० ॥ ३ ॥ नारी अठे रे जग
मां विषनी रे वेळी, नारी ठे अवगुणनो जंमार रे ॥ देव० ॥ नारी मोहे

रे मुनिवर जेह विगूता, ते नवि लहे जव पार रे ॥ देव० ॥ ध्या० ॥ ४ ॥
 नारीनुं रूप देखी मुनिने न रहेवुं, ए ठे आगममां अधिकार रे ॥ देव० ॥
 नारी निःसंगी तेतो मुनिवर कहीयें, न करे फरी संसार रे ॥ देव० ॥
 ध्या० ॥ ५ ॥ ए रे सतीनां मुनिवर वयण सुणीने, पाम्या जव प्रतिबोध रे
 ॥ देव० ॥ नेमजी जेटीने फरी संयम लीधो, कस्यो ठे आतम शोध रे ॥
 देव० ॥ ध्या० ॥ ६ ॥ धन्य रे सती रे जेणे मुनि प्रतिबोधा, धन धन ए
 आणगार रे ॥ देव० ॥ ए रे वसता रे मुनिवर वयण सुणीने, फरी न करे
 संसार रे ॥ देव० ॥ ध्या० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री शास्त्रिजडनी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ प्रथम गोवालियातणे जवें जी रे, दीधुं मुनिवर दान ॥ नयरी राज
 गृही अवतस्यो जी रे, रूपें मयण समान ॥ सोजागी रे ॥ शास्त्रिजड जोगी
 रे होय ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ बत्रीश लक्षण गुणें जस्यो जी रे, परण्यो बत्री
 श नार ॥ माणसने जवें देवनां जी रे, सुख विलसे संसार ॥ सो० ॥ २ ॥
 गोत्रजडशेठ तिहां पूरवे जी रे, नित नित नवला रे जोग ॥ करे सुजडा उं
 वारणां जी रे, सेव करे बहु लोग ॥ सो० ॥ ३ ॥ एक दिन श्रेणिक राजियो
 जी रे, जोवा आव्यो रे रूप ॥ अंग देखी सकोमलां जी रे, थयो मन हर
 पित नूप ॥ सो० ॥ ४ ॥ वड वैरागी चिंतवे जी रे, मुज शिर श्रेणिक राय ॥
 पूरव पुण्य में नवि कियां जी रे, तप आदरशुं माय ॥ सो० ॥ ५ ॥ इणे
 अवसरें श्रीजिनवरू जी रे, आव्या नयरी उद्यान ॥ शास्त्रिजड मन ऊज
 स्यो जी रे, बांध्या प्रजुजीना पाय ॥ सो० ॥ ६ ॥ वीरतणी वाणी सुणी जी
 रे, वूगो मेह अकाल ॥ एकेको दिन परिहरे जी रे, जिम जल ठंमे पाल
 ॥ सो० ॥ ७ ॥ माता देखी टलवले जी रे, माठलडी विण नीर ॥ नारी
 सघली पायें पडे जी रे, म म ठंमे साहस धीर ॥ सो० ॥ ८ ॥ बहुअर स
 घली वीनवे जी रे, सांजल सासु विचार ॥ सर ठंमी पालें चड्यो जी रे,
 हंसलो ऊरण हार ॥ सो० ॥ ९ ॥ इण अवसर तिहां नावतां जी रे, धना
 शिर आंसु पडंत ॥ कवण दुःख तुज सांजखुं जी रे, जंजुं जोड कहंत
 ॥ सो० ॥ १० ॥ चंद्रमुखी मृगलोचनी जी रे, बोलावी जरतार ॥ बंधव
 वात में सांजली जी रे, नारीनो परिहार ॥ सो० ॥ ११ ॥ धनो जणे सु
 ण घेलडी जी रे, शास्त्रिजड पुरो गमार ॥ जो मन आण्युं ठंमवा जी रे,

विलंब न कीजें लगार ॥ सो० ॥ ११ ॥ कर जोड़ी कहे कामिनी जी रे,
 बंधव समो नही कोय ॥ कहेतां वातज सोहली जी रे, मूकतां दोहली
 होय ॥ सो० ॥ १३ ॥ जारे जा तें झम कह्यो जी रे, तो में ठांकी रे आठ ॥
 पिण्डा में हसतां कछुं जी रे, कुणशुं करशुं वात ॥ सो० ॥ १४ ॥ इण्णे
 वचने धनो निसस्यो जी रे, जाणे पंचायण सिंह ॥ जइ सालाने साद क
 स्यो जी रे, घेला ऊठ अवीह ॥ सो० ॥ १५ ॥ काल आहेडी नित जमे
 जी रे, पूठे म जोईश वाट ॥ नारी बंधन दोरखी जी रे, धव धव ठंके निराश
 ॥ सो० ॥ १६ ॥ जिम धीवर तिम माठलो जी रे, धीवरें नाख्यो रे जाल
 ॥ पुरुष पडी जिम माठलो जी रे, तिमहिं अंचित्यो काल ॥ सो० ॥ १७ ॥
 जोवन जर बिहुं निसस्या जी रे, पढोता वीरजीनी पास ॥ दीक्षा लीधी
 रूअडी जी रे, पाले मन उह्वास ॥ सो० ॥ १८ ॥ मास खमणने पारणे
 जी रे, पूठे श्री जिनराज ॥ अमने शुद्धज गोचरी जी रे, लाज देशे कुण
 आज ॥ सो० ॥ १९ ॥ माता हाथें पारणुं जी रे, आशे तुमने रे आज ॥ वीर
 वचन निश्चय करी जी रे, आव्या नगरीमांज ॥ सो० ॥ २० ॥ घरे आ
 व्या नवि उंलख्या जी रे, फरिया नगरी मजार ॥ मारग जातां महिया
 रडी जी रे, सामी मलि तेणि वार ॥ सो० ॥ २१ ॥ मुनि देखी मन उह्व
 स्युं जी रे, विकलित अइ तस देह ॥ मस्तक गोरस सूजतो जी रे, पडिला
 ज्यो धरि नेह ॥ सो० ॥ २२ ॥ मुनिवर वोहोरी चालीया जी रे, आव्या
 श्रीजिनपास ॥ मुनि संशय जइ पूठियो जी रे, माख न दीधुं दान ॥ सो०
 ॥ २३ ॥ वीर कहे तुमें सांजलो जी रे, गोरस वोहोस्यो रे जेह ॥ मारग
 मली महियारडी जी रे, पूर्व जन्म माय एह ॥ सो० ॥ २४ ॥ पूरव जव
 जिनमुखें लही जी रे, एकत्र जावे रे दोय ॥ आहार करी मुनि धारियो
 जी रे, अणसण शुद्धज होय ॥ सो० ॥ २५ ॥ जिन आदेश लही करी
 जी रे, चढिया गिरि वैजार ॥ शिला ऊपर जइ करी जी रे, दोय मुनि
 अणसण धार ॥ सो० ॥ २६ ॥ माता जडा संचख्यां जी रे, साथें बहु परिवार
 ॥ अंतैउर पुत्रज तणो जी रे, लीधो सघलो सार ॥ सो० ॥ २७ ॥ समय
 सरणें आवी करी जी रे, वांद्या वीर जगतात ॥ सकल साधु वांदी करी
 जी रे, पुत्र जोवे निजमात ॥ सो० ॥ २८ ॥ जोई सघली परषदा जी रे,
 नवि दीठ दोय अणगार ॥ कर जोडी करे विनति जी रे, चांखे श्रीजिन

राज ॥ सो० ॥ ३० ॥ वैजंरगिरि जाइ चड्या जी रे, मुनिदरिसण जमंग
 ॥ सहु परिवारें परवस्था जी रे, पढोता गिरिवरश्रृंग ॥ सो० ॥ ३० ॥ दोय
 मुनि अणसण उच्चरी जी रे, जीखे ध्यान मजार ॥ मुनि देखी विलखा
 थया जी रे, नयणें नीर अपार ॥ सो० ॥ ३१ ॥ गदगदशब्दें बोलती जी
 रे, मली बत्रीशे नार ॥ पिठडा बोलो बोलडा जी रे, जिम सुख पामे
 चित्त ॥ सो० ॥ ३२ ॥ अमे तो अवगुणें चस्यां जी रे, तुं सही गुण चंगार
 ॥ मुनिवर ध्यान चूका नही जी रे, तेहने वचनें खगार ॥ सो० ॥ ३३ ॥
 वीरा नयणें निहाळीयें जी रे, जिम मन थाये प्रमोद ॥ नयण उघाडी जो
 झ्यें जी रे, माता पामे मोद ॥ सो० ॥ ३४ ॥ शालिजद्र माता मोहने जी
 रे, पोहोता अमर विमान ॥ महाविदेहें सीजशे जी रे, पामी केवलज्ञान
 ॥ सो० ॥ ३५ ॥ धनो धर्मी मुक्तें गयो जी रे, पामी शुक्ल ध्यान ॥ जे
 नर नारी गावशे जी रे, समयसुंदरनी वाण ॥ सो० ॥ ३६ ॥

॥ अथ अज्ञान दोष अंधेर नगरीनी सद्वाय ॥

॥ अज्ञान महा अंधेर नगरें, जेहनी नहीं आदि रे ॥ मिथ्यात्व मंदि
 र मोह महानिशि, पलंग जिहां प्रमाद रे ॥ १ ॥ जीव जाग तुं गइ रात
 डी, जगवंत जग्यो जाण रे ॥ गति च्यार ते इश उपलां ने, कषाय पाइया
 चार रे ॥ त्रांति जरडें सुत्तर जरियो, वाहण वेद विचार रे ॥ जीव० ॥
 २ ॥ तृष्णा तलाइ पाथरीने, गोदडां महा गर्व रे ॥ गति जंग गालमसू
 रीयां ते, सज्या कुमति सर्व रे ॥ जीव० ॥ ३ ॥ रुशनाइ बनी तिहां राग
 नी ने, आठ मद उद्धोच रे, पड्यो पासुं न पाळटे ते, तज्या सहु संको
 च रे ॥ जीव० ॥ ४ ॥ स्नेह सांकळें सांकळ्यो ने, मोहनी मदिरापान रे ॥
 सूतो पण नत्रि सख सखे, नहीं शुद्धि सुमतिने सान रे ॥ जीव० ॥ ५ ॥
 लाख चोराशी सुपन लाधां, फरी फरी बहु वार रे ॥ कुमति वास्यो वके
 बहुविध, हजी न आव्यो पार रे ॥ जीव० ॥ ६ ॥ हर्पने रह्यो शोक हेरी,
 संयोगने वियोग रे ॥ जोग जवनी चासकीने, रूप त्यां बहु रोग रे ॥ जी
 व० ॥ ७ ॥ उंधे त्यां वसे आपदाने, जागे त्यां वली जोख रे ॥ कुडुं
 मेलो कारमो जेम, गगन वादल गोख रे ॥ जीव० ॥ ८ ॥ आखरे जातुं
 एकलाने, कोइ न आवे केड रे ॥ वालां वलावी वळे पाठां, सहु स्नेही
 नेह निमेड रे ॥ जीव० ॥ ९ ॥ जिनवचनें जे नर जागिया ते, पाम्या

परम कल्याण रे ॥ जंबू आदें जोइ लेजो, जगमांहे जे होये जाण रे ॥
जीव० ॥ १० ॥ एम नव्यने उपदेश जांखे, उदयरल उवजाय रे ॥ सार
श्रीजिन वयण ठे जग, मुक्ति जेहथी थाय रे ॥ जीव० ॥ ११ ॥

॥ अथ अध्यात्म सद्याय प्रारंभः ॥

॥ शांति सुधारस कुंमतां, तुं रमे मुनिवर हंस रे ॥ गारव रेणुशुं म म
रमे, मूकजे शिथिल मुनि संग रे ॥ शांति० ॥ १ ॥ स्वहित कर म कर न
वपूरणा, म कर तुं धर्ममां कूड रे ॥ लोक रंजन घणुं म म करे, जाणतो
क्युं होये मूढ रे ॥ शांति० ॥ २ ॥ जो यतिवर थयो जीवडा, प्रथम तुं
आपने तार रे ॥ आप साखें मुनि जो तस्यो, तो पठी लोकनें तार रे ॥
शांति० ॥ ३ ॥ तुज गुणवंत जाणी करी, लोक दीये आपणा पुत्त रे ॥
अशन वसनादिक नरी दीये, खोटकुं म धर मुनि सुत्त रे ॥ शांति० ॥ ४ ॥
नाण दंसण चरण गुणविना, तुं केम होय सुपात्र रे ॥ पात्र जाणी तुज
लोक दे, म नर तु पाप निज गात्र रे ॥ शांति० ॥ ५ ॥ सुधीय सुमति गु
प्ति नही, नही तप एषणा शुद्धि रे ॥ मुनि गुणवंतमां मूलगो, केम होये
लब्धिनी सिद्धि रे ॥ शांति० ॥ ६ ॥ व्याप मांड्यो घणो गुण विना, नूरि
आमंवर छह रे ॥ घर त्यजी मान माया पड्यो, केम होये सिंह गति री
ह रे ॥ शांति० ॥ ७ ॥ उपशम अंतरगें नही, नही तुज चारु निर्वेद रे ॥
नति श्रुति पूज्य तुं अजिद्वेषे, म कर अणमानीउ खेद रे ॥ शांति० ॥ ८ ॥
उदर नरणादि चिंता नही, सज्जन सुत कलत्र घर नार रे ॥ राज चोरादि
नय तुज नही, तोही तुज शिथिल आचार रे ॥ शांति० ॥ ९ ॥ विविध
दुःख देखी तुं लोकनां, तुज किसि चिंत मुनिराज रे ॥ तुं जना वर्जनादि
क पड्यो, चूक म आपणुं काज रे ॥ शांति० ॥ १० ॥ आपणुं पारकुं म म
करे, मूक ममता परिवार रे ॥ चित्त समता रसें जावजे, म कर बहु बाह्य
विस्तार रे ॥ शांति० ॥ ११ ॥ अतिही सत्कार पूजे स्तवे, मुज मल्ली लो
कना वृंद रे ॥ मुज यश नाम जग विस्तखुं, इश्युं अजिमान मुणिंद रे ॥
शांति० ॥ १२ ॥ पूरव मुनि सारिखी नही किशि, आपणी लब्धिने सिद्धि
रे ॥ अतिशय गुण किश्यो तुज नही, तोही तुज माननी बुद्धि रे ॥ शां
ति० ॥ १३ ॥ पूरव प्रजावक मुनि हुआ, तेहने तुं नही तोळे रे ॥ आप
हीणुं घणुं जाव जे, मुख वाहुं घणुंअ म बोल रे ॥ शांति० ॥ १४ ॥ निय

डि करी जे जन रंजीया, वश कस्या बहु जन लोक रे ॥ पूठ दीधे न ते ताहेरा, वृद्धिमुनिना तरु फोक रे ॥ शांति० ॥ १५ ॥ गुरुप्रसादें गुणहीन ने, होवे ठे तुं गुण रुद्धि रे ॥ तुं गुण मत्सरी मत होये, कर निज जीव नी शुद्धि रे ॥ शांति० ॥ १६ ॥ संयम योग मूकी करी, वश कस्या जे जन लोक रे ॥ शिष्य गुरु नक्त पुस्तक नस्या, अंते दीये समविणुं शोक रे ॥ शांति० ॥ १७ ॥ प्रशम समता सुख जलधिमां, सुर नर सुख एक विंद रे ॥ तेणें तुं सिंच सम वेवढी, मूकी दे अवर सम दंद रे ॥ शांति० ॥ १८ ॥ एक द्वाण विश्व जंतु परें, तुं वस जीव समजाव रे ॥ सर्व मैत्री सुधापान पै, सकल सुख सन्मुख लाव रे ॥ शांति० ॥ १९ ॥ आप गुणवंत गुण रंजी उ, दीन दुःखी देखी दुःख चूर रे ॥ निर्गुणी देसविरति रही, सकल मुनि सुख शुचि पूर रे ॥ शांति० ॥ २० ॥ इति अध्यात्म सव्याय ॥

॥ अथ मधुविंदुआ दृष्टांत सव्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल ॥ सरसती मुज रे, माता द्यो वरदान रे ॥ पूठे गौतम रे, जांखे श्रीवर्द्धमान रे ॥ ठंको गिरुआ रे, विरुआ विषयनुं ध्यान रे ॥ विषयारस रे, ठे मधुविंदु समान रे ॥ नुटक ॥ मधुविंदु सरिखो विषय निरखो, जोइ परखो चित्त शुं ॥ नर जनम हास्यो मोह गास्यो, पिरु जास्यो पापशुं ॥ कंतार पडियो नाग नडियो, कोइ देवाणुपियो ॥ वडवृद्ध जडियो वेगें चडीयो, रंक रडीयो ठपियो ॥ १ ॥ ढाल ॥ वड हेठल रे, कूप अठे अस राव रे ॥ दोय अजगर रे, मगर जिश्या विकराल रे ॥ चिहुं पासे रे, चार जुयंगम काल रे ॥ वली ऊपर रे, महोठो ठे महुयाल रे ॥ नुटक ॥ महुयाल माखी रगत चाखी, चंचु राखीने रही ॥ धंधोलतो गजराज धायो, पडत वडवाइ ग्रही ॥ वडवाइ कापे उंदर आपे, ताप संतापें ग्रह्यो ॥ मधुथकी गलियो विंदु ढलीयो, तेणे सुखलीणो रह्यो ॥ २ ॥ ढाल ॥ एह सकट रे, ढोडण देव दयाल रे ॥ दुःख हरवा रे, विद्याधर ततकाल रे ॥ उरुवारे, धरियुं तास विमान रे ॥ उ आवे रे, मधुविंदु करे सान रे ॥ ॥ नुटक ॥ मधुविंदु चाखे वचन जांखे, करे लालच लखवली ॥ वार वार राखे सान पाखे, रह्यो द्वाणएक पर रली ॥ तस खेचर मलियो वेग वलियो, रंक रूलियो ते नरु ॥ मधुविंदु चाटे विषय साटे, कस्यो उपनय जग गुरु ॥ ३ ॥ ढाल ॥ चोराशी लख रे ॥ गतिवासी कांतार रे ॥ मिथ्यामति

रे, जूलो जमे संसार रे ॥ जरा मरणा रे, अवतरणा ए कूप रे ॥ आठ खा
णी रे, पाणी पगइ सरूप रे ॥ त्रुटक ॥ आठ कर्म खाणी दोय जाणी, ति
रिय निरया अजगरा ॥ चारे कषाया मोह माया, लंबकाया विषहरा ॥
दोय पद्म उंदर मरण गयवर, आयु बडवाइ बटा ॥ चटका वियोगा रोग
शोगा, जोग योगा सामटा ॥ ४ ॥ ढाल ॥ विद्याधर रे, सहगुरु करे संज्ञा
ल रे ॥ तेणें धरीयुं रे, धर्मविमान विशाल रे ॥ विषया रस रे, मीठो जेम
महुयाल रे ॥ पडखावे रे, बाल यौवन वयकाल रे ॥ त्रुटक ॥ रह्यो बाल
यौवन काल तरुणी, चित्तहरणी निरखतो ॥ घरचारयुत्तो पंक खुत्तो, मद
विगुत्तो पोषतो ॥ आनंद आणी जैनवाणी, चित्त जाणी जागीर्यें ॥ चरण
प्रमोद सुशिष्य जपे, अचल सुख एम मागीर्यें ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ वैराग्य सद्याय प्रारंभः ॥

॥ श्रीसीमंधर साहेव सांजलो ॥ ए देशी ॥

॥ कां नवि चिंते हो चित्तमें जीवडा, आयु गले दिन रात ॥ वात वि
चारी रे पूरवचव तणी, कुण कुण ताहरी जात ॥ कां० ॥ १ ॥ तुं मत जा
णे रे ए सह माहरां, कुण माता कुण त्रात ॥ आप स्वारथ ए सहको म
व्या, म कर पराइ रे तात ॥ कां० ॥ २ ॥ दोहिलो दीसे रे जव माणस
तणो, श्रावक कुल अवतार ॥ प्राप्ति पूरी रे गुरु गिरुआ तणी, नहीं तुज
वारो रे वार ॥ कां० ॥ ३ ॥ पुण्य विहूणो रे दुःख पामे घणुं, दोष दीये
किरतार ॥ आप कमाई रे पूरव जवतणी, नवि संजारे गमार ॥ कां० ॥ ४ ॥
कठिन कर्मने रे अहनिश तुं करे, जेहना सबल विपाक ॥ हुं नवि जाणुं
रे कुण गति ताहरी, ते जाणे वीतराग ॥ कां० ॥ ५ ॥ तुज देखंतां रे जोने
जीवडा, केइ केइ गयां नर नार ॥ एम जाणीने रे निश्चें जायवुं, चेतन चे
तो गमार ॥ कां० ॥ ६ ॥ तें सुख पाम्यां रे बहु रमणीतणां, अनंत अनंती
रे वार ॥ लब्धि कहे रे जो जिनशुं रमे, तो सुख पामे अपार ॥ ७ ॥

॥ अथ परस्त्रीत्याग सद्याय ॥

॥ प्रभु साथें जो प्रीत वंढे तो, नारीसंग निवारो रे ॥ कपट निपटने
कामणगारी ॥ निश्चे नरक डुवारो ॥ एहनी गत एह जाणो ॥ राजरुषि
कोइ संदेह आणो ॥ एह० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ अबला एहवुं नाम धरा
वे, पण सबलाने समजावे रे ॥ हरि हर ब्रह्म पुरंदर देवा, ते पण दास

डि करी जे जन रंजीया, वश कस्या बहु जन लोक रे ॥ पूठ दीधे न ते
 ताहेरा, गृहिमुनिना तरु फोक रे ॥ शांति० ॥ १५ ॥ गुरुप्रसादें गुणहीन
 ने, होवे ठे तुं गुण रुद्धि रे ॥ तुं गुण मत्सरी मत होये, कर निज जीव
 नी शुद्धि रे ॥ शांति० ॥ १६ ॥ संयम योग मूकी करी, वश कस्या जे
 जन लोक रे ॥ शिष्य गुरु जक्त पुस्तक जस्या, अंते दीये समविणुं शोक
 रे ॥ शांति० ॥ १७ ॥ प्रशम समता सुख जलधिमां, सुर नर सुख एक बिंद
 रे ॥ तेणें तुं सिंच सम वेलडी, मूकी दे अवर सम दंद रे ॥ शांति० ॥ १८ ॥
 एक क्षण विश्व जंतु परें, तुं वस जीव समजाव रे ॥ सर्व मैत्री सुधापान
 पै, सकल सुख सन्मुख लाव रे ॥ शांति० ॥ १९ ॥ आप गुणवंत गुण रंजी
 उं, दीन दुःखी देखी दुःख चूर रे ॥ निर्गुणी देसविरति रही, सकल
 मुनि सुख शुचि पूर रे ॥ शांति० ॥ २० ॥ इति अध्यात्म सव्वाय ॥

॥ अथ मधुविंदुआ दृष्टांत सव्वाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल ॥ सरसती मुज रे, माता द्यो वरदान रे ॥ पूठे गौतम रे, जांखे
 श्रीवर्द्धमान रे ॥ ठंको गिरुआ रे, विरुआ विषयनुं ध्यान रे ॥ विषयारस
 रे, ठे मधुविंदु समान रे ॥ त्रुटक ॥ मधुविंदु सरिखो विषय निरखो,
 जोइ परखो चित्त शुं ॥ नर जनम हास्यो मोह गास्यो, पिरु जास्यो पापशुं
 ॥ कंतार पडियो नाग नडियो, कोइ देवाणुपियो ॥ वडवृद्ध जडियो वेगें
 चडीयो, रंक रडीयो ठपियो ॥ १ ॥ ढाल ॥ वड हेठल रे, कूप अठे अस
 राल रे ॥ दोय अजगर रे, मगर जिश्या विकराल रे ॥ चिहुं पासे रे, चार
 जुयंगम काल रे ॥ वली ऊपर रे, महोठो ठे महुयाल रे ॥ त्रुटक ॥ महु
 याल माखी रगत चाखी, चंचु राखीनें रही ॥ धंधोलतो गजराज धायो,
 पडत वडवाइ ग्रही ॥ वडवाइ कापे उंदर आपे, ताप संतापें ग्रहो ॥ मधु
 थकी गलियो विंदु ढलीयो, तेणे सुखलीणो रह्यो ॥ २ ॥ ढाल ॥ एह स
 कट रे, ढोडण देव दयाल रे ॥ दुःख हरवा रे, विद्याधर ततकाल रे ॥ उ
 रुरवा रे, धरियुं तास विमान रे ॥ उ आवे रे, मधुविंदु करे सान रे ॥
 ॥ त्रुटक ॥ मधुविंदु चाखे वचन जांखे, करे ढालच लखवली ॥ वार वार
 राखे स्नान पाखे, रहो क्षणएक पर रली ॥ तस खेचर मलियो वेग वलि
 यो, रंक रूखियो ते नरु ॥ मधुविंदु चाटे विषय साटे, कस्यो उपनय जग
 गुरु ॥ ३ ॥ ढाल ॥ चौराशी लख रे ॥ गतिवासी कांतार रे ॥ मिथ्यामति

रे, जूखो जमे संसार रे ॥ जरा मरणा रे, अवतरणा ए कूप रे ॥ आठ खा
णी रे, पाणी पगइ सरूप रे ॥ नुटक ॥ आठ कर्म खाणी दोय जाणी, ति
रिय निरया अजगरा ॥ चारे कषाया मोह माया, लंबकाया विषहरा ॥
दोय पद्म उंदर मरण गयवर, आयु वडवाइ वटा ॥ चटका वियोगा रोग
शोगा, जोग योगा सामटा ॥ ४ ॥ ढाल ॥ विद्याधर रे, सहगुरु करे संजा
ख रे ॥ तेणें धरीयुं रे, धर्मविमान विशाल रे ॥ विषया रस रे, मीठो जेम
महुयाल रे ॥ पडखावे रे, बाल यौवन वयकाल रे ॥ नुटक ॥ रह्यो बाल
यौवन काल तरुणी, चित्तहरणी निरखतो ॥ घरजारयुत्तो पंक खुत्तो, मद
विगुत्तो पोषतो ॥ आनंद आणी जैनवाणी, चित्त जाणी जागीये ॥ चरण
प्रमोद सुशिष्य जपे, अचल सुख एम मागीये ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ वैराग्य सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ श्रीसीमंधर साहेब सांजलो ॥ ए देशी ॥

॥ कां नवि चिंते हो चित्तमें जीवडा, आयु गले दिन रात ॥ वात वि
चारी रे पूरवचव तणी, कुण कुण ताहरी जात ॥ कां० ॥ १ ॥ तुं मत जा
णे रे ए सह माहरां, कुण माता कुण चात ॥ आप स्वारथ ए सहको म
ल्या, म कर पराइ रे तात ॥ कां० ॥ २ ॥ दोहिलो दीसे रे जव माणस
तणो, श्रावक कुल अवतार ॥ प्राप्ति पूरी रे गुरु गिरुआ तणी, नहीं तुज
वारो रे वार ॥ कां० ॥ ३ ॥ पुण्य विहूणो रे दुःख पामे घणुं, दोष दीये
किरतार ॥ आप कमाई रे पूरव चवतणी, नवि संचारे गमार ॥ कां०॥४॥
कठिन कर्मने रे अहनिश तुं करे, जेहना सबल विपाक ॥ हुं नवि जाणुं
रे कुण गति ताहरी, ते जाणे वीतराग ॥ कां० ॥ ५ ॥ तुज देखतां रे जोने
जीवडा, केइ केइ गयां नर नार ॥ एम जाणीने रे निश्चें जायवुं, चेतन चे
तो गमार ॥ कां० ॥ ६ ॥ तें सुख पाम्यां रे बहु रमणीतणां, अनंत अनंती
रे वार ॥ लब्धि कहे रे जो जिनशुं रमे, तो सुख पामे अपार ॥ ७ ॥

॥ अथ परस्त्रीत्याग सद्वाय ॥

॥ प्रचु साथें जो प्रीत वंठो तो, नारीसंग निवारो रे ॥ कपट निपटने
कामणगारी ॥ निश्चे नरक डुवारो ॥ एहनी गत एह जाणो ॥ राजरुषि
कोइ संदेह आणो ॥ एइ० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ अबला एहवुं नाम धरा
वे, पण सबलाने समजावे रे ॥ हरि हर ब्रह्म पुरंदर देवा, ते पण दास

कहावे ॥ एह ॥ १ ॥ पगले पगले नाम पलटावे, श्वास उदासें जूदी रे ॥
 गरिज पडे त्पारें घेली थाये, काम सरे जाये कूदी रे ॥ एह ॥ ३ ॥ जंघा
 चीरी मांस खवाडे, तोय न थाये तेहनी रे ॥ मुखनी मीठी दिलनी रे जू
 ठी, कामिनी न थाये केहनी रे ॥ एह ॥ ४ ॥ करणी एहनी कही न जा
 ये, कामनि तणी गति न्यारी रे ॥ गाथुं एहनुं जे नर गाशे, तेहने शिवग
 ति वारी रे ॥ एह ॥ ५ ॥ जो लागी तो सर्वे लुंटे, रूठी राक्षस तोले रे
 ॥ इम जाणीने अलग्ग रहेजो, उदयरल एम बोले रे ॥ एह ॥ ६ ॥

॥ अथ स्त्रीवर्जन शिखामण सद्यय ॥

॥ धर्म जणी जातां धरा, वनसांहे पाडे वाट ॥ लडि लीए सर्व लुंटीने,
 व्रतनी जे वहे उवाट ॥ बला हो, बहु बहु बोली ए बाल, जे अठता उपा
 ये आल, जे वाघणशी विकराल, जे आपे मरण अकाल ॥ व ॥ १ ॥ संसारें
 सहु सरिखुं नहीं, जोडें वसंतां जोय ॥ एक वांको एक पाधरो, बोरडीयें
 कांटा जिम होय ॥ व ॥ २ ॥ बला बला सहुको कहे, बीजी बला बलवं
 त ॥ ए जेवी एके नहीं, जे बले पाडी बलंत ॥ व ॥ ३ ॥ आखाढो गाढो
 ठड्यो, केई ठड्या नर कोड ॥ गुणवंतनुं पण नहीं गजुं, जे कणमां लगाडे
 खोड ॥ व ॥ ४ ॥ उलाले आकाशमां एक, आंखें उलाले अनेक ॥ मही
 यें पग मंके नहीं वली, नासे विनय विवेक ॥ व ॥ ५ ॥ जशोधर जिस्था
 जालमी, वली मुंजजिस्था महाराज ॥ पुण्यवंत परदेशी सारिखा, ते कांता
 यें हएया निजकाज ॥ व ॥ ६ ॥ जोरावर जंबू जिस्था, वंकचूल सरिखा वीर
 ॥ समर्थ थूलिजद्र सारिखा, जेहनां नारियें न उतास्यां नीर ॥ व ॥ ७ ॥
 शोल सती आदें थइ, महासतीजं जग हितकार ॥ अनेक नर तेणें उरु
 स्या, रहनेमि आदें निरधार ॥ व ॥ ८ ॥ सुदर्शन बलतां नवि ठड्यो,
 थयो केवल कमलाकंत ॥ परमोदय पामे सही, जे पास एहने न पडंत
 ॥ व ॥ ९ ॥ इति स्त्रीवर्जन सद्यय ॥

॥ अथ परस्त्री वर्जन सद्यय ॥ धणरा ढोला ॥ ए देशी ॥

॥ शीख सुणो पीउ माहरी रे, तुजने कहुं कर जोड ॥ धणरा ढोला ॥
 प्रीत म कर परनारीशुं रे, आवे पग पग खोड ॥ ध ॥ कह्युं मानो रे सु
 जाण, कह्युं मानो ॥ वरज्यां वज्जों मारा लाल, वरज्यां वज्जों, परनारीनो
 नेहडलो निवार ॥ धणरा ढोला ॥ १ ॥ जीव तेंपें जिम बीजली रे, मन

कुं न रहे ठाम ॥ ध० ॥ काया दाह मिटे नहीं रे, गांठे न रहे दाम ॥ ध०
 ॥ २ ॥ नयणें नावे निडडी रे, आठे पोहोर उद्वेग ॥ ध० ॥ गल्लीआरे ज
 मतो रहे रे, लागू लोक अनेक ॥ ध० ॥ ३ ॥ धान न खाये आपतो रे, दी
 तुं न रुचे नीर ॥ ध० ॥ नीसासा नाखे घणा रे, सांजल नणदीना वीर
 ॥ ध० ॥ ४ ॥ जूतलमें निशि नीसरे रे, जूरी जूरी पिंजर होय ॥ ध० ॥
 प्रेमतणे वश जे पडे रे, नेह गमे तव दोय ॥ ध० ॥ ५ ॥ रात दिवस म
 नमां रहे रे, जिणशुं अविहड नेह ॥ ध० ॥ वीसाख्या नवि वीसरे रे, दा
 जे ऋण ऋण देह ॥ ध० ॥ ६ ॥ माथे बदनामी चढे रे, लागे कोड कलं
 क ॥ ध० ॥ जीवितनो संशय पडे रे, जूवो रावण पति लंक ॥ ध० ॥ ७ ॥
 परनारीना संगथी रे, जलो न थाये नेठ ॥ ध० ॥ जूवो कीचक चीमडे रे,
 दीधो कुंजी हेठ ॥ ध० ॥ ८ ॥ थाये लंपट लालची रे, घटती जाये ज्योत
 ॥ ध० ॥ जीत न थाये तेहनी रे, जिम रायचंद प्रद्योत ॥ ध० ॥ ९ ॥ पर
 नारी विषवेलडी रे, विषफल जोग संयोग ॥ ध० ॥ आदर करी जे आदरे
 रे, तेहने जवजय शोग ॥ ध० ॥ १० ॥ बाहाला माहारी विनती रे, साची
 करीने जाण ॥ ध० ॥ कहे जिनहरष तुमें सांजलो रे, हियडे आणि मुज
 बाण ॥ ध० ॥ ११ ॥ इति परस्त्री वर्जन सञ्चाय ॥

॥ अथ ॥

॥ श्रीनयविमल विबुधविरचित दशदृष्टान्ताधिकार सञ्चाय ॥

॥ तत्र प्रथम चुलकनामा दृष्टान्त सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ श्री पार्श्वनाथाय ऐं नमः ॥ पंक्ति पर्षट्टनस्थलीव
 संतपंक्ति श्रीधीरविमलगणिचरणसहस्रपत्रेभ्योनमः ॥

॥ दोहा ॥ प्रेमें पास जिणंदनां, पदकज युग प्रणमेवि ॥ सानिध्यकारी
 शारदा, श्रीसद्गुरु समरेवि ॥ १ ॥ दश दृष्टान्ते दोहिलो, मानवनो जव एह
 ॥ पामी धर्म न आदरे, अहेलें गमावे तेह ॥ २ ॥ वार अनंती फरसीयो, ए
 सघलो संसार ॥ ठाली वाटक न्याय परें, वण समकित आधार ॥ ३ ॥
 कंचनगिरि गिरिमां बडो, नदीयोमां जिम गंग ॥ जिम गजमां औरावतो,
 जिम तनुमां हि वरंग ॥ ४ ॥ तरुमां हे जिम कल्पतरु, तेजवंतमां जाण ॥
 पद्मीमां जिम गंरुड खग, जिम चक्री नरराण ॥ ५ ॥ जैन धर्म जिम धर्म

दाख्यो उपनय सार ॥ निसुणीने समजो, नरजव सवि सुखसार ॥ ११ ॥ दृष्टांत
प्रथम इम, दाख्यो में लव लेश ॥ कवि धीर विमलनो, नयविमल कहे शिष्य
॥ १३ ॥ इति नरजव दश दृष्टांताधिकारे चुल्लक नामा प्रथम दृष्टांतः समाप्तः ॥ १

॥ अथ पाशकनामा द्वितीय दृष्टांत प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ जिम चंदन तरुमां अधिक, धातुमांहि जिम हेम ॥ जिम म
णिमांहे हीरलो, उत्तम नरजव तेम ॥ १ ॥ तिरि नर देवथकी अधिक, नरजव
उत्तम आणि ॥ नरजव तरुवर फूलडां, अमरजोग गुणखाणि ॥ १ ॥ गुरुसानिधि
बी जो कहुं, पाशकनो संबंध ॥ नरजव शोभे दर्शनें, जिम अरविंद सुगंधा ॥ ३ ॥

॥ राग देशाख ॥ ढाल एकवीशानी ॥ इह जरते रे, गोह्व देशे चणा
कापुरी ॥ चणि बंजण रे, घरणी तस चणकेसरी ॥ सुत जायो रे, दाढा
लो चाणिक जलो ॥ लघुवयथी रे, सकल कलागण गुणनिलो ॥ त्रुटक ॥
अतिजलो तापस वेश पहिरी, मयूर पोष गामें गयो ॥ गर्जिणी तिहां नृ
पति घरणी, चंद्रपान दोहलो थयो ॥ मनतणी इडा पूर्ण न होवे, तिणे
थाये डूवली ॥ पूठियुं तापस तेह अर्थे, कहे मति तुज निर्मली ॥ १ ॥ जो
एहनो रे, गर्ज दियो मुजने वली ॥ तो एहनी रे, पूरुं हुं मननी रली ॥
तस सयणें रे, तेह वयण अंगीकखुं ॥ निजबुद्धे रे, तृणकेरुं मंदिर क
खुं ॥ त्रुण ॥ करी मंदिर थाल मोहोडुं, डूध साकरखुं जखुं ॥ प्रतिविंब चं
द्रतणुं धरीने, तेहनी आगल धखुं ॥ एम चंद्र पीधो काज सीधो. अनुक्र
नें सुत जनमियो ॥ दोहलानुसारें सुदिन वारें, चंद्रगुप्त नामज दियो ॥
२ ॥ चणीपुत्रें रे, सकल कला ते शीखव्यो ॥ निजपासें रे, नरपति करिने
ते ठव्यो ॥ कल बलथी रे, नंद हणी पारुलि पुरी ॥ वेसाख्यो रे, चंद्रगुप्त
नरपति करी ॥ त्रुण ॥ करी जूपति आप मंत्री, थयो चाणिक तेहनो ॥
वहु बुद्धिसागर सुगुण आगर, विस्तख्यो जस तेहनो ॥ बहु डव्य हेनें सुर
संकेतें, पाशका दोइ पामिया ॥ दीनार जरियो थाल आणी, जूअ रम
वा दामिया ॥ ३ ॥ चाणायक रे, व्यवहारी मेळी सह ॥ रमे रामत रे,
कोश जरे गरथें बहु ॥ एम बलथी रे, नृपति जंमार जरावियो ॥ जूअ रम
तें रे, सारो नगर हरावियो ॥ त्रुण ॥ हरावियो एम लोक सघलो, कोइ
जोती नवि शके ॥ ते अक्ष-सानिधि थइ बहु रुद्धि, सकल नृपमां
हीज के ॥ यद्यपि सांनिधि देवकेरी, तेह पाशा जोत ए ॥ पण नृजव

दोहिलो फरी लेहवो, नय कहे सुविनीत ॥ ए० ॥ ४ ॥ सर्वगाथा ॥ ७ ॥
 ॥ दोहा ॥ ॥ ए पाशक दृष्टांतनुं, कहुं संक्षेपि चरित्र ॥ अंतर्गत
 उपनय कहुं, एहनो अठे पवित्र ॥ १ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ ए ठिन्नी किहां राखी ॥ ए देशी ॥ चाणायक सम चारित्र जूपति,
 निर्मल मति गुणखाणी ॥ कर्मनृपति पासें ते भागे, एक संसारी प्राणी रे
 ॥१॥ जविका ए उपनय चित्त धारो, तुम्हें मानव जव मंत हारो रे ॥ ज० ॥
 वली समकित तत्व विचारो रे ॥ ज० ॥ २ ॥ ए आंकणी ॥ ते प्राणीने यतनें
 राखे, सकल कला शीखावे, शास्त्र जणावी समकित केरी, सित समशेर
 बंधावे रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ नंदपरें नव नरपति जाणो, आठ करम मिथ्याता ॥
 दूर निकंदी विरतिपुरीनुं, राज लहे सुविख्यात रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ श्रीजि
 नवर अनुकूलपणार्थी, शुजयोगें उपन्ना ॥ अनुपम समकित चारित दोष्ट,
 पाशा गुण निपन्ना रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ नाणजंमार जरेवा कारण, सोवन था
 ल विवेक ॥ मांरीने नितु रामत रमते, जींत्यो सघलो लोक रे ॥ ज० ॥ ६ ॥
 इणिपरे सुजस लह्यो तिणि सघले, उत्तम नरजव पामी ॥ अकल अरूप
 अने अविनाशी, होवे अंतरयामी रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ धीरविमल गुरुराज
 पसायें, ए उपनय एम दाख्यो ॥ नय कहे ए परिणतिमां रमतां, सरस
 सुधारस चाख्यो रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ सर्वगाथा ॥ १५ ॥ इति नरजव दशदृ
 ष्टांताधिकारे पाशकनामा द्वितीयदृष्टांतः सध्याय समाप्तः ॥ १ ॥

॥ अथ धान्यराशिनामा तृतीयदृष्टांतस्वाध्यायः प्रारंभ्यते ॥

॥ दोहा ॥

॥ क्षेत्र जाति कुल कर्म तिम, जाषा दर्शन ज्ञान ॥ चारित्रने विज्ञान
 तिमं, ए नव आर्य प्रधान ॥ १ ॥ मानवजव विणुं ए नहिं, तिणेकरी
 उत्तम एह ॥ कहुं उपनय त्रीजो हवे, धान्य राशिनो जेह ॥ २ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ हो मत वाले साजनां ॥ ए देशी ॥ जंबूद्वीपें जरतमां, घन घनने
 परजावें जी ॥ शुक्र सुगाल सुवायथी, अन्न जातिवहु थाये जी ॥ १ ॥
 नरजव सुरमणि सारिखो ॥ पामीने म म हारो जी ॥ फरी फरी लेहवो
 दोहिलो, जिम पंगुल जलनिधि पारो जी ॥ न० ॥ २ ॥ राशि करीजें धान्य

नो, उंचपणे गिरि जीपे जी ॥ शशधर पण तस ऊपरें, रजत कुंजपरें दीपे
 जी ॥ नर० ॥ ३ ॥ पालो सरशव तेहमां, अतिगाढो जेलीजें जी ॥ गळि
 त पलित तनु जाजरी, मोसी तिहां जोडीजें जी ॥ नर० ॥ ४ ॥ ते सरशव
 वेंची करी, चरी फिरि न शके पालो जी ॥ निजबल जरती अजाणती,
 जिम जिनमत मतवालो जी ॥ नर० ॥ ५ ॥ यद्यपि तेह चरी शके,
 देवतणे अनुसार जी ॥ विणु पुण्यें पामे नहिं, फरी नरचव अवतार जी ॥
 नर० ॥ ६ ॥ कर्म शुभाशुभ वर्गणा, धान्य जाति ते जाणो जी ॥ नास्ति
 कजाव जरा मली, अविरति जरती जाणो जी ॥ नर० ॥ ७ ॥ सरशव सद
 गुरु वयणलां, कर्मराशिमां चलियां जी ॥ ते जूदां कशी नवि शके, नास्ति
 कजावें मलियां जी ॥ अथवा ॥ विषय कषायें मलियां जी ॥ अविरति
 जरती मलियां जी ॥ नर० ॥ ८ ॥ इम अविरति वली हारीयो, नरचवनो
 अवतार जी ॥ त्रीजो उपनय नय कहे, आगमने अनुसार जी ॥ नर० ॥ ९ ॥
 इति नरचव दश दृष्टांताधिकारे धान्यराशिनामा तृतीयदृष्टांतः समाप्तः ॥ ३ ॥

॥ अथ जूवटनामा चतुर्थ दृष्टांत प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ सुगुरु पदेन सुधर्मनुं, लहियें सकल सरूप ॥ ते माटे उत्तम
 कह्यो, नरचव सुकृत सरूप ॥ १ ॥ नरगति विणुं नहिं सुगति गति, तिम नहिं
 केवलज्ञान ॥ तिर्हकर पदवी नहिं, नरचव विणु नहिं दाना ॥ २ ॥ तेह चणी न
 रचव तणो, कहुं चोथो दृष्टांत ॥ जूवटकेरो सांचलो, आदर आणी संता ॥ ३ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ राग गोडी धमाल ॥ जीवन जीवन हो सनतकुमार ॥ ए देशी ॥
 ॥ धीरविमल पंक्तिपद प्रणमी, जाणी जिनवर वाणी ॥ उपनय चोथो
 नरचव केरो, कहुं सुणजो गुण खाणी ॥ १ ॥ सोचागी सज्जन सांचलो
 जी ॥ रतनाकरसम रतनपुरीनो, नृपति शतायुध नाम ॥ कक्षिशायुध परें
 जास पराक्रम, राणी रंजा नाम ॥ सो० ॥ २ ॥ लक्ष्ण सदन मदन त
 स अंगज, अंगज सम जस रूप ॥ मत्तिसागर आगर सवि गुणनो, मंत्री
 सर गुणयूप ॥ सो० ॥ ३ ॥ नृप आस्थान सचायें वेसी, सुतने करे युव
 राज ॥ पीवरकुचयुगकुंजा रंजा, विलसे जिम सुरराज ॥ सो० ॥ ४ ॥ ला
 जें लोच घणरो वाधे, ए कलियुगनी रीति ॥ सुत चिंते नृपति मारीने,
 हुं करुं राजनी नीति ॥ सो० ॥ ५ ॥ एह मंत्र मंत्री कहे नृपने, एकांते

धरी प्रेम ॥ अणजाणीतो यद्दने जूपति, अंगज प्रत्ये कहे एम ॥ सो० ॥
 ॥ ६ ॥ सुण सुत राजकाज ए सधळुं, सोंपुं तुज घरसूत्र ॥ पण ए नीति
 ठे निज कुलकेरी, सुण तुं सुंदर पुत्र ॥ सो० ॥ ७ ॥ कुलवट ए जूवटथी
 लहियें, पृथिवीकेरुं राज ॥ अछोतर सो मणिमय थंजा, ए आस्थानस
 माज ॥ सो० ॥ ८ ॥ थंज थंज आरा अति तीखी, अछोत्तरशत मान ॥
 मुजशुं सारी पाशें रमतां, जीप तुं पुत्र निधान ॥ सो० ॥ ९ ॥ अनुक्रमे
 पहिलो बीजो त्रीजो, चोथो तिम वली पंच ॥ एणी परें अछोत्तर सो खू
 ण, जीपवा जूवट संच ॥ सो० ॥ १० ॥ एक वार जो खलना पामे, रमतां
 सारी पासे ॥ मूलथकी ते रामत हारे, मंमे पुनरपि वासैं ॥ सो० ॥ ११ ॥
 अछोतर सो थंजा इणपरें, जीते जे नर तेह ॥ राज लहे ते निज कुलके
 रुं, नीति अठे गुणगेह ॥ सो० ॥ १२ ॥ जनक अने सुत एणीपरें वेठा,
 रमवाने सहु साख ॥ पण सुत नवि जीते नृप आगल, दाय करे जो लाख
 ॥ सो० ॥ १३ ॥ देवतणी सानिधिथी कोई, जीते तेह कदापि ॥ विण
 समकित नरजव जे हाख्यो, कहे नय तिम दुःप्रापि ॥ सो० ॥ १४ ॥

॥ दोहा ॥ ॥ अंतरगत उपनय कहुं, सुणि गुरुनो उपदेश ॥ विस्तर
 ठे एहनो घणो, पण इहां कहुं लवलेश ॥ १ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ राग गोडी ॥ जंबूद्वीप मजार ॥ ए देशी ॥

॥ नृप ते संसारी जीव, शुचपरिणति पति ॥ उपशम पुरनो राजियो
 ए ॥ १ ॥ सुगुण विवेक प्रधान, मान घणुं लहे ॥ जूपतिनी पासें रहे ए
 ॥ २ ॥ माठा मनवचयोग, अंगज जाणीयें ॥ जनक ऊपर ते दूमणा ए
 ॥ ३ ॥ अछोत्तर सो खाणि, जीवतणी कही ॥ थंजसमान ते जाणीये ए ॥
 ४ ॥ जीव जीव प्रत्ये जेह, कर्मप्रकृति सवे ॥ तीखा आरानी परें ए ॥ ५ ॥
 दर्शन चारित्र दोय, पासा पाधरा ॥ ज्ञानफूलक ऊपर धर्या ए ॥ ६ ॥
 रमत रमतां एम, जो खलना लहे ॥ तो फरी रामत मंकीयें ए ॥ ७ ॥
 जो जीते सवि दाव, तखत लहे तदा ॥ क्हीण मोहसिंहासनें ए ॥ ८ ॥
 एणी परें प्रकृति विचार, साधे जे नर ॥ तेहिज अविचल पद लहे ए
 ॥ ९ ॥ दुष्ट सुतें जिम राज, नवि ते पामीये ॥ तिम अशुच योगथी नर
 जवो ए ॥ १० ॥ एम चोथो दृष्टान्त, मानवजवतणो ॥ नयविमल पंदि

त जणे ए ॥ ११ ॥ सर्वगाथा ॥ ११ ॥ इति श्रीमानवज्रव दश दृष्टांताधि
कारे जूवटनामा चतुर्थ दृष्टांतस्वाध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥

॥ अथ रयणराशिनामा पंचमदृष्टांतः स्वाध्याय प्रारभ्यते ॥

॥ दोहा ॥

॥ अणचिंत्यो नरज्व लह्यो, घूणाक्षरने न्याय ॥ गिरिसरिद्रुप्पलतणि
परें, कर्मनृपति सुपसाय ॥ १ ॥ विणु धर्में ज्व हारियो, जिम जूआरी
दाय ॥ आवे हर्षें धन ग्रही, धन खोईने जाय ॥ २ ॥ रयणराशिनो पंच
मो, बोळुं हुं दृष्टांत ॥ बंधन त्रोडे कर्मनां, जिम जलकृमि जलकांत ॥ ३ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ चालनी देशी ॥ ज्वरत विचूषण उञ्चितद्रूषण, नयर सुकोशल नाम
॥ सुंदर मंदिर मंदरगिरिसम, सोहे धवलित धाम ॥ अतिधनवंत महंत
गुणाकर, रत्नाकर इति नाम ॥ विवसे विकसे संपद सुखशुं, जिम माधव
आराम ॥ १ ॥ देशविदेशें नयरें निवसइ, विविध रयणी जाति ॥ दाय
उपाय करी ते मेली, जिम जलनिधि जल जाति ॥ राज परिदानी गिरि
परे मानी, वेटा महोटा तास ॥ एक दिन कुलधज कोटिध्वज घर, देखे
केतुविलास ॥ ११ ॥ अंगज त्यारे एम विचारे, नहि सारे अम तात ॥ निर्धन
सयणतणी परि रयणें, नोहे धनविख्यात ॥ अंतर्वाणीनी जिम वाणी, न
वि जाणीजें केण ॥ केवल घटदीपकपरि निःफल, बहुपरि रयण धणेण
॥ ३ ॥ इम चिंतवतां तात तेहनो, धन मेलणने काज लोञ्जाच्यंतर दूर
देशांतर, चढियो चतुर ऊहाज ॥ उहूंखल तस पाठल अंगज, वेचे रयणां
मूले ॥ उठे अधिके दशदिशि वेस्था, जिमवातूली तूले ॥ ४ ॥ रयणराशि
लोपी आरोपी, धज पल्लव निज वास ॥ कोटिध्वज निज नाम धरावी,
पूरी निजमन आस ॥ वात सुणीने तात पधाख्यो, वास्या अंगज तेह ॥
धजपट घर घट ऊपर देखी, चटपटि लागी देह ॥ ५ ॥ रे अज्ञानी वाळा
व्याला, परनाला अविनीत ॥ धन तरुकंद कुदाला हाला, विणसाड्युं घर
सूत ॥ इणीपरे हांकी वाहिर काढ्या, अंगज ग्रही ग्रही वांहि ॥ रयण
राशि दिशि दिशिथी आणो, तो आवो घरमांहि ॥ ६ ॥ निज वांके ते रंक
तणी परें, पुहवीमंरुल फिरतां ॥ कुटिलसुजावें रयण अजावें, बहु डुख

ने अनुसरता ॥ यद्यपि देव प्रजावें रयणां, सयल ग्रही ग्रही आवे ॥ पण
नय कहे धर्मविना नरजव ए, हास्यो वलीय न पावे ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥ ॥ हवे एनो उपनय कहुं, सुणजो सहु जविलोक ॥ मा
नव जव महोटो अठे, जिम सोवनधन रोक ॥ १ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ वात म काढो हो व्रततणी ॥ ए देशी ॥ सुविहित हित कर जंतुने,
मारगने अनुसारी रे ॥ ते गुरुव्यवहारी समो, आगम रयण जंमारी रे
॥ १ ॥ सोजागी जून सांजलो ॥ पंचप्रकारें जाणीयें, अंगज परि तस शि
ष्या रे ॥ धज परिजन पूजा लही, पामे परिगल जिख्या रे ॥१॥सो॥आ
गम रयणां वेंचियां, पेटजराइ मूले रे ॥ जंचे पद चढ्या लोकमां, कोटि
ध्वज नामें चूले रे ॥३॥सो॥ तातें तेह कुशिष्य ते, दुर्विनाजना ठाक्या
रे ॥ परंपर घरथी काढिया, हायें ग्रहीने हांक्यारे ॥ ४ ॥ सो॥ ॥ रंकपरें
निज वांकथी, रुले चउगति संसारे रे ॥ ते पाठा नावी शके, परंपरा घर
वारें रे ॥ आगमरयण ग्रही सारें रे ॥ ५ ॥ सो॥ ॥ एम हास्यो नरजव
वली, दुष्करपणे ते लहियें रे ॥ धीर विमल कविराजने, नयसीसे एम
कहियें रे ॥ ६ ॥ सो॥ ॥ सर्व गाथा ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ ॥ श्री आवश्यक चूर्णिने, अनुसारे कह्यो एह ॥ पण उ
पदेश पदें कह्यो, अन्य सरूपें एह ॥ १ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ नमो नमो मनक महामुनि ॥ ए देशी ॥ तामलित्ति नगरें वसे, सा
गरदत्त इति सेठ रे ॥ रयण राशि करी एकठो, लब्धि करे जसवेठ रे ॥१॥
मानव जव मीठो लही, मूरख महियां महारो रे ॥ महोटो महिमा एह
नो, मुगतितणो संचकारो रे ॥ मा० ॥ १ ॥ प्रवहण पूरी एकदा, रयण
द्रीपें ते जाय रे ॥ प्रवहण रयणें जरी फरी, आवे जलनिधिमांय रे ॥ मा०
॥ ३ ॥ प्रवहण जांग्युं तेहनुं, रयण गयां विरलाइ रे ॥ फलग लही घर
आवीयो, हियडे दुःख न समाइ रे ॥ मा० ॥ ४ ॥ रयणराशि तेणे शेठिय,
ते जेम दोहिलो लहियें रे ॥ तेणीपरें नरजव हारियो, दोहिलो वली व
ली कहियें रे ॥ मा० ॥ ५ ॥ जीव संसारी शेठियो, सुगुरु सुधर्मने नेकरे ॥ स
मकित गुणवर रयणडें, पूखुं पोत विवेकरे ॥ मा० ॥ ६ ॥ संयम मारग

त जणे ए ॥ ११ ॥ सर्वगाथा ॥ शए ॥ इति श्रीमानवज्रव दश दृष्टांताधि
कारे जूवटनामा चतुर्थ दृष्टांतस्वाध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥

॥ अथ रयणराशिनामा पंचमदृष्टांतः स्वाध्याय प्रारभ्यते ॥

॥ दोहा ॥

॥ अणचिंत्यो नरज्व लह्यो, घूणाकरने न्याय ॥ गिरिसरिद्रुप्पलतणि
परें, कर्मनृपति सुपसाय ॥ १ ॥ विणु धमें जव हारियो, जिम जूआरी
दाय ॥ आवे हर्षे धन ग्रही, धन खोईने जाय ॥ २ ॥ रयणराशिनो पंच
मो, वोलुं हुं दृष्टांत ॥ बंधन त्रोडे कर्मनां, जिम जलकृमि जलकांत ॥ ३ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ चालनी देशी ॥ जरत विज्रूषण उश्चितद्रूषण, नयर सुकोशल नाम
॥ सुंदर मंदिर मंदरगिरिसम, सोहे धवलित धाम ॥ अतिधनवंत महंत
गुणाकर, रत्नाकर इति नाम ॥ विवसे विकसे संपद सुखशुं, जिम माधव
आराम ॥ १ ॥ देशविदेशें नयरें निवसइ, विविध रयणनी जाति ॥ दाय
उपाय करी ते मेली, जिम जलनिधि जल जाति ॥ राज परिदानी गिरि
परें मानी, वेटा महोटा तास ॥ एक दिन कुलधज कोटिध्वज घर, देखे
केतुविलास ॥ २ ॥ अंगज त्यारे एम विचारे, नहि सारे अम तात ॥ निर्धन
सयणतणी परि रयणें, नोहे धनविख्यात ॥ अंतर्वाणीनी जिम वाणी, न
वि जाणीजें केण ॥ केवल घटदीपकपरि निःफल, बहुपरि रयण धणेण
॥ ३ ॥ इम चिंतवतां तात तेहनो, धन मेलणने काज लोजाच्यंतर दूर
देशांतर, चढियो चतुर ऊहाज ॥ उहूंखल तस पाठल अंगज, वेचे रयणां
मूले ॥ उंठे अधिके दशदिशि वेस्था, जिमवातूली तूले ॥ ४ ॥ रयणराशि
लोपी आरोपी, धज पल्लव निज वास ॥ कोटिध्वज निज नाम धरावी,
पूरी निजमन आस ॥ वात सुणीने तात पधास्यो, वास्या अंगज तेह ॥
धजपट घर घट ऊपर देखी, चटपटि लागी देह ॥ ५ ॥ रे अज्ञानी वावा
व्याला, परनाला अविनीत ॥ धन तरुकंद कुदाला हावा, विणसाडथुं घर
सूत ॥ इणीपरें हांकी वाहिर काढ्या, अंगज ग्रही ग्रही वांहि ॥ रयण
राशि दिशि दिशिथी आणो, तो आवो घरमांहि ॥ ६ ॥ निज वांके ते रंक
तणी परें, पुहवीमंफल फिरतां ॥ कुटिलसुजावें रयण अजावें, बहु दुख

ने अनुसरता ॥ यद्यपि देव प्रजावें रयणां, सयल ग्रही ग्रही आवे ॥ पण
नय कहे धर्मविना नरत्नव ए, हाख्यो वलीय न पावे ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥ ॥ हवे एनो उपनय कहुं, सुणजो सहु नविलोक ॥ मा
नव नव महोटो अठे, जिम सोवनधन रोक ॥ १ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ वात म काढो हो व्रततणी ॥ ए देशी ॥ सुविहित हित कर जंतुने,
मारगने अनुसारी रे ॥ ते गुरुव्यवहारी समो, आगम रयण जंकारी रे
॥ १ ॥ सोजागी जन सांजलो ॥ पंचप्रकारें जाणीयें, अंगज परि तस शि
ष्या रे ॥ धज परिजन पूजा लही, पामे परिगल जिख्या रे ॥ २ ॥ सोण ॥ आ
गम रयणां वेंचियां, पेटजराइ मूले रे ॥ उंचे पद चढ्या लोकमां, कोटि
ध्वज नामें चूले रे ॥ ३ ॥ सोण ॥ तातें तेह कुशिष्य ते, दुर्विनाचना ठाक्या
रे ॥ परंपर घरथी काढिया, हाथें ग्रहीने हांक्यारे ॥ ४ ॥ सोण ॥ रंकपरें
निज वांकथी, रुले चजगति संसारे रे ॥ ते पाठा नावी शके, परंपरा घर
वारें रे ॥ आगमरयण ग्रही सारें रे ॥ ५ ॥ सोण ॥ एम हाख्यो नरत्नव
वली, दुष्करपणे ते लहियें रे ॥ धीर विमल कविराजने, नयसीसे एम
कहियें रे ॥ ६ ॥ सोण ॥ सर्व गाथा ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ ॥ श्री आवश्यक चूर्णिने, अनुसारें कह्यो एह ॥ पण उ
पदेश पदें कह्यो, अन्य सरूपें एह ॥ १ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ नमो नमो मनक महामुनि ॥ ए देशी ॥ तामलित्ति नगरें वसे, सा
गरदत्त इति सेठ रे ॥ रयण राशि करी एकठो, लडि करे जसवेठ रे ॥ १ ॥
मानव नव मीठो लही, मूरख महियां महारो रे ॥ महोटो महिमा एह
नो, मुगतितणो संचकारो रे ॥ माण ॥ २ ॥ प्रवहण पूरी एकदा, रयण
द्वीपें ते जाय रे ॥ प्रवहण रयणें नरी फरी, आवे जलनिधिमांय रे ॥ माण
॥ ३ ॥ प्रवहण जांगुं तेहनुं, रयण गयां विरलाइ रे ॥ फलग लही घर
आवीयो, हियडे दुःख न समाइ रे ॥ माण ॥ ४ ॥ रयणराशि तेणे शेठिए,
ते जेम दोहिलो लहियें रे ॥ तेणीपरें नरत्नव हारियो, दोहिलो वली व
ली कहियें रे ॥ माण ॥ ५ ॥ जीव संसारी शेठियो, सुगुरु सुधर्मने नेकरे ॥ स
मकित गुणवर रयणडें, पूखुं पोत विवेक रे ॥ माण ॥ ६ ॥ संयम मारग

रुयडो, रयणद्वीप समानो रे ॥ अनुक्रमे अनुसरीने थयो, आगम रयण
निधानो रे ॥ मा० ॥ ७ ॥ विकथा उत्सूत्र वायथी, हास्यो रयणनी राशि
रे ॥ आस्ता प्रवहण जांजियुं, थयो चउगति वासी रे ॥ मा० ॥ ८ ॥ पंच
म रयणतणो कह्यो, नरजवनो दृष्टांत रे ॥ धीरविमल गुरु सानिधे, कवि
नय कहे गुणवंत रे ॥ मा० ॥ ९ ॥ सर्वगाथा ॥ १७ ॥ इति नरजव दृष्टांता
धिकारे रत्नराशिनामा पंचम दृष्टांत सध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

॥ अथ स्वप्ननामा षष्ठदृष्टांताधिकार स्वाध्याय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥

॥ समकित त्रिण जवमां फस्यो, काल अनंता जंत ॥ पंचप्रमादवलें
करी, आठे कर्म महंत ॥ १ ॥ नर जव सुणवुं श्रुततणुं, सहहणा तिम चं
ग ॥ वल करवुं धमें वली, ए चारे परमंग ॥ २ ॥ चंद्रपान सुहणा तणो,
ए ठठो संबंध ॥ कहुं श्रीगुरु सानिधियकी, मूलदेव परबंध ॥ ३ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ सारद बुद्धिदायी ॥ ए देशी ॥ पारुलिपुर नयरी, वयरी सवि वश
कीध ॥ शंखोजल गुणधर, नरपति शंख प्रसीध ॥ जयसिरि तस राणी,
रुपें जित इंद्राणी ॥ तससुत अतिसुंदर, मूलदेव गुणखाणी ॥ त्रुटक ॥ गु
णखाणी जूवट विन्नाणी, असत्य तणी सहनाणी ॥ जिहां जेवुं तिहां तेवुं
दीसे, जिम जलधरनुं पाणी ॥ जूवट दहवट करवा हेते, तातें दूर करी
तो ॥ बहु धनवंती स्वर्गहसंती, नयरी अवंती पहोतो ॥ १ ॥ ढाल ॥ गु
टिकाने कपटें, ते थयो वामनरूपी ॥ गणिकामां माणिक, देवदत्त गुणकू
पी ॥ अति जीणा वीणा, वाहे तिम वली गाय ॥ गणिका तस गुणथी,
तिम अनुरागिणी थाय ॥ त्रुटक ॥ थाइ अनुरागी चावठ चांगी, वणिकमां
सौजागी ॥ अचलनाम गाथापति धनपति, आव्यो तिहां वडजागी ॥ दान
मान सतकारी सारी, गणिकाधर ते विलसे ॥ पण वामन देखी गणिकानुं,
अंतर हियडुं हीसे ॥ २ ॥ ढाल ॥ अक्का कहे गणिका, सुण तुं निश्चल चित्त ॥
जज अचल धनीने, तज वामन निर्वित्त ॥ तव बोली गणिका, वामनकामन
रूप ॥ ए अचल अचल परे, निर्गुण पठर रूप ॥ त्रुटक ॥ पठर रूपी अति
अविवेकी, ए माहारे मन नावे ॥ शेलडीनो दृष्टांत देखाडी, अकाने सम
जावे ॥ अक्का ढकानीपरें लागी, मूलदेवने नामा ॥ अनुचित स्थानक जाणी

चाव्यो, उदेशी कोइ गाम ॥ ३ ॥ ढाल ॥ बेना तटवाटें, मलीयो वंजण
 एक ॥ तेह साथें चाव्यो, विणसंबल सुविवेक ॥ उदरंजरि वंजण, जोजन
 करवा काज ॥ सरपालें बेठो, काढी साथुअ साज ॥ त्रुटक ॥ साथु साजें
 निर्लजने वंजण, कुंवरने नवि संजलावे ॥ निर्घृण शर्म निज नाम यथार
 थ, लोकें कीधुं पावे ॥ एणीपरें त्रण दिवसनो झूख्यो, अटवीथी जतरियो
 ॥ मूलदेव जोजनने हेतें, वसतीमां संचरियो ॥ ४ ॥ ढाल ॥ वाटे एक गामें,
 कोइ कुलपतिने धामे ॥ जोजनने कामें, बेठो करी विश्राम ॥ मनमांहे चिं
 ते, संत होये जो कोय ॥ जइ तेहने घाचुं, उदरपूर्ति जिम होय ॥ त्रुटका ॥
 उदरपूर्ति करवाने काजें, एकघरें फरता दीठा ॥ अडद बाकुळा जिहुकनी
 परें, मोदकथी पण मीठा ॥ ह्रुधित थकोपण निश्चलचित्ते, बाकुल लेइ
 वलीयो ॥ निर्मलनीर सरोवर तीरें, बेठो पुण्यें वलीयो ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ चतुरसनेही मोहना ॥ ए देशी ॥ मूलदेव मन चिंतवे, ए कुलमाप
 में पाया रे ॥ लाख पसायतणी परें, मोदकथी सुखदाया रे ॥ मू० ॥ १ ॥
 किहां मुज राज्य पितातणुं, किहां उज्जेणि विलासो रे ॥ किहां ए जिख
 कुलगामनी, ए सवि कर्मविलासो रे ॥ मू० ॥ २ ॥ एक दिवस पण ते
 हतो, देतो बहुने अठो रे ॥ एक दिवस पण एह ठें, उदर जण असम
 ठो रे ॥ मू० ॥ ३ ॥ अष्टम अंते पामीया, रंक परें केम खाउं रे ॥ जिहू
 कने आपी जखुं, जेहवुं तेहवुं खाउं रे ॥ मू० ॥ ४ ॥ एहवुं जाग्य किहां
 थकी, साधु सुपात्र लहीजें रे ॥ आ अवरसर नहिं तेहवो, तो पण देइ ज
 मीजें रे ॥ मू० ॥ ५ ॥ एम चिंतवतां पुण्यथी, मासोपवासी मुण्णिदो रे ॥
 पुण्य पुंज आयो तिहां, मलपतौ जाणे गयंदो रे ॥ मू० ॥ ६ ॥ अज ठामें
 गज मुज मळ्यो, पत्तर ठामें रयणां रे ॥ जल ठामें अमृत मित्युं, एम उच्चर
 तो वयणां रे ॥ मू० ॥ ७ ॥ राज्य रोरसुत रिंजियो, जडश्रुत अंध जिम
 निरखे रे ॥ मूंगो वचन लही यथा, तेणीपरें मनमां हरखे रे ॥ मू० ॥ ८ ॥
 तुम सरखी जिह्वा नथी, पण मुज जाव अपारो रे ॥ ग्रहो कृपा करो अनु
 ग्रह करी, मुज गरिव निस्तारो रे ॥ मू० ॥ ९ ॥ डुरित समुद्रने तारवा,
 पात्रपोत तेणें धरीयो रे ॥ अनाकुलमने बाकुला, देतां चित्तहुं ठरियुं रे ॥
 मू० ॥ १० ॥ सुरवाणी आकाशथी, थइ तस पुण्यनी साखी रे ॥ जे याचे

रूयडो, रयणद्वीप समानो रे ॥ अनुक्रमे अनुसरिने थयो, आगम रयण
निधानो रे ॥ मा० ॥ ७ ॥ विकथा उत्सूत्र वायथी, हास्यो रयणनी राशि
रे ॥ आस्ता प्रवहण चांजियुं, थयो चउगति वासी रे ॥ मा० ॥ ८ ॥ पंच
म रयणतणो कस्यो, नरजवनो दृष्टांत रे ॥ धीरविमल गुरु सानिधे, कवि
नय कहे गुणवंत रे ॥ मा० ॥ ९ ॥ सर्वगाथा ॥ १७ ॥ इति नरजव दृष्टांता
धिकारे रत्नराशिनामा पंचम दृष्टांत सव्याय समाप्त ॥ ५ ॥

॥ अथ स्वप्ननामा षष्ठदृष्टांताधिकार स्वाध्याय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥

॥ समकित विण जवमां फस्यो, काल अनंता जंत ॥ पंचप्रमादबलें
करी, आठे कर्म महंत ॥ १ ॥ नर जव सुणवुं श्रुततणुं, सहहणा तिम चं
ग ॥ बल करवुं धर्मे वली, ए चारे परमंग ॥ २ ॥ चंद्रपान सुहणा तणो,
ए ठठो संबंध ॥ कहुं श्रीगुरु सानिधिचकी, मूलदेव परबंध ॥ ३ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ सारद बुद्धिदायी ॥ ए देशी ॥ पारुलिपुर नयरी, वयरी सवि वश
कीध ॥ शंखोजल गुणधर, नरपति शंख प्रसीध ॥ जयसिरि तस राणी,
रूपें जित इंद्राणी ॥ तससुत अतिसुंदर, मूलदेव गुणखाणी ॥ त्रुटक ॥ गु
णखाणी जूवट विनाणी, असत्य तणी सहनाणी ॥ जिहां जेवुं तिहां तेवुं
दीसे, जिम जलधरनुं पाणी ॥ जूवट दहवट करवा हेते, तातें डूर करी
तो ॥ बहु धनवंती स्वर्गहसंती, नयरी अवंती पढोतो ॥ १ ॥ ढाल ॥ गु
टिकाने कपटें, ते थयो वामनरूपी ॥ गणिकामां माणिक, देवदत्त गुणकू
पी ॥ अति जीणा वीणा, वाहे तिम वली गाय ॥ गणिका तस गुणथी,
तिम अनुरागिणी थाय ॥ त्रुटक ॥ थाइ अनुरागी जावठ चांगी, वणिकमां
सौजागी ॥ अचलनाम गाथापति धनपति, आव्यो तिहां वडजागी ॥ दान
मान सतकारी सारी, गणिकाधर ते विलसे ॥ पण वामन देखी गणिकानुं,
अंतर हियडुं हीसे ॥ २ ॥ ढाल ॥ अक्का कहे गणिका, सुण तुं निश्चल चित्त ॥
जज अचल धनीने, तज वामन निर्वित्त ॥ तव बोली गणिका, वामनकामन
रूप ॥ ए अचल अचल परे, निर्गुण पठर रूप ॥ त्रुटक ॥ पठररूपी अति
अविवेकी, ए माहारे मन नावे ॥ शेलडीनो दृष्टांत देखाडी, अक्काने सम
जावे ॥ अक्का ढक्कानीपरें लागी, मूलदेवने नाम ॥ अनुचित स्थानक जाणी

चाढ्यो, उद्देशी कोइ गाम ॥ ३ ॥ ढाल ॥ बेना तटवाटें, मलीयो वंजण
 एक ॥ तेह साथें चाढ्यो, विणसंबल सुविवेक ॥ उदरंजरि वंजण, जोजन
 करवा काज ॥ सरपालें बेगो, काढी साथुअ साज ॥ त्रुटक ॥ साथु साजें
 निर्लजने वंजण, कुंवरने नवि संजलावे ॥ निर्घृण शर्म निज नाम यथार
 थ, लोकें कीधुं पावे ॥ एणीपरें त्रण दिवसनो चूख्यो, अटवीथी जतरियो
 ॥ मूलदेव जोजनने हेतें, वसतीमां संचरियो ॥ ४ ॥ ढाल ॥ वाटे एक गामें,
 कोइ कुलपतिने धामे ॥ जोजनने कामें, बेगो करी विश्राम ॥ मनमांहे चिं
 ते, संत होये जो कोय ॥ जइ तेहने याचुं, उदरपूर्ति जिम होय ॥ त्रुटका
 उदरपूर्ति करवाने काजें, एकघरें फरता दीठा ॥ अडद वाकुला जिह्नुकनी
 परें, मोदकथी पण मीठा ॥ क्रुधित थकोपण निश्चलचित्ते, वाकुल लेइ
 वलीयो ॥ निर्मलनीर सरोवर तीरें, बेगो पुण्यें वलीयो ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ चतुरसनेही मोहना ॥ ए देशी ॥ मूलदेव मन चिंतवे, ए कुलमाप
 में पाया रे ॥ लाख पसायतणी परें, मोदकथी सुखदाया रे ॥ मू० ॥ १ ॥
 किहां मुज राज्य पितातणुं, किहां उज्जेणि विलासो रे ॥ किहां ए जिख
 कुलगामनी, ए सवि कर्मविलासो रे ॥ मू० ॥ २ ॥ एक दिवस पण ते
 हतो, देतो बहुने अठो रे ॥ एक दिवस पण एह ठें, उदर जण असम
 ठो रे ॥ मू० ॥ ३ ॥ अछम अंते पामीया, रंक परें केम खाजं रे ॥ जिह्नु
 कने आपी जखुं, जेहवुं तेहवुं खाजं रे ॥ मू० ॥ ४ ॥ एहवुं जाग्य किहां
 थकी, साथु सुपात्र लहीजें रे ॥ आ अवसर नहिं तेहवो, तो पण देइ ज
 मीजें रे ॥ मू० ॥ ५ ॥ एम चिंतवतां पुण्यथी, मासोपवासी मुणिंदो रे ॥
 पुण्य पुंज आयो तिहां, मलपतौ जाणे गयंदो रे ॥ मू० ॥ ६ ॥ अज ठामें
 गज मुज मळ्यो, पत्तर ठामें रयणां रे ॥ जल ठामें अमृत मिट्युं, एम उच्चर
 तो वयणां रे ॥ मू० ॥ ७ ॥ राज्य रोरसुत रिंजियो, जडश्रुत अंध जिम
 निरखे रे ॥ मूंगो वचन लही यथा, तेणीपरें मनमां हरखे रे ॥ मू० ॥ ८ ॥
 तुम सरखी जिहा नथी, पण मुज जाव अपारो रे ॥ ग्रहो कृपा करो अनु
 ग्रह करी, मुज गरिब निस्तारो रे ॥ मू० ॥ ९ ॥ डुरित समुद्रने तारवा,
 पात्रपोत तेणें धरीयो रे ॥ अनाकुलमने वाकुला, देतां चित्तडुं ठरियुं रे ॥
 मू० ॥ १० ॥ सुरवाणी आकाशथी, थइ तस पुण्यनी साखी रे ॥ जे याचे

ते ताहरे, दिउं तुऊने हित दाखी रे ॥ मू० ॥ ११ ॥ राज्य दियो मुऊने
 तुम्हें, देवदत्ता सुखजोगरे ॥ हाथी सहसतणुं जहुं, सुमतितणो संयोग रे
 ॥ मू० ॥ १२ ॥ आजथकी दिन सातमे, आइश तुं जूपाल रे ॥ एम निसु
 णि हर्षे जख्यो, आयो पंथी साखें रे ॥ मू० ॥ १३ ॥ निजमुखमांहे पेस
 तुं, चंद्रमंरुल तिहां दीतुं रे ॥ रात्रि घडी दोय पाठली, अमृतथी पण
 मीतुं रे ॥ मू० ॥ १४ ॥ कोइक तिहां सूतो कापडी, दीतुं खम तिणें विह
 सी रे ॥ अर्थ करे ते माहोमां, गुडयुत मंरुक लहसी रे ॥ मू० ॥ १५ ॥
 श्रीफल कुसुम ग्रही करें, स्वप्नजाण घर आवे रे ॥ ए सुपने तुं आजथी,
 सातमे दिन राज्य पावे रे ॥ मू० ॥ १६ ॥ देव वाणी सुहणे मिल्ही, चंप
 क तरुतल सूतो रे ॥ इण समयें तिण पुरनो धणी, अपुत्रियो गति पहो
 तो रे ॥ मू० ॥ १७ ॥ पंच दिव्य शणगारियां, पुर बाहेर ते आवे रे ॥
 कलश ढाळ्यो शिरऊपरें, राज तेज तिहां पावे रे ॥ मू० ॥ १८ ॥ देवदत्ता
 आवी मली, गज रथ तुरग अपारो रे ॥ वासव परें वसुधापति, पाले
 राज उदारो रे ॥ मू० ॥ १९ ॥ राज्य सुणी मूलदेवनुं, चिते इम मनमां
 बडुवो रे ॥ एके सुपन विचारणा, फेर किस्यो ए पडियो रे ॥ मू० ॥ २० ॥
 सुपनुं लहेवा कापडी, मोहोहुं मांमी सूवे रे ॥ सुपन ठामें वागुल तणी,
 वीठ पडे मुख धोवे रे ॥ मू० ॥ २१ ॥ कापडी फरीने नवि लहे, सुहणुं
 जड जिम वाणी रे ॥ तेणी परें नरजव दारीयो, न लहे पुनरपि प्राणी रे
 ॥ मू० ॥ २२ ॥ ए लवलेश थकी कखो, मूलदेव अवदातो रे ॥ धीरविम
 ल कविराजनो, शिष्य कहे ए वातो रे ॥ मू० ॥ २३ ॥

॥ दोहा ॥ हवे एहनो उपनय कहुं, सुणि गुरुमुखथी आज ॥ ते चि
 त्तमां श्रवधारतां, सीजे सघलां काज ॥ १ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ करेलडां घडदे रे ॥ ए देशी ॥ मूलदेवसम जाणियें, जीव संसार
 सार ॥ नवनव वेशें मठ परें, जमतो इण संसार ॥ जविकजन सुणिले रे ॥
 समजि समजि घटमांहि, जविक जन सुणले रे ॥ धरीयें समचित्त चाहिं
 ॥ ज० ॥ १ ॥ काळ्यो कर्मनृपें तिहां, तिरि नयरीथी जाणि ॥ व्यसनमिथ्यात्व
 निवारणा, करवा गुणनी खाणि ॥ ज० ॥ २ ॥ नरगति उज्जेणी समी, मलि
 यो जइ तेहमांहि ॥ शुजरुचि वारवधू मली, पूरण प्रेम उछाहिं ॥ ज० ॥ ३ ॥

अरुचि अक्कायें काढीयो, ते प्राणीनें जोर ॥ चंद्र पान सम पामीयो, शु-
 रू समकित चित्त ठोर ॥ ज० ॥ ४ ॥ पंचदिव्यसम चारित्र, तेहथ्री सीधां
 काज ॥ पामे अनुपम जीवडा, मुगतिपुरीतुं राज ॥ ज० ॥ ५ ॥ कपटी
 प्राणी कापडी, सुहणासम समकित ॥ पेट जराइ कारणें, खोहे ते अप
 वित्त ॥ ज० ॥ ६ ॥ एम नरजव समकित तिणे, हास्यो फरि न लहंत ॥
 चंद्रपान सुहणा समो, न लहे तेह अत्यंत ॥ ज० ॥ ७ ॥ उठा सुपन तणो
 कस्यो, ए उपनय लवलेश ॥ धीरविमल कवि नय कहे, एम कस्यो उप-
 देश ॥ ज० ॥ ८ ॥ मूलदेव नरपति तणो, मोहोटो ठे संबंध ॥ स्वप्न कार्य
 जणी आणियो, नरजव समकित खंध ॥ ज० ॥ ९ ॥ सर्वगाथा ॥ ४१ ॥

॥ इति नरजव दशदृष्टांताधिकारे सुपननामा षष्ठदृष्टांतः समाप्तः ॥

॥ अथ चक्रनामा सप्तमदृष्टांताधिकारः स्वाध्याय प्रारज्यते ॥

॥ दोहा ॥ जिनचक्री हरि प्रतिहरि, चारणमुनि वलदेव ॥ विद्याधर व
 ली पूर्वधर, तिम गणधर जिनदेव ॥ १ ॥ रुद्रिवंत ए नर कस्यो, सूत्रमांहि गुण
 गेह ॥ नरजव विणुं ए नवि हुवे, तिणे करी उत्तम एह ॥ २ ॥ राधावेधतणो
 कहुं, सुणतां अधिक अणंद ॥ चक्रनाम ए सातमो, ए दृष्टांत अमंद ॥ ३ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ पुत्र तुमारा राणी देवकी ॥ ए देशी ॥ इंद्रपुरीथी अधिक विराजे,
 इंद्र पुराजिध नयरी ॥ घर घर ईसर गुरुजन बुधजन, घर घर सोहे गोरी ॥
 रूढे रंगें रे नरजव सुरतरु सारिखो, परखो हृदय मजार ॥ रू० ॥ इंद्र त
 णे अनुहार ॥ रू० ॥ समकित जस सणगार ॥ रू० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
 इंद्रदत्त नूपाल विराजे, इंद्रतणी परें फावे ॥ श्याम खडगवल्ली पण तेहनी,
 निर्मल जस प्रगटावे ॥ रू० ॥ २ ॥ जिन्न जिन्न जननीना जाया, तेहने
 सुत बावीसा ॥ कलाचार्यपासें जणवाने, मूक्या ते सुजगीसा ॥ रू० ॥ ३ ॥
 एक दिन सचिव सुबुद्धि घरऊपर, सुमति सुता खेळंती ॥ ते निरखी नर
 पति मन हरख्यो, ए कन्या गुणवंती ॥ रू० ॥ ४ ॥ नरपति मोह्यो तेहने
 रूपें, ते कन्याने परणी ॥ रागवंत नरपति ते विलसे, जिम पूरव दिशि त
 रणी ॥ रू० ॥ ५ ॥ शीप ग्रहे जिम मुक्ताफलने, तिम सा गर्ज धरती ॥
 जिम आलसु विद्या विसारे, तिम सा नृपगुणवंती ॥ रू० ॥ ६ ॥ संघ्यावाद
 ल परें निजपतिनो, राग लही परधानें ॥ निजपुत्री निजगेहें तेडी, देइ

निज बहुमानें ॥ १० ॥ ११ ॥ शुद्धदिवसें सुंदर सुत जायो, सुरेंद्रदत्त अजि
 धाने ॥ मुद्रालंकृत प्रेम धरीने, राखे जेम निधाने ॥ १० ॥ १२ ॥ अग्नि
 पर्वत बहली सागर, दासेरा नृपनंद ॥ सुरेंद्रदत्त साथे ते जणवा, बेग
 अति आणंद ॥ १० ॥ १३ ॥ मांहेमांहे जणे ते पंचे, पण दीसे बहुजेद ॥
 एक नीक जल पाया तो पण, करीर कदपतरु कंद ॥ १० ॥ १४ ॥ जिम
 कायर रण अंगण नासे, तिम विद्यार्थी जागा ॥ ते दासेरा सुत बावीसा,
 विषय प्रसंगें लागा ॥ १० ॥ १५ ॥ अस्कर पाखर योग्य नहिं ए, खड्गदी
 परमादी ॥ कलाचार्य पण एम ऊवेखे, जिम दुष्ट तुरंगने सादी ॥ १० ॥
 १६ ॥ सुमतिपुत्र एकतान थडने, सकल कलाने शीखे ॥ राधावेधादिक
 जे दुर्धर, ते पण न गणे लेखे ॥ १० ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ ॥ इण अवसर मथुरापुरी, तस जितशत्रु जूप ॥ निवृत्ति
 नामे रूअडी, कन्यारत्न अनूप ॥ १ ॥ प्रकटीत यौवन देखिने, पूढे नृप
 तस तात ॥ वसे वर कुण तुज मनें, ते कहियें अवदात ॥ २ ॥ साधे
 राधावेध जे, ते माहारे जरतार ॥ इम निसुणी मंकावियो, स्वयंवर मंरुप
 सार ॥ ३ ॥ आख्या देशाधिप घणा, पण न धरे सा राग ॥ जिम जमरी
 धनूरने, कुसुमित बंधे राग ॥ ४ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ देशी यत्तनी ॥ इंद्रदत्त नरेसर आवे, सघला सुत साथे लावे ॥
 वली साधे सवि वप्र सीधो, पेसारो सबलो कीधो ॥ १ ॥ स्वयंवर मंरुप
 मांहे आवे, कन्या देखी सुख पावे ॥ धन धन मुज पुत्र सोजागी, जेहने
 ए कन्या रागी ॥ २ ॥ तिहां रोप्यो अंज उतंग, जाणे मेरु महीधर शृंग
 ॥ आठ चक्र ते ऊपर विवरलां, चार अवलां ने चार सवलां ॥ ३ ॥ वायु
 वेगनीपरें जमंत, विज्ञानी एम रवंत ॥ तस ऊपर पूतली एक, तस
 राधा नाम विवेक ॥ ४ ॥ नीचुं एक तेलनुं कूंरुं, तेलें जरीयुं अति उंरुं
 ॥ प्रतिविधें पूतली जेह, राबी आंखे वींधे तेह ॥ ५ ॥ नीचें मुखें वींधे
 कीकी, तस विद्या कहियें नीकी ॥ एम राधावेध करेइ, ते कन्याने परणे
 इ ॥ ६ ॥ एम निसुणी राजा चिंते, ऐ ऐ ए कार्य महंते ॥ श्रीमाली प्र
 थम बोलायो, जेहने घणे हवें लढायो ॥ ७ ॥ सुण पुत्र अठे लाजदोइ,
 इहां कन्या इहां यश होइ ॥ तुं पहेलो आ हवे वहेलो, आयो लाज ठां

के ते गहेलो ॥ ७ ॥ आयो पण पातुं ताके, बाण नाख्यो फीटें वांके ॥
 राधाथी बाणज टलियो, बुंव पाडी पाठो वलियो ॥ ८ ॥ बीजो आयो
 सुजगीस, नवि पोहोती तास जगीस ॥ एम आयो त्रीजो चोथो, शर
 नाखे जरीय अबोध्यो ॥ १० ॥ एम आया सुत वावीस, निजजुज प्रतें कर
 ता रीस ॥ तिहां केइ तालोटा वाय, हांसुं मुखमां न समाय ॥ ११ ॥ को
 लाहल जाजो थाय, बीजा पण नवि संजलाय ॥ मंरुप बाहिर शर जा
 य, जाणे पाशथी हरिण उजाय ॥ १२ ॥ दांते होठ चांपे जोर, केइ पाडे
 मुख बहु शोर ॥ कोइकना हाथज धूजे, कोइकनां शर नवि पूजे ॥ १३ ॥
 जे नृपति हुता सामान्य, तेहने मुख बाध्यो वान ॥ जे वलीयाने वली
 महोटा, तस वदनें ढळ्या जल छोटा ॥ १४ ॥ परमेसर अमने तूगो, इंद्र
 दत्त नृपति थयो जूगो ॥ जो अधिकी काटत रेख, तो फूलत एह विशेष
 ॥ १५ ॥ पासें मंरुप अजुवाळ्यो, जसवाद कुणें नवि वाळ्यो ॥ कोइक आ
 गेंथी थाका, कोइक थया हाका वाका ॥ १६ ॥ बाहिरें दीसे सिंह सरी
 खा, जंबूक सरीखा परिख्या ॥ कन्यापण मनविलखाणी, जुज कर्मतणी
 अहनाणी ॥ १७ ॥ आंव्या तव चार दासेरा, कहे अवसर ठे हवे मेरा
 ॥ एकने तो धूजणी बूटी, बीजानी पण चीज त्रूटी ॥ १८ ॥ एकने चूइ
 लागे चारी, चोथें जोइनासण बारी ॥ इंद्रदत्त नृपति विलखाणो, किहां
 आवी एथ चराणो ॥ १९ ॥ ए सुतथी यशनी हाण, हसतां सहू राजा
 राण ॥ नीचें मुखें धरती ताके, लाजें पेसेवा वांके ॥ २० ॥ सुत न
 होत जो एकज नाम, इण ठाम न जावत माम ॥ जिम थंजा कदलीके
 रा, जला बाहिर जीतर कोरा ॥ २१ ॥ जिम हाख्यो जूथारी शोचे, तिम
 राजा मन आलोचे ॥ एहवे नय सुबुद्धि प्रधान, आवी नृप करे साव
 धान ॥ २२ ॥ सर्वगाथा ॥ ४३ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ सचिव कहे सुण नृपति तुं, म म कर मनविषवाद ॥ पुण्यबलें ठे
 ताहरो, इह निश्चें जयवाद ॥ १ ॥ मुज दोहित्रो गुणनिळो, ताहरो पुत्र
 रतन्न ॥ ते राधावेध साधशे, करशे प्रसन्न वदन्न ॥ २ ॥ सिंह श्वान पटं
 तरो, जाणीजें निरदंज ॥ उं जेदे मृत हाडकां, उं जेदे गजकुंज ॥ ३ ॥ ए
 म निसुणी विस्मय पड्यो, नृपति कहे परधान ॥ मुजने सांजरतो नथी,

जिम अज्ञानी ज्ञान ॥ ४ ॥ लिखित पत्र देखाडियुं, प्रगट्यो अधिक उठा
ह ॥ चिर विदोकित स्वप्न परें, पुत्रीनो वीवाह ॥ ५ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ कडखानी देशी ॥ नृपती आणा लही तेढियो तिहां वही, सुबुद्धि
परधान नृप मान पामी ॥ सार शृंगार वर हार पहिरावीयो, आवीयो
नृपतिपद शीश नामी ॥ १ ॥ जयो कुमर सिरताज महाराज सुत जगज
यो, जे थयो सकल विज्ञान वेदी ॥ सचिव कहे नृपति सुण एह सुत तुम्ह
तणो, अम्ह तणो शीखव्यो बाण जेदी ॥ जणो ॥ २ ॥ हृदय आळिगियो मस्त
कें चुंबियो, थापीयो कुमरने निज उठंगे ॥ एह निर्वृत्तिवरो वंश उज्जल
करो, जय वरो एण ठामे प्रसंगें ॥ जयो ॥ ३ ॥ तातवाणी लही धनुष
शर संग्रही, तिहां वही आवीयो थंन पासे ॥ वंदिया निजकलाचार्य आ
नंदिया, सज्जना बहुजना मन विमासे ॥ जयो ॥ ४ ॥ बंधु बावीस धरी,
रोस मनसां हसे, अमथकी अधिकशुं एह दीसे ॥ चार दासेर दासेरपरें
बुरबरे, हाथ ताळी दीये दांत पीसे ॥ जयो ॥ ५ ॥ विकट दोश सुजट वि
हुं पास ऊना किया, हृदय मडर धरी खड हाथें ॥ बाण शर मूकता जो
विचें चूकता, जालजो एहने जोर बाथें ॥ जयो ॥ ६ ॥ धनुषनी पणठ
पूजी अधूजे मनें, बाण तीखो तस अगनि जोड्यो ॥ तैलप्रतिबिंब अ
विलंब राधा प्रत्ये, बाल ततकाल तिहां बाण ठोड्यो ॥ सकल नरपति
तणो मान मोड्यो ॥ जयो ॥ ७ ॥ वक्र अठ चक्र उल्लंघ्य लघु लाघवी,
कलथकी बाणगति सरल कीधी ॥ जाणीयें सापराधा यथा राधिका, पूत
ली वामदृग तुरत वींधी ॥ जयो ॥ ८ ॥ सयण आवी मिळ्या डुष्ट डूरें ट
दया, कुसुमनी वृष्टिशुं सुर वधावे ॥ निर्वृत्ति बालिका कंठ वरमालिका,
थापती जमर रवि गीत गावे ॥ जयो ॥ ९ ॥ चूप मन हरखीयो सुतरयण
परखीयो, सुबुद्धिने कृद्धि वगसीसदीनी ॥ सुजस जयवाद में पामीयो
नृपतिमां, आज ए सहाय तें सवल कीनी ॥ जयो ॥ १० ॥ एम अनन्यास
वंश साधवो दोहिलो, वेध राधातणो मेरुतोले ॥ हीनपुण्यें तथा नरजवो
दोहिलो, धीर गुरुसीस नय सुकवि बोले ॥ जयो ॥ ११ ॥ सर्व गाथा ॥ ५७ ॥
॥ दोहा ॥ राधावेधतणो कहुं, अंतरगत सुवचार ॥ आवश्यकनी
चूर्णिमां, उपनयनो अधिकार ॥ १ ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ तुज साथे नहिं बोलुं महारा वाहाला, तें मुजने वीसारी जी ॥ ए देशी ॥ कर्मनृपतिने अविरति प्रमुखा, बहुली घरणी दीसे जी ॥ जिन जिन जननीना जाया, परिसह सुत वावीसे जी ॥ दासीसुत वली चार विचारो, विरुआ विषम कषाया जी ॥ राग छेष दोड विकट महाजट, अंग रक्तक पद पाया जी ॥ १ ॥ नरजव सुरतरु सरिखो पामी, महियां मूढ म हारो जी ॥ क्रोध मान मायाने लोचह, चार कषाय विचारो जी ॥ आर्त्तारौद्रदौरध्यान खज कर, धरीने तेहज रहियां जी ॥ नो कषाय तालादिक देवे, व्ययकरणजमहियां जी ॥ २ ॥ जवमंनपमां विविधप्रकारें, जंतु जात तस पद जी ॥ कर्मनृपति अनुजावि कोडक, नय साधन नो दह जी ॥ एकदिन सुबुद्धि सचिवनी तनया, विरतिकनी नृप देखे जी ॥ ते परणीने विद्वसे नृपति, जनम सफल मन लेखे जी ॥ ३ ॥ ठार त्रेहपरें नेह नृपतिनो, देखी जनकने गेह जी ॥ आवी गर्जवती ते तनया, सुत प्रसव्यो गुणगेह जी ॥ संयमनामा सुतनें जनकें, सकल कलाशीखा व्यो जी ॥ अनुक्रमें जिनवर नृपति मोहोटो, स्वयंवर मंकाव्यो जी ॥ ४ ॥ निर्वृतिनाम सुता परणावा, मोहोटो थंज आरोपे जी ॥ शुचसामग्री द्रोणी पासें, विधिमर्याद न लोपे जी ॥ अवलां सवलां चक्र फरे ते, घाति अघा ती कर्मो जी ॥ मोहनीय स्थिति राधा जाणो, वेधे तेहनो मर्मो जी ॥ ५ ॥ ते विद्या साधनने काजें, परिसह अने कषाया जी ॥ आया पण तिहां मान गमाया, कन्या लाज न पाया जी ॥ नरजव समकित संयुत पामी, सर्व विरति अनुसरियें जी ॥ राधावेध कहीजें तेहने, जवजल निधि एम तरी यें जी ॥ ६ ॥ एम निर्वीर महीतल देखी, संयमसुत सावधान जी ॥ सचिव पुत्र विद्यानो आगर, पामी नृपनुं मान जी ॥ ज्ञान कवाण पणठ शुच किरिया, जोडी दरिसण बाण जी ॥ आतमवीर्य तिहां प्रगटावे, राधा वेध सुजाण जी ॥ ७ ॥ घाति कर्मथिति वेध करीने, निवृत्तिकन्या परणे जी ॥ जयजय शब्द थयो जिन शासन, जिनवर नृपति वरणे जी ॥ इण परें रा धावेध तणी परें, दोहिलो नर अवतारो जी ॥ विषय कषाय वशें म मूढा रो, अंतरवेरी वारो जी ॥ ८ ॥ नरजव समकित संयुत पामी, सर्वविरति अनुसरियें जी ॥ राधावेध कहीजे तेहने, जवजलनिधि एम तरियें जी ॥ च

कृतणो दृष्टांत कह्यो ए, शास्त्रतणे अनुसार जी ॥ धीरविमल गुरुराज
पसायें, नयविमल सुखकार जी ॥ ए ॥ सर्वगाथा ६७ ॥ इति नरञ्जव दश
दृष्टांताधिकारे चक्रनामा सप्तम दृष्टांतः स्वाध्याय समाप्तः ॥ ७ ॥

॥ अथ कूर्मनामा अष्टम दृष्टांत स्वाध्याय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ ॥ मानवञ्जव विणु नवि हुवे, समवसरण मंभाण ॥
रूपकश्रेणि परमावधि, तिम मणपञ्जवनाण ॥ १ ॥ तेमाटे उत्तम कह्यो,
चिहुं गतिमांहे एह ॥ पंचम गतिने पामवा, मूलमंत्र वलि जेह ॥ २ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ नायकानी देशी ॥ इवे बोलुं हुं आठमो रे, कष्टपनो दृष्टांत रे ॥
चतुरनर ॥ वीरजिणंद कहे इश्युं रे, गौतमने हितवंत रे ॥ चतु ॥ १ ॥
ञ्जविजन जाव धरी सुणो हो लाल ॥ नीर ञ्जख्यो ड्रह रूअडो रे, अनेक
जोयणने मान रे ॥ च ॥ कहियें नीर खूटे नहिं रे, जिम नाणीनुं नाणरे
॥ च ॥ २ ॥ मीन पाठीन घणा तिहां रे, जलचर जीव अनेक रे
॥ च ॥ जाति घणी जिम नयरमां रे, निवसे तिम अति ठेकरे ॥ च
॥ ३ ॥ पाखरनी परें आचख्यो रे, तस ऊपर सेवाल रे ॥ च ॥ पव
ने पण नवि जेदियें रे, जिम कमलें करवाल रे ॥ च ॥ ४ ॥ ति
हां निवसे एक काठवो रे, जूनो थिर जस आय रे ॥ च ॥ पुत्रादिक परि
वारशुं रे, सुखमांहे दिन जाय रे ॥ च ॥ ५ ॥ वायुवशें तिहां एक
दा रे, विखरीयो सेवाल रे ॥ च ॥ देखे ग्रहगण परवखुं रे, शशधरविं
विशाल रे ॥ च ॥ ६ ॥ हरख्यो हियडे चितवे रे, वस्तु अनोपम एह रे
॥ च ॥ देखाडुं परिवारने रे, एम चिंती गयो तेह रे ॥ च ॥ ७ ॥ तेडी
कुटुंब आवे जिसे रे, ते काठव ततकाल रे ॥ च ॥ पवन ऊकोदयो तेटलें
रे, ऊपरवाद्यो सेवाल रे ॥ च ॥ ८ ॥ ञ्जमी ञ्जमी ड्रह सघलो तिहां रे,
मनमांहे थयो खिन्न रे ॥ च ॥ पण नवि द्वीगो चंद्रमा रे, जिम दुर्गति
सुररत्न रे ॥ च ॥ ९ ॥ वली एहमां कहियेंक काठवो रे, शशी दर्शन ते
लहंत रे ॥ च ॥ मिथ्यावलें तेम हारीयो रे, नरञ्जव फरी न लहंत रे ॥ च
॥ १० ॥ जन्म जरा जलपूरियो रे, ड्रह सम ए संसार रे ॥ च ॥ ति
हां संसारी जीवडो रे, जलचरने अवतार रे ॥ च ॥ ११ ॥ ज्ञान पवनें
नवि जेदियें रे, मिथ्यामत सेवाल रे ॥ च ॥ तिहां काठीव सम जाणीयें

रे, मानवजव सुकुमाल रे ॥ च० ॥ ११ ॥ मोहमिथ्यात्वद्वयें करी रे, दी
गे जिनवर देव रे ॥ च० ॥ अथवा समकित रूअडुं रे, कर्मविवर सवि
शेष रे ॥ च० ॥ १३ ॥ तत्व वस्तु पामी करी रे, दान लह्यो नवि तेण रे
॥ च० ॥ मोह कुटुंब तणे वशें रे, ते करे जवह च्रमेण रे ॥ च० ॥ १४ ॥
जिम चिंतामणि सिंधुमां रे, पडियो नावे हाथ रे ॥ च० ॥ तेम मिथ्यात्वी
ने कह्यो रे, दोहिलो श्रीजगनाथ रे ॥ च० ॥ १५ ॥ श्रीविनयविमल कवि
रावनो रे, धीरविमल कवि ईश रे ॥ च० ॥ एम दृष्टांत कहे जह्यो रे, नय
विमल सुशिष्य रे ॥ च० ॥ १६ ॥ सर्वगाथा १७ ॥ इति नरजव दशदृष्टांता
धिकारे कूर्म नामा अष्टम दृष्टांत सद्याय संपूर्ण ॥ ७ ॥

॥ अथ नवम युगनामा दृष्टांतः प्रारभ्यते ॥

॥ दोहा ॥ ॥ मानवजवमां पामियें, आहारक तनु खास ॥ दाम
सुपात्रें तिम वली, खायक समकित वास ॥ १ ॥ नरजव उत्तम ते जणी,
सविगतिमांहि सार ॥ कहुं युगधूसर म्नेलनो, हवे नवमो अधिकार ॥१॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ राग आशावरी ॥ मित्रपरें आदिंगी रहियो, जंबुदीपने जेहो जी ॥
लाख दोइ जोयण विस्तारें, लवणजलधिजल बेहो जी ॥ १ ॥ पुण्य करो
रे पुण्य करो नर, मानवजव मत हारो जी ॥ सरल स्वजावें समकित पा
मो, सफल करो अवतारो जी ॥१॥ पुण ॥ पंचदशादिक योजनलक्षा, परि
धितणुं तस मान जी ॥ षटशत अधिक सहस एक योजन, तसजल शिख
परिणाम जी ॥ ३ ॥ पुण ॥ चार पाताल कलश ठे तेहमां, सहस जोयण
अवगाहे जी ॥ मनु कमलौघ वधारण कार्जे, जाणे करसणिया जलमांहे
जी ॥ ४ ॥ पुण ॥ मीन अदीन पाठीन घणा तिहां, वदन पसारी रंगें
जी ॥ ऋडे जलनिधि खोले खेले, जिम सुत जनक उठंगे जी ॥५॥ पुण ॥
जेहनी नीरशिखामांहे लीना, अरुणादिक होय शीत जी ॥ जाणे लोक
ने आतपें पीड्या, लाजशकी जयजीत जी ॥ ६ ॥ पुण ॥ दो तिहां अ
मरविनोदि तेहमां, पूरव पश्चिम कूलें जी ॥ युग समेली जुजुइ नाखे, प
वन करी प्रतिकूलें जी ॥ ७ ॥ पुण ॥ धूसर पश्चिमदिशि प्रति डोडे, पूरव
दिशिने समेल जी ॥ जलधिमांहि प्रतिकूल पवनशी, न लहे तेहज मेल
जी ॥ ८ ॥ पुण ॥ नवि रुंधी अचलादिक अंतरें, नसडी नीरप्रवाहें जी

॥ ऊंसर विवरमांहे ते कदाचित्, पेसे समेली उठाहें जी ॥ ए ॥ पु० ॥
 तेम प्रमादबलेंथी हाख्यो, मानवनो अवतार जी ॥ युगसमेली दृष्टांत
 तणीपरें, फरी न लहे सुख कार जी ॥ १० ॥ पु० ॥ जलधिपरें संसार क
 हीजें, शुचसामग्री समेल जी ॥ नरअनुपूर्वी सरली जूसर, वायुप्रमाद
 ककोल जी ॥ ११ ॥ पु० ॥ कर्म विवरसम अमरविनोदी, जोये तेह विनोद
 जी ॥ एम अनंत पुदगल परिवर्तन, करतां पामे खेद जी ॥ १२ ॥ पु० ॥ एम
 उपदेश पदेंथी दाख्यो, आठमो उपनय एह जी ॥ धीरविमल गुरुराज
 पसायें, जांखे नय गुणगेह जी ॥ १३ ॥ पु० ॥ सर्वगाथा ॥ १५ ॥ इति श्री नर
 जव दश दृष्टांताधिकारे युगनामा नवम दृष्टांत सव्वाय समाप्त ॥ ए ॥

॥ अथ दशम परमाणुक दृष्टांत सव्वाय प्रारज्यते ॥

॥ दोहा ॥ सर्वविरति मानव लहे, पामे अवर न कोइ ॥ ते माटे
 उत्तम कह्यो, नरजव आगम जोइ ॥ १ ॥ परमाणुकनो हवे कहुं, ए दशमो
 दृष्टांत ॥ जविजन जाव धरी सुणे, जे गिरुवा गुणवंत ॥ २ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ धर्महिये धरो ॥ ए देशी ॥ शक्ति पोतानी देखवा, कोइक अमरवि
 शेष ॥ कौतकशुं एक थंजनो, करे चूरण सूखम रेखो रे ॥ १ ॥ चेतन
 चेतीयें, धरीयें धर्मनुं ध्यानो रे, आलस परहरी ॥ लहियें जिम जस मा
 नो रे ॥ चे० ॥ ए आंकणी ॥ मेरुशिखर ऊपर जई, सूझ चूरण जेह ॥
 नलिकायंत्र प्रयोगथी, दशदिशि विखरे तेह रे ॥ चे० ॥ २ ॥ वायुवशें प
 रमाणुआ, छीपंतर ते जाय ॥ ते परमाणु फरी मली, कहो किम थंज ते
 थाय रे ॥ चे० ॥ ३ ॥ यद्यपि देवनी सांनिध्यें, ते थांजो वली थाय ॥ पण
 नरजव हाख्यो वली, विणुं पुण्यें न लहाय रे ॥ चे० ॥ ४ ॥ शुद्धधर्म
 थांजो कह्यो, कर्मविवर ते देव ॥ संशयगिरि शिखर ऊपरें, करे विनोद
 स्वयमेव रे ॥ चे० ॥ ५ ॥ शंका नलिकाशुं करी, ते थांजो शत खंन ॥ सूझ
 चूरण दशदिशें, वायुप्रमाद प्रचंन रे ॥ ६ ॥ चे० ॥ एणी परें नरजव
 दोहिलो, दशदृष्टांतें सार ॥ ते पामीने निगमे, विणसमकित निरधारो रे
 ॥ चे० ॥ ७ ॥ कटपतरू ऊखेडीने, वावे ते एरंड ॥ ठोडी संगति सिंहनी,
 सेवे ते फेरंन रे ॥ चे० ॥ ८ ॥ गज वेची खर आदरे, उपल ग्रहे मणि
 ठोडी ॥ अधिर कथीरने संग्रहे, ठोडी कंचन कोडी रे ॥ चे० ॥ ए ॥ ए सं

क्षेपथकी कक्षा, अनुपम दश दृष्टांत ॥ धीरविमल गुरुसानिधे, कवि नय
अति गुणवंत रे ॥ चे० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥ ॥ जे मानवज्ञव पामीने, सेवे विषय प्रमाद ॥ ठंके धर्म
सुहंकरुं, अतिरति ते उनमाद ॥ १ ॥ अमृत फलने बोडीने, जाणे ते खल
खाय ॥ साहेब उपरांतो करी, जीते रांक मनाय ॥ २ ॥

॥ ढाल धीजी ॥

॥ सकल मनोरथ आपे ए ॥ ए देशी ॥ आवश्यकचूर्णे कह्यो, अन्य प्र
कारे ए लह्यो, सह्यो, श्रीसद्गुरुना वयणथी ए ॥ १ ॥ थंज अनेके शोह
ती, शाखा मनडुं मोहती, जेहती, द्रव्य असंख्ये नीपनी ए ॥ २ ॥ को
इक सस्यवशे करी, जलण जील कवलितकरी, विस्तरी, अणुक श्रेणि
पवने करी ए ॥ ३ ॥ इंद्र चंद्र नरपति मली, ते परमाणुक सवि मली, व
ली वली, ते शाखा न करी सके ए ॥ ४ ॥ देवप्रजावे कोइ नर, यद्यपि तेह
शाखा करे, (पण नवि) अनुसरे, नरज्ञव हास्यो वली वली ए ॥ ५ ॥ शुद्ध
धर्मशाखा कही, सदगुणथंजे गहगही, ते दही, विषय कषाय अगति ज
ले ए ॥ ६ ॥ विषय कषाय निवारिये, जिम आत्मने तारिये, नवि हारीये,
दुर्लभ नरज्ञव पामीयो ए ॥ ७ ॥ नरज्ञव एम वखाणीये, दश दृष्टांते जाणी
ये, आणीये, सहहणा साची सदा ए ॥ ८ ॥ पहिलां सिद्धरुपे करी, नर
ज्ञव उपनय सित्तरी, ते खरी, गाथा प्राकृत बंध ठे ए ॥ ९ ॥ तस अनुसा
रे ए कक्षा, उपनय सधला तिहां लह्या, इम कक्षा, जविजनने जणवा ज
णी ए ॥ १० ॥ उत्तराध्ययने दाखीया, अन्यग्रंथ पण साखीया, चांखीया,
नयविमले जलट धरी ए ॥ ११ ॥ सर्वगाथा ॥ १३ ॥ इति नरज्ञव दश
दृष्टांताधिकारे परमाणुकनामा दशम दृष्टांतः स्वाध्याय संपूर्णः ॥ १० ॥

॥ दोहा ॥

॥ इणि परे ज्ञाव करी जणो, ए जविजन सध्याय ॥ अंतर्गत उपनय
लह्यो, जिम समाधि सुख थाय ॥ १ ॥ श्री उपदेशपदे अठे, एहनो बहु
अधिकार ॥ तिम आवश्यक चूर्णिमां, उपनयनो विस्तार ॥ २ ॥ वचन
कक्षा तेहवी नहि, पण उपनय एहमांहि ॥ सज्जन सधला एहने, आद
रशे उभांहि ॥ ३ ॥ एकवीशे ढाले करी, एहनो वांघ्यो बंध ॥ जणसें पं
चासी एहनी, गाथामां कृत बंध ॥ ४ ॥

॥ जूंसर विवरमांहे ते कदाचित्, पेसे समेली उठाहें जी ॥ ए ॥ पु० ॥
 तेम प्रमादबलेंथी हास्यो, मानवनो अवतार जी ॥ युगसमेली दृष्टांत
 तणीपरें, फरी न लहे सुख कार जी ॥ १० ॥ पु० ॥ जलधिपरें संसार क
 हीजें, शुचसामग्री समेल जी ॥ नरअनुपूर्वी सरली जूंसर, वायुप्रमाद
 ककोल जी ॥ ११ ॥ पु० ॥ कर्म विवरसम अमरविनोदी, जोये तेह विनोद
 जी ॥ एम अनंत पुदगल परिवर्तन, करतां पामे खेद जी ॥ १२ ॥ पु० ॥ एम
 उपदेश पदेंथी दाख्यो, आठमो उपनय एह जी ॥ धीरविमल गुरुराज
 पसायें, जांखे नय गुणगेह जी ॥ १३ ॥ पु० ॥ सर्वगाथा ॥ १५ ॥ इति श्री नर
 जव दश दृष्टांताधिकारे युगनामा नवम दृष्टांत सद्यय समाप्त ॥ ए ॥

॥ अथ दशम परमाणुक दृष्टांत सद्यय प्रारज्यते ॥

॥ दोहा ॥ सर्वविरति मानव लहे, पामे अवर न कोइ ॥ ते माटे
 उत्तम कह्यो, नरजव आगम जोइ ॥ १ ॥ परमाणुकनो हवे कहुं, ए दशमो
 दृष्टांत ॥ जविजन जाव धरी सुणे, जे गिरुवा गुणवंत ॥ २ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ धर्महिये धरो ॥ ए देशी ॥ शक्ति पोतानी देखवा, कोइक अमरवि
 शेष ॥ कौतकशुं एक थंजनो, करे चूरण सूखम रेखो रे ॥ १ ॥ चेतन
 चेतीयें, धरीयें धर्मनुं ध्यानो रे, आलस परहरी ॥ लहियें जिम जस मा
 नो रे ॥ चे० ॥ ए आंकणी ॥ मेरुशिखर ऊपर जई, सूक्ष्म चूरण जेह ॥
 नलिकायंत्र प्रयोगथी, दशदिशि विखरे तेह रे ॥ चे० ॥ २ ॥ वायुवर्षे प
 रमाणुआ, छीपंतर ते जाय ॥ ते परमाणु फरी मली, कहो किम थंज ते
 थाय रे ॥ चे० ॥ ३ ॥ यद्यपि देवनी सान्निध्यें, ते थांजो वली थाय ॥ पण
 नरजव हास्यो वली, विणुं पुण्यें न लहाय रे ॥ चे० ॥ ४ ॥ शुद्धधर्म
 थांजो कह्यो, कर्मविवर ते देव ॥ संशयगिरि शिखर ऊपरें, करे विनोद
 स्वयमेव रे ॥ चे० ॥ ५ ॥ शंका नलिकाशुं करी, ते थांजो शत खंरु ॥ सूक्ष्म
 चूरण दशदिशें, वायुप्रमाद प्रचंरु रे ॥ ६ ॥ चे० ॥ एणी परें नरजव
 दोहिलो, दशदृष्टांतें सार ॥ ते पामीने निगमे, विणसमकित निरधारो रे
 ॥ चे० ॥ ७ ॥ कल्पतरू ऊखेडीने, वावे ते एरंड ॥ ठोडी संगति सिंहीनी,
 सेवे ते फेरंरु रे ॥ चे० ॥ ८ ॥ गज वेची खर आदरे, उपल ग्रहे मणि
 ठोडी ॥ अथिर कथीरने संग्रहे, ठोडी कंचन कोडी रे ॥ चे० ॥ ए ॥ ए सं

क्षेपथकी कह्या, अनुपम दश दृष्टांत ॥ धीरविमल गुरुसानिधे, कवि नय
अति गुणवंत रे ॥ चे० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥ ॥ जे मानवज्ञव पामीने, सेवे विषय प्रमाद ॥ ठंके धर्म
सुहंकरुं, अविरति ते उनमाद ॥ १ ॥ अमृत फलने ढोडीने, जाणे ते खल
खाय ॥ साहेब उपरांगे करी, नीते रांक मनाय ॥ २ ॥

॥ ढाल वीजी ॥

॥ सकल मनोरथ आपे ए ॥ ए देशी ॥ आवश्यकचूर्णे कह्यो, अन्य प्र
कारें ए लह्यो, सह्यो, श्रीसद्गुरुना वयणथी ए ॥ १ ॥ थंज अनेकें शोह
ती, शाखा मनडुं मोहती, जेहती, द्रव्य असंख्यें नीपनी ए ॥ २ ॥ को
इक सप्तयवशें करी, जलण जील कवलितकरी, विस्तररी, अणुक श्रेणि
पवने करी ए ॥ ३ ॥ इंद्र चंद्र नरपति मली, ते परमाणुक सवि मली, व
ली वली, ते शाखा न करी सके ए ॥ ४ ॥ देवप्रजावे कोइ नर, यद्यपि तेह
शाखा करे, (पण नवि) अनुसरे, नरज्ञव हाख्यो वली वली ए ॥ ५ ॥ शुद्ध
धर्मशाखा कही, सदगुणथंजे गहगही, ते दही, विषय कषाय अगति ज
ले ए ॥ ६ ॥ विषय कषाय निवारियें, जिम आतमने तारियें, नवि हारीयें,
दुर्लक्ष नरज्ञव पामीयो ए ॥ ७ ॥ नरज्ञव एम वखाणीयें, दश दृष्टांते जाणी
यें, आणीयें, सह्यणा साची सदा ए ॥ ८ ॥ पहिलां सिद्धरुपें करी, नर
ज्ञव उपनय सित्तरी, ते खरी, गाथा प्राकृत बंध ठे ए ॥ ९ ॥ तस अनुसा
रें ए कह्या, उपनय सधला तिहां लह्या, इम कह्या, जविजनने जणवा ज
णी ए ॥ १० ॥ उत्तराध्ययनें दाखीया, अन्यग्रंथ पण साखीया, चांखीया,
नयविमलें जलट धरी ए ॥ ११ ॥ सर्वगाथा ॥ १३ ॥ इति नरज्ञव दश
दृष्टांताधिकारे परमाणुकनामा दशम दृष्टांतः स्वाध्याय संपूर्णः ॥ १० ॥

॥ दोहा ॥

॥ इणि परें जाव करी जणो, ए जविजन सध्याय ॥ अंतर्गत उपनय
लहो, जिम समाधि सुख थाय ॥ १ ॥ श्री उपदेशपदे अठे, एहनो बहु
अधिकार ॥ तिम आवश्यक चूर्णिमां, उपनयनो विस्तार ॥ २ ॥ वचन
कला तेहवी नहि, पण उपनय एहमांहि ॥ सज्जन सधला एहने, आद
रशे उघांहि ॥ ३ ॥ एकवीशे ढाले करी, एहनो बांध्यो बंध ॥ त्रणसें पं
चासी एहनी, गाथामां कृत बंध ॥ ४ ॥

॥ कलश ॥

॥ रामधन्याश्री ॥ शुण्डि शुण्डि रे में राम मुनिसर शुण्डि ॥ ए देशी ॥
 ऋषिधरिं रे ऋषि ए उपनय चित्त धरिं ॥ सुगति संयोग करी निज हा
 थे, सहेजे शिवसुखवरिं रे ॥ १ ॥ ऋ ॥ दुस्तर अपरंपर ऋव जलनिधि,
 मूरतपणे जिम तरिं ॥ ए दृष्टांत सदा जे समरे, तस जस जग विस्तरि
 रें रे ॥ २ ॥ ऋ ॥ ए सद्वाय अनोपम गुणमणि, ऋविजन कंठे करीं ॥
 सरल स्वभाव धरी मन समता, शुद्ध समाकत अनुसरिं रे ॥ ३ ॥ ऋ ॥
 समकितथी जिनमारग पामी, ऋव अटवी नवि फरीं ॥ दुःख दोहग
 जिम दूर करीजे, शिवसुख संपद वरिं रे ॥ ४ ॥ ऋ ॥ तपगढ अंबर
 तरणि समोवड, श्री विजयप्रज्ञ सूरि करीं ॥ जेहनी आण कुसुमची
 माला, शेष परें शिर धरीं रे ॥ ५ ॥ ऋ ॥ जस अजिधान मृगाधिपति
 सुणी, प्रतिवादी गजरुरीं ॥ अहनिश कीर्तिकनी गहपतिनी, त्रिभुवन
 मंरुपे फरिं रे ॥ ६ ॥ ऋ ॥ विद्यागुरु बलि अमृतविमल कवि, मेरुविम
 ल मन धरीं ॥ जसहित शीख सुणीने लोका, ऋविजन हियडे ठरिये रे
 ॥ ७ ॥ ऋ ॥ विनय विमल कविराज शिरोमणि, सुविहित मुनि धुरि धरी
 रें ॥ धीर विमल पंक्ति तस सेवक, जसयश त्रिभुवन ऋरिं रे ॥ ८ ॥
 ॥ ऋ ॥ श्रीनयविमल विबुध तस सेवक, तिणे ए उपनय करीं ॥ ए उ
 पनय ऋणतां ने सुणतां, मंगल कमला वरीं रे ॥ ९ ॥ ऋ ॥ इति नय
 विमल विबुध विरचित नरऋव दशदृष्टांताधिकार सद्वाय समाप्त ॥

॥ अथ समकेतनी चोपाइ ॥

॥ धुर प्रहसुं जिनवर चोवीश, सवि गणधरने नामुं शीश ॥ तेहनां व
 यण सूणे जें कान, मन राखे समकितने ध्यान ॥ १ ॥ साचो देव एक
 वीतराग, धर्म तणो जेणें दाख्यो माग ॥ ते जिनवरनी पाळुं आण, जे
 होये साचा सुगुरु सुजाण ॥ २ ॥ पंच महाव्रत मनमां धरे, राग द्वेष पेहे
 लुं परिहरे ॥ चारित्र पाळे टाळे दोष, लीये आहार थोडे संतोप ॥ ३ ॥
 दोषमांहे जे आधाकर्म, टाळे ते त्रोडे आठ कर्म ॥ आधाकर्म करे नर ना
 र, ते पण घणुंए रुळे संसार ॥ ४ ॥ मूकी देह तणा सुखवास, सहे परी
 सह वारे मास ॥ तपे करिने जेणे जस लाध, बंदनिक ते त्रिभुवन साधा ॥

॥५॥ एक संयमने वीजी कृमा, शत्रु मित्र जेहने वेहु समा ॥ दृष्टिराग
 तरी ऊतरी, ते जाशे जवसायर तरी ॥ ६ ॥ एक आपणुं करी मन ठाम,
 जणे गुणे सिद्धांत प्रमाण ॥ सजुरुनो उपदेश आचार, जोइ समजो
 ह्ये विचार ॥ ७ ॥ एक पहेरे मुनिवरनो वेश, पण साचो न दीये उप
 देश ॥ जेह उहापे जिनवर वयण, तेहने किहां हियांना नयण ॥ ८ ॥
 घर मूकीने थया माहातमा, ममता जइ लागी आतमा ॥ महारुं महारुं
 एम कहे घणुं, तेह मूरख वदनतापणुं ॥९॥ एक तजी दीसे ठे इश्या, लोभे
 शिष्य करे आण कश्या ॥ पंच महाव्रत कहे उचरे, उपशम रस ते कहो
 किम ठरे ॥ १० ॥ आधाकर्मी व्होरे घणो, धर्म विगोत्रे जिनवर तणो ॥ यं
 त्र तंत्र मूली करी करी, चूरण आपे घर घर फरी ॥ ११ ॥ कुगुरु तणा
 जाणी अहि नाण, सेवा न करे जे होये जाण ॥ जिनवाणी सांचदीये
 इसी, सोनुं गुरु वे लीजे कसी ॥ १२ ॥ सोनाथी होय एक जव हाण,
 कुगुरु करे जवजवनी हाण ॥ सोने घाठा पण ते भले, कुगुरु पसार्थे जव
 जव रुले ॥ १३ ॥ सर्प रुसे हुए जवनो अंत, कुगुरु करे संसार अनंत ॥
 एम जाणी वली लीजे साप, कुगुरु नमि नवि बोलिये आप ॥ १४ ॥ एक
 वहे जिनवरनी आण, वैर वहे तिहां एक अजाण ॥ एह आपणा नही गुरु
 एम, बोली लीये वदंतुं तेम ॥१५॥ एक जणे माहारा गुरु देव, में करवी एहि
 जनी सेव ॥ पद्म तणा स्वामीने मान, अवर पद्मने दे अपमान ॥१६॥ एक
 सगा जाणी माहातमा, गुण पाखें तारे आतमा ॥ पात्र जणी पूजे तेहने,
 कहो समकित केम ठे तेहने ॥१७॥ देखी परखी गुरु गुणवंत, आवकने मन
 संयमवंत ॥ एह आपणा नही इम जणे, दान मान सधले अन्नगणे ॥१८॥
 एका ने गणनो अनुराग, पण न लहे साचो जिनमाग ॥ वीर वचन लेइने
 पाधरुं, कुगुरु सुगुरु जोइ आदरुं ॥ १९ ॥ जेहने आगमनुं बहु मान, तेहना
 उघडे एणे कान ॥ ए साधारण गुरुनी वात, जोइने खेजो मुक्ति मात ॥२०॥
 हृदय नयन तमे जूळ सुजाण, ठंमो कुगुरु ए जिन आण ॥ सदगुरु तणा
 चरण आचरो, जेम जवसायरलीकार्ये तरो ॥२१॥ जे जिन आण वहे निश
 दीश, ते ऊपर जे नाणे रीश ॥ नवे तत्व निरता सबहे, सूधुं समकित ठे ते क
 न्हे ॥२२॥ एहवुं समकित सूधुं जाण, धर्मकाजनुं मकरीश काण ॥ जिनवर
 पूजा सजुरु जक्ति, जावें करवी आतम शक्ति ॥२३॥ पडिकमणुंने फासुं नीर,

कीजें धर्म कह्युं जे वीर॥धर्में रुद्धि सिद्धि घर हूंत, धर्में संकट सवि जाजं
 त॥१४॥ धर्में सूर्य निरतो तपे, धर्में पाप करम सवि खपे॥धर्में होये रूपनो
 योग, धर्मपसायें संपत्ति जोग ॥१५॥ जणे गुणे ने बहु तप करे, पण समकित
 सुधुं नादरे॥समकित विण ते सहुए फोक, समकित आदर करवुं रोका॥१६
 ॥ समकित माय बाप संसार, समकितथी सुख संपति सार॥समकित ए
 ह धर्मनुं मूल, समकितथी सहुए अनुकूल ॥१७॥ समकित रुद्धि सिद्धि
 घर घणी, समकित लगें होये सुर धणी ॥ समकित सीजे सधलां काज,
 समकित लगें त्रिभुवननुं राज ॥ १८॥ समकित सहितनुं सुणो प्रमाण,
 कृष्णरायनुं जुळ मंमाण ॥ तपविण श्रेणिक राजहू धणी, लेशे बदवी अ
 रिहंत तणी ॥१९॥ समकित पाले जे नर नार, वली न आवे ते संसार ॥
 धम जाणी समकित आदरो, सिद्धि रमणी जेम लीला करो ॥२०॥ इति॥

॥ अथ श्री सुगुरु पच्चीशी प्रारंभः ॥

॥ सुगुरु पीठाणो एणे आचारें, समकेत जेहनुं शुरू जी ॥ ए आंकणी
 ॥ कहेणी करणी एकज सरखी, अहर्निश धर्म विबुद्ध जी ॥ सु० ॥ १ ॥
 निरतिचार महाव्रत पाले, टाले सधला दोष जी ॥ चास्त्रि शुं लय लीन
 रहे नित्य, चित्तमां सदा संतोष जी ॥ सु० ॥ २ ॥ जीव सहुना जे ठे पी
 यर, पीडे नहीं खटकाय जी ॥ आप वेदन पर वेदन सरखी, नहुणे न
 करे घाय जी ॥ सु० ॥ ३ ॥ मोह कर्मनें जे वश न पडे, नीरागी निरमा
 य जी ॥ जयणा करतो हलुये चाले, पूंजी मूके पाय जी ॥ सु० ॥ ४ ॥
 अरहो परहो दृष्टि न देखे, न करे चालतां वात जी ॥ दूषण रहित सूज
 तो देखे, तो लिये पाणी जात जी ॥ सु० ॥ ५ ॥ चूख तृषा पीड्याडुःख पी
 डे, बूटे जो निज प्राण जी ॥ तोपण अशुद्ध आहार न लेवे, जिनवर आ
 ण प्रमाण जी ॥ सु० ॥ ६ ॥ अरस निरस आहार गवेषे, सरस तणी न
 ही चाह जी ॥ धम करतां जो सरस मले तो, हरख नहीं मनमांह जी ॥
 ॥ सु० ॥ ७ ॥ शीतकालें शीतें तनु सूके, उनाखे रवी ताप जी ॥ विकट
 परीसह घट अहीयासे, नाणे मन संताप जी ॥ सु० ॥ ८ ॥ मारे कूटे करे
 उपद्रव, कोइ कलंक ये शीश जी ॥ कर्म तणा फल जाणी उदीरें, पण
 नाणे मन रीश जी ॥ सु० ॥ ९ ॥ मन वच काया जे नवि दंभे, ठंभे पांच
 प्रमाद जी ॥ पंच प्रमाद संसार वधारे, जाणे ते निःस्वाद जी ॥ सु० ॥

॥ १० ॥ सरख स्वजाव जाव मन रूडो, न करे वाद विवाद जी ॥ चार कषाय करमना कारण, वरजे मद उनमाद जी ॥ सु० ॥ ११ ॥ पापस्थान अढारे वरजे, न करे तास प्रसंग जी ॥ विकथा मुखथी चार निवारे, स मिति गुपतिशुं रंग जी ॥ सु० ॥ १२ ॥ अंग उपांग सिद्धांत वखाणे, ये सूधो उपदेश जी ॥ सूधे मारगे चाले चलावे, पंचाचार विशेष जी ॥ सु० ॥ १३ ॥ दशविध यति धर्म जिन जांख्यो, तेहना धारण हार जी ॥ धरम थकी जे किमहीन चूके, जो होये कोढि प्रकार जी ॥ सु० ॥ १४ ॥ जीव तणी हिंसा जे न करे, न वदे मिरषावाद जी ॥ तृण मात्र अण दीधुं न लीये, सेवे नही अब्रह्म जी ॥ सु० ॥ १५ ॥ नवविध परिग्रह मूल न राखे, निशि जोजन परिहार जी ॥ क्रोध मान मायानें ममता, न करे लोचन ल गारजी ॥ सु० ॥ १६ ॥ ज्योतिष आगम निमित्त न जांखे, न करावे आरंज जी ॥ औषध न करे नाडी न जूवे, सदा रहे निरारंज जी ॥ सु० ॥ १७ ॥ ना किणी शाकिणी चूत न काढे, न करे हलवो हाथ जी ॥ मंत्र यंत्रने रा खडी करी ते, नवी आपे परमार्थ जी ॥ सु० ॥ १८ ॥ विचरे गाम नगर पुर सघले, न रहे एकण ठाम जी ॥ चोमासा ऊपर चौमासुं, न करे एक ण ग्राम जी ॥ सु० ॥ १९ ॥ चाकर नफर पासें नवि राखे, न करावे कोइ का जजी ॥ न्हावण धोवण वेस वनावण, न करे शरीरनी साज जी ॥ सु० ॥ २० ॥ व्याजवटानुं नाम न जाणे, न करे वणज व्यापार जी ॥ धर्म हाट मांन्दीने बेठा, वणज ठे पर उपगार जी ॥ सु० ॥ २१ ॥ ते गुरु तरे अव रांने तारे, सायरसां जिम जिहाज जी ॥ काष्ट प्रसंगें लोह तरे जिम, तेम गुरु संगते पाग्य जी ॥ सु० ॥ २२ ॥ सुगुरु प्रकाशक लोचन सरिखा, ज्ञान तणा दातार जी ॥ सुगुरु दीपक घट अंतर केरा, डूर करे अंधकार जी ॥ सु० ॥ २३ ॥ सुगुरु अमृत सरिखाशीळा, दीये अमरगति वास जी ॥ सुगुरु तणी सेवा नित्य करतां, बूटे करमना पास जी ॥ सु० ॥ २४ ॥ सुगुरु पचीशी श्रवण सुणीने, करजो सुगुरु प्रसंग जी ॥ कहे जिनहरख सुगुरु सुपसायें, ज्ञान हरख उष्टरंग जी ॥ सु० ॥ २५ ॥ इति श्री सुगुरु पचीशी समाप्त ॥

॥ अथ आत्मशिक्षा सधाय ॥ राग रामग्रीमां ॥ सहेजानंदीनी देशी ॥

॥ आत्मरामें रे मुनि रमे, चित्तविचारीने जोय रे ॥ ताहारुं दीसे न कोय रे, सहु स्वार्थी मढ्युं तोय रे, जन्म मरण करे लोय रे, पूठे सवि

मली रोय रे ॥ आ० ॥ १ ॥ सजन वर्ग सवि कारिसुं, कूडो कुटुंब परिवार
रे ॥ कोइ न करे तुज सार रे, धर्म बिण नहीं कोइ आधार रे, जिणें पामे
जव पार रे ॥ आ० ॥ २ ॥ अनंत कखेवर मूकीयां, तें कीयां सगपण अनं
त रे ॥ जव उद्वेगें रे तुं जम्यो, तोही न आव्यो तुज अंत रे ॥ चेतो
हृदयमां संत रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ जोग अनंता तें जोगव्या, देव मणुअ ग
तिमांहे रे ॥ तृप्ति न पाम्यो रे जीवडो, हजी तुज वांठा ठे त्यांहि रे, आ
ण संतोष चित्तमांहि रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ ध्यान करो रे आतम तणुं, परवस्तु
थी चित्त वारी रे ॥ अनादि संबंध तुज को नहीं, शुद्ध निश्चें इम धारी
रे, छणविध निज चित्त ठारी रे, मण्णिचंद्र आतम तारी रे ॥ आ० ॥ ५ ॥

॥ अथ समयसुंदरजीकृत मायानी सद्यय ॥

॥ माया कारमी रे, माया-भकरो चतुर सुजाण ॥ मा० ॥ ए आंकणी ॥
मायार्ये वाह्या जगत विलुद्धा, दुखीया थाये अजाण ॥ मा० ॥ १ ॥ न्हा
ना महोटा नरने माया, नारीने अधिकेरी ॥ बली विशेषें अतिघणी
व्यापे, घरडाने जाजेरी ॥ मा० ॥ २ ॥ योगी जंगम यती संन्यासी, नम्रथइ
परवस्था ॥ उंधे अस्तक अगनी धखंती, मायाथी नवि दरिया ॥ मा०
॥ ३ ॥ माया मेळी करी बहु चेळी, लोत्रे लक्षण जाय रे ॥ चोर करे धर
तीमां घाले, उपर विसहर थाय ॥ मा० ॥ ४ ॥ माया कारण दूरदेशांतर,
अटवी वनमां जाय रे ॥ प्रवहणा वेसी द्वीप द्वीपांतर, सायरमां जंपाय
॥ मा० ॥ ५ ॥ शिवचूति सरिखा सत्यवादी, सरुगोष कहावे ॥ रतन देखी
मन तेहनं चखिउं, मरीने दुर्गति जावे ॥ मा० ॥ ६ ॥ लब्धिदत्त मायार्ये
नडीयो, पडीयो समुद्रभजार रे ॥ मुख माखणीउं यइने मरीयो, पडीयो
नरक डुवार ॥ मा० ॥ ७ ॥ इंद्रेतो सिंहासने थापी, संचूयें माया राखी ॥
नेमीसर तो माया मेळी, मुगतीमां थया साखी ॥ मा० ॥ ८ ॥ मन वचन
कायार्ये माया, महेळी वनमां जाय रे ॥ धन्य धन्य तेह मुनिसर जेहना,
तीन जवन गुणगाय ॥ मा० ॥ ९ ॥ एतुं जाणीने जविप्राणी, माया मूको अल
गी ॥ समयसुंदर कहे सार ठे जगमां, धर्म रंगशुं वलगी ॥ मा० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ अथ शिवविषे सद्यय ॥

॥ रखेकोइ रमणी रागमां, प्राणी मुंजाउं ॥ अथिर ए वाळा ऊपरे, थि
रशाने थाउं ॥ १० ॥ १ ॥ एतो अनरथनुं आश्रम ठे, क्लेशनो ठे कंदो ॥

वैरोदधी पूर वधारवा, चावो पूनमचंदो ॥ २० ॥ १ ॥ कुलटा नारीने का
रणें, केई कुलवंता ॥ आचरण हीणा आचरे, वाहालाशुं वेढंता ॥ २० ॥
३ ॥ डुखनी दरी ए सुंदरी, डुरगतीनी दाता ॥ आगमथी ल्यो उंढखी,
गुण एहना ज्ञाता ॥ २० ॥ ४ ॥ खांरु मीठी करी लेखवे, मलतां मूढ प्राणी ॥
उदयवदे ककूड पढे, जिनमतीयें जाणी ॥ २० ॥ ५ ॥ इति नारी सधाय ॥

॥ अथ मुनिदानविजयजी कृत कर्म उपर सधाय ॥

॥ कपूर होये अति कुजलो रे ॥ ए देशी ॥ सुखदुःख सरज्या पामीयें रे,
सपद होय ॥ लीला देखी परतणी रे, रोप मधरजो कोयरे ॥ प्राणी
मन नाणो विषवाद ॥ एतो कर्मतणा परसाद रे ॥ प्रा० ॥ म० ॥ १ ॥
फखने आहारे जीवीउं रे, धार वरस वन राम ॥ सीता रावण खडू गयो
रे, कर्म तणा ए काम रे ॥ प्रा० ॥ २ ॥ नीरपाखें वन एकलो रे, मरण
पाम्यो मुकुंद ॥ नीच तणे घर जल बह्यो रे, शीसधरी हरिचंद रे ॥ प्रा०
॥ ३ ॥ नले दमयंति परिहरी रे, रात्रि समय वन वाल ॥ नाम ठाम कुल
गोपवी रे, नले निरवाह्यो काल रे ॥ प्रा० ॥ ४ ॥ रूप अधिक जग जाणी
यें रे, चक्री सनतकुमार ॥ वरस सातशें जोगवी रे, वेदना सात प्रकार रे
॥ प्रा० ॥ ५ ॥ रूपें वली सुर सारिखा रे, पांरुव पांच विचार ॥ ते वनवासे
रडवड्या रे ॥ पाम्या दुःख संसार रे ॥ प्रा० ॥ ६ ॥ सुरनर जस सेवा करे
रे, त्रिचुवनपति विख्यात ॥ ते पण कर्म विटंबीया रे, तो माणस केइ मा
त रे ॥ प्रा० ॥ ७ ॥ दोष न दीजें केहने रे, कर्मविटंबण हार ॥ दानमुनि
कहे जीवने रे, धर्म सदा सुखकार रे ॥ प्रा० ॥ ८ ॥ इति कर्मनी सधाय ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलसूरिकृत वणजारांनी सधाय ॥

॥ नरजव नयर सोहामणो वणजारा रे, न्यायें वणज करेय अहो मो
रा नायक रे ॥ जार जरे शुभ वस्तुनो व० ॥ अतिहि अमूलक लेय अ०
॥ १ ॥ सात पांच पोठि जरे व० ॥ संबल लेजो साथ अ० ॥ वहोरत
वारु राखजे व० ॥ शेठसुं सूधो व्यवहार ॥ अ० ॥ २ ॥ सहरो रहेजे सा
थमां व० ॥ वशकरजे चारे चोर अ० ॥ पांच पाडोसी पाडुआ व० ॥
आठे मदको दोर ॥ अ० ॥ ३ ॥ वाट विषम जव पाठले व० ॥ राग द्वेष
दो जील अ० ॥ चोकस चोकी ते करे व० ॥ पामीश अविचल लील अ०

॥ ४ ॥ काया कामिनी इम कहे व० ॥ सुण तुं आतमराम अ० ॥ ज्ञान
विमल नरजव थकी व० ॥ पामीस अविचल ठाम ॥ अ० ॥ ५ ॥

॥ अथ सुमति विलास सद्यय प्रारंज ॥

॥ पडजो कुमातगढना कांगरा, मरजो मोहमहेराण ॥ वाडो माहरो
निजघरें नावीयो, एणे परघर कीधा प्रयाण ॥ वा० ॥ इम कहे सुमती सु
जाण ॥ वा० ॥ १ ॥ दांत पांरूरे डूती तणा, पाडोसणना लडं प्राण ॥ जेणें
महारो जीवन जोखव्यो, लइ नाख्यो नरकनी खाण ॥ वा० ॥ २ ॥ मा
यायें मद पाइने, वास्यो पोताने वास ॥ माहारोने वासो एणें टालियो,
इणे मुज कीधी निरास ॥ वा० ॥ ३ ॥ गुणवंतना गुण गोपवी, निगुणाशुं
मांदि गोठ ॥ आप स्वरूप न जळखे, एतो पापनी चलवे पोठ ॥ वा० ॥ ४
॥ अपूज्य सार्थे धरे आसकी, एतो पूज्यना पूजे पाय ॥ परम महोदय
पामशे, ज्यारें आवशे आपणे ठाय ॥ वा० ॥ ५ ॥ श्रीदादापास पसाउळें,
मेंतो कुमतीनो पाड्यो कोट ॥ घरें आण्यो निज घरधणी, मेंतो शोकनी
चूकवी चोट ॥ वा० ॥ ६ ॥ उदयरतन वाचक वदे, पूजशे जे प्रभुना पाय
॥ ते परमपदें पधारशे, वली संपद लेशे सवाय ॥ वा० ॥ ७ ॥

॥ अथ श्री कुगुरु पचीशी ॥ प्रारंजः ॥

॥ दोहा ॥ ॥ श्रीजिनवर प्रणमुं मुदा, लही सदगुरु आधार ॥ कुगुरु
तणा लक्षण कहूं, सुणजो सहु नर नार ॥ १ ॥

॥ ढाल ॥ चोपाइनी देशी ॥ मन शुद्धें सुणजो नर नार, रीश म धर
जो हृदय मजार ॥ पंच प्रमाद जे नवी ठंरुशे, ते गुरु केम तरशे तारशे
॥ २ ॥ कंठ लगे नित्य जोजन करे, जे परलोक थकी नवी करे ॥ समी सां
जथी संधारशे ॥ ते गुरु० ॥ ३ ॥ दिन उग्या विण दातण करे, मनमां
सूगपणुं आदरे ॥ न करे कहियें नोकारशी ॥ ते० ॥ ४ ॥ पटीयां पाडे
समारे केश, नित्य नित्य नवा वनावे वेश ॥ मुख धोवे जोवे आरशी ॥
ते० ॥ ५ ॥ हसे धसे बोले पारसी, न्हाइ धोइ जोवाना रसी ॥ वेश बना
वे कस्याना रसी ॥ ते० ॥ ६ ॥ साकर डूध पीये परजात, चावल दाळ
जमे नित्य जात ॥ सखर शाकविण नवी जिमशे ॥ ते० ॥ ७ ॥ उनुं नीर
न पीवे कदा, सजल कुंज जरी मूके सदा ॥ जर जरीयें पाणी ठारशे ॥
ते० ॥ ८ ॥ जे नित्य राते दीवो करे, पडदो वांधे खूणे तरे ॥ जदया

जह्य न विचारशे ॥ ते० ॥ ए ॥ सेवे मैथुन राखे दाम, नाम धरावे
 गौतम खाम ॥ विषय कषाय जे नवि ठांकरे ॥ ते० ॥ १० ॥ धम धम
 मारग चाले जेह, ईर्या समिति न शोधे तेह ॥ मनमां जयणा नवि धारशे
 ॥ ते० ॥ ११ ॥ दिवसें जे मुनि जमता जमे, राते सारी पासे रमे ॥ एक
 जीते एक हारशे ॥ ते० ॥ १२ ॥ जडी बूटीनें जन्मोत्तरी, हलवो हाथ
 करे हित धरी ॥ साप वींठी जे ऊतारशे ॥ ते० ॥ १३ ॥ एक घरे खमा
 समण दीये, अशनादिक सघला तिहां लीये ॥ बीजाघर तिण दिन वार
 शे ॥ ते० ॥ १४ ॥ गाडे चार चढावे वली, वणज व्यापार करे मन रली
 ॥ सावद्य कारज संचारशे ॥ ते० ॥ १५ ॥ पांचे आश्रव सेवे सही, सूधे
 मारग चाले नहीं ॥ हाथे करी फल त्रिदारशे ॥ ते० ॥ १६ ॥ जाडे वलद
 चढावे पंथ, नाम धरावे ठे निर्ग्रथ ॥ वाटे वलद पोते चारशे ॥ ते० ॥
 १७ ॥ गाडे वेठा करे विहार, गाडा पाखें न चले चार ॥ ईर्या समिति
 किसी शोधशे ॥ ते० ॥ १८ ॥ उंठाने अधिकां काटलां, साथे राखे पाट
 पाटलां ॥ मानव जव टले हारशे ॥ ते० ॥ १९ ॥ कूड प्रपंच करे जे घ
 ण, मनमां कांइ न राखे मणा ॥ पोते पिरु पापें चारशे ॥ ते० ॥ २० ॥
 गुणवंतना अवगुण दाखवे, आप तणा अवगुण उलवे ॥ आधाकर्मी जे
 आहारशे ॥ ते० ॥ २१ ॥ सूरज जगे जे करे खान, धूप उखेवे वेसे ध्या
 न ॥ मिथ्या सुर मनमां धारशे ॥ ते० ॥ २२ ॥ गारवता धरे मनमां सही,
 नव विध परिग्रह ठाने नहीं ॥ लघु अजा राखे लारशी ॥ ते० ॥ २३ ॥
 पांचे पर्वी वोहोरे वेग, जमणवार देखे तिहां रेग ॥ नित्य देव नवि जु
 हारशे ॥ ते० ॥ २४ ॥ धुरथी पंच महाव्रत धरे, सब सावद्य उच्चरे ॥ प
 ठी करणी खोटी कारशी ॥ ते० ॥ २५ ॥ महोटी पदवीनां जे धणी, लो
 कमांहे जस प्रचुता घणी ॥ धर्मरीति पण ते नहीं कशी ॥ ते० ॥ २६ ॥
 एहस्थ तणी परें करे व्यापार, वेचे पुस्तक वस्त्र अजार ॥ पार पंथ देखाडे
 हसी ॥ ते० ॥ २७ ॥ चीपीनें थरमां पांगरे, वेष लइने तोरा करे ॥
 मीठी वाणी नवि बोलसी ॥ ते० ॥ २८ ॥ कालो साप कुगुरुथी
 जखो, जे एकवार करे मामखो ॥ कुगुरु जवो जव दुःख देहसी ॥ ते०
 ॥ २९ ॥ कुगुरु तणा चावाए चरित, धर्मविना बोले विपरीत ॥ कुगुरु त
 णो संग नहीं ठांडशे ॥ ते० ॥ ३० ॥ कुगुरु तणा लक्षण ए अनंत, मु

खथी कहेतां नावे अंत ॥ तेहनी संगत नवि ठांरुशे ॥ तेण ॥ ३१ ॥ श्री
आनंदविमल गुरुराज, पंचम आरे दीठा आज ॥ ते गुरुतुं पामी सुपसा
य, तेजपाल पत्रणे सुखदाय ॥ ३२ ॥ इति कुगुरु सद्याय ॥

॥ अथ श्री शांतिनाथनो दशमो जव मेघरथराजानी सद्याय प्रारंजः॥

॥ दशमे जवे श्रीशांतिजी, मेघरथ जीवडो राय ॥ रूडा राजा ॥ पोस
हशालामां एकला, पोसह लीयो मन जाय ॥ रूडा राजा ॥ धन्य धन्य
मेघरथ राय जी, जीवदया गुण खाण ॥ धर्मी राजा ॥ धन्य० ॥ १ ॥ ए
आंकणी ॥ ईशानाधिप इंद्रजी, वखाण्यो मेघरथ राय ॥ रूडा राजा ॥ धर्मे
चलाव्यो नवि चले, महासुर देवता आय ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ २ ॥
पारेतुं सींचाणा मुखें अवतरी, पडीयुं पारेतुं खोला मांहे ॥ रूडा राजा ॥
राख राख मुज राजवी, मुजने सींचाणो खाहे ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥
॥ ३ ॥ सींचाणो कहे सुणो राजीया, ए ठे महारो आहार ॥ रूडा राजा ॥
मेघरथ कहे सुण पंखीया, हिंसाथी नरक अवतार ॥ रूडा पंखी ॥ धन्य०
॥ ४ ॥ शरणे आव्युं रे पारेवडुं, नहीं आपुं निरधार ॥ रूडा पंखी ॥ मा
टी मगावी तुजने दीउं, तेहनुं तुं कर आहार ॥ रूडा पंखी ॥ धन्य० ॥
॥ ५ ॥ माटी खपे मुज एहनी, कां वली ताहरी देह ॥ रूडा राजा ॥ जी
वदया मेघरथ वसी, सत्य न मेले धर्मी तेह ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥
॥ ६ ॥ काती लेइ पिंड कापीनें, ले मंस तुं सींचाण ॥ रूडा पंखी ॥ त्राजु
यें तोलावी मुजने दीउं, ए पारेवा प्रमाण ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ ७ ॥
त्राजुउं मगावी मेघरथ रायजी, कापी कापी मूके ठे मंस ॥ रूडा राजा ॥
देवमाया धारण समी, नावे एकण अंश ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ ८ ॥
जाइ सुत राणी वल वले, हाथ जाली कहे तेह ॥ घेला राजा ॥ एक पारे
वाने कारणे, शुं कापोठो देह ॥ घेला राजा ॥ धन्य० ॥ ९ ॥ महाजन
लोक वारे सहू, म करो एवडी वात ॥ रूडा राजा ॥ मेघरथ कहे धर्म फ
ल जलां, जीवदया मुजघात ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १० ॥ त्राजुयें वे
ठा राजवी, जे जावे ते खाय ॥ रूडा पंखी ॥ जीवथी पारेवो अधिको ग
एयो, धन्य पिता तुज माय ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ ११ ॥ चडते परि
णामे राजवी, सुर प्रगट्यो तिहां आय ॥ रूडा राजा ॥ खमावे वहुविधें क
री, लली लली लागे ठे पाय ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १२ ॥ इंछे प्रशंसा

ताहारी करी, तेहवो तुं ठो राय ॥ रूडा राजा ॥ मेघरथ काया साजी क
री, सुर पोहोतो निज ठाय ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १३ ॥ संयम लीयो
मेघरथ रायजी, लाख पूरवनुं आय ॥ रूडा राजा ॥ वीशस्थानक विधे मे
वियां, तीर्थकर गोत्र वंधाय ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १४ ॥ झ्यारमे जवे
श्रीशांतीजी, पोहोता सरवारथसिद्ध ॥ रूडा राजा ॥ तेत्रीस सागर आउ
खुं, सुख विलसे सुर रिद्ध ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १५ ॥ एक पारेवा द्या
थकी, बे पदवी पाम्या नरिंद ॥ रूडा राजा ॥ पांचमा चक्रवर्त्ति जाणिये,
शोलमा शांतिजिणंद ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १६ ॥ वारमे जवे श्रीशां
तिजी, अचिरा कूखें अवतार ॥ रूडा राजा ॥ दीक्षा लेइने केवल वस्था,
पहोता मुगति मोजार ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १७ ॥ त्रीजेजवे शिवसुख
लह्यो, पाम्या अनंतु ज्ञान ॥ रूडा राजा ॥ तीर्थकरपदवी लही, लाखवर्ष
आयु जाण ॥ ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १८ ॥ दयाथकी नवनिधि होवे,
दया ते सुखनी खाण ॥ रूडा राजा ॥ जव अनंतनी ए सगी, दया ते मा
ता जाण ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ १९ ॥ गजजवे शशलो राखियो, मेघकुमार
गुण जाण ॥ रूडा राजा ॥ श्रेणिकराय सुत सुख लह्यां, पोहोता अनुत्तर
विमान ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ २० ॥ एम जाणी दया पालजो, मनमांहे
करुणा आण ॥ रूडा राजा ॥ सयमसुंदर एम वीनवे, दयाथी सुख निर
वाण ॥ रूडा राजा ॥ धन्य० ॥ २१ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री एलाची कुमरनी सव्हाय प्रारंभः ॥

॥ नाम एलापुत्र जाणीये, धनदत्त शेठनो पुत्र ॥ नटवी देखीने मो
हीयो, नवि राख्युं घरनुं सुत्र ॥ १ ॥ करम न बूटे रे प्राणीया, पूरव ने
ह विकार ॥ निजकुल ठंभीरे नट थयो, नाणी शरम लगार ॥ कर्म०
॥ २ ॥ मात पिता कहे पुत्रने, नट नवि थइयें रे जात ॥ पुत्र परणातुं
रे पदमिणी, सुख विलसो संघात ॥ कर्म० ॥ ३ ॥ कहेण न मान्युं रे ता
तनुं, पूरव कर्म विशेष ॥ नट थइ शीख्यो रे नाचवा, न मटे लख्या रे
लेख ॥ कर्म० ॥ ४ ॥ एक पुर आठ्यो रे नाचवा, उचो वंश विशेक ॥
तिहां राय जोवाने आवियो, मलीया लोक अनेक ॥ कर्म० ॥ ५ ॥ ढोल
वजावे रे नटवी, गावे किन्नर साद ॥ पायतल घूघरा घम घमे, गाजे अं
वर नाद ॥ कर्म० ॥ ६ ॥ दोय पग पहेरी रे पावडी, वंश चढ्यो गज मे

ल ॥ नोधारो थइ नाचतो, खेले नव नवा खेले ॥ कर्म० ॥ ७ ॥ नटवी
 रंजारे सारिखी, नयणे देखे रे जाम ॥ जो अंतेउरमां ए रहे, जनम सफ
 ल मुज ताम ॥ कर्म० ॥ ८ ॥ तव तिहां चिंते रे भूपति, बुढ्यो नटवीनी
 साथ ॥ जो नट पडे रे नाचतो, तो नटवि करुं मुज हाथ ॥ कर्म० ॥ ९ ॥
 कर्म वशे रे हुं नट थयो, नाचुं हुं निराधार ॥ मम नवि माने रे रायनुं,
 तो कोण करवो विचार ॥ कर्म० ॥ १० ॥ दान न आपे रे भूपति, नटे
 जाणी ते वात ॥ हुं धन्य वांहुं हुं रायनुं, राय वंढे मुज घात ॥ कर्म० ॥
 ११ ॥ दान लहुं जो हुं रायनुं, तो मुज जीवित सार ॥ एम मनमाहे चिं
 तवी, चढिउं चोथी रे वार ॥ कर्म० ॥ १२ ॥ थालजरी शुद्ध मोदके, पद
 मणी उज्जी ठे वार ॥ ल्यो ल्यो कहे ठे खेता नथी, धन धन मुनि अवतार
 ॥ कर्म० ॥ १३ ॥ एम तिहां मुनिवर वोहोरता, नटे पेख्या महाजाग ॥
 धिग् धिग् विषया रे जीवने, एम नट पाम्यो वैराग ॥ कर्म० ॥ १४ ॥ सं
 वर जावे रे केवली, थयो ते कर्म खपाय ॥ केवल महिमा रे सुर करे, ल
 विधविजय गुण गाय ॥ कर्म० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ मनक मुनिनी सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ नमो नमो मनक महासुनि, बालपणे व्रत लीधो रे ॥ प्रेम पिताशुं रे
 परठीउं, मायशुं मोह न कीधो रे ॥ नमो० ॥ १ ॥ पूरण चौद पूरव ध
 णी, सिद्धंजव जस तातो रे ॥ चोथो पटोधर वीरनो, महीयल मांहे वि
 ख्यातो रे ॥ नमो० ॥ २ ॥ श्री सिद्धंजव गणधरे, उद्देशी निज पुत्रो रे ॥
 सयल सिद्धांतथी उद्धरी, दशवैकालिक सूत्रो रे ॥ नमो० ॥ ३ ॥ मास
 ठये पूरण जण्यो, दश अध्ययन रसालो रे ॥ आलस अंगथी परहरी, धन
 धन ए मुनि वालो रे ॥ नमो० ॥ ४ ॥ चारित्र पट मसवाडवा, पाली
 पुण्य पवित्रो रे ॥ स्वर्ग समाधे सधावीयो, करी जग जनने मित्रो रे ॥
 नमो० ॥ ५ ॥ पुत्र मरण पाम्या पठी, सद्धंजव गणधारो रे ॥ बहु श्रुत
 दुःख मनसां धरे, तेम नयणे जलधारो रे ॥ नमो० ॥ ६ ॥ प्रचु तुमे
 बहु पडिवोहिया, समसंवेगीया साध रे ॥ अमें आंसु नवि दीठडां, तुम
 नयणे निरावाध रे ॥ नमो० ॥ ७ ॥ अमने ए मुनि मनकलो, सुत संव
 धथी मलीयो रे ॥ वीणसे अरथ कहां थकां, पण केणे नवि कलीयो रे
 ॥ नमो० ॥ ८ ॥ शुं कहीये संसारमां, ए एहवी स्थिति दीसे रे ॥ तन

दीठे मन उह्वसे, जोतां हियडहुं हींसं रे ॥ नमो० ॥ ए ॥ लविध कहे न
वियण तुमें, म करो मोह विकसो रे ॥ तो तुमें मनक तणी परें, पामो
सदृगति सारो रे ॥ नमो० ॥ १० ॥ इति मनक मुनीनी सद्याय ॥

॥ अथ उपदेश वत्रीशीनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ आतमराम सयाने तुंतो जूठे जरम जुलाने ॥ जूठे जरम जुलाने,
तूंतो जूठे जरम जुलाने ॥ आ० ॥ ए आंकणी ॥ किसकिमाइ किसके
चाइ किसके लोग लुगाइजी ॥ तुं न किसीका को नहीं तेरा, आपो आप
सहाइ ॥ आतम० ॥ १ ॥ चारदिनोका सवहे मेला, थिर कोइ न रहाइ
जी ॥ हटवाडे ज्युं डुनिषा सवहीं, मिलि मिलि आइ जाइ ॥ आ० ॥ २
॥ मंदिर मेडी महल चणावे, जालिवंध जरुखा जी ॥ जंगल पाठं पसा
रकें पडना, धरना कहु न धोखा ॥ आ० ॥ ३ ॥ पघडी खूब इजार डुप
डा, जामा जरकसी वागा जी ॥ साज सवि इहां ठारु चलेगा, धागाविनु
तनु नागा ॥ आ० ॥ ४ ॥ सहस्रही जोडी लखनी जोडी, अरव खर
वकुं ध्याया जी ॥ तृणा लोच पलिता लाया, फरि फरि हूँडे माया
॥ आ० ॥ ५ ॥ चूवा चंदन फूल फूलेलें, करता है खुसवोइ जी ॥ हंस
उडे तव गिरे जमीपर, तन वगदोइ होइ ॥ आ० ॥ ६ ॥ या संसार सरा
हिमांड्यो हे, घरघर लखचोरासी जी ॥ नामकरम घर सवहीं चूणे है,
जीव बटाववासी ॥ आ० ॥ ७ ॥ लोही मांस वनीया है गारा, पत्तरहाड
लगाइ जी ॥ ऊपर लेपन चमडी लाइ, श्रोतडुवार देखाइ ॥ आ० ॥ ८ ॥
आयु करम ले घरका चाडा, दिन दिनका करि लेखा जी ॥ महलधि पु
ग्यां पलक न राखे, ऐसा बडा अदेखा ॥ आ० ॥ ९ ॥ सांज सवेर अवेर न
जाने, नगिने धूप अरु वरखा जी ॥ न गिने नेह मुलाजा किसका, आयु
सबोकुं सरिखा ॥ आ० ॥ १० ॥ जीव बटाऊ के फिर होवे, कर्म बनजारा
संगी जी ॥ जाइ अगाऊ गेह वनावे, प्रीति वनावे चंगी ॥ आ० ॥ ११ ॥

जे आये ते सब जावेगे, जीव सबे जगबासी जी ॥ अपनी बुटी कमाई
 के बिनुं, जीउके संग न जासी ॥ आ० ॥ १५ ॥ यह हे जीव सदा अवि
 नासी, मर मर जाय शरीरा जी ॥ इसकी चिंता कहु न करनी, हुइ अप
 ने धर्मधीरा ॥ आ० ॥ १६ ॥ सहस लाखसुं जुद्ध जुजावल, लडतहे जग
 एकेले जी ॥ ब्रह्मा विष्णु महासुर दानव, काल सबे संकेले ॥ आ० ॥ १७ ॥
 वाडी यह संसार बन्या हे, काल तिहां है माली जी ॥ काचे पाके चून
 लहे फल, लगे ज्युं दरखत माली ॥ आ० ॥ १८ ॥ तन धन जोवनका
 मतवाला, गिणत किसीकुं नाहीं जी ॥ बादशाह छत्रपति चूपति, मोत
 गले ऊवांही ॥ आ० ॥ १९ ॥ नातो गोती सज्जन संबंधी, सब स्वारथमें
 बूडे जी ॥ स्वारथ विण मूके दरखत ज्युं, देख पंखेरा उडे ॥ आ० ॥ २० ॥
 पवन स्वरूपी काया अंदर, हंस लीयाहे वासा जी ॥ पल पल आयु घटत
 हे जैसे, पाणीमांहे पतासा ॥ आ० ॥ २१ ॥ मुख करी करी मेरी मेरी,
 परसंगत दुःख पावे जी ॥ ममता ठोडी सहेज सुख पावे, जो समता घर
 आवे ॥ आ० ॥ २२ ॥ तनपंजर बीच जीव पखेरु, ऊडत ऊडत आया
 जी ॥ आवत जावत कीसी न इनकी, खोज कहु नव पाया ॥ आ० ॥ २३ ॥
 मोलत बोलत तन अंदर वली, चेतन चिन्ह दिखावे जी ॥ ज्युं बाजीगर
 काठ पुतरीयां, नव नव जात नचावे ॥ आ० ॥ २४ ॥ काया पाटण चे
 तन राजा, मनकोटवाल बेठाया जी ॥ पंच ठगोसुं एका कर कर, सब पा
 टण मुसि खाया ॥ आ० ॥ २५ ॥ नवा नवा तनजामा पहेरी, नव नव
 घाट घटे हे जी ॥ तीन ऊँउ हे तीन अवस्था, चोथे ऊँउ फटे हे ॥ आ०
 ॥ २६ ॥ तेराहे सो कहु न जावे, तुं आपणां ना खोवे जी ॥ विगड्या ग
 या विनाणा आशे, तुं मूरख कहा रोवे ॥ आ० ॥ २७ ॥ जला बुरा तुज
 कहु करनेका, जो कहु तुंही करेगा जी ॥ पंथ बीच होयगा सो संबल,
 तेरइ संग चलेगा ॥ आ० ॥ २८ ॥ मोरी ज्युं अंगुल अटकाइ, चकरी आ
 वे जावे जी ॥ मोरी तूटत आत न चकरी, ना आवे ना जावे ॥ आ० ॥
 ॥ २९ ॥ यह करतां हुं यह में कीया, यह में सही करंगा जी ॥ मेरे मो
 त लगीहे लारे, गणे नहि ज्युं गूंगा ॥ आ० ॥ ३० ॥ आवत जावत
 सास उसासा, करत हे कोन अन्यासा जी ॥ जानेका कहु अचरज ना
 ही, रहणेका हे तमासा ॥ आ० ॥ ३१ ॥ इसकाया पायाका लाहा, सु

कृत कारज कीजे जी ॥ राज कहे उपदेश वत्रीसी, सदगुरु शीख सुणी
जे ॥ आ० ॥ ३३ ॥ इति श्री उपदेश वत्रीसीनी सद्याय संपूर्ण ॥

॥ अथ श्रीवीरविजयजीकृत, रहनेमीजीनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ बाह्याबाह्या उत्तरदिशिना वाय जो ॥ ए देशी ॥ रहनेमि अंबर विण
राजुल देखि जो, मदनोदय मोह्या मुनि चित्त गवेपि जो, कहे सुंदरी सुं
दर मेला संसारमां जो ॥ १ ॥ संसारे मेला आवे शे काज जो, चीरधरी क
हे राजुल तुमे मुनि राज जो, आज किस्थुं संजारो मेला वीसत्या जो ॥ २ ॥
वीसरे नही रागीनें पूरव प्रीत जो, प्रीत करी रहे डूर ए मुखरीत जो,
चतुरशुं चित्त मेलावो चतुरनें सांजरे जो ॥ ३ ॥ सांजरे पण अमशुं तुम
श्यो मेलाप जो, दीधर जोजाइपणानी जगमां ठाप जो, तेमां श्यो चित्त
मेला फोगट रागनो जो ॥ ४ ॥ फोकट रागे रोतां तुम्हे घरमांहि जो, त
जि तुमने मुज जाईगया वनमांहि जो, अम्हे तुम्ह घरे नित वात वीशामे
आवता जो ॥ ५ ॥ आवता तो हुं देती आदरमान जो, प्रीतम लघु बंधव
मुज जाइसमान जो, कंतवियोगें तुमशुं वात विसामती जो ॥ ६ ॥ वी-
सांमा वनिताने वद्वज केरा जो, अण परणी कन्याने कंत घणोरा जो, ए
क पखो जे राग ते धरवो नवि घटे जो ॥ ७ ॥ नवि धरे सतीयो जे नाम
धरावे जो, बीजो वर वरवा इहा नवि जावे जो, न फरे पंचनी साखे जे
तिलक धर्यो जो ॥ ८ ॥ तिलक धरे ते तो सामान्व ठराय जो, मंगल वर
ते कर मेलापक थाय जो, माय पठी बोलावे कन्या सासरे जो ॥ ९ ॥ सा
सरियें कुंवारी जमवा जाय जो, वस्तु सामान्य विशेषे लइ समवाय जो,
करमेलावा पेलां मनमेला करे जो ॥ १० ॥ मेला करवा अमें तुम घेर
आवंता जो, नूषण चीवर मेवाफळ लावंता जो, तुमे लेतां अमने थइ
आश्या मोटकी जो ॥ ११ ॥ मोटी आश्या शी थइ तुम दिलमांहि जो,
देवर जाणी हुं लेती उहांहि जो, ससरानुं घर लहि न धरी शंका अमे
नो ॥ १२ ॥ अमे जाण्युं पतिविण राजुल उंसीआली जो, एहने परणी
सुखजर प्रीतडी पाळी जो, दंपती दीहा लेशुं जोवनमां नही जो ॥ १३ ॥
नही उंसीयाली हुं जगमां कहेवाणी जो, त्रण्य जगतना राजानी हुं राणी
जो, नूतल सरगे गवाणी प्रनूचरणे रही जो ॥ १४ ॥ स्ही चरणे तो सु
ख संसार ठगाणी जो, चंपकवरणी तुज काया सोसाणी जो, तप जप क

ष्ट जे करवुं ते वृद्धापणे जो ॥ १५ ॥ वृद्धापणे मुनिने नवि थाये विहार
 जो, धिरवासे एक ठामे रहे अण्णगार जो, जे जे कारज साधवुं ते योवन
 वयें जो ॥ १६ ॥ जोवनवय जगमगतो तुम ह्म योग जो, चाखो घेर ज
 इ विलसीयें सुखजोग जो, वात बनी एकांते गुफामां पुण्यथी जो ॥ १७ ॥
 पुण्ये दीक्षा लीधी प्रचुनी पास जो, संयमथी सुर मुगती तणा सुखवास
 जो, वीरुआं विषफल खावा इष्टा सी करो जो ॥ १८ ॥ सीकरो तो पास
 प्रचु अण्णगार जो, उपदेशे घर ठंकी थरो मुनिच्यार जो, ते जव मोक्ष सु
 णीनें किम जइ घरे वश्या जो ॥ १९ ॥ घरे वश्या पण मुनि दीठा तप क
 रता जो, पश्चात्ताप करी फरी संयम धरता जो, परिशाटन करी परमात
 म पदवी वश्या जो ॥ २० ॥ वरी पदवी पण चुक्त जोगी थइ तेह जो, तुम
 ऊपर अमने पूरवनो नेह जो, अधुराने दुःखकर संजम साधन विधि जो
 ॥ २१ ॥ विधियें व्रत धरी थावच्चा कुमार जो, सिधगिरि सीधा साथे सा
 धु हजार जो, वीरनी वारे अयमंता मुगति जसे जो ॥ २२ ॥ जसे खरा
 पण वालपणामां जोगी जो, वात न जाणे सा संसारिक जोगी जो, चुग
 त जोगी थई अंते संयम साधशुं जो ॥ २३ ॥ साधशुं अंते संयम ते स
 वि खोटुं जो, जरापणानुं दुःख संसारे मोटुं जो, व्रत जांगीने जीव्या ते
 नरकें गया जो ॥ २४ ॥ गया नरकें ते जेणे फरी व्रत नवि धरीयां जो,
 जागे परिणामे संयम आचरीयां जो, चारित्रें चित्त ठरसे इष्टा पूरणे जो
 ॥ २५ ॥ इष्टा पूरणे कोइ काले नवि थावे जो, स्वर्ग तणां सुख वार अनं
 ती पावे जो, जव जय पामी पंक्ति दीक्षा नवि तजे जो ॥ २६ ॥ नवि त
 जे तो पूरवधर किम चूक्या जो, रहि घरवासे तप जप वेशज मूक्या जो,
 अरिहावात एकांते सासन नवि कहे जो ॥ २७ ॥ कहे एकांते ब्रह्मचरज
 जिनवरिया जो, व्रत तजी पूरवधर निगोदें पडिया जो, विष खातां संसा
 रे कूण सुखिया थया जो ॥ २८ ॥ थया जिनेसर सुख विलसी संसारे जो,
 केवल पामी पठी जगतने तारे जो, दीक्षा लेशुं आपणे सुखलीला करी
 जो ॥ २९ ॥ करी आ संजम जिन आणा सिरधारो जो, चलचित्त करीनें
 चरणतणुं फल हारो जो, वमन जखंतां श्वानपरें वांठा करो जो ॥ ३० ॥
 कस्यो अमने तुमे श्वान वरोवर साचो जो, तो तुमशुं हवे राग ते धरवो
 काचो जो, लागो तमाचो शिद्धानो मुऊने घणो जो ॥ ३१ ॥ मुऊने घणो

ठे दीयरियानो राग जो, तेणे कहुं अगंधक अंगकूलना नाग जो, अगनी पडे पण विष वमीयुं चूसे बही जो ॥ ३२ ॥ चूसे नही तिरजंच पशु वि ख्यात जो, तेथी जूंको हुं नर द्वात्री जात जो, तुं गुरु माता वात किहां करसो बहीं जो ॥ ३३ ॥ करशो नही पण जाणे जिनवर ग्यानी जो, ग्या नी आगल वात न जगसां ठानी जो, प्रभु पासे आलोयण लेइ निरमल थतुं जो ॥ ३४ ॥ निरमल थावा जइशुं प्रभुनी पासे जो, मिठासि डुक्कड करी तुमशुं शुभ वासे जो, कूप पडंतां तुमे कर जाली राखियो जो ॥ ३५ ॥ राखे आतम पोतानो मुनिराया जो, स्वामी सहोदर मात शिवाना जाया जो, रहेनेमी संयमे ठरीया इम सांचली जो ॥ ३६ ॥ सांचली जइ प्रभुच रणे सीस नमावी जो, आलोयण लेइ उज्वल जावना चावी जो, केवल पामी शिवपदवी वरिया सुखे जो ॥ ३७ ॥ सुखे रहि घरमां सय वरस ते च्यार जो, एक वरस ठड्यस्था राजूळ नार जो, एक विहूणां पांचसें वरस ज केवली जो ॥ ३८ ॥ केवली थइने विचख्यां देश विदेश जो, बहुजन ता ह्या देई वर उपदेश जो, शिवसुख सञ्चार्ये पोढ्या अगुरु लघुगुणे जो ॥ ३९ ॥ गुणेकरी दोइ गाथा सुणजो सयणा जो, एक एक गाथा अंतर वेहुनां वयणा जो, श्रीशुभवीरविवेकी नित्य वंदन करे जो ॥ ४० ॥ इति ॥

अथ हीत शिक्षोपदेश सद्याय ॥

॥ प्रथम प्रणमं सरसतीपाय, आढी वाणी द्यो मुजमाय ॥ तुम प्रसादे सजाय जणुं, देशतणुं फल हियडें धरुं ॥ १ ॥ चतुर चोमासुं जाइव मास, सहु संघकेरी पूरे आश ॥ वर्ष दिवस दिन त्रणसें साठ, तेमांथी काढ्या अरिहंते आठ ॥ २ ॥ अनंतकोटि हुवा केवली, तिणे पर्युषण कीधा वली ॥ पर्व वडो पर्युषण तणो, दान पुण्य हुए अतिघणो ॥ ३ ॥ गेलां तेलाने उप वास, अर्थाइ कोइ पच्चखे मास ॥ पोशा पडिकमणां जावे करो, जव जव पातिक दूरे हरो ॥ ४ ॥ देहरे जइने वांदो देव, साधु तणी नित करजो सेव ॥ चैत्यवंदन करजो चित्त लाय, तेथी पाप खेरु रे थाय ॥ ५ ॥ सत रजेदी जवि पूजा करो, धूप दीप लेइ आगल धरो ॥ केसर चंदन अगार कपूर, प्रतिमा पूजो उगते शूर ॥ ६ ॥ जणो लात्र मंगल आरती, कल्प सूत्र वांचे तिहां यती ॥ ऊह्वर तणो हुठ ऊमकार, वाजां वाजे अनेक प्रकार ॥ ७ ॥ करो गुरु आगल गुंहली, गावे नारी मन हियडे धरी ॥ सू

त्र तणा अक्षर सांजलो, वेर विरोध सवि दूरे हरो ॥ ७ ॥ जणो जक्तामर
 गणो नवकार, अजियसंतो गणजो त्रण वार ॥ इरिया वहिया तसउत
 री, लोगस उज्जोयगरे जणजो खरी ॥ ८ ॥ पर्युषणमां पाले हरी, रोग
 शोग तस जाये फरी ॥ पर्युषणमां पाले शील, तस घर होवे बहुली लील
 ॥ १० ॥ पर्युषणमां दीजें दान, तसघर होवे नवे निधान ॥ श्रावक धर्म
 वडो संसार, एहवुं जाणी करजो नरनार ॥ ११ ॥ श्रावक धर्मथी पूरण
 शेठ, स्वयंपद पोहता मुक्ति ठेठ ॥ ए धर्म कीधो वीर वर्द्धमान, जिणे प्रभु
 दीधा वरसी दान ॥ १२ ॥ सद्यय जणतां ए फल सोय, शेत्रुंजय यात्र
 तणां फल होय ॥ आबु अष्टापद गिरनार, शेत्रुंजे जइ करो जूहार ॥ १३ ॥
 नंदीसर सीमंधर स्वासि, अढी द्विपमां उत्तम ठाम ॥ सुदर्शन शेठे काउ
 सग्ग कियो, शूली फीटी सिंहासन हुयो ॥ १४ ॥ चोवीश जिणवर थाप्या
 रूप, वंदन आव्या मोटा चूप ॥ महिमा सागरगुहिर गंजीर, निर्मल शी
 ल गंगानुं नीर ॥ १५ ॥ तपगढमांहे गौतम स्वामि, शील सुधर्मा धूलिजइ
 नाम ॥ श्रीविजयाणंद सूरिश्वर राय, तसुपय जगवद्वज गुण गाय ॥ १६ ॥

॥ अथ श्री आठमदनी सद्यय प्ररंजः ॥

॥ क्रीडा करी घरे आवीयो ॥ ए देशी ॥ मदआठ महा मुनि वारियें,
 जे पुरगतिना दातारो रे ॥ श्रीवीर जिणेश्वर उपदेस्या, जाखें सोहम गण
 धारो रे ॥ मद० ॥ १ ॥ हांजी जातिनो मद पहेलो कखो, पूर्वे हरिकेसियें
 कीधो रे ॥ चंकाव तणे कुलें उपनो, तपथी सवि कारज सीधो रे ॥ मद०
 ॥ २ ॥ हांजी कुलमद वीजो दाखियो, मरियच जवे कीधो आणी रे ॥
 कोडा कोडी सागर जवमां जम्या, मद अ धरो एम मन जाणी रो ॥ मद०
 ॥ ३ ॥ हांजी बलमदथी दुख पामिया, श्रेणिक वसुचूति जीवो रे ॥ दुःख
 नरक तणां जइ जोगव्यां, मुख पाडतां नित रीवो रे ॥ मद० ॥ ४ ॥ सन
 तकुमार नरेसरू, सुर आगल रूप वखाण्यो रे ॥ रोम रोम काया विगडी
 गई, मद चोथानो ए टाणो रे ॥ मद० ॥ ५ ॥ मुनिवर संयम पालतां, तपनो
 मद मनमांहे आव्यो रे ॥ थया कूरगडु रूपीराजिया, पाम्या तपनो अंतरा
 यो रे ॥ मद० ॥ ६ ॥ हांजी देश दशारणनो धणी, राय दशार्णजइ अजि
 मानी रे ॥ इंद्रनी कृद्धि देखी घृजिया, संसार तजी थया ह्यानी रे ॥
 मद० ॥ ७ ॥ हांजी धुलिजइ विद्यानो कखो, मद सातमो जे दुखदाई

रे ॥ श्रुत पूरण अर्थ न पाभिया, जुवो मानतणी अधिकाई रे ॥ मद० ॥
 ॥ ७ ॥ रायसुचूम षटखंरुनो धणी, लाजनो मद कीधो अपारो रे ॥ ह्य
 गय रथ सब सायर गद्युं, गयो सातमी नरक मजारो रे ॥ मद० ॥ ८ ॥
 इम तन धन यौवन राजनो, म धरो मनमां अहंकारो रे ॥ एह अथिर
 असत्य सवि कारमूं, विणशे क्णमां बहुशारो रे ॥ मद० ॥ ९ ॥ मद
 आठ निवारो व्रतधारीया, पाळो संयम सुखकारी रे ॥ कहे मानविजय ते
 पाभीया, अविचल पदवी नरनारी रे ॥ मद० ॥ ११ ॥

॥ अथ श्रीमद्यशोविजयजीकृत शिखामणनी सद्याय ॥

॥ हमचडीनी देशीमां ॥ चढ्या पड्यानो अंतर समकी, सम परिणामे
 रहियें ॥ थोडो पण जिहां गुण देखीजें, तिहां अतिहि गहगहियें रे ॥ लो
 को जोलविया मत चूलो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ अंतर मुहूरत अठे गुण
 बुढी, अंतर मुहूरत हाणी ॥ चडवुं पडवुं तिहांथी मुनिने, ते गति किण
 ही न जाणी रे ॥ लो० ॥ २ ॥ बाह्य कष्टथी उंचुं चडवुं, तेतो जडता ज्ञाना
 ॥ संयम श्रेणी शिखर चढावे, अंतरंग परिणामा रे ॥ लो० ॥ ३ ॥ तिहां
 निमित्त ठे बाहिर करिया, ते जो सूत्रे साची ॥ नहितो दुःख दायक पण
 साहसुं, मोर जुवे जिम नाची रे ॥ लो० ॥ ४ ॥ पासळादिक सरखे वे
 षे, जूठां कारण दाखे ॥ इम विष पाणी खप नवि करता, मीठां पाणी
 चाखे रे ॥ लो० ॥ ५ ॥ परिचित्त घरनी जीहा लेवे, न करे ते समुदाणी
 ॥ वसति दोष न तजे क्रीतादिक, जिन आणा मन आणी रे ॥ लो० ॥
 ॥ ६ ॥ वस्त्र पात्र दूषण नवि टाखे, करे पतितनो संगो ॥ कलह वैरनी
 वात उदीरे, मन मान्यो तिहां रंगो रे ॥ लो० ॥ ७ ॥ हीणो निज परिवार
 टळावे, आप कष्ट बहु दाखी ॥ चढियो तेहनें किण परे कहिये, सूत्र न
 ही जिहां शाखी रे ॥ लो० ॥ ८ ॥ न गणी उत्तर गुणनी हाणी. सूत्र क्रिया
 मां पंगु ॥ दुःख सहेशे जिम उपदेशमाले, वोळ्यो मथुरा पंगु रे ॥ लो०
 ॥ ९ ॥ एक मूल कारण चित्तवतां, आवे मोडुं हासुं ॥ पंच महाव्रत कि
 हां उच्चरियां, सेव्युं कुणनुं पासुं रे ॥ लो० ॥ १० ॥ पहिला व्रत जे जूठ उ
 चरियां, तेतो नाव्या लेखे ॥ वली फरीने हवे ते उच्चरियां, पंच लोक जेम
 देखे रे ॥ लो० ॥ ११ ॥ मुनिने तो सघडुं साचववुं, वात घटे नवि कूडी ॥
 शुक्र परूपकनीतो जे जे, यतना ते पण रूडी रे ॥ लो० ॥ १२ ॥ पाहला

मूल गुणे जो हीणो, फीरी दिक्का ते लेवे ॥ चरण अंश होय ते तप ठेदे,
 उद्यम गारव सेवे रे ॥ लो० ॥ १३ ॥ एहं जुं जाण्य कहुं व्यवहारे, तेतो मर्म
 न जाणे ॥ अधिकाइ बाहिर देखाडी, मत वाळो मत तोणे रे ॥ लो० ॥ १४ ॥
 कहे ते शुरु कथक अज्ञानी, उपधि घणोरी धारे ॥ द्विविध बाल ते मारग
 लोपी, जांख्युं अंग आचारे रे ॥ लो० ॥ १५ ॥ पासछादिक जाति न त
 जियें, तो किम उंचा चढियें ॥ ज्ञानाधिक आणायें रहियें, ते साथे नवि
 वढियें रे ॥ लो० ॥ १६ ॥ पासठो पण तेहने कहियें, जे व्रत लेइ विराधे ॥
 धुरथकी जेणे व्रत नवि लीधां, तेतो मारग साधे रे ॥ लो० ॥ १७ ॥ सर्व
 शुद्धि विण पण व्रतयतना, शुरु कथक ते ठाजे ॥ श्वा योगी आप हीन
 ता, कहेतो ते नवि लाजे रे ॥ लो० ॥ १८ ॥ कुसुमपुरे एक शेठ तणे घर,
 हेठे रहियो संवेगी ॥ उपरे एक संवर गुण हीणो, पण गुणनिधि गुण रं
 गी रे ॥ लो० ॥ १९ ॥ संवेगी कहे उपरें जे ठे, ते महामोकलो पापी ॥ गुण
 रंगी कहे जे व्रत पाळे, तस कीरति जग व्यापी रे ॥ लो० ॥ २० ॥ संवे
 गीना बाह्य कष्टथी, थया लोक बहु रागी ॥ कोइक शुरु कथकना पण
 मति, जेहनी ज्ञानें लागी रे ॥ लो० ॥ २१ ॥ चोमासु पूरी बेहु विचरि
 या, तिहां आव्या एक नाणी ॥ विहुमां अल्प अधिक जव कुणना, पूठे
 श्म बहु प्राणी रे ॥ लो० ॥ २२ ॥ ज्ञानी कहे संवेगी निंदा, करी घणा
 जव ते रलशे ॥ शुरु कथक वहेलो शिवसुखमां, पाप पखाळी जलशे रे ॥
 लो० ॥ २३ ॥ सुणी एहं जुं बहुजन समज्या, जावमार्ग रूचि जागी ॥ ए
 उपदेश पदे सवि जोयो, जो तुमें गुणना रागी रे ॥ लो० ॥ २४ ॥ शुद्धा
 चारी कलिमांहे विरला, शुरु कथक पण थोडा ॥ श्वाचारी बहुला दी
 शे, जाणे वांका घोडा रे ॥ लो० ॥ २५ ॥ पासछादिकमां पण संयम, था
 नक कहुं कोइ हीणुं ॥ शुरु प्ररूपक वयणे सासन, कहियें नहोय खीणुं
 रे ॥ लो० ॥ २६ ॥ जिन विण अठतुं चरण न करियें, होय तेतो उद्धरि
 यें ॥ नवो मार्ग जन आगे जांखी, कहो किणि परें निस्तरियें रे ॥ लो०
 ॥ २७ ॥ संयम ठाण विचारी जोतां, जो न लहे निज साखें ॥ तो जूतुं
 धोळीने दुर्मति, शुं साधे गुण पाळे ॥ लो० ॥ २८ ॥ संयम विण संयत
 ता थापे, पाप श्रमण ते जाख्यो ॥ उत्तराध्ययने सरल स्वजावे, शुरु प्ररू
 पक दाख्यो रे ॥ लो० ॥ २९ ॥ सुविहित गद्य किरियानो धोरी, श्रीहरिजड

कहाय ॥ एह जाव धरतो ते कारण, मुज मन तेह सुहाय रे ॥ लो० ॥
 ॥ ३० ॥ शुद्ध ड्रव्य संयत ते इण्णिपरें, जाव चरण पण पावे ॥ प्रवचन व
 चन प्रजावक तेहनां, सुरपति पण गुण गावे रे ॥ लो० ॥ ३१ ॥ शुद्ध क
 थक वचने जे चाले, मूल उत्तर गुण धारी ॥ वचन कृमादिक रंगे लीना,
 ते मुनिनी बलिहारी रे ॥ लो० ॥ ३२ ॥ पूजनीक न्यानी नाणाधिक,
 संयत चरण विलासैं ॥ एके नहि जेहने बिहुं माही, किम जइये तस पा
 सैं रे ॥ लो० ॥ ३३ ॥ जिम जिम प्रवचन ज्ञाने जीले, तेम संवेग तरंगी ॥
 एक आवश्यक वचन विचारी, होजो ज्ञानना रंगी रे ॥ लो० ॥ ३४ ॥ ज्ञा
 नाधिकमां जे गुण दूषे, कष्ट करे अजिमाने ॥ प्राये गंठी लगे नवि आव्या,
 ते खूता अज्ञाने रे ॥ लो० ॥ ३५ ॥ तेहनी कष्ट क्रिया अनुमोदे, उन्मा
 र्ग थिर थाय ॥ तेहथी डुरगतिनां दुःख लहियें, पंचाशक कहिवाय रे ॥
 लो० ॥ ३६ ॥ कुल गण संघ तणी ते लज्जा, आपढंते ते टाले ॥ पाप जीरू
 गुरु आणाकारी, जिन मारग अजुआले रे ॥ लो० ॥ ३७ ॥ ज्ञानाधिक
 नी दीक्षा लेखे, करे तस वयणे परखी ॥ वीजानी पोडशकें चाखी, होली
 नृप रिद्धि सरखी रे ॥ लो० ॥ ३८ ॥ ज्ञानाधिकनो विनय विराधी, श्री जि
 नवर डुहवाय ॥ विनय जेद समजे ते किंकर, ज्ञानवंतनो थाय रे ॥ लो०
 ॥ ३९ ॥ ते माटे ज्ञानाधिक वयणे, रहि क्रिया जे करशे ॥ अध्यात्म प
 रिणति परिपाकें, ते अवसायर तरशे रे ॥ लो० ॥ ४० ॥ वाचकयशविजय
 इम दाखी, शीख सर्वने साची ॥ पण परिणमसैं तेहतणे मन, जेहनी म
 ति नवि काची रे ॥ लो० ॥ ४१ ॥ इति शिखामणनी सध्याय ॥

॥ अथ वैराग्य सध्याय प्रारंभः ॥

॥ ए संसार असार ठे रे जीवडा, वृजे विरलो कोय. ॥ ए संसार तजी
 गया रे जीवडा, ते नर सुखीया होय ॥ चतुरनर चेतो रे चित्तमांही ॥
 ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ राज अणी जलबिंदुयो रे जीवडा, जेहवो संध्या
 नो राग ॥ इण्णिपरे चंचल आउखुं रे जीवडा, जागी सकेतो जाग ॥ च०
 ॥ २ ॥ धन धन रामा कांइ करे रे जीवडा, कारमो एह संसार ॥ सोवन
 मय नव कूंगरी रे जीवडा, नंदे तजी निरधार ॥ च० ॥ ३ ॥ माता मयग
 लनी परे रे जीवडा, मन्मथ थयो रे अपार ॥ नरक निगोदमां जायशो रे
 जीवडा, तेहवो जाणी संसार ॥ च० ॥ ४ ॥ यौवन वय वइ जाशे रे जी

॥ वर्द्धमान जिन वीनवुं, साहिव साहस धीरोजी ॥ तुम दरिसण विण
 हुं नस्यो, चिहुंगतिमां बड वीरोजी ॥१॥ प्रभु नरकतणां दुख दोहिळां,
 में सह्यां काल अनंतो जी ॥ सोर कियां नवि को सुणे, एक विना जगवंतो
 जी ॥ प्र० ॥ २ ॥ पाप करीनें प्राणीयो, पोहोतो नरक मजारो जी ॥ कठि
 ण कुजाषा सांजली, नयण श्रवण दुखकारो जी ॥ प्र० ॥ ३ ॥ सीतल
 योनें ऊपजे, रहवे वधते ठामो जी ॥ जानुं प्रमाणे रुधिरना, कीचकह्यां
 बहु तामो जी ॥ प्र० ॥ ४ ॥ तव मनमांहें चिंतवे, जाश्ये किणि देशे ना
 सो जी ॥ परवश पडियो प्राणीयो, करतो कोडी विखासो जी ॥ प्र० ॥
 ॥ ५ ॥ चंद्र न त्यां सूरज न त्यां, घोरघटा अंधकारो जी ॥ थानक अति
 असुहासणा, फरस जिस्थो खुरधारो जी ॥ प्र० ॥ ६ ॥ नवो नरकमां उप
 जे, जाणे असुर तिवारो जी ॥ कोष करी आवे तिहां, हाथ धस्यां हथि
 यारो जी ॥ प्र० ॥ ७ ॥ करिय कतरणी देहना, करतां खंनो खंन जी ॥
 रीव अतीव करे बहु, पामे दुख प्रचंनो जी ॥ प्र० ॥ ८ ॥

॥ ढाल वीजी ॥ वैरागी थयो ॥ ए देशी ॥

॥ जांजे काया जांजतो रे, मारे फेंचामांय ॥ जंधे माथे अगनी देशे रे,
 उंचा बांधे पायो रे ॥१॥ जिनजी सांजलो ॥ कडुआ करम विपाको रे ॥ जी ॥
 वैतरणी तटिनीतणां रे, जलमां नाखे पास ॥ करीय कुहाडो तरुपरे रे,
 ठेदे अधिक ठळासो रे ॥ जि ॥ २ ॥ उंचा जोयण पांचसें रे, उठाखे

आकाश ॥ स्वरूपे करडे तिहां रे, मृग जिम पाडे पास रे ॥ जिण ३ ॥
 पनरे जेदे सुर मिली रे, करवत दीये रे कपाल ॥ आरोपि शूली शिरे रे,
 जांजे जिम तरु कावो रे ॥ जिण ॥ ४ ॥ बोले ताता तेलमां रे, तली करी
 काढे ताम ॥ वली जोजरमां क्षेपवे रे, विरुआ तास विरामो रे ॥ जिण ॥
 ५ ॥ खाल उतारे तेहनी रे, आम्पीष दीये आहार ॥ बहु अरडाट ते पा
 डता रे, तन विच घाले खारो रे ॥ जिण ॥ ६ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ राग मारु ॥

॥ तापकारी ते जूमीका रे, वनसुशीतल जाण ॥ आवी वेसे तरुअर ठां
 हडे रे, पडतां जांजे प्राण ॥ १ ॥ चतुर म राचजो रे, विरुआ विषय विला
 स ॥ चण ॥ सुख थोडां दुख बहुलां जेहथी रे, लहीये नरकनिवास ॥ चण
 ॥ २ ॥ कुंजीसांहे पाक करी तस देहना रे, तिलजिम घाणि साहिं ॥ पीलि
 पीलिने रस काढे तेहना रे, महिर न आवे काहिं ॥ चण ॥ ३ ॥ नाठा
 जाण त्रीजी नरकलो रे, मन धरतां तपत्रांत ॥ पठी परमाधरमी सुर मि
 ले रे, जेहवा कालकृतांत ॥ चण ॥ ४ ॥ खाल उतारे तेहनी खंतशुं रे,
 खार जरे तस देह ॥ पूरानी पेरे ते तिहां टलवले रे, मेहेर न आवे केह
 ॥ चण ॥ ५ ॥ दांतां विच दे दस आंगुली जी, फिरि फिरि लागे पाय ॥
 वेदन सहतां काल थयो घणुं जी, हवे ए सहिअन जाय ॥ चण ॥ ६ ॥
 जिहां जाये तिहां जठे मारवा रे, कोई न पूठे सार ॥ दुखचरी रोवे दान
 से न कखो रे, निपट थइ निराधार ॥ चण ॥ ७ ॥

॥ ढाल चोथी ॥ रे जीव धरम न कीधलो ॥ ए देशी ॥

॥ परमाधामी सुर कहे, सांजल तुं जाई ॥ केहा दोष अमारडा, निज
 देख कमाई ॥ पण ॥ १ ॥ पापकरम कीधां घणां, बहु जीव विणास्या ॥
 पीड न जाणी परतणी, कूडां मुख जाख्या ॥ पण ॥ २ ॥ चोरी लीधां धन
 पारकां, सेवी परनार ॥ आरंज काम कीयां घणां, परिग्रह नहीं पार ॥ पण
 ॥ ३ ॥ निसि जोजन कीधां घणां, बहु जीवसंहार ॥ अजह्य अथाणां आ
 चख्यां, पातिक नहीं पार ॥ पण ॥ ४ ॥ मातपिता गुरु उलव्या, कीधा क्रो
 ध अपार ॥ मान माया लोच मन धख्यां, मतिहीण गमार ॥ पण ॥ ५ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ एम कही सुरवेदनाए, चलावे उदीरे तेहितो ॥ सिलाकंटाळा वज्र

तणा ए, तिहां पठाडे सोहितो ॥ १ ॥ तरसवसें तातो तरू ए, मुखमां
घाळें तामतो ॥ अग्निवरणे पूतली ए, आळिंगन घे जामतो ॥ २ ॥ सय
लवदन कीडो वहे ए, जीज करे शतखंरु तो ॥ ए फल निसिजोजन त
णा ए, जाणो पास ए दंरुतो ॥ ३ ॥ अति उंनो अति आकरो ए, आणे
तातो नीरतो ॥ ते घाले तस आंखमे ए, कांने जरे कथीरतो ॥ ४ ॥ का
ला अधिक विहामणा ए, वली निरधारा प्राण तो ॥ ५ ॥

॥ ढाल ठठी ॥

॥ इण्णिपरें बहु वेदन सही चित्त चेतोरे, वसतो नरकमजार ॥ चित्त०
॥ ज्ञानी विण जाणे न को ॥ चि० ॥ कहेतां नावे पार ॥ चि० ॥ १ ॥
दशदृष्टांते दोहिलो ॥ चि० ॥ लीधो नरजवसार ॥ चि० ॥ पाम्यो एले
म हारजो ॥ चि० ॥ करज्यो एह विचार ॥ चि० ॥ २ ॥ सूधो संयम आ
दरो ॥ चि० ॥ टालो विषयविकार ॥ चि० ॥ पांचे इंद्रो वसकरो ॥ चि०
॥ जिम होये बुटकवार ॥ चि० ॥ ३ ॥ निद्रा विकथा परिहरो ॥ चि० ॥
आराधो जिनधर्म ॥ चि० ॥ समकित रतन हिये धरो ॥ चि० ॥ जाजें मि
थ्या जर्म ॥ चि० ॥ ४ ॥ वीर जिणंद पसाउलें ॥ चि० ॥ अहीपुर नगर
मजार ॥ चि० ॥ स्तवन रच्यो रलीयामणो ॥ चि० ॥ परमकृपाल उदार ॥
चि० ॥ ५ ॥ इति चउगतीवेलनी सञ्चय समाप्त ॥

॥ अथ श्रीलक्ष्मीरत्नसूरिकृत अजक्षयअनंतकायनी सञ्चय ॥

॥ ढाल ॥ जिनशासन रे सूधी सदहणा धरे, सुणी गुरुमुख रे नवे तत्व
निरता करे ॥ मिथ्या मति रे कपट कदाग्रह परिहरे, सही पाले रे ते नर
समकित मन खरे ॥ नुटक ॥ मनखरे समकित शुद्ध पाले, टाले दोष दया
परो ॥ धुर पंच अणुव्रत त्रण गुण व्रत, च्यार शिद्धा व्रत धरो ॥ इम देशविर
ति क्रियानिरति, करो जवियण मन रुली ॥ दाखवी नियगुण परह केरा, दोष
मम काढो वली ॥ १ ॥ ढाल ॥ मम काढो रे लोची नर कूडो करो, जाणी सावध
रे अजक्षयवावीसे परिहरो ॥ वड पींपलरे पीपरीने कतुंवरो ॥ उंबर फल रे
रखे तुमे जक्षण करो ॥ नुटक ॥ रखे जक्षणकरो माखण, मय मधु आमिष
तणुं ॥ विष हिम करहा ठांकी परहा, दोष मूल माटी घणुं ॥ परिहरो सज्जन
रयणिजोजन, प्रथम दूरगति वारणुं ॥ ममकरो व्याधु अति असुरं, रविउ
दयविण पारणुं ॥ १ ॥ ढाल ॥ अथाणुं रे अनंतकाय सवि निर्मायें, काचुंगोरस

रे मांहे कठोल नवि जिमीये ॥ वली वेंगण रे तुष्टफल सवि ठंकीये, आप
 णपुं रे व्रत लीधुं नवि खंकीये ॥ त्रुटक ॥ नवि खंकीये सवि नीमलेइ, देइ
 फल व्रतजंगनुं ॥ अज्ञातफल बहुबीज जक्षण, चलित रस हुये जेहनुं ॥
 संवरआणी अजह्यजाणी, तजो ए बावीश ए ॥ गुस्वयण त्रिगते वक्षिय
 प्रीठो, अनंतकाय वत्रीश ए ॥ ३ ॥ ढाल ॥ अनंती रे कंदजाति जाणो
 सहु, जस जक्षण रे पातिक बोढ्या ठे बहु ॥ कचूरुं रे हलदर नीली आ
 डु वली, वज्रसूरण रे कंदवेहु कुमली फली ॥ त्रुटक ॥ जे फलीअ कुमली
 बीज पाखे, चाखे चतुर न आंवली ॥ आढू पिंकाढू पेग थुहर, शतावरी
 खसणकली, ॥ गाजर मूला गलो गिरणी, निरहाली टंकवहूलो, पहांक सू
 रण बोढ वीली, मोथनीली सांजलो ॥ ४ ॥ ढाल ॥ वंश करेलां रे कुंपल
 कुअला तरुतणा, अंकुरारे लोढा ते जल पोयणा ॥ कुंआरी रे जसरवृक्ष
 नी ठालडी, जे कहिये रे लोके अमृत वेढडी ॥ त्रुटक ॥ वेढडी केरा तंतु
 ताजा, खिलोडाने खरसूआ, जूइंफोडी ठत्राकार जाणो, नीलफूल ते सवि
 जूआ ॥ वत्रीस लोक प्रसिद्ध बोढ्या, लक्ष्मीरत्नसूरी इमकहे ॥ परिहरे जे
 बहु दोष जाणी, प्राणी ते शिव सुख लहे ॥ ५ ॥ इति ॥ अजह्य अनं॥

॥ अथ श्रीन्यायशिवलठीकृत असजाइ वारकनी सञ्चाय प्रारंभ ॥

॥ ढाल चोपाइनी ॥ पवयणदेवी समरी सात, कहियुं सधुरी सासनवात
 ॥ धर्म आसातन वर्जिकरो, पुण्य खजानो पोते जरो ॥ १ ॥ आसातन क
 हिये मिथ्यात, तस वरजन समकित अबदात ॥ आसातन करवा अनकरे,
 दीर्घजव दूख पोते वरे ॥ २ ॥ अपवित्रता आसातन मूल, तेहनुं घर कतु
 वंती प्रतिकूल ॥ ते कतुवंति राखो दूर, जो लुभे वांठो सुख जरपूर ॥ ३ ॥
 दर्शन पूजा अनुक्रमे घटे, चारे साते दिवसें मटे ॥ परसासनपण इम स
 हहे, चारे सुद्ध होये ते कहे ॥ ४ ॥ पहेलेदिन चंकावणी कही, बीजेदिन
 ब्रह्मघातिनी सही ॥ त्रीजे दिन धोवण समजाण, चौथे शुद्धहोये गुणखा
 ण ॥ ५ ॥ रतुवंती करे घरनुं काम, खांण पीसण रांधण ठाम ॥ ते अन्न
 प्रतिखाण्या मुणी, सजति सधली पोते हणी ॥ ६ ॥ तेहज अन्न चर्त्तादिक

णी जरे, ते पाणी देहरासरे चडे ॥ बोधबीज नवि पामे किमें, आसातन
थी बहुजव जमे ॥९॥ असजाश्मां जिमवा धसे, विचे बेसीने मनमां हसे
॥ पोतसवे अजडावी जिमे, तेणे पापे डुर्गति डुःखखमे ॥ १० ॥ सामा
यक पडिकमणुं ध्यान, असजाईयें नवि सूजे दान ॥ असजाईयें जो पुरुष
आजडे, तिणे फरसे रोगादिक नडे ॥ ११ ॥ रतुवंती एक जिनवरनमी,
तेणे करमे ते बहुजव जमी ॥ चंमालणी थई ते वली, जिन आसातन तेह
ने फली ॥ १२ ॥ एमजाणी चोखाई जजो, अवधि आसातन दूरे तजो ॥
जिनसासन किरिया अनुसरो, जेम जवसायर हेलां तरो ॥ १३ ॥ श्रद्धालु
सेवा विधिसार ॥ अनुष्ठान निजशक्ति अपार ॥ द्रव्यादिक दूषण परिहरो,
पद्मपातपण तेहनो करो ॥ १४ ॥ धन्य पुरुषने होयविधि जोम, विधिपकारा
धक सविजोग ॥ विधि बहुमानी धन्य जे नरा, तिमधिधि पद्म अदूस्सम
खरा ॥ १५ ॥ आसणसिद्धि ते होवे जीव, विधिपरिणामी होये तसपीव
॥ अविधि आसातन जे परिहरे, न्याये शिवलडी तस वरे ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीयशशिष्यकृत सुगुरुनी सद्यय श्रारंज ॥

॥ ढाख पहेली ॥ रुषजनोवंश रयणायरू ॥ ए देशी ॥ सदगुरु एहवा सेवि
ये, जे संयम गुण राता रे ॥ नजसम जगजन जाणता, वीरवचनने ध्या
तारे ॥ १ ॥ सदगुरु एहवा सेविये ॥ ए आंकणी ॥ चार कषायने परिहरे,
साचूं सुजमति जाणें रे ॥ सजस वंत अकिंचना, संनिधि कांइं न राखे रे
॥ स० ॥ २ ॥ आणिय जोजन सूजतूं, साहमीनें देइ जूंजे रे ॥ कलह क
था सविपरिहरे, श्रुत सद्यय प्रयुंजे रे ॥ स० ॥ ३ ॥ कंटक गाम नगर त
णा, सम सुख दुख अहिआसे रे ॥ निरजय हृदय सदाकरे, बहुविध तप
सुविवासे रे ॥ स० ॥ ४ ॥ मेह मेदिनी परें सवि सहे, काठस्सगमें परि
तापो रे ॥ खमिय परीसह उद्धरे, जाति मरण जय व्यापो रे ॥ स० ॥
॥ ५ ॥ करे क्रम वचन सुसंयता, अध्यातम गुणलीना रे ॥ विषयविचूति
न अजिखषे, सूत्र अरथ रस पीना रे ॥ स० ॥ ६ ॥ एह कुशील न इम
कहे, जेहथी परजन रूपे रे ॥ जातिमदादिक परिहरी, धरमध्यान विचूपे
रे ॥ स० ॥ ७ ॥ आप रहे व्रतधर्ममां, परने धर्ममां थापे रे ॥ सर्व कुशील ल
क्षण व्यजी, बंधन जवतणा कापे रे ॥ स० ॥ ८ ॥ अध्याने कहा गुण घणा, दश
वैकालिक दशमे रे ॥ कंचन परें तेह परखीयें, एकालें पण विपमें रे ॥ स० ॥ ९ ॥

॥ ढाल बीजी ॥ चोपाइनी देशी ॥

॥ उत्तराध्ययने कह्यो ते तणो, मारग ते हवे नवियण सुणो ॥ हिंसा
अलिय अदत्त अवंज, ठांमे वली परिग्रह आरंज ॥१०॥ धूप पुष्प वासित
घरचित्र, मनें न वंठे परम पवित्र ॥ जिहां रहेतां इंद्रिय सविकार, काम
हेतु होवे ते निवार ॥ ११ ॥ स्त्री पशु पंरुक वर्जित ताम, प्रासुक वासकरे
अजिराम ॥ घर न करे न करावे कदा, त्रस थावर वध जिहां ठे सदा
॥ १२ ॥ अन्न पान न पचावे पचे, पचतुं देखी नवि मन रूचे ॥ धान नीर
पृथ्वी तृणपात, निश्चित जीवतणो जिहां घात ॥ १३ ॥ दीप अगनी
दीपावें नही, शस्त्र सरव दारु ते सही, कंचन तृणसम वडी मनधरे, क्रय
विक्रय कहियें नवि करे ॥१४॥ खरीदार क्रय करतो रह्यो, विक्रय करतो
वली वाणियो ॥ क्रयविक्रयमां वत्तें जेह, जिह्नुजाव नवि पाले तेह ॥१५॥
क्रयविक्रयमा बहुली हाणि, जिह्नुवृत्ति महागुण खाणि ॥ इमजाणी आ
गम अनुसरी, मुनि समुदाय करे गोचरी ॥ १६ ॥ रसलालची नकरे गुण
वंत, रसअर्थें नवि जुजें दंत ॥ संयमजीवित रक्षाहेत, संतोषी मुनि जो
जन लेत ॥ १७ ॥ अर्चन रचना परजानती, नविवंठे शुभध्यामी यती ॥
करी महाव्रत आराधना, केवलज्ञान लहे शुभमना ॥ १८ ॥

॥ ढाल बीजी ॥ श्रीसीमंधरजिन त्रिचुवन ज्ञाण ॥ ए देशी ॥

॥ मारग साधुतणो ठे जावे, दर्शन ज्ञान चारित्रस्वजावे ॥ चरकादिक
आचार कुपंथे, पासठादिकना निजयूथें ॥ १९ ॥ आधाकर्मादिक जे से
वे, कालहाणी मुख दूषण देवे ॥ जिनमारग ठोडी नवकामी, थापें कुमत
कुमारग गामी ॥२०॥ मारग एक अहिंसा रूप, जेहथी जतरिथें नवकूप
॥ सर्वयुक्तिथी एहज जाणो, एहज सार समय मन आणो ॥ २१ ॥ ऊर
ध अध तीरठा जे प्राणी, त्रस थावर ते न हणें नाणी ॥ एषण दोष त्यजे
उदेशी, कीधुं अन्न न खीये शुभलेशी ॥२२॥ आधाकर्मादिक अविशुद्ध,
अवयवं मिश्रित जे ठे अशुद्ध ॥ तेपण वृत्ति दोषथी टाले, ए मारगी संय
म अजुआले ॥२३॥ हणताने नवि मुनि अनुमोदे, कूपादिक न वखाणें
मोदें, पुण्यपाप तिहां पूठे कोइ, मौनधरे जिन आगम जोइ ॥२४॥ पुण्य
कहेतो पातक पोषे, पापकहे जनवृत्ति विशोषे, केइजाषे निरदोष आहार,
सूजे अमने इहां अधिकार ॥२५॥ मुगतिकाजें सधि किरिया करतो, पू

रण मारग जाषे निरतो, जवजल वहता जननें जेह, छीपसमान करे दुः
ख ठेह ॥ २६ ॥ एह धरम न लहे अज्ञानी, बलिय अपंकित पंकित मा
नी ॥ बीज उदक उदेशिकजुंजी, ध्यान धरे असमाधि प्रयुंजी ॥ २७ ॥
माठां नक्षत्र ध्याये पंखी, ढंकादिक जिम आमिष कंखी ॥ विषय प्राप्ति
ध्यायेतिम पापी, बहुद्वारंज परीग्रह थापी ॥ २८ ॥ विषयतणां सुख वंठे
प्राणी, परीग्रहवंत न ते सुहजाणी ॥ ते हिंसाना दोष न दाखे, निजमति
कद्विपत कारण जाखे ॥ २९ ॥ अंधचलावे क्लाणी नावा, तेह समर्थ न
हीरेंजावा ॥ मिथ्यादृष्टि जवजल पडिया, पार न पामे तिम दुख नडिया
॥ ३० ॥ जेह अतीत अनागत नाणी, वर्त्तमान तस एक कहाणी ॥ द
यामूल समतामय सार, धर्म ठे तेहनो परमाधार ॥ ३१ ॥ धर्मलही उप
सर्ग निपातें, मुनि न चले जिम गिरि घनवातें ॥ इग्यारसुं अध्ययन सं
चारो, बीजे अंगे इम मन धारो ॥ ३२ ॥

॥ ढाल चोथी ॥ इणपुर कंबल कोइ न लेशी ॥ ए देशी ॥

॥ ते मुनीने जानण्डें जइयें, जे व्रत किरियापाळे रे ॥ सूयुं जाखे जे
बली जगसां, जिनमारग अजुआळे रे ॥ ३३ ॥ ते मुनिनें चामण्डें जइयें
॥ ए आंकणी ॥ जे सुथो मारग पाळे ते, शुद्ध कहियें निरधारे रे ॥ बीजो
शुद्ध कहें नजनायें, कहिळं जाष्य व्यवहारे रे ॥ ते ॥ ३४ ॥ द्विविधवाल
ते शुद्ध न जाखे, जाखे संवेग पाखी रे ॥ ए नजनानो जाव विचारो, ठा
णांगादिक साखी रे ॥ ते ॥ ३५ ॥ कुयुरुवासना पाशपड्याने, निजवल
थी जे ठोडे रे ॥ शुद्धकथक ते गुणमण्डिरिया, मार्ग मुगसिनें जोडे रे ॥
ते ॥ ३६ ॥ बहुद्व असंयतनी जे पूजा, ए दसमुं अठेरं रे ॥ षष्टिशतकें
जाख्युं ठाणांजे, कलि लक्षण अधिकेरं रे ॥ ते ॥ ३७ ॥ एहमां पण जि
नशासन बलथी, जे मुनि पूज चलावे रे ॥ तेह विशुद्ध कथक बुध जन
ना, सुरपतिपण गुणगावे रे ॥ ते ॥ ३८ ॥ करतो अतिदुःकरण पडियो,
अगीतार्थ जंजाळे रे ॥ शुद्धकथक हीणो पण सुंदर, वोढ्युं उपदेशमाळे
रे ॥ ते ॥ ३९ ॥ शुद्धप्ररूपक साधु नमी जे, शरण ते तेहनं कीजे रे ॥
तासवचन अनुसारे रहीने, चिदानंद फल लीजे रे ॥ ते ॥ ४० ॥ सिरि
णयविजय गुरुणां, असाय मासका सयल कम्मकरं ॥ जणिया गुणगुरुणा
णां, साहुण जसं सिणं ए ए ॥ ते ॥ ४१ ॥ इति श्रीसुगुरुनी संघाय ॥

॥ अथ श्रीमेरुविजयजीकृत पृथ्वी सचितअचितनी सद्याय प्रारंज ॥

॥ चोपाइनी देशी ॥ प्रथमनमुं सहगुरुतुं नाम, जेम मन वांठित सीके
काम ॥ प्रथवी सचित अचित विचार, ते कहीये सूत्रने आधार ॥ १ ॥
अव्यापार क्षेत्र जूमिका, अंगुल चार अचितहोये तिका ॥ राजमार्गे अंगु
ल ते पंच, सेरीजिहां सात अंगुल संच ॥२॥ गृहजूमिकायें दश आंगुलां,
मलमूत्रगर्भे पनर ते जलां ॥ चउपद ठामे अंगुल एकवीस, चूलाअध अं
गुल वत्रीस ॥ ३ ॥ निमाडाहेठ व्होतर अचित्त, पठी जिनकहे होये स
चित्त ॥ ईटवाहे ठे हवे ते जोय, एकसो ठ अंगुल अचितज होया ॥४॥ फा
सुक जूमि जाणे ते यति, तेदने पाप न लागे रती ॥ दालविजय शिष्यमे
रुकहे, श्रीसुगडांग वृत्तिथी लहे ॥५॥ इति पृथ्वी सचितअचित सद्याया ॥

॥ अथ श्री सुमतीहंसकृत करमपञ्चीसीनी सद्याय प्रारंजः ॥

॥ दाल ॥ पेख करमगति प्राणिया, सायर जेम अथाहो रे ॥ अलख
अगोचर ए सही, श्म जाषे जिण नाहो रे ॥ पे० ॥ १ ॥ ब्रह्माविष्णु महे
सरा, करता जाषे जेहो रे ॥ मारग चूकीया धीर ते, उजाडे पड्या तेहो
रे ॥ पे० ॥ २ ॥ एह करम करता सही, मत बीजो मन जाणो रे ॥ करम
पसायें जोगवे, रांक अने वली राणो रे ॥ पे० ॥ ३ ॥ पापपमल सहिपरि
हरो, साचो जिनधर्म संचो रे ॥ पोषी पोढो स करमनें, जीव जणी मत
वंचो रे ॥ पे० ॥ ४ ॥ करमवसे सुख दुख हुवे, दीलाखमी लाहो रे ॥
जलाजला जूपती नड्या, रणहुंताजिम राहो रे ॥ पे० ॥ ५ ॥ करकंठूनें
साधवी, परठवीयो समसाणो रे ॥ वेहू देशनो राजीयो, डुकर करम प्र

लायो रे ॥ पे० ॥ १२ ॥ आषाढजूति महामुनी, मोदकसुं ललचाणो रे ॥
 सदगुरु वचनने उलंगी, नटविशुं जंभाणो रे ॥ पे० ॥ १३ ॥ दासीमोहे मो
 हियो, मूंज वडो राजानो रे ॥ घरघर जीख जमाडीयो, मत कोई करो गु
 मानो रे ॥ पे० ॥ १४ ॥ घणादिवस जोले वहे, बलिजद्र कांधे वीरो रे ॥ ह
 रीचंद्रराजायें आणीयो, नीचतणे घरे नीरो रे ॥ पे० ॥ १५ ॥ साठसहस सुत
 सामटा, सगररायना सारो रे ॥ नागकुमारे बाळीया, करमतणो परिचारो
 रे ॥ पे० ॥ १६ ॥ तीर्थकर चक्रवर्ति हरी, जे सुखजोगवे देखे रे ॥ साखिजद्र
 सुख जोगवे, ते सहु करम विशेषे रे ॥ पे० ॥ १७ ॥ सींहगुफा वासी मुनी,
 दोड्यो कोस्या बोले रे ॥ रतनकंवल कारण गयो, चोमासे नेपाले रे ॥ पे०
 ॥ १८ ॥ साधु थई चंरुकोशीयो, पामी वीरसंयोग रे ॥ अणसण लही सूधे
 मने, विलसे सुरना जोग रे ॥ पे० ॥ १९ ॥ अवखा सवलो जाणीने, सू
 तीकंत विमासी रे ॥ राति मांहि मूकी करी, नलराजा गयो नासी रे ॥
 पे० ॥ २० ॥ सतीय शिरोमणी ड्रौपदी, नामथकी निस्तारो रे ॥ करम वशे
 तेणे सही, पंच वस्था जरतारो रे ॥ पे० ॥ २१ ॥ सहस पचीस सेवा करे,
 सुर लखमी विण पारो रे ॥ सुजुमचक्रीस नरकें गयो, ब्रह्मदत्त ए अधिका
 रो रे ॥ पे० ॥ २२ ॥ धन्य धन्य धनो धीर जे, पगपगरजि विशेषो रे ॥ करम
 पसाय थकी लहे, कयवज्जो वली देशो रे ॥ पे० ॥ २३ ॥ वस्तुपाल तेज
 पाल जे, करण अने वली जोजो रे ॥ विक्रम विक्रम पूरियो, करमतणी
 ए मोजो रे ॥ पे० ॥ २४ ॥ संवत सतर तेरोतरे, श्रीसूमतीहंस उवजाय रे ॥
 करमपचीसी ए जणी, जणतां आणंद आय रे ॥ पे० ॥ २५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीरूपविजयजीकृत मनथिरकरणनी सव्धाय प्रारंभः ॥

॥ मन थिर करजो रे समकितवासीनें, चपल म करसो रे कुगुरु उपासी
 नें ॥ ए आंकाणी ॥ समजणकरिनें चित्तमां राखे, संका कंखा वारी ॥ वितिगि
 ठानें फलनो संसय, परदरसण संगठारी ॥ दीपक सरिखो रे ज्ञान अज्यासी
 नें ॥ म० ॥ १ ॥ धनुष तीर यदी चक्र घरे जे, वयरी मारण काज ॥ अग्धंगे जे
 रमणी राखे, तेहनें नही कांइ लाज ॥ देव न कहियें रे नारी उपासीनें, पगे
 नविपडियें रे क्रोधनिवासीनें ॥ तसपय नमतां रे पामसो हांसीनें ॥ म० ॥ २ ॥
 धनकण कंचण कामनी राता, पापतणा जंभार ॥ मारग लोपी कोपीन
 पेहेरी, किम लहसे जवपार ॥ परिग्रहसंगी रे रखा घरमांकीने, विपय प्र

संगी रे लज्जा ठांकीनें ॥ मत गुरु करजो रे जोगविलासीनें ॥ मण॥ ३ ॥ गो
महीखी अजी अवी पय माखण, खरी करत्री सुनी झूध, रोजी अरक
शुअर खुरसाणी, पय माखण नही सुद्ध ॥ छुरगति पडतां रे रहेजो साझे,
धरम ते कहीये रे निश्चय लाझे ॥ नामे म चूलो रे जूड तपासीनें ॥ म०
॥४॥ चोरी जारि दूर निवारो, मतकरो लोच अपार ॥ कृमा दया मनमां
नित धारो, जिम निस्तरीये संसार ॥ पाप म करजो रे जीव विनासीनें, जुठ
न केदेशो रे बल मनवासीने, सुख जस लहिये रे धरम उपासिने ॥ म०
॥ ५ ॥ पंचसमिति त्रण गुपतिना धोरी, धरम ध्यान धरनारा ॥ शुक्ल
ध्यानमां जस मन वरते, ते गुरु तारणहारा ॥ तसपद पूजो रे सरधा धा
रीनें, सेवना करजो रे कुमति निवारीनें ॥ सेवो ध्यावो रे परम निराशिनें
॥ म० ॥ ६ ॥ जिन उत्तमपद पदमनी सेवा, करजो साचे चित्त ॥ रूपवि
जय कहे अनुभव लीला, घटमां प्रगटे मित्य ॥ तिम नित्य करजो रे ज्ञान
अज्यासीने, सम दम धरजो रे, ध्यान उपासीने ॥ शिवसुख वरजो रे
चिदघन रासीने ॥ म० ॥ ७ ॥ इति मनस्थिर करणनी सद्याय ॥

॥ अथ श्रीनेम राजूलनो पत्र प्रारंभः ॥ राग सामेरी ॥

॥ स्वस्तिश्री रेवयगिरिवरा, वाहाला नेमजी जीवनप्राण ॥ खेख लखुं
होसें करी, राणी राजूल चतुर सुजाण ॥१॥ वेहेला घरे आवजो ॥ महारा
जीवन यादवराय, वार म लावजो ॥ मे तो खिख्यो होसें लेख, मनमां जा
वजो ॥ वली जे होय वेधक जाण, तास संजलावजो ॥ २ ॥ महारा जीवन
यादवराय ॥ वे० ॥ ए आंकणी ॥ हेम कुशल वरते इहां, वाहाला जपतां
प्रजुजीनुं नामा ॥ साहिव सुख शाता तणो, मुज खिखजो लेखताम ॥ वेला०
॥ ३ ॥ साव सोवन कागल करुं, वाहाला अकर रयण रचंत ॥ मणि मा
एक मोती लेखण जडुं, हुंतो पीयु गुण प्रेमें लखंत ॥ वेहेला० ॥ ४ ॥
जे तोरणथी पाठा वळ्या, तेहने कागल लखुं कई रीत ॥ पण न रहे
मन माहरुं, मुने साखे पूरव प्रीत ॥ वेहेला० ॥ ५ ॥ दिवस जेम तेम
करि निगमुं, मुने रयनी वरष हजार ॥ जो होय मन मखवा तणुं, तो
वेहेला करजो सार ॥ वेहेला० ॥ ६ ॥ नवयौवने पीउ घर नहिं, वसवुं ते
डुरिजन वास ॥ बोले बोले दाखवे, वाहाला उंफा मर्म विमासि ॥ वेहे
ला० ॥ ७ ॥ सहुको रमे निज माळिये, वाहाला कामिनी कंत सेहेज ॥

थर थर ध्रुजे माहारी देहडी, महारी सुनी देखीने सेज ॥ वेहेलाण ॥७॥
 वीती ह्मेशे ते जाणशे, वाहाला विरहनी वेदन पूर ॥ चतुरा चित्तमां स
 मजशे, शुं लहे मूरख चूर ॥ वेहेलाण ॥८॥ पतंग रंग दिसे जलो, वाहाला
 न खमे तावड रीठ ॥ फाटे पण फीटे नहीं, हूं तो वारी चोख मजीठ ॥ व
 हेलाण ॥९॥ उत्तम सज्जन प्रीतडी, जेम जल्लमां तेल निरधार ॥ ठांयडी
 त्रीजा पहोरनी, तेतो वड जेहवी विस्तार ॥ वेहेलाण ॥१०॥ दूरशकी गुण
 सांजळ्या, वाहाला मन मलवाने थाय ॥ वाहालेसर मुज वीनती, ते तो
 जिहां तिहां कही न जाय ॥ वे० ॥ ११ ॥ एके मेहळी बीजे मले, वाहला
 मनमां नहीं तस नेह ॥ लीधा मूकी जे करे, तेतो आखर आपे ठेह ॥ वे०
 ॥ १२ ॥ जे मन तें तेह मिलि रह्या, वाहाला उत्तम उपम तास ॥ जो
 जो तिल फूलनी प्रीतडी, तेहनी जगमां रही सुवास ॥ वे० ॥ १३ ॥
 खावा पीवा पहिरवा, वाहाला मन गमता सणगार ॥ जरयौवन पीउ
 घर नहीं, तेहनो एलें गयो अवतार ॥ वे० ॥ १४ ॥ बालपणे विद्या जणे,
 जरयौवन जावे जोग ॥ वृद्धपणे तप आदरे, तेतो अविचल पाले योग ॥
 वे० ॥ १५ ॥ कागल जग जलें सरजियो, वाहाला सांचो ते मित्र कहाय ॥
 मननुं दुःख मांकी लखुं, तेतो आंसुडे गलि गलि जाय ॥ वे० ॥ १६ ॥
 लेख लाखेणो राजुल लख्यो, वाहाला नेमजी गुण अजिराम ॥ अदरे
 अदर वांचजो, माहरी कोडा कोड सलाम ॥ वे० ॥ १७ ॥ नेम राजुल
 शिवपुरि मढ्यां, पूगी ते मनकेरी आस ॥ श्री विनयविजय उवजायनो,
 शिष्य रूप सदा सुखवास ॥ वेहेलाण ॥ १८ ॥ इति ॥

॥ अथ घडपणनी सध्याय ॥ अयवंति सुकुमर सुणो चित्तलाय ॥ ए देशी ॥

॥ घडपण तुंकां आवियो रे, तुज कुण जोये ठे वाट ॥ तुं सहुने अलखा
 मणो रे, जेम मांकण जरी खाट रे ॥ घड० ॥ १ ॥ गतिजांजे तुं आवतां
 रे, उद्यम जडीजाय ॥ दांतडला पण खसी पडे रे, दालपडे सुख मांय रे
 ॥ घ० ॥ २ ॥ बलजांगे आंखो तणो रे, श्रवणे सुणियो न जाय ॥ तुज आ
 वे अवगुण घणा रे, धवळी होये रोमराय रे ॥ घ० ॥ ३ ॥ केड दुःखे गूना
 रहे रे, सुखमां सास न माय ॥ गाले पडे करोचली रे, रूप शरीरनुं जाय
 रे ॥ घ० ॥ ४ ॥ जीजडली पण लडथडे रे, आण न माने कोय ॥ घरे स
 हुने अलखामणो रे, सार न पूठे कोय रे ॥ घ० ॥ ५ ॥ दीकरडा नाशि

गया रे, बहुअर दीये ठे गाल ॥ दीकरी नावे ठूकडी रे, सवल पड्यो ठे
जंजाल रे ॥ घ० ॥ ६ ॥ काने तो ढांको वली रे, सांचले नहीं अ लगार ॥
आंखे तो ठाया वली रे, एतो देखी नशके लखार रे ॥ घ० ॥ ७ ॥ उंवरोतो
कूंगर थयुं रे, पोल थइ परदेश ॥ गोलीतो गंगा थइ रे, तसे जूजं जगना बेल
रे ॥ घ० ॥ ८ ॥ घडपण वाहाली लापसी रे, घडपण वाहाली चीत, घड
पण वाहाली लाकडी रे, जूजं घडपणनी रीत रे ॥ घ० ॥ ९ ॥ घडपण
तुं अकह्यागरो रे, अणतेड्यो भावेस ॥ जोवनीयुं जगवावहो रे, जतन हुं
तास करेश रे ॥ घ० ॥ १० ॥ फट फट तुं अजागीया रे, योवननो तुं का
ल ॥ रूपरंगने जंगीजतो रे, तुंतो महोतो चंजाल रे ॥ घ० ॥ ११ ॥ नीसा
से उसासमें रे, ॥ दैवनें दीजीयें गाल ॥ घडपण तुं कां सरजीयो रे, ला
गो महारे निह्लाड रे ॥ घ० ॥ १२ ॥ घडपण तुं सदावडो रे, हुं तुज करं
रे जुहार ॥ जे में कही ठे वातडी रे, जाणजे तास विचार रे ॥ घ० ॥ १३ ॥
कोई न वंठे तुजने रे, तुंतो डूर वसाय ॥ विनय विजय उवजायतुं रे,
रूपविजय गुणगाय ॥ घ० ॥ १४ ॥ इति घडपणनी सद्याय ॥

॥ अथ आत्महित शिकानी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ प्यारीते पियुने इम प्रीठवे, पेखी नजीक प्रयाण रे ॥ पंथीयडा, बटा
उडा ॥ आजनो वासोरे तुंतो इहां वस्यो, कालनां किहां होशे मेलाण रे ॥ १ ॥
पंथीयडा बटाउडा ॥ चार दिशे रे फरे चौरटा, जीवन सूतो जाग रे ॥ पं० ॥
चरणे चारित्र धर्म रायनें, लागी सकेतो लाग रे ॥ पं० ॥ २ ॥ रांधण
आदे महा रोग जे, लागी ठे ताहरी खार रे ॥ पं० ॥ ३ ॥ ते आवे ठे ते
हुं तेडा उपरें, बहुकालनुं ताहरे बार रे ॥ पं० ॥ ४ ॥ परदेशी आं
णां पाठां नही फरे, सासरवासो सज्य रे ॥ पं० ॥ ५ ॥ साथ चलते जग
वंतने, जजी सकेतो जज्य रे ॥ पं० ॥ ६ ॥ माथे नगरां बाजे मरणनां,
हाथे ते आवे साथ रे ॥ पं० ॥ ७ ॥ खाशे कुटुंब खुंखारा करी, बाकी ताहरी
आथ रे ॥ पं० ॥ ८ ॥ मदनो ठाक्यो रे न लहे तुं मने, रुग रुग दै
वनी रुंग रे ॥ पं० ॥ ९ ॥ जो तुं वाले रे तो जाणुं खरो, खोह्या जवना खां
गरे ॥ पं० ॥ १० ॥ सुख तुं माणे ठे धणनी सेजसां, धण ते धूतारी
ठे धीठ रे ॥ पं० ॥ ११ ॥ गरथ खाशे गणिकानी परे, आखर होशे अदीठ
रे ॥ पं० ॥ १२ ॥ ममता वाह्यो रे तुं थइ मोटको, परशुं माने ठे प्रीत रे ॥

पं० ब० आपस्वरूप नवि उलखे, अनेक चलावे अनीत रे ॥ पं० ब० ॥ ८
 ॥ चुत चुतमांहे जाशे जली, दावो र्हेशे दाम रे ॥ पं० ब० ॥ बाह्य कु
 टंब मढ्युं ठे बहू, पण कोइ नावे काम रे ॥ पं० ब० ॥ ए ॥ चेतन निज
 पियुने चेतना, बाला बूजवे एम रे ॥ पं० ब० ॥ अचेतनसाथे एहवी आ
 शकी, कहोने कीजे केम रे ॥ पं० ब० ॥ १० ॥ उदय वदे जे अरिहंतना,
 आशक होशे अतीव रे ॥ पं० ब० ॥ पडशे नडी जे मोहना पासमां, मु
 गते जाशे ते जीव रे ॥ पं० ब० ॥ ११ ॥ इति समाप्तः ॥

॥ अथ श्रीसीतासतीनी सद्यय प्रारंभः ॥

॥ गाथा ॥ सरस्वती जगवती जारती, प्रणमी तेहना पाय रे ॥ ॥ सी
 ताना गुण गाय शुं, जिम मुज आणंद थाय रे ॥ १ ॥

॥ उथलो ॥ आणंद थाये गुणज गातां, जनकराय सुतासही ॥ अयोध्या
 पति दशरथ नंदन, वरी रामें गहगही ॥१॥ अतिरूप सीता त्रिजग वदीता,
 तस उपम नडी रती ॥ कर्मवसे वनवास पाम्यां, राम सीता दंपती ॥ ३ ॥

॥ गाथा ॥ लंका गढने जे रावण धणी, तेढने दश शीश सोढाय रे ॥
 सतीरे सीता तेणे अपहरी, जग सघले तेह कहेवाय रे ॥ ४ ॥

॥ उथलो ॥ कहेवाय सीता हरिय रावण, लंपट पण लाव्यो सही ॥ श्री
 रामे युद्ध करीय हणियो, पाठी लाव्या गहगही ॥५॥ अयोध्या आवे बहु
 सुख आवे, हर्ष विषाद अतिघणो ॥ लोकअपवाद सुखो श्रवणे, सही रामे
 सीता तणो ॥६॥ गाथा ॥ सहू मन मांडे चिंतवे, लोकतणी मुख बोकजी ॥
 तिणें वचने मन दुःखधरे, चिंता अने अती शोकजी ॥७॥ उ० ॥ शोकधरे
 राजाराम लक्ष्मण, चिंतवे तेह उपाय ॥ अम बोलजो निकलंक थाये, तो स
 ही आणंद थाय ॥ ८ ॥ तिण समे सीता हाथ जोडी, राम चरणे शीश नामें
 वली ॥ रघुनाथ नंदन धीज करावो, जिम पोहोचे मननी रली ॥ ९ ॥

॥ ढाढ ॥ रामसीताने धीज करावे रे, सुरनर बहु जोवाने आवे ॥ आ
 वे इंद्र इंद्राणी जोडी रे, अमरी कुमरी बहुकोडी ॥ १० ॥ मलिया तिहां
 राणो राण रे, नरनारी चतुर सुजाण ॥ महाधीज सीता तिहां मंढे रे,
 देखी शूर सुजट सत ठंढे ॥ ११ ॥ कायर नरकेता नासे रे, जइ रह्या गु
 फावन वासे ॥ त्रणसें हाथनी खाइ खणावे रे, खेइ अगार चंदने जरावे
 ॥ १२ ॥ मांहे विस्वानर परजाळे रे, उपर नामें घृतनी धारे ॥ ज्वाला ते

दशो दिशे जाय रे, सहु आकुलव्याकुल थाय ॥ १३ ॥ तिहां अग्नि दीशे
विकराल रे, जाणे जगतो सूरज बाल ॥ बालतो तरुवरनी ते माल रे,
जाणे कोपें चढ्यो विकराल ॥ १४ ॥ तेंणें समे सीता झम बोले रे, रुडां
वयण अमीरस तोले ॥ राम विना अवर मुज जाइ रे, तिहां कीधी
अग्नि सखाइ ॥ १५ ॥ झम सहूकोने संजलावे रे, सीता अग्नि कुंरुमां जं
पावे ॥ मुख नवकार गणंती गेले रे, सीता शीतल जलसां खेले ॥ १६ ॥
जलना तिहां चाले कलोल रे, जलचर जीव करे रंगरोल ॥ चक्रवाक सार
स तिहां बोले रे, हंस हंस तणी गति खोले ॥ १७ ॥ तिहां कनक कमल
दल शोहे रे, उपर वेठी सीता मनमोहे ॥ अग्नि कुंरु थयो पुष्करणी रे,
जूवो शील तणी ए करणी ॥ १८ ॥ जलक्रीडा करी तटें आवे रे, सुर नर
नारी गुण गावे ॥ पांच पुष्प वृष्टि-शिरकीधी रे, सीता त्रिभुवन हुइ प्रसि
द्धि ॥ १९ ॥ सुरनर नारी तिहां नाचे रे, देखी सीताना गुण साचे ॥ देव
दानव वार्जित्त वाये रे, इंद्रादिक अधिक उसाहे ॥ २० ॥ घरघरनां वधा
मणां आवे रे, माणक मोतियें थाल जरावे ॥ सती सीतानें सर्व वधावे रे,
सोहासण मंगल गावे ॥ २१ ॥ जामंरुल शत्रुघन होइ रे, बांधव सीता
ना दोइ ॥ रूपें अलीज करे गुण ग्राम रे, तुं ठे अमकुल तिलक समान
॥ २२ ॥ शशि वरसे किम विषधारा रे, गंगाजल न होये खारा ॥ सायर
केम उलंघाय रे, मेरु त्राजुवे केम तोलाय ॥ २३ ॥ चिंतामणि न होये का
चे रे, किम पांगलो नाटक नाचे ॥ कामधेनुं ढाली किम कहिये रे, आ
काश मान किम लहियें ॥ २४ ॥ इंद्रने घर दारीद्र नावे रे, पुण्यहीणो
ते किम सुख पावे ॥ महीष घेरावण किम जीपे रे, वंश पुत्र विना नव दी
पे ॥ २५ ॥ मान सरोवर तेह न शूके रे, सायर मर्यादा नवि मूके ॥ धुनो
तारो कदी नवि चाले रे, मंदिर गिरि कबही न हाले ॥ २६ ॥ जाचो ही
रो कहो किम चूरे रे, आकाश खाड कोण पूरे ॥ हरिजद्र वाचा नवि लोपे
रे, कहो मुनि गाल दिये नवि कोपें ॥ २७ ॥ वांज नारी जणे किम बेटो रे, सू
मने कहो कोण कहे मोटो ॥ सिंद्ने कुण कहे शियाल रे, नव नंद न होय
दयाल ॥ २८ ॥ सूर्य उग्यो पश्चिम किम पेखो रे, जीजा धर्म विना नवि
लेखो ॥ शेषनाग धरणी केम मूके रे, तो सीता शीयल न चूके ॥ २९ ॥
रघुपति कहे रथ वेशीजे रे, अयोध्या पवित्र करीजे ॥ सीता कहे नीम ल

गार रे, शिरलोच कियो ततकाल ॥ ३० ॥ पाली संयम खंका धार रे, क
री अणसण विकट उदार। बारमें देवलोके थया स्वामी रे, सीता इंद्रनी
पदवी पामी ॥ ३१ ॥ शीलें डुख दारीड जाय रे, शीलें सहु लागे पाय ॥
शीलें सो परिया तारे रे, तेतो त्रिचुवनने सणगारे ॥ ३२ ॥ तपगह्व विजय
सेन सूरि राया रे, बोले विमल हर्ख उवजाया ॥ मुनि प्रेमविजय मन जा
वे रे, सती सीताना गुण गावे ॥ ३३ ॥ इति सीतानी सधाय समाप्तः ॥

॥ अथ आत्मशिद्धानी सधाय प्रारंभः ॥

॥ समय संजाळो रे आखर चालवुं, संबल लेजे साथ होरे ॥ होरे सुण
पंथीडा ॥ सार्थी ताहारा रे पिंके परवत्या, ताळी लेइ लेइ हाथ होरे ॥ होरे
॥ सुण ॥ १ ॥ वाहलां बोलावी रे वलशे ताहारां, वचमां विषमी ठे वाट होरे ॥
होरे ॥ १ ॥ विण विसाभे रे पंथ उलंघवो, उतरवो बर्कसो घाट होरे ॥ होरे सु
॥ २ ॥ आजनो वासो रे इण मंभिर वस्यो, विषयनो मांड्यो व्यापार होरे
॥ होरे ॥ काळना उतारा रे कहनें किहां होसे, नही तेहनो निरधार
होरे ॥ होरे ॥ ३ ॥ जिहां तिहां लागे रे जमनो जीजियो, बेसे बहु बे
सराण होरे ॥ होरे ॥ ४ ॥ घरनां जाडां रे वलि जरकां पडे, नित्य नवलां रह
ठाण होरे ॥ होरे ॥ ५ ॥ ऋगले ऋगले रे दाण चूकाववुं, नित्य नवलां
मेहलाण होरे ॥ होरे ॥ परवसपणे रे पंथे चालवुं, नहि कोइ आगें वहां
ण होरे ॥ होरे ॥ ६ ॥ यौवन ससलो रे जरा कूतरी, काळ आहेडी कवा
ण होरे ॥ होरे ॥ बाण पूरीने रे पंथे बेसी रह्यो, नहि मेहले निरवाण
होरे ॥ होरे ॥ ७ ॥ तुं नथी केहनो रे कोइ नथी ताहरुं, लोभ लगे एह
ठे लोक होरे ॥ होरे ॥ परदेशीशुं रे कोण करे प्रीतडी, कां पड्या फंद
मां फोक होरे ॥ होरे ॥ ८ ॥ वीरा वटाउरे सुण एक वीनती, चाल तुं
मुक्तिनें पंथ होरे ॥ होरे ॥ सदगुरु तुजने रे संबल आपशे, जागशे जव
नी सहु त्रांति होरे ॥ होरे ॥ ९ ॥ कासीदी करतां रे काळ बहु गयो, तो
हे नाव्यो पंथनो पार होरे ॥ होरे ॥ उदय कडे अरिहंतने जजो सही,
तो तरसो संसार होरे ॥ होरे ॥ १० ॥ इति समाप्तः ॥

॥ अथ आत्मा ऊपर सधाय प्रारंभः ॥ रसियानी देशी ॥

॥ सुमति सदा सुकुलिणी वीनवे, सुणि चेतन मढाराय सुगुणनरा ॥ कुमति
कुनारी दूरे परिहरो, जिम लहो सुखसमुदाय सोजागी ॥ सुम ॥ १ ॥ आवो

रे रंगविवेक घरे प्रभु, करिखें केलि अजंग पनोताण॥ ज्ञान पलंग विठाह्यो
 अतिजह्यो, बेशीजें तस संग रंगीला ॥ सु० ॥ १ ॥ निष्टारुचि विहु चामर
 धारिका, वीजे पुण्य सुवाय सदाय ॥ उपसमरस खुसबोड महमदे, किम
 नवि आवे ते दाय ॥ ठवीला ॥ सु० ॥ ३ ॥ हृदय जरूखे वेसी दोंसशुं, मुजरो
 लीजे रे सार सवूणा ॥ कायापुर पाटणनो तुं धणी, कीजे निजपुर सार
 सनेही ॥ सु० ॥ ४ ॥ जे तें चोकी करवा नयरनी, थाप्या पांच सुजट्ट म
 दावळ ॥ तेतो कुमति कुनारी शुं मढ्या, तेणे लोपी कुलवट्ट करे ठस ॥
 सु० ॥ ५ ॥ पंच प्रमादनी मदिरा ठाकशी, न करे नयर संजाल महारा
 य ॥ मन मंत्रीसर जे तें थापियुं, गुंथे तेह जंजाल अहोनिशि ॥ सु० ॥ ६ ॥
 चौवटे चार फरे नित चोरटा, मूसे अति घणुं पुण्य तणुं धन ॥ वाहर वूंब
 खबर नहि तेहनी, गजपरे ममकरो निंद मढामन ॥ सु० ॥ ७ ॥ कपटी का
 ल अठे बहु रूपियो, हेरु परें फिरे नयर समीपें ॥ जोर जरा यौवन धन
 अपहरे, साहरीनीपरे नित्य नढीपे ॥ सु० ॥ ८ ॥ वयण सुकोमळ सुमति
 तणा सुणी, जाग्यो चेतनराय रसीवो ॥ तेग संवेग प्रही निज हाथमां,
 तेढ्यो शुद्ध समवाय वसीवो ॥ सु० ॥ ९ ॥ मन मंत्रीसर कवज कीयो
 घणुं, तब वस आव्या रे पंच महाजड ॥ चारे चोर चिहुं दिशी नाशिया,
 टाळ्यो मोह प्रपंच महाजड ॥ सु० ॥ १० ॥ सुमति सुनारी साथें प्रीतडी,
 जोर जडी जेम खीर अने जळ ॥ रंग विखास करे नित नवनवां, जेळी
 हियडानुं हीर हिलिमिल ॥ सु० ॥ ११ ॥ इणीपरें चतुर सनेही आतमा,
 जीले समरसपूर सदाइ ॥ अनोपम अविचळ आतम सुख लहे, दिन दि
 न अधिकसनूर जलाइ ॥ सु० ॥ १२ ॥ पंक्ति विनयविमल कवि राजियो,
 संवेगी शिरताज जयंकर ॥ धीरविमल पंडित पद पंकजे, सेवक नयजणे
 आज सुहंकर ॥ सु० ॥ १३ ॥ पाठांतर गाथा ॥ पंक्ति विनय विमल कविरा
 यनो, धीरविमल कविराय जयंकर ॥ सेवक विनयी नयविमल कहे, सुम
 ती शिवसुख आय सुहंकर ॥ सु० ॥ १३ ॥ इति आत्महित सद्याय समाप्तः ॥

॥ अथ आशातनानी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ चोपाइ ॥ श्रीजिनवरने करी प्रणाम, बोळुं चोराशी आशाता नाम ॥
 श्रीजिन मंदिर जातां सही, आशातनाए टाळी नही ॥ १ ॥ खेळ शुकरा
 मत कलगला, कीधुं लेखुं शीखी कला ॥ मैथुन मज्जन मर्दन करे, जिन

जुवने कोइ हैडे धरे ॥ १ ॥ ठाण कापड पापडने वडी, नव उगविये देहरे
 चडी ॥ शिर कर अंग पखावे पाय, विंजणे करी विंजावे वाय ॥ ३ ॥ ना
 ख्यानख निमाला पली, चामर ठत्र ढलावे वली ॥ माथे मुगुट पगे खासडां,
 धवराव्यां देहरे वाठडां ॥ ४ ॥ दोरजरे पेहेरे चाखडी, नाखी गड गुंबड खाल
 डी ॥ बेशे पगऊपर पगकरी, रांध्युं अन्न अंगीठी करी ॥ ५ ॥ रगतपित ना
 ख्या ओघला, नकरे निंद्या चुंमजला ॥ नकरे वणिज न रमे जूवटे, नलिये
 वस्तु आलट पालटे ॥ ६ ॥ खाय तंबोल जखी सुखडी, करे नित्य ते लहुडी
 वडी ॥ पग चंपावे कलदो करे, दिये सराप के होडज धरे ॥ ७ ॥ नाखे प
 गरज सुये निशंक, जंफकला ने मारी ढंक ॥ नकरे जोजन नहि जीलणुं,
 वेणसमारे पाखि पणुं ॥ ८ ॥ पढे मंत्र राखे हथियार, चोरी करे ने छे तु
 कार ॥ सचित्त न राखे न दिये गाल, नकरे बालक स्त्रीनी आल ॥ ९ ॥ नक
 रे वैडुं नकरे होड, जिनदीठे न करे करजोड ॥ आठपडो न कख्यो मुखको
 ष, विण उत्तरासंग लागे दोष ॥ १० ॥ पहेरे धोती शान विणजेह, वेठापग
 पसारी बेह ॥ नकरे ठगाने हासुं वली, दांत न खोतरे लेइ शली ॥ ११ ॥
 न करे दातण विकथा वात, नकरे क्रोध वली उत्पात ॥ लीधा शाक नीला
 मनरली, स्त्री संघातें वेठामली ॥ १२ ॥ कीधो दीवो देहरा थकी, वस्तु
 वावरीजे देवकी ॥ नखमां नवि राखे दीवेल, दीवे नवि पूरीजे तेल ॥ १३
 ॥ आलस मोडे दीले बहु, आशातना ए जाणे स्छु ॥ आशातनाना बहु
 ला पाप, जे करशे ते लेहशे संताप ॥ १४ ॥ श्रीविजयसेन तणो अधिका
 र, जिन सेवार्थी लहे जवपार ॥ पंक्ति राज विजय झमजणे, श्रीजिनवर
 ने जाउं जामणे ॥ १५ ॥ इति आशातनावर्जन सध्याय समाप्तः ॥

॥ अथ संसारस्वरूपनी सध्याय ॥ मधुविंडुनी ढाल ॥

॥ संसारे रे जीव अनंत जवे करी, करे बहुला रे संबंध चिहुंगति फरि
 फरी ॥ नविराखे रे कोइने तवनिज करधरी, सगाई रे कहो किणिपरे क
 हियें खरी ॥ १ ॥ त्रुटक ॥ कहो खरी किणि परी एह सगाइ, कारमो संबं
 धए ॥ सवि मृषा माता पिता बहिनी, बंधुतेह प्रबंधए ॥ धरि तरुण धरणी
 रंगे परणी, त्राण कारण ते नही ॥ मणि कणग मुत्तिअ धन्न धान्यकण,
 संपदा सब संग्रही ॥ २ ॥ ढाल ॥ एह थावर रे जंगम पातिक दोइ कह्या,
 जेह करतां रे चउगइ डुख जीवे सहा ॥ तेह टालो रे पातिक दूरे जविअ

णा, जिम पामो रे इह परजव सुख अतिघणां ॥ ३ ॥ त्रुटक ॥ अतिघणां
सुख ते लहो नवियण, जैनधर्म करी खरो ॥ परदार परधन परिहरी ति
णे, जैनधर्म समाचारो ॥ जे मदे माचे रूपराचे, धर्म साचे नवि रमे ॥ अं
जली जल परि जनम जातो, मूढ ते फल विणगमे ॥ ४ ॥ ढाल ॥ अघ्य
यनें रे ठठे श्रीजिनवर कहे, शुजद्रष्टि रे तेह जली परे सद्दहे ॥ ते सद्दही
रे तप नियमादिक आदरे, आदरतो रे केवल लहणीपण वरे ॥ ५ ॥ त्रुटक
॥ लहणीवरे जिनधर्म करतो, हलुअकर्मि जे हुये ॥ पांचमो गणधर स्वामी
जंबू, पूठियो इणिपरे कहे ॥ श्रीविजयदेवसूरिंद पटधर, विजयसिंह मु
णीसरू ॥ तस शिष्य वाचक उदय इणिपरें, उपदिशे नवहित करू ॥ ६ ॥

॥ अथ प्रमादवर्जन सद्याय ॥ मुनि जन मारग चाखतां ॥ ए देशी ॥

॥ अजरामर जगको लही, परमाद ते ठांको रे ॥ मिथ्या अति लुकी क
री, गुण आदर ते मांको रे ॥ १ ॥ शुद्ध धरमनो खप करो, टाली विषय
विकारो रे ॥ चोथे अघ्ययने कहे, श्रीवीर एह विचारो रे ॥ शु० ॥ २ ॥ ए
आंकणी ॥ पापकरम करी मेळवे, धवबा लख जेह रे ॥ जूरख धन ठांकी
करी, नरके जमे तेह रे ॥ शु० ॥ ३ ॥ बंधन जनमे फोपधां, करे ते अरण परे
पाप रे ॥ तेहनां फल दोहिवां, सहे एकलो आप रे ॥ शु० ॥ ४ ॥ खात्र तणे
मुखे जिम ग्रहो, एवो चोर अजाण रे ॥ निज करमें दुख देखतां, तेहनो
कृण जाण रे ॥ शु० ॥ ५ ॥ इम जाणी पुण्य कीजियें, तेहथी सुख थाय रे
॥ दिनदिन संपद अनुजवी, वली सुजस गवाथ रे ॥ शु० ॥ ६ ॥ विजय
देव गुरु पाटवी, चित्रसिंह मुणिंदो रे ॥ शिष्य उदय कहे पुण्यथी, हुए
परम आणंदो रे ॥ शु० ॥ ७ ॥ इति प्रमादवर्जन सद्याय समाप्तः ॥

॥ अथ संग्राम सोनीनी सद्याय ॥

॥ दोहा ॥ श्रीशंखेश्वर पायनमी, शारद मात पसाय ॥ सोनी श्रीसंग्रा
मना, गुणगाय नवनिधि थाय ॥ १ ॥ मांरुवगढनो राजिरी, ग्यासुदीन पत
शाह ॥ एकदिन बहार खेलवा, चाब्यो धरी उमाह ॥ २ ॥ साथे सीतेर खान ठे,
बोहोतेर उमराव जाण ॥ सोनीपण संग्राम ठे, तेहनां कहां वखाण ॥ ३ ॥

॥ ढाल पहेली ॥ राग वेलाढ्य ॥

॥ मारग माथे कलपवृक्ष, उग्यो अतिसार ॥ ते देखी कोइ दुष्टजीव,
बोळ्यो तेणि वार ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ ए आंबाहै बांजिया, सुणो साहिब

मेरा ॥ चूप कहे तुम दूर करो, राखो मत नेडा ॥ मारगण ॥ २ ॥ बलतो सोनी उचरे, हुं करुं अरदाश ॥ आंबो मुजने शानकरे, कहोतो जाउं पाश ॥ मा० ॥ ३ ॥ हूकम लेइनें त्यां गयो, दिये आंबाशुं कान ॥ मांकी वात ठांनी कही, आव्यो ते बुद्धिनिधान ॥ मा० ॥ ४ ॥ सुणो सुलतांन आंबे कही, मुजने एकवात ॥ आवते वर्षजो नाव फलुं, तो करजो मुज घात ॥ मा० ॥ ५ ॥ ग्यासुदीन जानू कहे, जूठे हो संआस ॥ मोंशुं नवो ले रुखडा, यह बकालके काम ॥ मा० ॥ ६ ॥ बलतुं सोनी उच्चरे, न फले जो एह ॥ एने करता ते तमे, मुजने करज्यो तेह ॥ मा० ॥ ७ ॥ निजनिज स्थानक सहूवद्युं, सोनी करे उपाय ॥ देव गुरुनी पूजा करे, आंबा पासें जाय ॥ मा० ॥ ८ ॥ प्रेमसहित गुंहली करे, समरे गुरु देव ॥ जो मुज धर्मनी आसता, फलजो नीत मेव ॥ ए॥ पूएयेवंठित सब फले ॥ ए आंकणी ॥ अनुक्रमें आंबो मोरियो, माली आवी वधावे ॥ सर्व आंबा पहेलो फद्यो, सोनी त्यां आवे ॥ पु० ॥ १० ॥ पुत्र बेसारी हाथियें, कर सोवनथाल ॥ आंब जरी पतशाहने, मूक्या रे रसाव ॥ पु० ॥ ११ ॥ रूमाल पाठो करि पूठियो, तुम आंबके तांइ ॥ गाजते वाजते हरखशुं, क्या करी बडाइ ॥ पु० ॥ १२ ॥ बलतो सोनी उचरे, बांजिया सहकार ॥ तेणे में पेककसी करी, आणी हर्ख अपार ॥ पु० ॥ १३ ॥ ग्यासुदीन घोडे चढी, साथे सब परि वार ॥ ए आंबा फूड्या फूड्या, देखी हर्ख अपार ॥ पु० ॥ १४ ॥ ग्यासुदीन जानु कहे, न फड्याए आम्र ॥ तैरा ए सूधा फड्या, ए धर्मके काम ॥ पु० ॥ १५ ॥ सोनेरी वाधा सवे, पहेराव्या सहू साथ ॥ धनधन तेरी मातकुं, धन्य तेरी जात ॥ पु० ॥ १६ ॥ केतादिन वोड्या पठे, जगवती सूत्र ॥ गोर कने जइ सांजले, करे जनम पवित्र ॥ पु० ॥ १७ ॥ मेळें सोनेयो दिन प्रतें, जग उत्तम नाम ॥ ठत्रीस सहस्स शंख्या हुये, कीधां धर्मनां काम ॥ पु० ॥ १८ ॥ सकल वाचक शिरोमणी, जानुचंद कहावे ॥ तासशिष्य ज्ञाणचंद जणे, सुणे दोलत पावे ॥ पु० ॥ १९ ॥ इति समाप्तः ॥

॥ अथ चेलणानी सद्याय ॥

॥ वीर वंदी घरे आवतां जी, चेलणा दीठोरे नियंथ ॥ वनमांहि राते काउसग्न रहोजी, साधतो मुक्तिनो पंथ ॥ १ ॥ वीर वखाणी राणी चेलणा जी, सतीय शिरोमणि जाण ॥ ए आंकणी ॥ चेडानी साते सुताजी, श्रेणिक

शियल परिमाण ॥ वी० ॥ १ ॥ शीत ठार सवलो पडे जी, चेलणा प्रीतम
साथ ॥ चारित्रियो चित्तमां वस्यो जी, सोड वाहिर रह्यो हाथ ॥ वी० ॥
३ ॥ ज्वकी जागी कहे चेलणा जी, केम करतो हशे तेह ॥ कामनीने मन
कोण वस्यो जी, श्रेणिक पड्यो रे संदेह ॥ वी० ॥ ४ ॥ अंतेउर परजावजो
जी, श्रेणिक दीयो रे आदेश ॥ जगवंते संशय जांजियो जी, चमकियो
चित्त नरेश ॥ वी० ॥ ५ ॥ वीर वांदी वलतां थकां जी, पेसतां नगरमजार
॥ धूवांध तिहां देखी कहे जी, जा जा जुंमा अजय कुमार ॥ वी० ॥ ६ ॥
तातनुं वचन ते पालवाजी, व्रत लीयो अजयकुमार ॥ समयसुंदर कहे
चेलणा जी, पामशे चवतणो पार ॥ वी० ॥ ७ ॥ इति समाप्तः ॥

॥ अथ श्रीजयसोमजीकृत शिखामणनी सधाय ॥

॥ कामनी कहे निजकंतने, सुणो प्रीतम प्यारा ॥ नाह कुनाह न होइ
ये, मेरे नयनथी न्यारा ॥ अबहीं अचानक क्या हूआ, पीयु चालणहारा ॥
रहो रहो रंगरसें करी, मन मोहनगारा ॥ १ ॥ सुण सांइ हो अरदास हमा
री ॥ मेंतो तेरी हो हुं खिजमतगारी ॥ तुं तो चाले हो ठोडी निरधारी, में
तो तोशुं हो कीनी एक यारी ॥ सु० ॥ १ ॥ बहुत कालकी प्रीतडी, युं तटकी
न त्रोटो ॥ कांतनारीना सूत ज्युं, त्रूटे तिहां जोडो ॥ मैरी शीख जली सुणी,
क्युं मुह मचकोडो ॥ कंचुकी श्याम जुजंग ज्युं, मुजकुं क्युं क्यो ॥ सु० ॥
॥ ३ ॥ हमसी तेरे बहुत है, मेरे तुंहिज लाला ॥ होस हैयाकी पूर ल्यो,
सुणि आतम वाढहा ॥ फिर मोसुं जोइ नही, मत हो मतवाला ॥ संबल
लीये विणु नहीं चले, होये कोण हवाला ॥ सु० ॥ ४ ॥ आलम एते दिन
किया, दमरी न कमाइ ॥ व्याजें लइ धन वावस्यो, रह्या पूंजी खाइ ॥ पळे
एक पइसा नहीं, नहीं संबल सखाइ ॥ आगल तेरे कारणें, कही सेज वि
ठाइ ॥ सु० ॥ ५ ॥ ऐसे मुखसें सुंदरी, डुह्वही तें पाइ ॥ तें ए कदी विलसी
नही, रह्यो आस बिलाइ ॥ पोढी रह्यो रे प्रीतमा, मोकुं रयण जगाइ ॥
चतुर सहेलीके बीचमें, मोकुं लाज लगाइ ॥ सु० ॥ ६ ॥ जडा जरणी जोग
णी, जोई नही वेला ॥ तेरे डुशमन बहुत है, तुंतो चले एकीला ॥ वाटें
विषम जय धाडिनो, नही सूणि समेला ॥ कुण मुहूरत बिबुडे के, कब हो
शे जेला ॥ सु० ॥ ७ ॥ पीयु कहे सुण सुंदरी, हूंतो धणीई बुलाया ॥ रहणा
इक रात्रि होवे नही, करुं कोडी उपाया ॥ जेणे जेर जगत कीया, कुण

राणा राया ॥ फिर फुरमान फिरे नही, जे उनही पठाया ॥ सु० ॥ ७ ॥
 तुम विण दुःखमें दीहरा, कहो कैसे जरुंगी ॥ तेरे विरह वियोगशुं, दुःख
 जार जरुंगी ॥ तैरीशुं तैरीशुं प्रीतमा, नवि प्राण धरुंगी ॥ में कुलवंती का
 मिनी, पढी काठ करुंगी ॥ सु० ॥ ८ ॥ शीख करी प्यारी कन्हें, दरहाल ते
 हाव्या ॥ मंदिर मुलक ठोडी करी, बे खरची चाव्या ॥ वोलावीने दुःख
 धरी, वली मन वाव्या ॥ केडें सती हुइ कामिनी, नेह नीका पाव्या ॥ सु०
 ॥ १० ॥ काया कामिनी जीउ धणी, मत उर विचारो ॥ तप जप संयम
 संग्रहो, नर कांइ म हारो ॥ कलिकावें जब तेरी है, तब क्यां तुम चारो
 ॥ राउ रंक सब एक है, आगें नहीं कोइ टारो ॥ सु० ॥ ११ ॥ अचिर ए सं
 सार है, कोण केहनो चाइ ॥ मोहनिंद ठोडी करी, करो सुकृत कमाइ ॥
 शीख सुणी जयसोमकी, लीउ सुजस जलाइ ॥ शिवसुख केरे कारणे, क
 रो धर्म सखाइ ॥ सु० ॥ १२ ॥ इति शीखामणनी सव्वाय समाप्त ॥

॥ अथ कायापुर पाटणनी सव्वाय प्रारंजः

॥ कायापुर पाटण रूअडो, पेखो पेखो नव पोल मान रे ॥ इंसराजा
 रंगे रमें राजीयो रे, मलियो मलियो मन परधान रे ॥ १ ॥ काया कारमी
 ॥ जीव जाणे जे सर्व माहेरुं, कूडो कूडो कुटुंब संघात रे ॥ रात्रे जेम पंखी
 बेसे एकठां, उडी उडी जाय प्रजात रे ॥ का० ॥ २ ॥ एक जीवतणी वेव
 डी, करहला दोय चरंत रे ॥ एक कालोने बीजो जजलो, दिनदिन वेव
 घटंत रे ॥ का० ॥ ३ ॥ एक तरुवर घनरस चढे, एक पडे पीपल पान रे ॥
 चतुरपणे जोजो पारखुं, हीयडे धरजो अरिहंत ध्यान रे ॥ का० ॥ ४ ॥
 इणवाटे नथी बेठा वाणीया, वली नथी हाटनुं ठाम रे ॥ एतुं जाणी
 साथे लेजो संवलो, वेगळुं ठे मुक्तिनुं गाम रे ॥ मा० ॥ ५ ॥ आपणो आ
 तमा बाबुडो, सरस जोवन लहे वेश रे ॥ मुक्तिरमणी परणावजो, सहज
 सुंदर उपदेश रे ॥ मा० ॥ ६ ॥ इति कायापुर पाटणनी सव्वाय ॥

॥ अथ मांकडनी सव्वाय प्रारंजः ॥

॥ मांकडनो चटको दोहिलो, केहने नविलागे सोहिलो रे ॥ मांकड मू
 ठालो ॥ एतो निर्लेज्जने नही कान, एहने हीयडे नहीं शान रे ॥ मा० ॥ १ ॥
 एतो पाट पलंगमां आवे, चटको देइ ठानो जावे रे ॥ मा० ॥ राते राणो
 यइने फरतो, राजा राणीथी नवि करतो रे ॥ मा० ॥ २ ॥ एतो चरणा

चीर ठोडावे, नर नारीनी निंद गमावे रे ॥ मां० ॥ गिरुआ गुणसागर साधे,
तेहनी तुमें राखजो लाज रे ॥ मां० ॥ ३ ॥ वरसावे थाये मदमातो, सी
यावे सुंहालो सातो रे ॥ मां० ॥ खाटमांहे खल गोत्रज खोटा, सवि सरिखा
न्धाना महोटा रे ॥ मां० ॥ ४ ॥ एतो न जूए ठाम कुठाम, एहने पेट न
स्याशुं काम रे ॥ मां० ॥ एतो हरामि हठीली जात, एहने रूडी लागे ठे
सत रे ॥ मां० ॥ ५ ॥ लोही पी थाये रातो लाल, एतो सोड मांहेलो सा
ल रे ॥ मां० ॥ ए उपकारतणी मति आणी, चटको देइ सज करे प्राणी रे
॥ मां० ॥ ६ ॥ गुणी हूँ तो गुणकरी लेजो, मांकडने दोष म देजो रे ॥ मां० ॥
मांकण नरुअच नगरथी आव्यो, एतो राधनपुरमां गवरायो रे ॥ मां० ॥
माणक मुनि कहे सुणो सयणा, तुमे जीवनी करजो जयणा रे ॥ मां० ॥ ७ ॥

॥ अथ होकानी सव्वाय ॥ इकर आंवा आंवली रे ॥ ए देशी ॥

॥ होको रे होको शुं करो रे, होको ते नरकनुं ठाम ॥ जीव ह्णाये अ
तिघणा रे, वायुकाय अजिराम ॥ नविक जन, मूको होकानी टेव ॥ सुख
पामो खयंमेव ॥ न० ॥ मूको ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ ज्यां लगे होको
पीजीये रे, तिहां लगे जीवविनाश ॥ पाप बंधाये आकरो रे, दया तणी
नही आश ॥ न० ॥ २ ॥ जे प्राणी होको पीये रे, ते पामे बहु दुःख ॥
एम जाणीने परिहरो रे, पामो बहुलुं सुख ॥ न० ॥ ३ ॥ गज लगे
धरती बले रे, जीव ह्णाये अनंत ॥ जे नर होको खेलशे रे, तस मलशे
जगवंत ॥ न० ॥ ४ ॥ दावानल घणा परजले रे, होकानां फल एह ॥
नरके जाशे वापडा रे, धर्म न पामे तेह ॥ न० ॥ ५ ॥ एकेंद्री वेइंद्रीमां
रे, फिरे अनंती वार ॥ ठेदन चेदन ताडना रे, तिहां लहे दुःख अपार
॥ न० ॥ ६ ॥ व्यसनी जे होका तणा रे, तखप लागे जव आय ॥ वनमां
वृद्ध ठेदी करी रे, अग्नि प्रज्वलित कराय ॥ न० ॥ ७ ॥ तिहां षट काय
ना जीवनी रे, हिंसा निरंतर आय ॥ होकानुं जल जिहां ढोलीये रे, ति
हां बहु जीव ह्णाय ॥ न० ॥ ८ ॥ पोते पाप पूरण करे रे, अन्यने दे उ
पदेश ॥ बली अनुमोदन पण करे रे, त्रिकरणे थाये उदेश ॥ न० ॥ ९ ॥
मुख गंधायें पीनारनुं रे, बेसी न शके कोइ पास ॥ जगमां पण रूडुं नही
रे, पुण्य तणो थाय नाश ॥ न० ॥ १० ॥ संवत् अठार बहोतरे रे, उज्ज्व
ल श्रावण मास ॥ वार बृहस्पति शोचतो रे, पूनमदिन शुच खास ॥ न०

॥ ११ ॥ तपगढ मंरुन सेहरो रे, दानरतन सूरिराय ॥ मलुकरतन शिष्य
शोचता रे, आनंद हरख न माय ॥ ज० ॥ ११ ॥ परता पूरण गिरुआ ध
णी रे, शिवरतन तसु शिष्य ॥ होकानां फल इम कहां रे, खुशावरतन
सुजगीश ॥ ज० ॥ १२ ॥ इति होका फल सञ्चय ॥

॥ अथ बादशाह प्रतिबोधन वैराग्य सञ्चय ॥

॥ राग काफी हुसेनी ॥ या दुनिया फना फुरमाए, आप रहो हुसिया
री ॥ माल मुलक सब किसकूं दिखावे, यमकी जइ असवारी ॥ १ ॥ सां
इयांके बंदे बे, शिर मत द्यो बुजगारी ॥ महेर करोगे बंदगी खुदाके, दीख
याके क्युं प्यारी ॥ सां० ॥ २ ॥ ए आंकणी ॥ दोलत ठोड ठोड केइ गये
साहेब, केइ केइ गये जीखारी ॥ घसते हाथ गये वीन सरखी, हास्या ज्युं
अ जुआरी ॥ सां० ॥ ३ ॥ रोज निमाज फिरावे तसवी, सब सखीयन क्युं मा
री ॥ सब हीनलकूं दोई ठाप है, दरद कीयें युं जारी ॥ सां० ॥ ४ ॥ कीटिका
बेखून खुदाके, खिखित न है दरबारी ॥ सब हिसाब जब वे पूढेगा, तब
होबेगी खुवारी ॥ सां० ॥ ५ ॥ खानेकूं शिरकाट बिराना, महिरमान पुकारे ॥
युंवि ज्यस्त होवे सबहनकूं, बूडी ज्यस्त तुंहारी ॥ सां० ॥ ६ ॥ पातसाह
श्रीबावा आदम, सुण चेतन हमारी ॥ शीख जली ए सकलचंदकी, ह
मकूं पूना तुंहारी ॥ सां० ॥ ७ ॥ इति बादशाह प्रतिबोधन सञ्चय ॥

॥ अथ श्रीप्रतिक्रमण हेतुगर्जित सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ श्री जिनवर प्रणमी करी, पामी सुगुरु पसाय ॥ हेतुगर्ज
पडिक्रमणनो, करशुं सरस सञ्चय ॥ १ ॥ सहज सिद्ध जिन वचन ठे,
हेतुरुचिने हेतु ॥ देखाडे मन रीजवा, जे ठे प्रवचन केतु ॥ २ ॥ जस
गोठें हित उद्धसे, तिहां कहीजें हेतु ॥ रीजे नहीं बूजे नहीं, तिहां हुइ
हेतु अहेतु ॥ ३ ॥ हेतु युक्ति समजावीयें, जे ठोडी सवि धंध ॥ तेहिज
हित तुमें जाणजो, आ अपवर्ग संबंध ॥ ४ ॥

॥ ढाख पहेली ॥ ऋषजनो वंश रयणायरू ॥ ए देशी ॥

॥ पडिक्रमणं ते आवश्यकं, रूढि सामान्य पयठो रे ॥ सामायिक चउवी
सठो, वंदन पडिक्रमणठो रे ॥ १ ॥ श्रुतरस जवियां चाखजो, राखजो
गुरुकुल वासो रे ॥ जांखजो सत्य असत्यने, नाखजो हित ए अज्यासो रे
॥ श्रुतरस० ॥ २ ॥ ए आंकणी ॥ काउस्सग ने पञ्चकाण ठे, एहमां पद

अधिकारो रे ॥ सावद्य योगथी विग्मबुं, जिनगुण कीर्तन सारो रे ॥ श्रुत०
 ॥ २ ॥ गुणवंतनी प्रतिपत्ति ते, अतिक्रम निंदा घणोरी रे ॥ विण चिकि
 त्सा गुण धारणा, धुरे शुद्धि चारित्र केरी रे ॥ श्रुत० ॥ ३ ॥ बीजे दर्शनना
 आचारनी, ज्ञानादिक तणी बीजे रे ॥ चोथे अतिचार अपनयननी, शे
 ष शुद्धि पांचमे बीजे रे ॥ श्रुत० ॥ ४ ॥ ठठे शुद्धि तपना आचारनी, बी
 र्याचारनी सर्वे रे ॥ अध्ययनं उगणत्रीशमे, उत्तराध्ययन मने गर्वे रे ॥
 श्रुत० ॥ ५ ॥ अरध निवुद्ध रवि गुरु, सूत्र कहे कालपुरो रे ॥ दिवसनो
 रातिनो जाणीये, दस पडिलेहणथी शूरो रे ॥ श्रुत० ॥ ६ ॥ मध्यान्हथी
 अधरातितां, हुण देवसी अपवादे रे ॥ अधरात्रिथी मध्यान्हतां, राइ अ
 योग वृत्ति नादे रे ॥ श्रुत० ॥ ७ ॥ सफल सकल देव गुरु नते, इति वारे
 अधिकारें रे ॥ देव वांदी गुरु वांदीये, वर समासमण ते चारें रे ॥ श्रुत०
 ॥ ८ ॥ सिद्धि लोके पण कार्यनी, नृप सचिवादिक जक्ते रे ॥ गुरु सचिवा
 दिक थानके, नृप जिन सुजस सुयुक्ते रे ॥ श्रुत० ॥ ९ ॥

॥ ढाल बीजी ॥ राग मारुणी ॥ गिरिमांगिरुळ गिरुळमेरु गिरिवरु रे ॥ ए देशी ॥

॥ पहम अहिगारें वंडुं जावि जिणेसरु रे, बीजे दव जिणंद ॥ बीजे रे
 बीजे रे इग चेश्य ठवणा जिणा रे ॥ १ ॥ चोथे नामजिण तिहुअण ठवण
 जिना नमुं रे, पंचमे ठठे तेम ॥ वंडुं रे वंडुं रे बिहरमान जिन केवली रे ॥
 २ ॥ सत्तम अधिकारें सुयनाणं वंदीये रे, अष्टमि थुण सिद्धाण ॥ नवमें रे न
 वमें रे थुइ तिढाहिव वीरनी रे ॥ ३ ॥ दशमे उजयंत थुइ बलीय इग्यारमें
 रे, चार आठ दस दोइ ॥ वंदोरे वंदोरे अष्टापद जिन क्हा रे ॥ ४ ॥ वार
 में सम्यग्दृष्टि सुरनी समरणा रे, ए वारे अधिकार ॥ जावो रे जावो रे दे
 ववांदतां जविजना रे ॥ ५ ॥ वांडुं वुं इच्छकारी समसुश्रावको रे, समासम
 ण चउ देइ ॥ श्रावक रे श्रावक रे, श्रावक सुजस इत्युं जणे रे ॥ ६ ॥

॥ ढाल बीजी ॥ साहिवा रंगीला हमारा ॥ ए देशी ॥

॥ हवे आचारनी शुद्धि इठायें, अतिचार जार जरित नत कार्ये ॥ उद्य
 मी उपयोग संज्ञालो, संयमी सवि पातक टालो ॥ सबस्सवि देवसिय इ
 चाइ, प्रतिक्रमण बीजक मन छाइ ॥ उद्य० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ ज्ञानादिक
 मांहे चारित्र सार, तदाचार शुद्धि अर्थ उदार ॥ उद्य० ॥ करेमि जेते इत्या
 दिक सूत्र, जणी काउस्सगग करो पवित्र ॥ उद्य० ॥ २ ॥ चिंतवो तिहां अ

तिचार ते प्रात, पल्लिहेणथी लागा जे त्रात ॥ उद्य० ॥ सयणासण इत्या
दिक गाथा, जावजो तिहां मत होजो थांथा ॥ उद्य० ॥ ३ ॥ इम मन
सा चिंतन गुरु साखें, आलोवा अर्थे गुरु दाखें ॥ उद्य० ॥ श्राद्ध जणे अठ
गाथा अन्नो, काउस्सग पारी कहे चढविसन्नो ॥ उद्य० ॥ ४ ॥ संभासा
पडिलेही बेसे, मुहपत्ति तनु पडिलेहे विशेषें ॥ उद्य० ॥ काउस्सग अव
धारित अतिचार, आलोवा दिये वंदन सार ॥ उद्य० ॥ ५ ॥ अवग्रहमांहे
रहिं उन्नत अंग, आलोए देवसी जे अंग ॥ उद्य० ॥ सबस्सवि देवसिअ
इच्चाइ, उच्चरतो गुरु साखें अमाइ ॥ उद्य० ॥ ६ ॥ मन वचन काय सक
ल अतिचार, संग्राहक ए ठे सुविचार ॥ उद्य० ॥ इष्ठाकारेण संदिसह
जगवन्न, पायडित्त तस मागे तप धन्न ॥ उद्य० ॥ ७ ॥ पडिक्कमह इति गुरु
पण जांखे, पडिक्कमणाख्य पायडित्त दाखे ॥ उद्य० ॥ स्वस्थानकथी जे व
हि गमण, फिरी आवे ते ठे पडिक्कमण ॥ उद्य० ॥ ८ ॥ पडिक्कमणं पडिअ
रण पवित्ति, परिहरणा वारणा नियत्ति ॥ उद्य० ॥ निंदा गरहा सोही अ
ठ, ए पर्याय सुजस सुगरिठ ॥ उद्य० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ ढाल चोथी ॥ प्रथम गोवाला तणे जवें जी ॥ ए देशी ॥

॥ बेसी नवकार कही हवे जी, कहे सामायिक सूत्र ॥ सफल सकल
नवकारथी जी, पडिक्कमणुं समचित्त ॥ महाजस जावो मनमां रे हेत ॥ १ ॥
ए आंकणी ॥ चत्तारि मंगल मिथ्यादिकंजी, मंगल अर्थ कहेइ ॥ इष्ठा मि
पडिक्कमिळं इत्यादिकं जी, दिन अतिचार आलोइ ॥ महा० ॥ ११ ॥ इरियाव
ही सुत्त जणे जी, विजाग आलोयण अन्न ॥ तस्स धम्मस्स लगे जणे जी,
शेष विशुद्धि समत्ता ॥ महा० ॥ १२ ॥ श्रावक आचरणादिकें जी, नवकार सामा
यिक सूत्र ॥ इष्ठा मि पडिक्कमीळं कही कहे जी, श्राद्ध सूत्र सुपवित्त ॥ म
हा० ॥ १३ ॥ अतिचार नार निवृत्तिथी जी, हलुउं होइ उठेइ ॥ अचुठिउंमित्या
दिकाजी; सूत्रें निःशेष कहेइ ॥ महा० ॥ १४ ॥ अत्ररा खमासण वंदणं जी,
तीन खमावे रं देइ ॥ पंचादिक मुनि जो हुए जी, काउस्सगगार्थं फिरेइ
॥ महा० ॥ १५ ॥ जूमि पुंजी अवग्रह वही जी, पाठे पगे निसरेइ ॥ आय
रिय उवकाय जले जणे जी, अजिनय सुजस कहेइ ॥ महा० ॥ १६ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥ रसियानी देशी ॥

॥ आलोयण पडिक्कमणे अशुद्ध जे, चारित्रादिक अतिचार ॥ चतुरनर

॥ काउसग तेहनी शुद्धि अर्थे कह्यो, पहिलो चारित्र शुद्धिकार ॥ १ ॥
 चतुरनर ॥ परीक्षक हो तो हेतुने परखजो, हरखजो द्विअडलामांहि ॥
 ॥ च० ॥ निरखो रचना सदगुरु केरडी, वरपो सरस उठाही ॥ च० ॥ प
 री० ॥ २ ॥ ए आंकणी ॥ चारित्र कषाय विरहथी शुद्ध होये, जास कपा
 य उदय ॥ च० ॥ उंठुं पुष्प परि निःफल तेहनुं, मानुं चरण समग्र ॥ च०
 ॥ परी० ॥ ३ ॥ तेणे कषाय तणा उपशम जणी, आयरिय उवजाय इ
 त्यादि ॥ च० ॥ गाथात्रय जणी काउस्सग करो, लोगस्स दोइ अप्रमादि
 ॥ च० ॥ परी० ॥ ४ ॥ करेमि जंते इत्यादि त्रय कही, चारित्रनो ए उस्सग
 ॥ च० ॥ सामायिक त्रय पाठ ते जाणीये, आदि मध्यांत सुहसग ॥ च०
 ॥ परी० ॥ ५ ॥ पारी उज्जोअ ने सबलोए कही, दर्शनाचार शुद्धि सह ॥
 ॥ च० ॥ एक चउवीसठानो काउस्सग करे, पारी कहे पुरकरवरदीवहा ॥
 च० ॥ परी० ॥ ६ ॥ सुयस्स जगवउ कही इग चउवीसठयं, काउस्सग
 करिया रे दंत ॥ च० ॥ सकलाचार फलसिद्ध तणी शुद्ध, सिद्धाणं बुद्धाणं
 कहे महंत ॥ च० ॥ परी० ॥ ७ ॥ तिहाधिप वीरवंदन रैवत मंरुन, श्री ने
 मि नति तिहसार ॥ च० ॥ अष्टापद नति करी सुयदेवया, काउस्सग न
 वकार ॥ च० ॥ परी० ॥ ८ ॥ क्षेत्र देवता काउस्सग इम करो, अवग्रह
 याचन हेत ॥ च० ॥ पंच मंगल कही पुंजी संहासग, मुहपत्ति वंदन हेत
 ॥ च० ॥ परी० ॥ ९ ॥ इहामो अणुसठि कही जणे, स्तुति त्रय अर्थ गंजीर
 ॥ च० ॥ आज्ञा करणने देवन वंदन, गुरुणादेश शरीर ॥ च० ॥ परी० ॥ १०
 ॥ दिवसिये गुरु इक थुति जब कहे, परिक्रआइक कहे तीन ॥ च० ॥ सा
 धु श्रावक सह साथे थुइ कहे, सुजस उच्चस्वर लीन ॥ च० ॥ परी० ॥ ११ ॥
 ॥ ढाल ठठी ॥ नमस्कार स्वकृत जगन्नाथ जेता ॥ श्लोकनी देशीमां ॥
 ॥ श्राद्धी सुसाध्वी ते कहे उवाहा, संसार दावानल तीन गाहा ॥ न
 संस्कृते ठे अधिकार तास, कही कहे ए कही पूर्व जास ॥ १ ॥ अठे ती
 र्थ ए वीरनुं तेणे हखें, प्रतिक्रमण निर्विघ्न थुइ तास कर्षे ॥ कही शकस्त
 व एक जिन स्तवन जाखे, कृतांजलि सुणइ अपर वरकनक साथे ॥ २ ॥
 नमोईत् थकी देव गुरु जजन एह, धुरे अंते वली सफलता कर अठेह
 ॥ यथा नमुहुणं धुरि अंत नमो जिणाणं, जिणवंदण इक सकळय दुग
 पमाणं ॥ ३ ॥ डुबळं सुबळं तिलोगस्स चार, काउस्सगकर देवसी सु

क्रिकार ॥ पारी कहीय लोगस्स मंगल उपाय, खमासमण दोइ देहीने
करे सद्यय ॥ ४ ॥ जाव पोरिसी जूलविधि होइ सद्यय, उल्लुष्ट ते छाद
शांगी अध्याय ॥ परिहाणिथी जाव नमुक्कार होइ, सामाचारि वश पंच
गाथायलोइ ॥ ५ ॥ कही पडिक्कमणे पंच आचार सोही, तिहां दीसए
तिमह दुसहं ए होही ॥ इश्युं पत्रणि तप वीर्य आचारशुद्धि, अवश्यें हुइ
जो होइ त्रिक वशुद्धि ॥ ६ ॥ प्रतिक्रमण पञ्चस्काण चउविहार मुनिने,
यथाशक्ति पञ्चस्काण श्रावक सुमनने ॥ काउस्सग्ग अंतरंग तपनो आचा
रे, वली वीर्य नो फोरवे शक्तिसारे ॥ ७ ॥ प्रतिक्रमण पदथी क्रिया कर्तृ
कर्म, जणाइ तिहां प्रतिक्रमण क्रियामर्म ॥ प्रतिक्रमण कर्ता ते साध्वा
दि कहियें, सुदृष्टि सु उपयुक्त यतमान लहियें ॥ ८ ॥ प्रतिक्रम्य ते कर्म
क्रोधादि जाणो, टले तेह तो सर्व लेखे प्रमाणो ॥ मले जो सुजन संग दृढ
रंग प्राणी, फले तो सकल कज्ज ये सुजस वाणी ॥ ९ ॥

॥ ढास सातमी ॥ जूठ जूठ अचरिज अतिजलुं ॥ ए देशी ॥

॥ देवसी पडिक्कमण विधि कह्यो, कहे इवे राइनो तेह रे ॥ इरिय पडि
क्कमिय खमासमणशुं, कुसमिण दुसमिण जेह रे ॥ १ ॥ चतुरनर हेतु म
न जावजो ॥ ए आंकणी ॥ तेह उपशम काउस्सग्ग करो, चार लोगस्स
मने पाठ रे ॥ दिष्टिविपरियास सो उस्सासनो, धी विपरियास शतआठ
रे ॥ च० ॥ २ ॥ चिइवंदन करिय सद्यय मुख, धर्म व्यापार करे ताव रे
॥ जाव पडिक्कमण वेला हुये, चउ खमासमण दीये जाव रे ॥ च० ॥ ३ ॥
राइ पडिक्कमण ठाउं इम कही, सबस्सवि राइ कहेइ रे ॥ सकळय जणी
सामायिक कहि, उस्सग्ग एक चिंतेइ रे ॥ च० ॥ ४ ॥ वीजे एक दर्शनाचार
नो, त्रीज अतिचार चिंत रे ॥ चरित्रनो तिहां एक हेतु ठे, अल्प व्यापा
र निसि चित्त रे ॥ च० ॥ ५ ॥ पारी सिद्धस्तव कही पठे, जाव काउस्सग्ग
विहि पुव रे ॥ प्रत्येक काउस्सग्ग पडिक्कमणथी, अशुद्धनो शोध ए अपुव
रे ॥ च० ॥ ६ ॥ इहां वीर ठमासी तप चिंतवे, हे जीव तुं करी शके तेह रे
॥ न सकुं एगाइ इगुण तीसतां, पंच मासादि पण जेह रे ॥ च० ॥ ७ ॥ एक
मास जावतेर जण्डो, पठे चउत्तिस मांहि हाणी रे ॥ जाव चउथ अंवि
ल पोरिसी, नमुक्कारसी योग जाणी रे ॥ च० ॥ ८ ॥ शक्ति तांइ चित्त ध
री पारीयें, मुहपत्ती वंदण दाण रे ॥ इहामो अणुसठि कही तिगथुइ

थव चिद् वंदण सुह जाण रे ॥ च० ॥ ए ॥ साधु वली श्राद्धकृत औपधो,
मागे आदेश जगवन्न रे ॥ बहुबेल संदीसावुं, बहुबेल करुं लघुतर अनु
मति मन रे ॥ च० ॥ १० ॥ चउखमासमण वंदे मुनि अट्टाइजेसु ते कहे
सहारे ॥ करे रे पडिलेहण जावथी, सुजसमुनि विदित सुगुणठ रे ॥ ११ ॥

॥ ढाल आठमी ॥ सरसती मुज रे मातादियो बहुमान रे ॥ ए देशी ॥

॥ हवे पस्क्रिय रे चउदसि दिन सुधि पडिक्रमे, पडिक्रमतां रे । नत्य न
पर्व अतिक्रमे ॥ गृह शोध्युं रे प्रतिदिन तो पण शोधीये, पखसंधि रे इम
ए मन अनुरोधियें ॥ १ ॥ त्रुटक ॥ अनुरोधियें गुरुक्रम विगेधे, उत्तर करण
ए जाणीयें ॥ जिम धूप लेपन वर विचूषण, तैल न्हाणे माणीयें ॥ मुहप
त्ती वंदण संबुद्ध खामण, तीन पांच पांच शेष ए ॥ पस्क्रि आलोयण अति
चारा, लोचना सुविशेष ए ॥ २ ॥ ढाल ॥ सवस्सवि रे पस्क्रियस्स इत्यादि
क जणी, पायठित्त रे उपवासादिक पडीसुणी ॥ वंदण देइ रे प्रत्येक खा
मणां खामीयें, देवसियं आलोइअ रे इत्यादिक विश्रामियें ॥ ३ ॥ त्रुटक ॥
विश्रामियें सामायिक सूत्रें, खमासमण देइ करी ॥ कहे एक पाखी सूत्र
बीजा, सुणे काउस्सग्ग धरी ॥ पाखी पडिक्रमणा सूत्र कहिने, सामायि
क त्रिक उच्चरी ॥ उज्जोअ वार करे काउस्सग्ग, हर्ष निज हिअडे धरी ॥
४ ॥ ढाल ॥ मुहपत्ती रे पडिलेही वंदण दीये, समास खामणां रे खमासम
ण देइ खामियें ॥ खमासण चारे रे पाखी खामणां खामजो, इत्थामो अणु
सठि रे कही देवसी परिणामजो ॥ ५ ॥ त्रुटक ॥ परिणामजो सवि जवन दे
वि, क्षेत्र देवीमां जली ॥ तो पण विशेषें इहां संचारो, अजितशांति स्तव
वली ॥ इहां ज्ञानाचारनी शुद्धि वंदन संबुद्ध खामणे जाणीयें ॥ दर्शनाचा
रनी लोगस्स प्रगटे, काउस्सग्ग प्रमाणीयें ॥ ६ ॥ ढाल ॥ परिमाणे रे अति
चार प्रत्येक खामणें, पाखीसूत्र दुर्गई रे चारित्रशुद्धि पाखी खामणे ॥ काउ
स्सग्गे रे, तप आचारना जांखजो ॥ सघले आराध्ये रे वीर्याचारनी दाख
जो ॥ ७ ॥ त्रुटक ॥ दाखजो चउ मास वरसी, पडिक्रमणनो जेद ए ॥ चउ
मास वीस पुवीस मंगल, उसग्ग वरसि निवेद ए ॥ पाखी चोमासी पंचवरसें
सग दुशेवे खामीयें ॥ सद्याय ने गुरुशांति विधिगुं, सुजस लीला पामीयें ॥ ८ ॥

॥ ढाल नवमी ॥ लूखो ललना विषयनो ॥ ए देशी ॥

॥ निज थानकथी पर थानकें, मुनि जाय प्रमादे जेह मेरे ढाल ॥ फ

क्रिकार ॥ पारी कहीय लोगस्स मंगल उपाय, खमासमण दोइ देहीने
करे सद्वाय ॥ ४ ॥ जाव पोरिसी जूलविधि होइ सद्वाय, उक्कष्ट ते द्वाद
शांगी अध्याय ॥ परिहाणिथी जाव नमुक्कार होइ, सामाचारि वश पंच
गाथायलोइ ॥ ५ ॥ कही पडिक्कमणे पंच आचार सोही, तिहां दीसए
तिहह दुसहं ए होही ॥ इस्युं पञ्चणि तप वीर्य आचारशुद्धि, अवश्येंहुइ
जो होई त्रिक वशुद्धि ॥ ६ ॥ प्रतिक्रमण पञ्चस्काण चउविहार मुनिने,
यथाशक्ति पञ्चस्काण श्रावक सुमननें ॥ काउस्सग्ग अंतरंग तपनो आचा
रे, वली वीर्य नो फोरवे शक्तिसारे ॥ ७ ॥ प्रतिक्रमण पदर्थी क्रिया कर्तु
कर्म, जणाइ तिहां प्रतिक्रमण क्रियामर्म ॥ प्रतिक्रमण कर्त्ता ते साध्वा
दि कहियें, सुदृष्टि सु उपयुक्त यतमान लहियें ॥ ८ ॥ प्रतिक्रम्य ते कर्म
क्रोधादि जाणो, टले तेह तो सर्व लेखे प्रमाणो ॥ मले जो सुजन संग दृढ
रंग प्राणी, फले तो सकल कज्ज ये सुजस वाणी ॥ ९ ॥

॥ ढाल सातमी ॥ जूठ जूठ अचरिज अतिजहुं ॥ ए देशी ॥

॥ देवसी पडिक्कमण विधि कह्यो, कहे हवे राइनो तेह रे ॥ इरिय पडि
क्कमिय खमासमणशुं, कुसमिण दुसमिण जेह रे ॥ १ ॥ चतुरनर हेतु म
न जावजो ॥ ए आंकणी ॥ तेह उपशम काउस्सग्ग करो, चार लोगस्स
मने पाठ रे ॥ दिष्टिविपरियास सो उस्सासनो, धी विपरियास शतआठ
रे ॥ चण ॥ २ ॥ चिइवंदन करिय सद्वाय मुख, धर्म व्यापार करे ताव रे
॥ जाव पडिक्कमण वेला हुये, चउ खमासमण दीये जाव रे ॥ चण ॥ ३ ॥
राइ पडिक्कमण ठाउं इम कही, सबस्सवि राइ कहेइ रे ॥ सकळय जणी
सामायिक कहि, उस्सग्ग एक चितेइ रे ॥ चण ॥ ४ ॥ बीजे एक दर्शनाचार
नो, त्रीज अतिचार चित रे ॥ चरित्रनो तिहां एक हेतु ठे, अल्प व्यापा
र निसि चित रे ॥ चण ॥ ५ ॥ पारी सिद्धस्त्व कही पठे जाव काउस्सग्ग
विहि पुव रे ॥ प्रत्येक काउस्सग्ग पडिक्कमणथी, अशुद्धनो शोध ए अपुव
रे ॥ चण ॥ ६ ॥ इहां वीर ठमासी तप चितवे, हे जीव तुं करी शके तेह रे
॥ न सकुं एगाइ इणुण तीसतां, पंच मासादि पण जेह रे ॥ चण ॥ ७ ॥ एक
मास जावतेर ऊणडो, पठे चउत्तिस मांहि हाणी रे ॥ जाव चउथ अंवि
ल पोरिसी, नमुक्कारसी योग जाणी रे ॥ चण ॥ ८ ॥ शक्ति तांइ चित्त ध
री पारीयें, मुहपत्ती वंदण दाण रे ॥ इहामो अणुसठि कही तिगथुइ

श्व चिद् वंदण सुह जाण रे ॥ च० ॥ ए ॥ साधु वली श्राद्धकृत औपधो,
मागे आदेश जगवन्न रे ॥ बहुवेल संदीसावुं, बहुवेल करुं लघुतर अनु
सति मन रे ॥ च० ॥ १० ॥ चउखमासमण वंटे मुनि अष्टाङ्गोसु ते कहे
सहारे ॥ करे रे पडिलेहण जावथी, सुजसमुनि विदित सुगुणठ रे ॥ ११ ॥

॥ ढाल आठमी ॥ सरसती मुऊ रे मातादियो बहुमान रे ॥ ए देशी ॥

॥ हवे परिक्रय रे चउदसि दिन सुधि पडिक्रमे, पडिक्रमतां रे । नत्य न
पर्व अतिक्रमे ॥ गृह शोध्युं रे प्रतिदिन तो पण शोधीयें, पखसंधि रे इम
ए मन अनुरोधियें ॥ ११ ॥ त्रुटक ॥ अनुरोधियें गुरुक्रम विशेषे, उत्तर करण
ए जाणीयें ॥ जिम धूप लेपन वर विचूषण, तैल न्हाणे माणीयें ॥ मुहप
त्ती वंदण संबुद्ध खामण, तीन पांच पांच शेष ए ॥ पस्कि आलोयण अति
चारा, लोचना सुविशेष ए ॥ १२ ॥ ढाल ॥ सवस्सवि रे परिक्रयस्स इत्यादि
क जणी, पायष्ठित्त रे उपवासादिक पडीसुणी ॥ वंदण देइ रे प्रत्येक खा
मणां खामीयें, देवसियं आलोइअ रे इत्यादिक विश्रामियें ॥ १३ ॥ त्रुटक ॥
विश्रामियें सामायिक सूत्रें, खमासमण देइ करी ॥ कहे एक पाखी सूत्र
बीजा, सुणे काउस्सग्ग धरी ॥ पाखी पडिक्रमणा सूत्र कहिने, सामायि
क त्रिक उच्चरी ॥ उज्जोअ वार करे काउस्सग्ग, हर्ष निज हिअडे धरी ॥
४ ॥ ढाल ॥ मुहपत्ती रे पडिलेही वंदण दीये, समास खामणां रे खमासम
ण देइ खामियें ॥ खमासण चारे रे पाखी खामणां खामजो, इठामो अणु
सठि रे कही देवसी परिणामजो ॥ १५ ॥ त्रुटक ॥ परिणामजो सवि जवन दे
वि, क्षेत्र देवीमां जली ॥ तो पण विशेषे इहां संचारो, अजितशांति स्तव
वली ॥ इहां ज्ञानाचारनी शुद्धि वंदन संबुद्ध खामणे जाणीयें ॥ दर्शनाचा
रनी लोगस्स प्रगटे, काउस्सग्ग प्रमाणीयें ॥ १६ ॥ ढाल ॥ परिमाणे रे अति
चार प्रत्येक खामणें, पाखीसूत्र दुगई रे चारित्रशुद्धि पाखी खामणे ॥ काउ
स्सग्गे रे, तप आचारना चांखजो ॥ सघले आराध्ये रे वीर्याचारनी दाख
जो ॥ १७ ॥ त्रुटक ॥ दाखजो चउ मास वरसी, पडिक्रमणनो जेद ए ॥ चउ
मास वीस दुवीस मंगल, उसग्ग वरसि निवेद ए ॥ पाखी चोमासी पंचवरसें
सग दुशेंवे खामीयें ॥ सञ्चाय ने गुरुशांति विधिजुं, सुजस लीला पामीयें ॥ १८ ॥

॥ ढाल नवमी ॥ दूखो लखना विषयनो ॥ ए देशी ॥

॥ निज थानकथी पर थानकें, मुनि जाय प्रमादे जेह मेरे ढाल ॥ फ

री पाहुं थानकें आवुं, पडिक्रमणुं कहियें तेह मेरे लाल ॥ १ ॥ पडिक्रम
जो आनंद मोजमां, त्यजी खेदादिक अडदोष मेरे लाल ॥ जिम जिम
अध्यातम जागरो, तिम तिम होशे गुणपोष मेरे लाल ॥ पडि० ॥ २ ॥ ए
आंकणी ॥ पडिक्रमण मूल पदें कहुं, अणकरवुं पापनुं जेह ॥ मे० ॥ अप
वादे तेहनुं हेतु ए, अनुबंध ते समरस मेह ॥ मे० ॥ पडि० ॥ ३ ॥ प्रतिक्र
मकनें प्रतिक्रमणे करी, अघप्रतिकर्तव्य अनाण ॥ मे० ॥ शब्दार्थ सामा
न्यें जाणीयें, निंदा संवर पञ्चस्काण ॥ मे० ॥ पडि० ॥ ४ ॥ पडिक्रमणुं ने
पञ्चस्काण ठे, फलथी वर आतम नाण ॥ मे० ॥ तिहां साध्य साधन वि
धि जाणजो, जगवइ अंग सुजस प्रमाण ॥ मे० ॥ पडि० ॥ ५ ॥

॥ ढाल दशमी ॥ तुं मतवाले साजना ॥ ए देशी ॥

॥ पडिक्रमण पदारथ आसरी, कहुं अध्वतणो दिछंतो रे ॥ इक पुरें नृप
ठे ते बाहिरें, घर करवाने संजंतो रे ॥ १ ॥ तुमें जोजो रे चाव सोहामणो,
जे वेधक हूए ते जाणे रे ॥ मूरख ते औषध काननुं, आंखे घाले निजम
ति ताणे रे ॥ तुमें० ॥ २ ॥ ए आंकणी ॥ तिहां बांध्युं सूत्र जलेदिने, रख
वाला मेढ्या सारा रे ॥ हणवो ते जे इहां पेसरो, इस्या कीधा तेणे पूका
रा रे ॥ तुमें० ॥ ३ ॥ जे पाठे पगले उंसरे, राखीजें तेहनां प्राण रे ॥ इम
कही ते सज्ज हुइ रह्या, धरी हाथमां धनुष ने वाण रे ॥ तुमें० ॥ ४ ॥ तस
व्यासंगें दोइ गामडी, तिहां पेठा तेणे दीग रे ॥ कहे कां तुमे पेठा पा
पीया, तिहां इक कहे करि मन धीछा रे ॥ तुमें० ॥ ५ ॥ इहां पेठां श्यो
मुज दोष ठे, तेणे ते हणीयो वाणे रे ॥ पाठे पगले बीजो उंसख्यो, मूक्यो
कहे पेठो अणाणे रे ॥ तुमें० ॥ ६ ॥ ते जोगनो आजागी हूउ, बीजे न ल
ह्या जोग संयोग रे ॥ ए उव्यें चावे जाणजो, इहां उपनय धरि उपयोग
रे ॥ तुमें० ॥ ७ ॥ राजा तीर्थकर तेणे कहुं, मारग संयम रहो राखी रे ॥
चूक्यो ते रखवालें हणयो, सुख पाम्यो जे सत्य चांखी रे ॥ तुमें० ॥ ८ ॥
प्रतिक्रमण प्रमाद अतिक्रमे, इहां रागादिक रखवाला रे ॥ ते जो रूप
प्रशस्तें जोडीये, तो होवे सुजस सुगाला रे ॥ तुमें० ॥ ९ ॥

॥ ढाल अगीयारमी ॥ प्रीत पूरव पामीयें ॥ ए देशी ॥

॥ कांइ जाणां किजं वनी आवेलो, माहरो मोहनगारीशुं संग हो मित्त
॥ माहारा प्राण पियारारो रंग हो मित्त ॥ कांइ० ॥ १ ॥ नदियां होये तो बांधि

ये, कांश् समुद्र बांध्यो न जाय हो मित्त ॥ लघु नग होय तो आरोहिये,
मेरु आरोह्यो न जाय हो मित्त ॥ कांश् ॥ १ ॥ वाथ शरीरें घालीये, नगने
न वाथ घलाय हो मित्त ॥ सरोवर होये तो तरी शकां, नदी साहामी गंग
न तराय हो मित्त ॥ कांश् ॥ ३ ॥ वचन काया ते तो बांधीये, मन नवि
बांध्यो जाय हो मित्त ॥ मन बांध्या विण प्रचु ना मिले, किरिया निष्फल
थाय हो मित्त ॥ कांश् ॥ ४ ॥ एक सहज मन पवनरो, जूठ कहे ग्रंथ
कार हो मित्त ॥ मनरी दौर ते दूर ठे, जिहां नही पवन प्रचार हो मित्त
॥ कांश् ॥ ५ ॥ मित्त कहे मन चल सहि, तोपण बांध्यो जाय हो मि
त्त ॥ अज्यास वैरागें करी, आदर श्रद्धा बनाय हो मित्त ॥ ६ ॥ हुं जाणुं
युं बनी आवेलो ॥ ए आंकणी ॥ किणहि न बांध्यो जलनिधि, रामे बां
ध्यो सेत हो मित्त ॥ वानर तेही ऊपर चढ्या, मेरु गंजीरता वेत हो मि
त्त ॥ हुं जाणुं ॥ ७ ॥ शुभयोगें ञड बांधीये, अनुज्ञवें पार लहाइ हो मि
त्त ॥ पडिअरणा पडिक्कमणनो, इमज कह्यो पर्याय हो मित्त ॥ हुं जाणुं
॥ ८ ॥ पडिअरणा गति गुणतणी, अशुभथी ते पडिकंती हो मित्त ॥ ति
हां प्रासाद दृष्टांत ठे, सुणो टाळी मन त्रांति हो मित्त ॥ हुं जाणुं ॥ ९ ॥
कोइ पुरें एक वणिक हुठ, रत्ते पूर्ण प्रासाद हो मित्त ॥ सोंपी चार्याने ते
गयो, दिग्यात्रायें अविषाद हो मित्त ॥ हुं जाणुं ॥ १० ॥ स्नान विले
पन चूषणें, केश निवेश शृंगार हो मित्त ॥ दर्पण दर्शन व्यग्र ते, लागे
बीजुं अंगार हो मित्त ॥ हुं जाणुं ॥ ११ ॥ प्रासाद तेणीयें न जोइऊं, खू
णो पडियो एक हो मित्त ॥ देश पडि इस्युं तेहनें, सा कहे धरीअ विवेक
हो मित्त ॥ हुं जाणुं ॥ १२ ॥ चीतें पीपल अंकूर हुठ, ते पण न गणे
साइ हो मित्त ॥ तेणे वधते घर पडियुं, जिम पूरें वनराइ हो मित्त ॥
हुं जाणुं ॥ १३ ॥ देसाउरी आव्यो घरधणी, तेणे दीगो ञस प्रासाद
हो मित्त ॥ नीसारी घरथी चामिनी, ते पामीयो अतिहि विषाद हो मित्त
॥ हुं जाणुं ॥ १४ ॥ तेणे फरी प्रासाद नवीन कस्यो, आणी बीजी घरनार
हो मित्त ॥ कहे जो प्रासाद ए विणसशे, तो पहिलीनी गति धार हो मि
त्त ॥ हुं जाणुं ॥ १५ ॥ फरि गयो देशांतरे आणीयो, ते त्रिहुं संध्या ए
जोइ हो मित्त ॥ चाणुं कांश् होय ते समारतां, प्रासाद ते सुंदर होइ हो
मित्त ॥ हुं जाणुं ॥ १६ ॥ धणी आवे दीगो तेहवो, घर स्वामीनी कीधी

तेह हो मित्त ॥ बीजी हुइ दुःख आजागिनी, ऊपनय सुणजो धरि नेह
हो मित्त ॥ हुं जाणुं ॥ १७ ॥ आचारय गृह प्रभु वाणीयो, प्रासाद ते
संयम रूप हो मित्त ॥ तेहने ते राखवो ऊपदिशे, न करे ते आये विरूप
हो मित्त ॥ हुं जाणुं ॥ १८ ॥ प्रासाद ते जेणे थिर कख्यो, ते पाम्यो सु
जस जगीश हो मित्त ॥ इहां पृठक कथक ते एक ठे, मथरचना गुरुने
शिष्य हो मित्त ॥ हुं जाणुं ॥ १९ ॥

॥ ढाल बारमी ॥ बन्यो रे विद्याजीरो कलपडो ॥ ए देशी ॥

॥ हवे मन हरणा पडिक्रमणनो, पर्याय सुणो एणी रीति हो मुण्डिंद ॥
परिहरणा सर्वथी वर्जना, अज्ञानादिकनी सुनीति हो मुण्डिंद ॥ १ ॥ प
डिक्रमण ते अविशद योगथी ॥ ए आंकणी ॥ एकनामे एक कुलपुत्रनी,
नगिनी दोइ ग्रामें ऊढ हो मुण्डिंद ॥ पुत्री एक तस दोइ बहिनना, हुआ
सुत युवनाव प्ररूढ हो मुण्डिंद ॥ पडिं ॥ २ ॥ पुत्रीअर्थें ते आविया, कहे
सुविवेकी कुलपुत्र हो मुण्डिंद ॥ तुम सुत दोइ मुऊ एकज सुता, मोकली
दिउं जे होय पवित्र हो मुण्डिंद ॥ पडिं ॥ ३ ॥ ते गइ सुत दोइ ते मो
कळ्या, घट आपी कख्यो आणो दूध हो मुण्डिंद ॥ कावड नरी दूध निव
र्तिया, तिहां दोइ मारग अनुरूढ हो मुण्डिंद ॥ पडिं ॥ ४ ॥ एक निकट
ते अतिहिं विषम अठे, दूरें ते सम ठे मग हो मुण्डिंद ॥ समे आव्यो
एक विषम त्यजी, बीजे, निकटथी विषम ते मग हो मुण्डिंद ॥ पडिं ॥
॥ ५ ॥ घट जागो तस इक पग खळ्यो, बीजो पण पडते तेण हो मुण्डिंद ॥
समे आव्यो तेणे पयरा दीयो, सुता दीधी तेण गुणेण हो मुण्डिंद ॥
पडिं ॥ ६ ॥ गति त्वरितें आव्यो नवि कळुं, पय लावजो में कळुं एम
हो मुण्डिंद ॥ कुलपुत्रें वक्र तिरस्कख्यो, धरो जाव ए उपनय प्रेम हो मु
ण्डिंद ॥ पडिं ॥ ७ ॥ तीर्थकर ते कुलपुत्र ठे, चारित्र ते पय अजिराम हो
मुण्डिंद ॥ ते राखे चारित्र कन्यका, परणावे ते निर्मल धाम हो मुण्डिंद
॥ पडिं ॥ ८ ॥ गोकुल ते मानुष्य जन्म ठे, मारग ते तव जप रूप हो मु
ण्डिंद ॥ ते थिविरने दूर नजीक ठे, जिनकळपीने तो अनूप हो मुण्डिंद ॥
पडिं ॥ ९ ॥ नवि अगीतार्थ राखी शके, चारित्र पय उग्रविहार हो मुण्डि
ंद ॥ निवृत्ति दुर्लभ ठे तेहने, बीजो पामे वहेलो पार हो मुण्डिंद ॥ पडिं
॥ १० ॥ दुग्ध काय दृष्टांत ए, दूध कावड तस्त अठ हो मुण्डिंद ॥ परि

हरणा पद वर्णव्युं, इम सुजस सुहेतु समच्च हो मुण्डिंद ॥ पडिण ११ ॥

॥ ढाल तेरमी ॥ आसणरा जोगी ॥ ए देशी ॥

वारणा ते पडिक्रमण प्रगट ए ठे, मुनिने ते प्रमादथी जाणो रे ॥ सुणो संवर धारी ॥ इहां विषयुक्ति तलावरो जांख्यो, दृष्टांत ते मन आणो रे ॥ सुणो ॥ १ ॥ एक पुरें एकराजे ठे राजा, तेणें जाण्युं परदल आव्युं रे ॥ सुणो ॥ २ ॥ जदय जोजने मीठा जलमां, गाम गाम विष जाव्युं रे ॥ सुणो ॥ ३ ॥ प्रति नृप पडह इम घोषावे, जे जदय जोज्य ए खाशे रे ॥ सुणो ॥ ४ ॥ पीशे मीठा जल हुइ होंशी, ते यम मंदिर जाशे रे ॥ सुणो ॥ ५ ॥ दूरथी आणी जोज्य जे जमशे, खारां पाणी पीशे रे ॥ सुणो ॥ ६ ॥ ते जीवी होशे सुख लहेशे, जय लडियें वरशे रे ॥ सुणो ॥ ७ ॥ ४ ॥ जेणे नृप आण करी ते जीव्या, वीजा नि र्धन लहंत रे ॥ सुणो ॥ ८ ॥ इव्य वारणाइ ए इहां, जावो जावें उपनय संत रे ॥ सुणो ॥ ९ ॥ जिनवर नृपति विषम विष मिश्रित, जविने जोज्य निवारे रे ॥ सुणो ॥ १० ॥ जवजमे रागीने तरे रे वैरागी, वाचक जस ते संजारे रे ॥ सुणो ॥ ११ ॥

॥ ढाल चौदमी ॥ चंद्रावलानी देशी ॥

॥ पडिक्रमण निवृत्ति प्रमादथी रे ॥ रायकनी दिष्टंत ॥ इक नगरें इक शालापति, धूर्त सूता तस रत ॥ जर यौवनमां कांइ न दीधां हे, मन मथ माचते कांइ न दीधां हे, अवसरें बयल ढवीलाने कांइ न दीधां हे, ला वण्य लहरें जातें कांइ न दीधां हे ॥ १ ॥ जोरुलमांरुली ते कहे आपण ना सियें, सा कहे सखी मुऊ नृप पुत्ति ॥ संकेत तिणशुं ठे किज रे तेडी लावी सा जत्ति ॥ जर ॥ २ ॥ तेणे गीत परजातें सुण्युं, पाठी निवर्ति ताम ॥ आणुं करंमीयो रलनो, इम वचन जांखी साम ॥ जर ॥ ३ ॥ फूल्यां तोशुं कणिआरडां, अहिसास बुठे अंब ॥ तुज फूलबुं जुगतुं नही, जो नीच करे विडंब ॥ जर ॥ ४ ॥ कोलीक सुता कणिआरडी, हुं लत्ता हुं सहकार ॥ अधि मास घोषण गीतए, काळ हरण अशुचनुं सार ॥ जर ॥ ५ ॥ तस तात शरणे आवीयो, नृपगोत्र एक पवित्र ॥ परणावी पटराणी करी, निज राज्य आपे जैत्र ॥ जर ॥ ६ ॥ कन्या थानक मुनि विषय ते, धूर्त सुजा पित गीति ॥ निवर्ते ते जसनें सुख लहे, बीजो न ए ठेरीति ॥ जर ॥ ७ ॥

॥ ढाल पंदरमी ॥

॥ बीजो पण दृष्टांत ठे रे, एक गळें एक साधरे ॥ ग्रहण धारण इम

तेहने रे, आचार्य जणावे अगाध रे ॥ १ ॥ धारो रे जाव सोहामणो रे,
तुझे सारो रे आतम काज रे ॥ वारो रे तेहने पापथी, संतारो पाम्युं ठे
राज रे ॥ धारो रे जाव सोहामणो रे ॥ ए आंकणी ॥ पापकर्म तस अ
न्यदा रे, हुळ उदयागत अति घोर रे॥निकट्यो गळथी एकलो रे, जाणे
विषय जोगवुं जोर रे ॥ धारो रे० ॥ २ ॥ कहे सुत तरुण भंगल तदा रे, उ
पयोगे सांजले तेह रे ॥ जिम ते जट पाठा फख्या रे, तेणे कीधो चारित्रसुं
नेह रे ॥ धारो रे० ॥३॥ गाथा ॥ तिरि अवाय पड्निआ, मरियवा वा स
मरेसभछेणं ॥ असरीस जण उद्धावाणं, सहीअवा कुल प्पसुएणं ॥धा०॥
॥ ४ ॥ साधु चिंतवे रे सारांसमां रे, प्रव्रज्या हुं जग्न रे ॥ लोक हीलाथी
निवर्तिठ रे, हुओ सुजस गुरु पय लग्न रे ॥ धारो रे० ॥ ५ ॥

॥ ढाल सोलमी ॥ अहो मतवाले साहिवा ॥ ए देशी ॥

॥ निंदा ते पडिक्कमण ठे, दृष्टांत चित्रकर पुत्री रे ॥ एक नगरें एक नृप
ति ठे, ते सजा करावे सचित्री रे ॥ जावि सुजाषित रस ग्रहो ॥ १ ॥ ए
आंकणी ॥आपी चित्रकार सर्वने, तेणे चित्रवा नू समजागे रे॥ चित्रे ते ए
कने दीवे, जात आणी पुत्री रागे रे ॥ जावि० ॥ २ ॥ राजा आवे वेगे
हयें, कष्टीयें नावी ते आवे रे ॥जात आणी तेम ते रही, तात देह चिंता
ये आवे रे ॥ जावि० ॥३॥ आलेखे शिखिपिहमां, वाने करी कुटिम देशे
रे ॥ गत आगत करतो तिहां, नृप देवे छलित निवेशें रे ॥ जावि० ॥ ४ ॥
ते ग्रहवा कर वाहियो, लख जागी हसी सा बोले रे॥मूर्खमंच त्रिक पाद
घो, तुं हुळ चोथाने तोले रे ॥ जावि० ॥५॥ नृप कहे किम तव सा कहे,
राज मारगें घोडो दोडावे रे॥ जीवी पुण्यें हुं तेहथी, ए पहलो पायो मने
आवे रे ॥ जावि० ॥६॥ वीजो पायो नरपति, समजाग सजा जेणे आपी
रे ॥वृद्ध तरुण कोड् नवि गण्यो, वीजो तात न जेणे मतथापी रे॥जावि०
॥ ७ ॥ देह चिंतायें ते गयो, अन्न टाहुं थाये ते न जाणे रे ॥ चोथो तुं
शिखि पिह कयां, किम संजवे झणे टाणे रे ॥ जावि० ॥७॥ चित्त चमक्यो
राजा गयो, घरे सा गड् वाप जमाडी रे॥स्मर सरस्या तास गुणे ह्युं, नृप
चित्त ते मूक्युं जमाडी रे ॥ जावि० ॥८॥ वेधक वयणे मारके, पारकें वश
कीधो राजा रे ॥ विण मस्तक ते आशकी, कहो केम करी रहेवे ताजा रे
॥ जावि० ॥९॥ हुई त्रियामा शत यामसी, तस मात ते प्रात बोलावी रे

॥कहे तुम पुत्री दीजीयें, किमे दारिद्र्यें वात ए थावी रे ॥जाविण॥११॥
 राजायें घर सधन जखुं, मनोहरणा ते विधिशुं परणी रे ॥ दासी कहे नृप
 जिहां लगें, नावे कथा करो इक वरणी रे ॥ जाविण ॥ १२ ॥ सा कहे ए
 क पुत्रीतणा, समकाले त्रण वर आव्या रे ॥ निज इष्टायें जूआ जूआ,
 माय जाइयें वापें वराव्या रे ॥ जाविण ॥ १३ ॥ रात्रि सा सापें रुशी, ते
 सायें वाढ्यो एक रे ॥ अणसण एक करी रह्यो, सुर आराधे इक सविवेक
 रे ॥ जाविण ॥ १४ ॥ आवी संजीविनी मंत्र ते, जीवाड्या ते विहुं तेणी
 रे ॥ त्रण्ये मिळिया सामटा, कहनें दीजें कन्या केणें रे ॥ जाविण ॥ १५ ॥
 दासी कहे जाणुं नहीं, तुं कहे जे जाणे साचुं रे ॥ सा कहे अब निद्राळुं तुं
 काले कहेशुं जाणुं जे जाचुं रे ॥ जाविण ॥ १६ ॥ राजा प्रचन्न ते सांचले,
 बीजे पण दिन दीये वारो रे ॥ गुण करी वेचातो लीये, चीतारी कहे उन्न
 र सारो रे ॥ जाविण ॥ १७ ॥ सायें जीव्यो ते त्राता हुउं, जेणे जीवाडी
 ते तातो रे ॥ अनशनीयानें दीजीयें, एतो प्राणनुं पण विख्यातो रे ॥ जाविण
 ॥ १८ ॥ दासी कहे बीजी कहो, सा कहे एक नृपनै सारी रे ॥ घडे आ
 चरण अंतेउरें, जोंयरमां रक्षां ते सोनार रे ॥ जाविण ॥ १९ ॥ तिहांथी
 नीकलतुं नथी, मणि दीपतणुं अजवाळुं रे ॥ कुण वेला एकें पूळ्युं कहे,
 ते राति अंधारुं ठे काळुं रे ॥ जाविण ॥ २० ॥ किम जाणे दासी कहे, जे
 सूर्य चंद्र न देखे रे ॥ काले कहेशुं आजे उंघशुं, भोजमां कहियें ते लेखे
 रे ॥ जाविण ॥ २१ ॥ बीजे दिन सा तिम वदे, रात्यंभ ते जाणे चेली रे ॥
 अवसर कथा पूठी कहे, नृप एकनें चोर वे चेली रे ॥ जाविण ॥ २२ ॥
 पेटीमां घाली समुद्रमां, वाहीसी तट किहां लागी रे ॥ केणे उघाडी देखी
 या, पूळ्युं केते दिने त्यागी रे ॥ जाविण ॥ २३ ॥ चोथो दिन ठे एक कहे,
 दासी कहे ते किम जाणे रे ॥ बीजे दिने सा हसी कहे, तुर्यज्वर ने परमा
 णे रे ॥ जाविण ॥ २४ ॥ पूठी कहे दो शोक्य ठे, एक नगरें रत्नवती पहेली
 रे ॥ विश्वास बीजीनो नही करे, घटे घाले रतन ते वहेली रे ॥ जाविण
 ॥ २५ ॥ लीपी मुंदी घट मुख रहे, बीजी रतन लेइ घट मुंदे रे ॥ रतन ग
 यां तेणीयें जाणीयां, दासी कहे ते किम विंदे रे ॥ जाविण ॥ २६ ॥ बीजे
 दिन कहे घट काचनो, उतां हरियां केम न दीसे रे ॥ पूठी कहे बीजी क
 था, इक नृपनें सेवक चार हीसे रे ॥ जाविण ॥ २७ ॥ सहस्रयोधी वैद्य

रथकरु, चौथो निमित्त वेदि ठे सारो रे ॥ पुत्री एक ठे मनहरू, किहां लइ
 गयो खेचर प्यारो रे ॥ जविण ॥ १७ ॥ ते आणे तस नृप दीये, निसुणी नि
 मित्तियो दिशि दाखे रे ॥ रथकार ते रथ खग करे, चारे चाढ्या रथ आ
 खे रे ॥ जविण ॥ १८ ॥ सरखें खेचर हएयो तेणे, मरते कन्या मारी रे ॥
 वैद्य जीवाडे औषधें, चारने दीये नृप अविचारी रे ॥ जविण ॥ १९ ॥ कन्या
 कहे एक चारनी, नवि थाजं जे पेसे आगें रे ॥ हुं तेहनी हुं स्त्री हवे, क
 हे पेसशे तिहां कुण रागें रे ॥ जविण ॥ २० ॥ दासी कहे बीजो कुण कहे,
 बीजे दिने कहे सा ते निमित्ती रे ॥ जे निमित्ते जाणे मरे नहीं, चय
 साथें पेठो सुचित्तें रे ॥ जविण ॥ २१ ॥ रंगे सुरंगें नीकली, अंगे साजो
 परणे कन्यारे ॥ बीजी कथा कहे एक स्त्री, मागे हेम कटक डुग धन्यारे
 ॥ जविण ॥ २२ ॥ मूढ्य रूपक देइ कोइ दीये, तेणे घाढ्यां सुतानें हाथे रे
 ॥ प्रौढ थइ ते न नीसरे, मागे मूलरूपक साथें रे ॥ जविण ॥ २३ ॥ बीजां
 दीधां वांढे नहीं, शुं करतुं कहे इहां दासी रे ॥ सा कहे अवर न चतुर
 ठे, तुं कहे ने करे शुं हांसी रे ॥ जविण ॥ २४ ॥ बीजे दीने कहे तेह जो,
 रूपक दीये कटक तो दीजें रे ॥ जूप आख्याने एहवे, निजघरे षट मास
 आणीजें रे ॥ जविण ॥ २५ ॥ शोक्यें जूवे ठे तेहनां, उरडामां रही ची
 तारी रे ॥ पहरी वस्त्रादिक मूलगां, जीवने कहेजो चारी रे ॥ जविण ॥
 २६ ॥ राजयवंश पत्नी घणी, राजाने तुं शीकारू रे ॥ नृपमानें जे पुण्य ते,
 बीजी मूकी रूपें वारू रे ॥ जविण ॥ २७ ॥ इम करती ते देखी सदा, रा
 जाने शोक्य जणावे रे ॥ कामण ए तुऊने करे, राखो जीवने जो चित्त जा
 वे रे ॥ जविण ॥ २८ ॥ आत्मनिंदा करती नृपें, देखी कीधी सा पटराणी
 रे ॥ अव्यनिंदा ए जावथी, करे जे संयत सुहनाणी रे ॥ जविण ॥ २९ ॥
 दश दृष्टांते दोहिलो लही, नरचव चारित्र जो लहियुं रे ॥ तो बहुश्रुत म
 द मत करो, बुझू कहेवुं सुजस ते कहियुं रे ॥ जविण ॥ ३० ॥
 ॥ढाव शतरमी॥राणीजी हो जातीरो कारण माहरे कोइ नहींजी ॥एदेशी॥
 ॥ गहीं ते निंदा परसाखशुं जी, ते पडिक्कमण परयाय ॥ दृष्टांत ति
 हां पतिमारिका जी, वर्णव्यो चित्त सुहाय ॥ साचलो जाव मन धारजो
 जी ॥ १ ॥ किडांएक अध्यायक विप्र ठे जी, ठे रे तरुणी तस चज्ज ॥ का
 क वलि देहि प्रियेश कहे जी, सा कहे विहूं अज्ज ॥ साचण ॥ २ ॥ नीरु

ते जाणी राखे जले जी, वारे वारे घणा ठात्र ॥ उपाध्यायना रे आदेश
थी जी, मान्य ठे तेह गुणपात्र ॥ साचण ॥ ३ ॥ माहा ठग ते ठगीने ठ
गे जी, एक कहे मुग्ध न एह ॥ जोउं हुं चरित्र सवि एहनुं जी, सहजथी
कपट अठेह ॥ साचण ॥ ४ ॥ नर्मदाना पर कूलमां जी, गोपशुं सा निशि
आय ॥ अन्यदा नर्मदा उतरे जी, कंचे सा चोर पण जाय ॥ साचण ॥
५ ॥ चोर एक ग्रहो रे जल जंतुयें जी, रोडू कहे सा दृग टांकी ॥ तीरथ
मेलीने म ऊतरो जी, जाइ कुतीर्थ ते वांकी ॥ साचण ॥ ६ ॥ जोइ इम
ठात्र पात्रो वढ्यो जी, वीजे दिने बलि देत ॥ राखतो ठात्र जली परे कहे
जी, श्लोक एक जाणण होत ॥ साचण ॥ ७ ॥ श्लोक ॥ दिवा विज्ञेति का
केज्यो, रात्रौ तरति नर्मदां ॥ कुतीर्थ नीच जानासि, जलं जंतवक्षिरोध
नम् ॥ १ ॥ ढाल पूर्वली ॥ सा कहे शुं करुं उपवरे जी, तुऊ सरिखा नवि
दद ॥ ते कहे बिहुं तुज पति थकी जी, हुइ ते पति मारी विलद ॥ सा
चण ॥ ८ ॥ पोटले घाली अटवी गइ जी, थंजे शिर व्यंतरी तेह ॥ वन
जमे मास उपर गले जी, चूपने तृषी रे अठेह ॥ साचण ॥ ९ ॥ घर घर
इमज जिह्वा जमे जी, पतिमारीने दियो जिस्क ॥ इम घणे कालें जाते
थके जी, चित्तमां लही अतिसिस्क ॥ साचण ॥ १० ॥ अन्यदा संयतणी
बंदता जी, शिरथकी पडीयो ते चार ॥ व्रत ग्रही ते हबुई थइ जी, गर्हा
यें सुजस सुखकार ॥ साचण ॥ ११ ॥

॥ ढाल अढारमी ते तरियारे जाइतेतरिया, जे विषय न सेवे विरुआरे ॥ एदेशी
॥ ते तरिया रे जाइ ते तरिया, क्रोधादिकथी जे उतरीया रे ॥ सोही
पडिक्रमणे आदरिया, वन्न दृष्टांत सांजरीया रे ॥ ते तरियाण ॥ १ ॥ ए
आंकणी ॥ वन्न अमूढ्य राजादिक धरिया, मलिन जाणी परहरिया रे ॥
रजक लेइ ग्रंथि बांधी फरीया ॥ राजज उपरें करियां रे ॥ ते तरिण ॥ २ ॥
लेइ जख शिलकूटें पाथरिया, पगमदीं ऊंवरिया रे ॥ खार देइ वरनीरे
जाख्यो, अगुरु वासरे सूरिया रे ॥ ते तरिण ॥ ३ ॥ चूपतिने चूपति पी
तरिया, तस शिरपर संवरीया रे ॥ एम जे रागादिकगण वरीया, अष्ट थइ
नीसरिया रे ॥ ते तरिण ॥ ४ ॥ महिमा मूकी हुआ ठाकरिया, विरुद्ध
कर्म आचारियां रे ॥ प्रायश्चित्तें करिया पाखरिया, ते पण गुरु ऊरु रिया रे
॥ ते तरिण ॥ ५ ॥ ते फरि हूआ महिमाना दरिया, शिष्ट जनें आदरि

या रे ॥ पाली ज्ञान सहित वर किरिया, जववनें ते नवि फरिया रे ॥ ते तरिण ॥ ६ ॥ चीत तणा हुच्या ते विहरिया, घर राखण पीयरिया रे ॥ अनुजव गुणना ते जाहिरिया, मुनि मनना माहरिया रे ॥ ते तरिण ॥ ७ ॥ पाले ते अचुइ जागरिया, बुद्धसमा वारारिया रे ॥ एम शोधे बहुजन नीसरिया, सुजसें गुण उच्चरिया रे ॥ ते तरियाण ॥ ८ ॥

॥ दोहा ॥ वली आगें दृष्टांत ठे, शोधि तणे अधिकार ॥ परदल परपुर आवते, अधिपति करे विचार ॥ १ ॥ वैद्य तेड्या जल नाशवा, विषादियें जब एक ॥ जूंमुं देखी नृप कोपियो, दाखे वैद्य विवेक ॥ २ ॥ सहस्रवेधि ए कोपमां, करिने मूर्खा देइ ॥ ते विष हुउं तज्जहियो, एम सही शाता धरेइ ॥ ३ ॥ राजा कहे ठे वालना, वैद्य कहे ठे सार ॥ औषध लव देइ विष हरे, व्यापक जीव हजार ॥ ४ ॥ अतिचार विष जे हुउं, ओसरे ते थी साध ॥ निंदा अगदें सुजस गुण, संवर अव्यावाध ॥ ५ ॥

॥ ढाल उगणीशमी ॥ टोरुमल जीत्यो रे ॥ ए देशी ॥

॥ हेतु गर्ज पूरो हूउं रे, पहोता मनना कोड ॥ वैराग बल जीतीयुं रे ॥ दक्षिय ते दुर्जन देखतां रे, विघ्ननी कोडा कोडा ॥ वैण ॥ १ ॥ गइ आपदा संपदा रे, आवी होडा होडी ॥ वैण ॥ सज्जन मांहे मलपता रे, चाले मोडा मोडी ॥ वैण ॥ २ ॥ जिम जिन वरसी दानमां रे, नर कर ऊडा ऊडी ॥ वैण ॥ तम सज्जु उपदेशमां रे, वचन विचारशुं ठोडी ॥ वैण ॥ ३ ॥ लीयो लियो घेरमां मोहरा रे, हरव्यो मुंठ मरोडी ॥ वैण ॥ अशुज प्रकृति सेना दली रे, शुजनी तो नही खोडि ॥ वैण ॥ ४ ॥ कर्म चीवर वर पोलीयो रे, पोली दीये ठे ठोडी ॥ वैण ॥ तखत वखत हवे पा मशुं रे, हुई रही दोडादोडी ॥ वैण ॥ ५ ॥ सूरत चोमासुं रही रे, वाचक जस करी जोडी ॥ वैण ॥ युग युग मुनि विधु वत्सरें रे, (१७११) देउ मं गल कोडी ॥ वैण ॥ ६ ॥ इति श्री उपाध्याय श्रीयशोविजयगणिकृत प्रतिक्रमणहेतुगर्जितसमुद्गरित सद्वायः संपूर्णः ॥

॥ अथ श्री शिवल विषे सद्वाय ॥

॥ सोमविमल गुरु पय नमीजी, निजगुरु चरण वंदेवि ॥ शीलतणा गुण गायशुं जी, हियडे हर्ष धरेवि रे ॥ जीवडा ॥ धरीयें शीलव्रत सार ॥ १ ॥ शी खविण व्रत सवि खडहडे जी, शील विण संयम सार रे ॥ जीवडा ॥ धरिण

॥ ए आंकणी ॥ तोरणथी रथ वालियोजी, जाग्यो नेमकुमार ॥ राजीम
ती विनवे घणुं जी, न धरे मोह लगार रे ॥ जी० ॥ धरि० ॥ १ ॥ थूलिज
द्र कोश्याघर रहे जी, चतुरपणे चउमास ॥ खटरस नित नोजन करे जी,
न पढ्यो कोश्या पास रे ॥ जी० ॥ धरि० ॥ ३ ॥ नवाणुं कंचन कोडी धणी जी,
कहीयें जंबुकुमार ॥ आठे कन्या परहरी जी, लीधो संयम चार रे ॥ जी०
॥ ध० ॥ ४ ॥ धन संचय पुत्री जणे जी, परणुं वयर कुमार ॥ वयरस्वामी मन
नवि चढ्यो जी, जाणी अथिर संसार रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ५ ॥ शेठ सुदर्शनने
दीये जी, अजया कपिला रे आल ॥ शूली सिंहासन थयुं जी, जाणे वा
ल गोपाल रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ६ ॥ वंकचूर चोरी करे जी, पेठो राय चंमार ॥ रा
णीयें घणुं चोखव्यो जी, न चढ्यो चित्त लगार रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ७ ॥ कलह
करावे अतिघणो जी, मनमां मेलो रे जाव ॥ नारद जे सज्जति लहे जी, ते
तो शील प्रजाव रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ८ ॥ चंदनवाला महासती जी, जगमां हुइ
विख्यात ॥ जस हाथे वीर पारणुं जी, हुइ असंजव वात रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ९ ॥ साठ
सहस वर्ष आंखिल करी जी, चरतशुं ठंढे रे प्रेम ॥ ऋषज पुत्री ते सुंदरी जी,
मुक्तें पद्दोती खेम रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १० ॥ शीलवती चरतारनें जी, कमलिनी
आपे सार ॥ क्यारे कुर माथे नही जी, शीलतणे अनुजाव रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ११
चालणीयें जल काढियुं जी, सती सुजडा नार ॥ चंपा वार उधाडीयां जी,
लोक करे जयकार रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १२ ॥ सतीमांहे सीता जली जी, जेहने
मन श्रीराम ॥ अग्नि टली पाणी थयुं जी, राख्युं जगमां नाम रे ॥ जी० ॥
ध० ॥ १३ ॥ शीलें हरीयुं हरणवुं जी, शीलें संकट जाय ॥ शीलें साप न
आजडे जी, पावक पाणी थाय रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १४ ॥ जे प्राणी स्वकाय थ
की जी, शील पावे गुणवंत ॥ ब्रह्म लोक ते अवतरे जी, इम जांखे जगवंत
रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १५ ॥ शील अखंफित पावशे जी, इण जुग जे नर नार ॥ हं
ससोम उवद्याय जणे जी, तेहने जयजयकार रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीपंदर तिथिनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ सकल विद्या वरदायिनी, श्रीसरसतिमाय ॥ अहोनिशि तेहना प्रेम
शु, प्रणमी जिन पाय ॥ १ ॥ तास पसार्यें गायशुं, पन्नरतिथि वारु ॥ मत्स
रथी कहेतो नथी, महारी मति सारु ॥ २ ॥ पडवा कूप संसारमां, नवि इ
हे प्राणी ॥ तो सेवो श्रीसाधुने, मति निर्मल आणी ॥ ३ ॥ बोध बीज

या रे ॥ पाली ज्ञान सहित वर किरिया, जववनें ते नवि फरिया रे ॥ ते तरिण ॥ ६ ॥ ज्ञीत तणा हुआ ते विहरिया, घर राखण पीयरिया रे ॥ अनुजव गुणना ते जाहिरिया, मुनि मनना माहरिया रे ॥ ते तरिण ॥ ७ ॥ पाले ते अचुइ जागरिया, बुद्धसमा वारारिया रे ॥ एम शोधे बहुजन नीसरिया, सुजसें गुण उच्चरिया रे ॥ ते तरियाण ॥ ८ ॥

॥ दोहा ॥ बली आगे दृष्टांत ठे, शोधि तणे अधिकार ॥ परदल परपुर आवते, अधिपति करे विचार ॥ १ ॥ वैद्य तेड्या जल नाशवा, विषादिये जब एक ॥ जूकुं देखी नृप कोपियो, दाखे वैद्य विवेक ॥ २ ॥ सहस्रवेधि ए कोपमां, करिने मूर्खा देइ ॥ ते विष हुठ तझकियो, एम सही शाता धरेइ ॥ ३ ॥ राजा कहे ठे वालना, वैद्य कहे ठे सार ॥ औषध लव देइ विष हरे, व्यापक जीव हजार ॥ ४ ॥ अतिचार विष जे हुठ, थोसरे ते थी साध ॥ निंदा अगदें सुजस गुण, संवर अव्याबाध ॥ ५ ॥

॥ ढाल उगणीशमी ॥ टोरुमल जीव्यो रे ॥ ए देशी ॥

॥ हेतु गर्ज पूरो हुठ रे, पहोता मनना कोड ॥ वैराग बल जीतीयुं रे ॥ दलिय ते दुर्जन देखतां रे, विघ्ननी कोडा कोडा ॥ वैण ॥ १ ॥ गइ आपदा संपदा रे, आवी होडा होडी ॥ वैण ॥ सज्जन मांहे मलपता रे, चाले मोडा मोडी ॥ वैण ॥ २ ॥ जिम जिन वरसी दानमां रे, नर कर ऊडा ऊडी ॥ वैण ॥ तम सजुरु उपदेशमां रे, वचन विचारशुं गोडी ॥ वैण ॥ ३ ॥ लीयो लियो घेरमां मोहरा रे, हरव्यो मुंठ मरोडी ॥ वैण ॥ अशुच प्रकृति सेना दली रे, शुचनी तो नहीं खोडि ॥ वैण ॥ ४ ॥ कर्म चीवर वर पोलीयो रे, पोली दीये ठे गोडी ॥ वैण ॥ तखत वखत हवे पा मशुं रे, हुई रही दोडादोडी ॥ वैण ॥ ५ ॥ सूरत चोमासुं रही रे, वाचक जस करी जोडी ॥ वैण ॥ युग युग मुनि विधु वत्सरें रे, (१७११) देउ मं गल कोडी ॥ वैण ॥ ६ ॥ इति श्री उपाध्याय श्रीयशोविजयगणिकृत प्रतिक्रमणहेतुगर्जितसमुद्गरित सद्वायः संपूर्णः ॥

॥ अथ श्री शिवल विषे सद्वाय ॥

॥ सोमविमल गुरु पय नमीजी, निजगुरु चरण वंदेवि ॥ शीलतणा गुण गायशुं जी, हियडे हर्ष धरेवि रे ॥ जीवडा ॥ धरीयें शीलव्रत सार ॥ १ ॥ शीलविण व्रत सवि खडहडे जी, शील विण संयम सार रे ॥ जीवडा ॥ धरिण

॥ ए आंकणी ॥ तोरणथी रथ वालियोजी, जाग्यो नेमकुमार ॥ राजीम
ती विनवे घणुं जी, न धरे मोह लगार रे ॥ जी० ॥ धरि० ॥ २ ॥ थूलिन्न
द्र कोश्याघर रहे जी, चतुरपणे चउमास ॥ खटरस नित नोजन करे जी,
न पढ्यो कोश्या पास रे ॥ जी० ॥ धरि० ॥ ३ ॥ नवाणुं कंचन कोडी धणी जी,
कहीयें जंबुकुमार ॥ आठे कन्या परहरी जी, लीधो संयम नार रे ॥ जी०
॥ ध० ॥ ४ ॥ धन संचय पुत्री नणे जी, परणुं वयर कुमार ॥ वयरस्वामी मन
नवि चढ्यो जी, जाणी अधिर संसार रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ५ ॥ शैठ सुदर्शनने
दीये जी, अन्नया कपिला रे आल ॥ शूली सिंहासन थयुं जी, जाणे वा
ल गोपाल रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ६ ॥ वंकचूर चोरी करे जी, पेठो राय चंमार ॥ रा
णीयें घणुं चोलव्यो जी, न चढ्यो चित्त लगार रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ७ ॥ कलह
करावे अतिघणो जी, मनमां मेलो रे जाव ॥ नारद जे सज्जति लहे जी, ते
तो शील प्रजाव रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ८ ॥ चंदनवाला महासती जी, जगमां हुइ
बिख्यात ॥ जस हाथे वीर पारणुं जी, हुइ असंभव वात रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ९ ॥ साठ
सहस वर्ष आंबिल करी जी, चरतशुं ठंढे रे प्रेमा ॥ रूपन पुत्री ते सुंदरी जी,
मुक्तें पद्दोती खेम रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १० ॥ शीलवती चरतारनें जी, कमलिनी
आपे सार ॥ क्यारे कुर माथे नही जी, शीलतणे अनुजाव रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ ११
चालणीयें जल काढियुं जी, सती सुजडा नार ॥ चंपा वार उघाडीयां जी,
लोक करे जयकार रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १२ ॥ सतीमांहे सीता जली जी, जेहने
मन श्रीराम ॥ अग्नि टली पाणी थयुं जी, राख्युं जगमां नाम रे ॥ जी० ॥
ध० ॥ १३ ॥ शीलें हरीयुं हरणलुं जी, शीलें संकट जाय ॥ शीलें साप न
आजडे जी, पावक पाणी थाय रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १४ ॥ जे प्राणी स्वकाय थ
की जी, शील पाले गुणवंत ॥ ब्रह्म लोक ते अवतरे जी, इम चांखे जगवंत
रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १५ ॥ शील अखंफित पालशे जी, इण जुग जे नर नार ॥ हं
ससोम उवद्याय नणे जी, तेहने जयजयकार रे ॥ जी० ॥ ध० ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीपंदर तिथिनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ सकल विद्या वरदायिनी, श्रीसरसतिमाय ॥ अहोनिशि तेहना प्रेम
शु, प्रणमी जिन पाय ॥ १ ॥ तास पसायें गायशुं, पन्नरतिथि वारु ॥ मत्स
रथी कहेतो नथी, महारी मति सारु ॥ २ ॥ पढवा कूप संसारमां, नवि इ
छे प्राणी ॥ तो सेवो श्रीसाधुने, मति निर्मल आणी ॥ ३ ॥ बोध बीज

तुने आपशे, वली कहेशे मर्म ॥ दुर्गति पडतो राखशे, शीखवशे धर्म ॥
 ४ ॥ त्रिहुं जगमांहे कोइ नही, एहवा उपगारी ॥ गरथ विना जे शीखवे
 संयममति सारी ॥ ५ ॥ चिहुं गतिमांहे को नही, जमियो बहुवार ॥ वि
 विधपरे दुःख जोगव्यां, नवि पाम्यो पार ॥ ६ ॥ पंचेंद्रिय ते आपणां, प
 हेलां वश कीजें ॥ चार कषाय निवारियें, परदोष न दीजे ॥ ७ ॥ ठकाय
 जलीपरे राखीयें, निज आतम तोले ॥ कुटुंब सहू ए आपणो, इम जिनव
 र बोले ॥ ८ ॥ सात मढ्या नवि चाळीयें, तेतो कुव्यसन जाणी ॥ सहगुरुनी
 ए शीखडी, ग्रही ज्ञानज आणी ॥ ९ ॥ आठ मद इंद्रियतणा, जीपो जि
 नसाखें ॥ मनवंठित फल पामीयें, परप्राणी राखे ॥ १० ॥ नवविध वाड वि
 शुद्धशुं, जे ब्रह्मव्रत पावे ॥ ते धीरा संसारमां, जव फेरा टावे ॥ ११ ॥ दश
 विध धर्म यति तणो, सेवो मन सूधो ॥ आराधो अरिहंतने, ध्याउं निर्मल
 बुद्धो ॥ १२ ॥ एकादश प्रतिमा वहो, श्रावकनी सार ॥ संतोषे सुख उपजे,
 मानो निरधार ॥ १३ ॥ द्वादशांगी सिद्धांतमां, इम जिनवर बोले ॥ सुमति
 गुप्ति सेवे जिके, नही को तस तोले ॥ १४ ॥ ते रस वीणा जे रमे, धन ते
 नर नारी ॥ वार वार वांटूं वली, तस हुं बलिहारी ॥ १५ ॥ चौदराजमांहे
 जीवडो, जमियो बहुवार ॥ कुगुरु कुदेवे जोलव्यो, नवि पाम्यो पार ॥ १६ ॥
 पूने मळीया सजुरु, सही सेवो चरण ॥ जवनो पार उतारशे, सही तारण
 तरण ॥ १७ ॥ सहगुरु विरुद वहे बहु, पर तारण काजा ॥ दुर्गति पडतो
 राखीयो, परदेशी राजा ॥ १८ ॥ एह आदि बहु उरुखा, केता हूं दाखुं ॥
 पंक्ति होय ते प्रीठजो, थोडामां बहु चाखुं ॥ १९ ॥ पन्नरतिथिमां प्राणि
 या, नित्य सुकृत कीजे ॥ दान शिष्यतप ज्ञानना, करि लाहो वीजें ॥ २० ॥
 ध्यान धरीजें धर्मनुं, पहोंचे मन आश ॥ हरष धरी सुणजो सहू, कहे से
 वक गंगदास ॥ २१ ॥ इति पन्नरतिथि सद्वाय ॥

॥ अथ रेंटीयानी सद्वाय प्रारंज ॥

॥ बाइ रे अमने रेंटीयो वालो, रेंटीयो घरनुं मंत्नाण जो ॥ परणी त्रिया
 ठोडीने चाढ्यो, गयो परदेशे कंथ कमाण जो ॥ वा० ॥ १ ॥ वारे वर्षे पर
 एयो आव्यो, दोढ त्रांवीयो लाव्यो रे ॥ गंगामांहे न्हावा पेठो, दोढ त्रां
 वीयो पाड्यो रे ॥ वा० ॥ २ ॥ माय तायने ससरे सासुयें, अमने कीधां अल
 गां रे ॥ दुःखनिवारण रेंटीयो धास्यो, तेहने जइने वलगां रे ॥ वा० ॥ ३ ॥

देणुं उताखुं सघखुं पीयुनुं, व्याजें रूपैयो वाध्यो रे ॥ सुखने कारण रूपै
यो रूडो, पुण्ये कंत ए लाधो रे ॥ बा० ॥ ४ ॥ देराणी जेठाणी आवी,
बोखे मीठी वाणी रे ॥ रेंटियाना पसायथी तो, वीजी आणे पाणी रे ॥
॥ बा० ॥ ५ ॥ रेंटियाना पसायथी तो, कोडी काम में कीधां रे ॥ दान दी
धां अमें अति घणां ने, महियलमां यश लीधां रे ॥ बा० ॥ ६ ॥ तुं आवू ती
रथथी उपनो, रूडी ताहारी जात रे ॥ दिवसें रात्रें रेंटियो कांतुं, चढीयो
महारे हाथ रे ॥ बा० ॥ ७ ॥ रेंटियाथी आचूषण जारी, पहेस्यां चीर ने
साळू रे ॥ मोंधा कमखानी कांचली पहेरी, जोजन कीधां वारू रे ॥ बा०
॥ ८ ॥ सासरीयां पीयरीयां आवे, बाइ घरे तमें आवो रे, ठोकरडाने टा
हाड वाहे ठे, जूलडीयो शिवडावो रे ॥ बा० ॥ ९ ॥ शेत्रुजानी यात्रा की
धी, साथें सासरियां पीयरियां रे ॥ गोत्र कुटुंब सहु नर ने नारी, संघवी
नाम ते धरियां रे ॥ बा० ॥ १० ॥ त्रणशें एकावन माफानी वडेलो, गाडां
चारशें पंचाशी रे ॥ वशें उपर पंचाणुं घोडा, उंट त्रणशें वली व्याशी रे
॥ बा० ॥ ११ ॥ हीरविजय सूरि पांत्रीश उपाध्याय, पन्यास गौतम जेइ
वा रे ॥ तेरशें पांत्रीश तपगहना साधु, शीलें श्रुतिचक्र जेइवा रे ॥ बा० ॥
॥ १२ ॥ पाळीताणे संघवण उतरिया, यात्रा नवाणुं कीधा रे ॥ केशर चं
दने ऋषज्जी पुज्या, रैवते जइ लाज लीधा रे ॥ बा० ॥ १३ ॥ समेतशिख
रने आवु गोडी, संखेश्वरो श्रीपास रे ॥ न्हानां महोटां तीरथ जेव्यां, म
ननी फली सत्रि आश रे ॥ बा० ॥ १४ ॥ शिखर बावननुं चैत्यज कीधुं,
जिनप्रतिमा उदार रे ॥ पंच पाषाणने त्रीश धातुनी, रूपैया सहसज चा
र रे ॥ बा० ॥ १५ ॥ चिहुं बारे रूडी वाव्य करावी, ठशे ने रूपैया व्याशी
रे ॥ कूवा तलाव वलियासुं चंगी, नवशें उपर व्याशी रे ॥ बा० ॥ १६ ॥
हीरविजयसूरि पंदर उपाध्याय, ठाणुं त्रणशें त्याशी रे ॥ नवअंगें पूजी
पारणां कराव्यां, गुरु ऋक्ति करी बारेमासी रे ॥ बा० ॥ १७ ॥ आंबिल उं
ली पांचम अगियारस, तप सधलां में कीधां रे ॥ उवणी चावखी सिद्धांत
खखावी, साधु साध्वीने दीधां रे ॥ बा० ॥ १८ ॥ उजमणां घर हाट करा
व्यां, सासु ससरानो खप कीधो रे ॥ दीकरा दीकरी जावेंज परणाव्यां,
रतन रेंटिये जस लीधो रे ॥ बा० ॥ १९ ॥ घेबर जळेवीये गोरणी कीधी,
लाहाणी थालीनी कीधी रे ॥ सवाशेर खांरु ने एक रूपैयो, चोराशी नाते

दीधी रे ॥ बा० ॥१०॥ बाप चाइने ससरो प्रीतम, ठामे सगपण तेह रे ॥
 रतन रेंटीयो जीवुं तिहां लगें, कदीय न आवे ठेह रे ॥ बा० ॥११॥ धरी
 चाकने माल चमरखां, तेल लोट वली पूणी रे ॥ अल्प मागे ने घणुं दीये
 रेंटीयो, नारीयें करी घणी पूंजी रे ॥ बा० ॥१२॥ सायरने वनस्पति कूंगर,
 ध्रुव तारा सूरज चंदो रे ॥ कोडी युग लगें रहो रेंटीयो, स्त्री घर सदा आ
 णंदो रे ॥ बा० ॥१३॥ शोल पांत्रीशो मेडता नगरें, शुदि तेरश माहा मा
 स रे ॥ रत्नवाश्यें रेंटीयो गायो, सफल फली मन आश रे ॥ बा० ॥१४॥

॥ अथ घीनी सद्यय ॥

॥ दोहा ॥ ऋवियण चाव घणो धरी, आणी गुणनी श्रेणि ॥ सूपड सर
 खा थाय जो, चालणी परें मह जेणि ॥ १ ॥ साप तणा गुण माणजो, गा
 य तणा गुण आण ॥ जूळ चार नीरस चरी, आपे घृत अहिनाण ॥ २ ॥ घृ
 ततणा गुण वर्णवुं, सांजलजो नर नारी ॥ वस्तु सघली जोइ सही, घृत
 समो नहिं संसार ॥ ३ ॥

॥ ढाल चोपाइनी देशीमां ॥ घृतें रूप वाधे बल कांति, घृतें क्रोध थाये
 उपशांति ॥ लूखुं धान्य ते दोहिलुं पचे, घृत सहित सहकोने पचे ॥ ४ ॥
 कूकस बाकस जेहमां घृत, तेह धान्य लागे अमृत ॥ वाणिया ब्राह्मण
 सर्व सुजाण, घृत पाखें ते धूजे प्राण ॥ ५ ॥ हाथ पग उतह्या संधाय, दी
 ल तणा ते खोडा जाय ॥ घृतनी परें विगल कहेवराय, ए उपम घृतने
 देवराय ॥ ६ ॥ बालकने घृत वाहाळुं सही, रोईने रोटी घी लेही ॥ वली
 लहे एकवार ते रंगे, घृत जिमे देही तगतगे ॥ ७ ॥ घृतथकी नारां बूराय,
 सूवावडी ते घीअज खाय ॥ बलद पीये ते मातो थाय, घी खाधे नवला
 इ जाय ॥ ८ ॥ उजा रहीने घी पीजीयें, तेज सबल आंखे कीजीयें ॥ गा
 यनुं घी हरे सवि वाय, व्याधि सर्वे घीथी जाय ॥ ९ ॥ शाक पाक थाय
 ऋला घीथी, बीजुं एहवुं उंसड नथी ॥ घीनो दीवो मंगलिक कळो, घीयें
 जमाइ रीसातो रळो ॥ १० ॥ न्हाणा महोटा कुलर करे, थोणुं होय तो ल
 वको जरे ॥ सूंहाळुं गलगल जतरे, सीहारी होय तो माखण हरे ॥ ११ ॥
 सासु जमाइ करवा मेल, कोप उपाडी कीधो जेल ॥ खलहल नामे ऋलि
 कहेवाय, घी पीरसे तो प्रीतज थाय ॥ १२ ॥ वरे पूठे घी केतुं वखुं,
 घीय पखें ते लेखुं कखुं ॥ घी संचेरे विवाह अठे, बीजी वस्तु लेखुं पठें

॥ १३ ॥ घृत दाने समकित आणियें, धन्नो सार्थपति जग जाणियें ॥ ब्राह्मणने घी वखाणीया, नित्य जमे पुण्यवंत वाणिया ॥ १४ ॥ पामर खाये परविवाहें, करपी खाये परघर जाये ॥ उंदर साप वृद्ध ते थाय, धन उ पर परठी रहे पाय ॥ १५ ॥ बुधवारे घी टीळूं करे, शूल रोग उपडव हरे ॥ घरडाने घी वाळुं सही, जूना हाड रहे घीथी लही ॥ १६ ॥ पाटी पी डें घी मूकीयें, घाव वली गुंवड त्रह दीये ॥ घी खाधे तप सोहिलो थाय, पग बल नयणें तेज कहाय ॥ १७ ॥ ठतुं घीय जे पीरसे नही, नरणां ना म तस लीजें नही ॥ सघला ऊपर घृत ठे सार, ते मत वारो वारोवार ॥ १८ ॥ घीना गुणने उत्तमनां वयण, ए ठे सरखां जाणो सयण ॥ शुचवि जय पंक्तिथी लह्यो, लालविजय घीनो गुण कह्यो ॥ १९ ॥ इति ॥

॥ अथ स्त्रीने शीखामणनी सद्याय ॥

॥ नाथ कहे तुं सुण रे नारी, शीखामण ठे सारी जी ॥ वचन ते सघ ला वीणी लेशे, तेहनां कारज सरशे ॥ शाणां थश्यें जी ॥ १ ॥ जातरा जागरणने विवाहमां, माता साथे रहीयें जी ॥ सासरीयामां जल जर वाने, सासु साथें जश्यें ॥ शा० ॥ २ ॥ दिशा अंधारीने एकलडां, मार्गमां नवि जश्यें जी ॥ एकली जाणी आल चढावे, एवडुं शाने सहियें ॥ शा० ॥ ३ ॥ व्हाणामां वहेलेरां ऊठी, घरनो धंधो करियें जी ॥ नणंद जेठाणी पासे जइने, सुख दुःख वात न करियें ॥ शा० ॥ ४ ॥ चोकामां चतुराइ ये रहिये, रांधतां नवि रमीयें जी ॥ सहुकोने प्रसाद करावी, पाठल पोते जमीयें ॥ शा० ॥ ५ ॥ गांठे पहेरी घरमां रहिये, वाहार पग नवि जरिये जी ॥ ससरा जेठनी लाज करीने, मां आगलथी टलियें ॥ शा० ॥ ६ ॥ बूटे केशे शिर उघाडे, आंगणमां नवि जश्ये जी ॥ पुरुष तणो पडवायो देखी, मां आगल नवि रहिये ॥ शा० ॥ ७ ॥ एकांते दीयरीया साथे, हाथे ताळी न लश्ये जी ॥ प्रेमतणी जो वात करे तो, मां आगलथी खशिये ॥ शा० ॥ ८ ॥ आचरण पहेरी अंग शोजावी, हाथे दर्पण न लश्ये जी ॥ पीयुडो जो परदेश सधावे, तो काजल रेख न दश्यें ॥ शा० ॥ ९ ॥ पीयुडा साथे क्रोध न करीये, रीसावी नवि रहीये जी ॥ ठैयां ठोरु ठोकरडांने, ताडन कदीय न करीयें ॥ शा० ॥ १० ॥ उजड मंदिरमांहि क्यारे, एकलडां नवि जश्यें जी ॥ एकली जाणी आल चढावे, एवडुं शाने सहियें ॥ शा० ॥ ११ ॥ फिरियल

दीधी रे ॥ बा० ॥१०॥ बाप ज्ञाने ससरो प्रीतम, ठामे सगपण तेह रे ॥
 रतन रेंटीयो जीवुं तिहां लगें, कदीय न आवे ठेह रे ॥ बा० ॥११॥ धरी
 त्राकने माल चमरखां, तेल लोट वली पूणी रे ॥ अटप मागे ने घणुं दीये
 रेंटीयो, नारीयें करी घणी पंजी रे ॥ बा० ॥१२॥ सायरने वनस्पति मूंगर,
 ध्रुव तारा सूरज चंदो रे ॥ कोडी युग लगें रहो रेंटीयो, स्त्री घर सदा आ
 णंदो रे ॥ बा० ॥१३॥ शोल पांत्रीशो मेडता नगरें, शुदि तेरश माहा मा
 स रे ॥ रत्नबाइयें रेंटीयो गायो, सफल फली मन आश रे ॥ बा० ॥१४॥

॥ अथ घीनी सञ्चय ॥

॥ दोहा ॥ जवियण जाव घणो धरी, आणी गुणनी श्रेणि ॥ सूपड सर
 खा थाय जो, चालणी परें मह जेणि ॥ १ ॥ साप तणा गुण माणजो, गा
 य तणा गुण आण ॥ जूड चार नीरस चरी, आपे घृत अहिनाण ॥ २ ॥ घृ
 ततणा गुण वर्णवुं, सांजलजो नर नारी ॥ वस्तु सघली जोइ सही, घृत
 समो नहिं संसार ॥ ३ ॥

॥ ढाल चोपाइनी देशीमां ॥ घृते रूप वाधे बल कांति, घृते क्रोध थाये
 उपशांति ॥ दूखुं धान्य ते दोहिवुं पचे, घृत सहित सहुकोने पचे ॥ ४ ॥
 कूकस वाकस जेहमां घृत, तेह धान्य लागे अमृत ॥ वाणिया ब्राह्मण
 सर्व सुजाण, घृत पाखें ते धूजे प्राण ॥ ५ ॥ हाथ पग उतखा संधाय, दी
 ल तणा ते खोडा जाय ॥ घृतनी परें विगल कहेवराय, ए ऊपम घृतने
 देवराय ॥ ६ ॥ बालकने घृत वाहाळुं सही, रोईने रोटी घी लेही ॥ वली
 लहे एकवार ते रंगे, घृत जिमे देही तगतगे ॥ ७ ॥ घृतथकी नारां बूराय,
 सूवावडी ते घीअज खाय ॥ बलद पीये ते मातो थाय, घी खाधे नबला
 इ जाय ॥ ८ ॥ उजा रहीने घी पीजीयें, तेज सबल आंखे कीजीयें ॥ गा
 यनुं घी हरे सवि वाय, व्याधि सर्वें घीथी जाय ॥ ९ ॥ शाक पाक थाय
 जला घीथी, बीजुं एहवुं उंसड नथी ॥ घीनो दीवो मंगलिक कह्यो, घीयें
 जमाइ रीसातो रह्यो ॥ १० ॥ न्हाणा महोटा कुलर करे, थिणुं होय तो ल
 वको नरे ॥ सूंहाळुं गलगल ऊतरे, सीहांरी होय तो माखण हरे ॥ ११ ॥
 सासु जमाइ करवा मेल, कोष उपाडी कीधो जेल ॥ खलहल नामे जलि
 कहेवाय, घी पीरसे तो प्रीतज थाय ॥ १२ ॥ बरे पूठे घी केलुं वखुं,
 घीय पखें ते लेखुं कखुं ॥ घी संचारे विवाह अठे, बीजी वस्तु लेशुं पठें

॥ १३ ॥ घृत दाने समकित् आणियें, धनो सार्थपति जग जाणियें ॥ ब्राह्मणने घी वखाणीया, नित्य जमे पुण्यवंत वाणिया ॥ १४ ॥ पामर खाये परविवाहें, करपी खाये परघर जाये ॥ उंदर साप वृद्ध ते थाय, धन उ पर परठी रहे पाय ॥ १५ ॥ बुधवारें घी टीलूं करे, शूल रोग उपद्रव हरे ॥ घरडाने घी वाळुं सही, जूना हाड रहे घीथी लही ॥ १६ ॥ पाटी पी हें घी मूकीयें, घाव वली गुंवड त्रह दीये ॥ घी खाथे तप सोहिलो थाय, पग वल नयणें तेज कहाय ॥ १७ ॥ ठतुं घीय जे पीरसे नही, नरणां नाम तस लीजें नहीं ॥ सघला ऊपर घृत ठे सार, ते मत वारो वारोवार ॥ १८ ॥ घीना गुणने उत्तमनां वयण, ए ठे सरखां जाणो सयण ॥ शुभविजय पंक्तिथी लह्यो, लालविजय घीनो गुण कह्यो ॥ १९ ॥ इति ॥

॥ अथ स्त्रीने शीखामणनी सद्याय ॥

॥ नाथ कहे तुं सुण रे नारी, शीखामण ठे सारी जी ॥ वचन ते सघला वीणी लेशे, तेहनां कारज सरशे ॥ शाणां थड्यें जी ॥ १ ॥ जातरा जागरणने विवाहमां, माता साथे रहीं जी ॥ सासरीयामां जल जर वाने, सासु साथें जश्यें ॥ शा० ॥ २ ॥ दिशा अंधारीने एकलडां, मार्गमां नवि जश्यें जी ॥ एकली जाणी आल चढावे, एवडुं शाने सहियें ॥ शा० ॥ ३ ॥ वहाणामां वहेलेरां ऊठी, घरनो धंधो करिये जी ॥ नणंद जेगणी पासे जश्ने, सुख दुःख वात न करियें ॥ शा० ॥ ४ ॥ चौकामां चतुराशये रहिये, रांधतां नवि रमीयें जी ॥ सहुकोने प्रसाद करावी, पाठल पोते जमीयें ॥ शा० ॥ ५ ॥ गांठे पहेरी घरमां रहिये, बाहार पग नवि जरिये जी ॥ सतरा जेठनी लाज करीने, मां आगलथी टलियें ॥ शा० ॥ ६ ॥ बूटे केशे शिर उघाडे, आंगणमां नवि जश्ये जी ॥ पुरुष तणो पडठायो देखी, मां आगल नवि रहिये ॥ शा० ॥ ७ ॥ एकांते दीयरीया साथे, हाथे ताळी न लश्ये जी ॥ प्रेमतणी जो वात करे तो, मां आगलथी खशिये ॥ शा० ॥ ८ ॥ आचरण पहेरी अंग शोचावी, हाथे दर्पण न लश्ये जी ॥ पीयुडो जो परदेश सधावे, तो काजल रेख न दश्यें ॥ शा० ॥ ९ ॥ पीयुडा साथे क्रोध न करीये, रीसावी नवि रहीं जी ॥ ठैयां ठोरु ठोकरडाने, ताडन कदीय न करीयें ॥ शा० ॥ १० ॥ उजड मंदिरमां हि क्यारे, एकलडां नवि जश्यें जी ॥ एकली जाणी आल चढावे, एवडुं शाने सहियें ॥ शा० ॥ ११ ॥ फि.

नारीनो संग न करियें, तस संगें नवि फरियें जी ॥ मार्ग जातां विचार करीने, उंको पाव न धरियें ॥ शा० ॥ ११ ॥ उदयरतन वाचक इम बोले, जे नर नारी जणशे जी ॥ तेहना पातक डूरें टलशे, मुक्तिपुरीमां मलशे ॥ शा० ॥ १३ ॥ इति स्त्रीशिखामण सञ्चाय ॥

॥ अथ श्रीसकलचंद्र उपाध्यायजीकृत वारजावनानी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ राग रामघ्री ॥

॥ विमलकुल कमलना हंस तुं जीवडा, जुवनना चाव चित्त जो विचारी ॥ जेणे नर मनुज गति रत्न नवि केलव्युं, तेणे नरनारी मणि कोडि हारी ॥ १ ॥ विमल० ॥ ए आंकाणी ॥ जेणे समकित धरी सुकृत मति अणुसरी, तेणें नरनारी निज गति समारी ॥ विरतिनारी वरी कुमति मति परहरी, तेणें नरनारी सब कुगति वारी ॥ वि० ॥ २ ॥ जैन शासन विना, जीव यतना विना, जे जना जग जमे धर्महीना ॥ जैनमुनि दान बहुमान हीरा नरा, पशुपरें ते भरे त्रिजगदीना ॥ वि० ॥ ३ ॥ जैनना देवगुरु धर्म गुण चावना, चावी नितु ज्ञान लोचन विचारी ॥ कर्मजर नाशनी वारवर चावना, चावि नित जीव तुं आप तारी ॥ वि० ॥ ४ ॥ सर्वगतिमांहि वर नरजबो दुल्लहो, सर्वगुण रत्नो शोधिकार ॥ सर्वजगजंतुने जेणे हितकी जियें, सोइ मुनि वंदीयें श्रुत विचारी ॥ सकलमुनि वंदीयें श्रुत विचारी ॥ ५ ॥

॥ ढाल बीजी ॥ राग केदारो ॥

॥ चावना मालती चूशीयें, अमरपरें जेण मुनिराज रे ॥ तेणे निज आत्मा वासियें, अरतपरें मुक्तिनुं राज रे ॥ चा० ॥ १ ॥ चावना कुसु मशुं वासिया, जे करे पुण्यनां काज रे ॥ ते सवे अमर तरु परें फले, चावना दिये शिवराज रे ॥ चा० ॥ २ ॥ जूमि जननी थकी ऊपना, सुतपरें जे जगें चाव रे ॥ ते सवे जू जुजंगी गले, जिम गले वनतरु दाव रे ॥ चा० ॥ ३ ॥ जूमिना वर अनंता गया, जूम निवि गर्ह क्लिण साथ रे ॥ कृद्धिवहु पापी जे तस मली, ते न लीधी कुणें साथे रे ॥ चा० ॥ ४ ॥ गश्य छारावती हरि गयो, अथिर सब लोकनी कृद्धि रे ॥ सुणी अंते पंरुवा मुनि हवा, तेणे वरी अचलपद सिद्धि रे ॥ चा० ॥ ५ ॥ राजना पापजर शिर थकें, जस हवा शुद्ध परिणाम रे ॥ अरनचूपति परें तेहने, चावना पुण्यनां गाम रे ॥ चा० ॥ ६ ॥ राजनां पापजर शिर थकें, जस हवा शुद्ध मन चाव रे ॥ चावनासिंधुमां ते

गले, ऊतरे मोहपद ताव रे ॥ जा० ॥ ७ ॥ जे पदारथ तुज आपणो, नवि गणे प्रेमरतिबंध रे ॥ जो गणे ते हतुं आपणुं, जीव तूंहीं मति अंध रे ॥ जा० ॥ ८ ॥ कृष्णलेस्यावशं कीजीयें, कर्म जे रौद्रपरिणाम रे ॥ ते सवे धर्म नवि जाणियें, शुभ हवे शुद्ध परिणाम रे ॥ जा० ॥ ९ ॥ जे जग आश्रव जिनें जणया, ते सवे संवर होइ रे ॥ धर्म जे अशुच जावें करे, ते तस आश्रव जोइ रे ॥ जा० ॥ १० ॥ इति पीठिका ॥

॥ अथ प्रथमा अनित्यजावना ॥ ढाल त्रीजी ॥ राग रामघी ॥

॥ मूंऊ मां मूंऊ मां मोहमां जीव तुं, शब्द वर रूप रस गंध देखी ॥ अथिर ते अथिर तूं अथिर तनु जीवितं, जाव्य मन गगन हरि चाप पेखी ॥ मूं० ॥ १ ॥ लल्लि सरियतति परें एक घर नवि रहे, देखतां जाय प्रभु जी व लेती ॥ अथिर सब वस्तुने काज मूढो करे, जीवडो पापनी कोडी केती ॥ मूं० ॥ २ ॥ ऊपनी वस्तु सवि कारिमी नवि रहे, ज्ञानशुं ध्यानमां जो विचारी ॥ जाव उत्तम हस्या अधमं सब उऊख्या, संहरे काल दिन राति चारी ॥ मूं० ॥ ३ ॥ देख कलि कूतरो सर्व जगनें जखे, संहरी चूप नर को टि कोटी ॥ अथिर संसारने थिरपणे जे गणे, जाणी तस मूढनी बुद्धि खोटी ॥ मूं० ॥ ४ ॥ राच म म राजनी रुद्धिशुं परिवस्यो, अंत सब रुद्धि विसराल होशे ॥ रुद्धिसार्थें सब वस्तु मूकी जते, दिवस दो तीन परिवार रोशे ॥ मूं० ॥ ५ ॥ कुसुमपर यौवनं जलविंदु जीवितं, चंचलं नरसुखं देव जोगो ॥ अवधि मन केवली सुकवि विद्याधरा, कलियुगें तेइनो पण वियो गो ॥ मूं० ॥ ६ ॥ धन्य अनिका सुतो जावना जावतां, केवल सुरनदीमां हे लीधो ॥ जावनां सुरक्षता जेणे मन रोपवी, तेषे शिवनारि परिवार हूं ध्यो ॥ मूं० ॥ ७ ॥ इति प्रथम अनित्यजावना ॥ १ ॥

॥ अथ द्वितीया अशरण जावना ॥ ढाल चौथी ॥ राग फालहरो ॥

सांजबजो मुनिसंयमरागी ॥ ए देशी ॥

॥ को नवि शरणं को नवि शरणं, मरतां कुणने प्राणी रे ॥ ब्रह्मदत्त मरतो नवि राख्यो, सज हय गय बहु राणी रे, जस नवनिधि धन खाणी रे ॥ को० ॥ १ ॥ मातपितादिक टग मग जोतां, यमले जनने ताणी रे ॥ मरणथकी सुर पति नवि बूटे, नवि बूटे इंद्राणी रे ॥ को० ॥ २ ॥ हय गय रथ नर कोडि विद्याधर, रहे नित रायां राय रे ॥ बहु उपाय ते जीवनकाजें, करता अश

रण जाय रे ॥कोण॥३॥ मरणथी चीति कदाचित् जीवो, जो पेसे पायालें
 रे ॥ गिरिदरि वन अंबुधिमां जावे, तोची हरियें कालें रे ॥ कोण ॥४॥ अ
 घ्रापद जेणें बलें ऊपाड्यो, सो दशमुख संहरियो रे ॥ को जग धर्म विना
 नवि तरियो, पापी को नवि तरियो रे ॥ कोण ॥ ५ ॥ अशरण अनाथ जी
 वह जीवन, शांतिनाथ जग जाणो रे ॥ पारेवो जेणे शरणे राख्यो, मुनि
 तस चरण वखाण्यो रे ॥ कोण ॥ ६ ॥ सेधकुमार जीव गजगतिमां, शशलो
 शरणें राख्यो रे ॥ वीर पास जेणे जव जय कचस्यो, तप संयम करि नाख्यो
 रे ॥ कोण ॥ ७ ॥ मत्स्यपरें रोगी तडफडता, कोणे नवि सुख करियो रे ॥
 अशरण अनाथ जावना जरियो, अनाथी मुनि निसरीयो रे ॥ कोण ॥८॥

॥ अथ तृतीया संसारजावना ॥ ढाल पांश्वमी ॥ राग केदारो ॥

सर्व संसारना जाव तूं, सम धरी जीव संजारी रे ॥ ते सवे तें पण अनु
 जव्या, हृदयथी तेह उतारी रे ॥ सण ॥ १ ॥ सर्वतनुमां वसी नीसख्यो,
 तें लीया सर्व अधिकार रे ॥ जातिनें योनि सब अनुजवी, अनुजव्या सर्व
 आहार रे ॥सण॥३॥सर्व संयोग तें अनुजव्या, अनुजव्या राग ने शोग रे ॥
 अनुजव्या सुख दुःखकाल तें, पण लियो नवि जिनयोग रे ॥सण॥३॥ सर्व
 जन नातरां अनुजव्यां, पहेरिया सर्व सणगार रे ॥ पुजल तें परावर्तिया, न
 वि नम्या जिन अणगार रे ॥ सण ॥ ४ ॥ पापनां श्रुत पण तें जण्यां, तें क
 ख्यां मोहनां मान रे ॥ पापनां दान पण तें दियां, नवि दीयां पात्रनां दा
 न रे ॥ सण ॥ ५ ॥ वेद पण तीन तें अनुजव्या, तें जण्या परतणा वेद रे
 ॥ सर्व पाषंरु तें अनुजव्या, तिहां न संवेग निवेद रे ॥सण॥६॥ रडवड्यो
 जीव मित्रामति, पशु इण्या धर्मने काज रे ॥ काज कीधां नवि धर्मनां,
 हरखियो पापने काज रे ॥ सण ॥ ७ ॥ कुगुरुनी वासना माकिणी, तिण
 दम्या जीव अनंत रे ॥ तिहां नवि मुक्तिपंथ उलख्यो, तेणे हवो नवि
 जव अंत रे ॥ सण ॥ इति तृतीया संसारजावना ॥ ३ ॥

॥ अथ चतुर्थी एकत्वजावना ॥ ढाल ठठी ॥ राग मालवी गोडा ॥

॥ ए तुंहि आपकूं तूंहि ध्याउं जी, ध्यानज्ञान एकेवा ॥ जिहां तिहां
 तूं जाया एकेवा, जावेगा एकेवा ॥ एण ॥१॥ हरि हर प्रमुखा सुर नर जा
 या, तेची जग एकेवा ॥ ते संसार विविध पर खेळी, गया तेची एकेवा ॥
 एण ॥२॥ कोची लीना साथ न तेणे, कृद्दिगइ नवि साथें ॥ निज निज कर

णी लेइ गया ते, धन विण ठाले हाथे ॥ ए० ॥ ३ ॥ बहु परिवारें म राचो
 लोका, मुधा मढ्यो सब साथो ॥ रुद्धि मुधा होशे सब चिंतो, गगन त
 णी जिम बाथो ॥ ए० ॥ ४ ॥ शांतिसुधारस सरमां ळीलो, विषय विषं च
 निवारो ॥ एकपणुं शुज ध्यानं चिंती, आप आपकुं तारो ॥ ए० ॥ ५ ॥ हिं
 सादिक पापें ए जीवो, पामे बहुविध रोगो ॥ जलविण जिम माठो एके
 लो, पामे दुःख परलोगो ॥ ए० ॥ ६ ॥ एकपणुं जात्री नमिराजा, मूकी मि
 थिलाराजो ॥ मूकी नरनारी सवि संगति, प्रणमे तस सुर राजो, प्रणमे स
 कल मुनिराजो ॥ ए० ॥ ७ ॥ इति चतुर्थी एकत्वजावना संपूर्णा ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचमी अन्यत्वजावना ॥ ढाल सातमी ॥

॥ राग केदारो गोडी ॥

॥ चेतना जागि सहचारिणी, आलस गोदहुं नाखी रे ॥ हृदयघर ज्ञान
 दीवो करे, सुमति उघाडी निज आंख रे ॥ चे० ॥ १ ॥ एकशत अधिक
 अठावना, मोहि रणीया घरबारी रे ॥ हुं सदा तेह विंद्यो रहुं, तुज न
 चिंता किसि मारी रे ॥ चे० ॥ ११ ॥ जइ मुज ते अलगो करे, तो रमुं हुं तुज
 साथें रे ॥ तेहथी हुं अलगो रहुं, जो रवे तुं मुज हाथें रे ॥ चे० ॥ १३ ॥ मन
 वचन तनु सवे इंदिया, जीवथी जूजुआ होय रे ॥ अपरपरिवार सब जी
 वथी, तूं सदा चेतना जोय रे ॥ चे० ॥ (पाठांतरे) तनु वचन सवे इंदिया,
 जीवथी जूजुआ जोय रे ॥ जो रमे तुं इणे जावना, तो तुज केवल होय रे
 ॥ चे० ॥ ४ ॥ सर्व जग जीव गणि जूजुआ, कोइ कुणनो नवि होय रे ॥
 कर्मवशें सर्व निजनिज तणे, कर्मथी नवि तस्यो कोय रे ॥ चे० ॥ ५ ॥ देव
 गुरु जीवपणे जूजुआ, जूजुआ जगतना जीव रे ॥ कर्मवश सर्व निज निज
 तणे, उद्यम करे नवि क्लीब रे ॥ चे० ॥ ६ ॥ सर्व शुज वस्तु महिमा हरे, क
 लियुगो दुष्ट जूपाळ रे ॥ तिम दुकालोपि जनने हरे, अपरानी आश मन
 वाळ रे ॥ चे० ॥ ७ ॥ चिंता करे आप तुं आपणी, म म करे परतणी आश
 रे ॥ आपणुं आचखुं अनुजव्युं, विचरि परवस्तु उदास रे ॥ चे० ॥ ८ ॥
 को किये जग नवि उरुस्यो, उरुरे आपणो जीव रे ॥ धन्य जे धर्मी आ
 दर दिये, ते वसे इंद्र समीव रे ॥ चे० ॥ ९ ॥ जो जुवे जूजुवा आतमा,
 देह धन जनकथी ध्यान रे ॥ ते गइ दुःख नवि ऊपजे, जेहने मन जिन
 ज्ञान रे ॥ चे० ॥ १० ॥ इति पंचमी अन्यत्व जावना ॥ ५ ॥

॥ अथ षष्ठी अशुचिज्ञावना ॥ ढाल आठमी ॥ राग केदारो गोडी ॥

॥ मंस मल मूत्र रुधरे जख्या, अशुचि नरनारीना देह रे ॥ वारुणी कुं
ज परें जाविये, अंते दिये जीवने ठेह रे ॥ मं० ॥ १ ॥ अशुच बहु रोग
कफ नितु वहे, ए जखे जह्य अजह्य रे ॥ देहने जाणि जोखम घणां,
देह बहु जीवनो जह्य रे ॥ मं० ॥ २ ॥ इति षष्ठी अशुचिज्ञावना ॥ ६ ॥

॥ अथ सप्तमी आश्रवज्ञावना ॥ ढाल नवमी ॥ राग मधुमाद ॥

॥ जम शुजाशुज जेणे कर्म तति वेळिजे, शुज अशुजाश्रव ते वखाणो
॥ जलधरो जेम नदि वर सरोवर जरे, तिम जरे जीव बहु कर्म जाणो ॥
॥ ज० ॥ १ ॥ म म करे जीव तुं अशुज कर्मादरा, वासवा पण सकर्मा न वृ
टे ॥ जेणे जग दान वर पुण्य नवि आदर्यां, ते कृपण निर्धना पेट कूटे
॥ ज० ॥ २ ॥ मन वचन काय विषया कषाया तथा, अविरति अशुज
ध्यान प्रसादो ॥ मूकि मिथ्यामति वर उपासक यती, जग शुजाश्रवचकी
नोविषादो ॥ ज० ॥ ३ ॥ राच म म जीव तुं कुंडुब आमंवरें, जल विना मे
घ जिम फोक गाजे ॥ धर्मनां काजविण म कर आरंज तुं, तेणे तुज कर्म
नी जीड जांजे ॥ ज० ॥ ४ ॥ ते अशुज आश्रव रुंधतां जीवने, संवरो सं
वरे कर्म जाळ ॥ नावनां त्रिड रुंध्या यथा नीरने, तेणे करी जीत संवर
विशालं ॥ ज० ॥ ५ ॥ इति सप्तमी आश्रवज्ञावना ॥ ७ ॥

॥ अथाष्टमी तपोज्ञावना ॥ ढाल दशमी ॥ राग गोडी ॥

॥ तापें मीण गळे जिम माखण, तथा कर्म तपतापें रे ॥ कंचनकाट गळे
जेम आगें, पाप गळे जिन जापें रे ॥ ता० ॥ १ ॥ ते तप वार जेदशुं की
जें, कर्मनिर्जरा होवे रे ॥ सो मुनिवरनें होय सकामा, अपर अकामा
जोवे रे ॥ ता० ॥ २ ॥ अनशन जनोदरी रसत्यागो, कीजियें वृत्तिसंक्षेपो
रे ॥ संलीनता करी काय किलेशो, टले कर्मना लेशो रे ॥ तो० ॥ ३ ॥ पा
यवृत्त विनय वेयावच्च, सहायो वर छाण रे ॥ काउस्सग कीजें जेणे जवि
जन, तस तप मुक्ति निदान रे ॥ ता० ॥ ४ ॥ इत्यष्टमी तपोज्ञावना ॥ ८ ॥

॥ अथ नवमी धर्मज्ञावना ॥ ढाल अग्यारमी ॥

॥ शांति सुधारस कुंफमां ॥ ए देशी ॥

॥ राग केदारो गोडी ॥ धर्मथी जीवने जय होये, धर्मथी सवि दुःख ना
शरे ॥ रोग ने शोक जय उपशमे, धर्मथी अमर घरवास रे ॥ धर्म० ॥ १ ॥

दुर्गतिपापथी जीवने, धर्मविण नवि धरे कोइ रे ॥ वांछित दिये सुरतरु परें, दान तप शीलथी जोइ रे ॥ ध० ॥ १ ॥ धर्मवर साधु श्रावक तणो, आचख्यो जावशुं जेह रे ॥ सर्व सुख सर्व मंगल तणुं, आदखुं कारण तेह रे ॥ ध० ॥ ३ ॥

॥ अथ दशमी दानजावना ॥ ढाल वारमी ॥ राग धन्याश्री ॥

॥ जे नरा साधु आधार वरदायका, ते नरा धन्य जगविबुध गाया ॥ जे ठते योगवर साधुने नवि दिये, ते काशकुसुमपरें फोक जाया ॥ जे० ॥

॥ १ ॥ निर्मलो मुक्तिनो मार्ग जिनशासनं, साधु विण दान विण दण्ड न चाले ॥ पामतो मनुज जो साधुने नवि दिये, सो करो कपिल दासीय वाले ॥ जे० ॥ १ ॥ अकलनुं हाट नर मुक्तिनुं वाट नर, नाट तुं म कर तप पुण्य केरो ॥ कर्मने काट उतार नरजव लही, धीठ म म बोल नव वारि फेरो ॥ जे० ॥ ३ ॥ ज्ञान विज्ञान आचारपद नरजवो, पामियो पूर्व नव पुण्ययोगें ॥ पुण्यविण पशुजवें जीव परवश पड्यो, शस्त्रशुं मारियें अधम लोगें ॥ जे० ॥ ४ ॥ जीव ते नरजवें अशुजवें पशुपणे, जीवतां जीवनी कोडि मारी ॥ पुण्यविण पशुजवें रासज उकरडे, मेल नखे पूंठ तृण गुणि धारी ॥ जे० ॥ ५ ॥ जीवहिंसा सवि पाप ए जीवने, पापीयें आदस्या जीव साटे ॥ खाटकी हाट ते विविधपरें काटियें, अग्निमां दा टियें पाप माटे ॥ जे० ॥ ६ ॥ पुण्यथी दैव तुज देह रूडो घड्यो, आणी यो जैनकुल पुण्य काजें ॥ धर्म नरजन्म जो जीव हारीश तुं, घशिश नि ज हाथडा अशुज राजें ॥ जे० ॥ ७ ॥ दान तप शील संयम दयाधर्मथी, सर्वसुख रुडि जो तुं विचारी ॥ सर्वशुजयोग हारीश जो तुं पठें, घशिश जिम हाथ हाख्यो जुआरी ॥ जे० ॥ ८ ॥ जिसीअ मणिकातणी खाट सा धारणी, तिसिअ मिथ्यामति जग न रूडी ॥ त्यजिअ हिंसां कुधर्मादि स वि पाप तुं, विश्वमां मोक्खे कीर्त्ति रूडी ॥ जे० ॥ ९ ॥ पाट म म राखजे पाप आचारनो, फांट म म पाडजे धर्म वाटें ॥ जाट परें अणविशास्युं कि शुं म म करे, खोट म म पाडजे धर्म हाटें ॥ जे० ॥ १० ॥ जो तुज सुख गमे सर्वदुःख नवि गमे, विषयसो वीर रस त्यजिय खाटो ॥ (पाठांतर) विषय सोवीर तो त्यजीय गाढो ॥ आत्म अध्यात्मवर ध्यान कुंजे रमी, धर्म वर जावना अमृत चाटो ॥ जे० ॥ ११ ॥ इति दशमी दानजावना ॥ १० ॥

॥ अथैकादशी शमरसज्ञावना ॥ ढालं तेरमी ॥ राग वैराडी ॥ जे त्रीजे
जव वरथानक तप करी ॥ ए देशी ॥

॥ जविक जीव पूढे निज गुरुने, अशुच कर्म किम काटे ॥ श्रमणधर्मे
निःसंझी जीवो, जो शमतारस चाटे रे ॥ जविका शमरस अमृत चाटो ॥१॥
कुव्यसन मूको मनतो आंढो, सदोष पिंके म जरो गढो ॥ सब परसुखें म म
विषवाटो ॥ ज० ॥ श० ॥ ए आंकणी ॥ वींध्यो जीव कर्मविष कांटें, पीड्यो
चारगति फांटे ॥ शुचज्ञावें देतां दृढ पाटें, कर्म गूंबकूं फाटे रे ॥ ज० ॥
॥ श० ॥ २ ॥ पापपिंरु असत्यज दूजो, जो कषाय मद काटे ॥ निखिल
पाप निःसंगी जीवो, रहेतो सम दुःख काटे रे ॥ ज० ॥ श० ॥ ३ ॥ जननां
सुखशुच ध्यान सुलेश्या, दुकाल मूसो काटे ॥ दान पुण्य जननां सब
तेणे, वादल परें सब फाटे रे ॥ ज० ॥ श० ॥ ४ ॥ रोग शमे जेम अमृत
ढांटे, हृदय पडी नवि आंटे ॥ धर्म करंतां जविकजीवनें, शिव सुख आवे
आंटे रे ॥ ज० ॥ श० ॥ ५ ॥ गुणविण किम शिवगिरिवर चढियें, हीण
पुण्य जन रांटे ॥ वेसे जो जिन गुणमणि साटे, तो सब जव दुःख काटे
रे ॥ ज० ॥ श० ॥ ६ ॥ इति एकादशी शमरसज्ञावना ॥ ११ ॥

॥ अथ द्वादशी लोक ज्ञावना ॥ ढाल चौदमी ॥ राग परजीयो ॥
॥ ज्ञान नयनमांहे त्रिचुवन रूपी, जेणें जिन दीठो लोगो ॥ धणी आव्यो
षट्द्रव्य रूपो, प्रणमो तस जिनयोगो ॥ १ ॥ मुनिवर ध्यावो अढियदीव
लोगो ॥ ए आंकणी ॥ जिहां जिनमुनिवर सिद्ध अनंता, तिहां नहिं ज्ञान
वियोगो ॥ मु० ॥ ध्या० ॥ १ ॥ आपें सीधो केंणे न कीधो, लीधो केंणे नवि जावे
॥ आदि नहिं जस होये एतो, केवल नाणी जावे ॥ मु० ॥ ध्या० ॥ ३ ॥ अधो
लोक ठत्रासन सम वडे, तीठो जद्वरी जाणो ॥ ऊर्ध्वलोक मृदंग समाणो, स
कल मुनि चित्त आणो ॥ मु० ॥ ध्या० ॥ ४ ॥ इति द्वादशी लोकज्ञावना ॥ इति म
हामहोपाध्याय श्रीसकलचंद्रमुनिविरचित द्वादशज्ञावनाः सद्वायसमाप्तः
॥ अथ अष्टमीनी सद्वाय ॥ हो सुंदर ॥ ए देशी ॥

॥ श्रीसरस्वती चरणे नमी, आपो वचन विलास ॥ जवियण ॥ अष्टमी
गुण हुं वर्णतुं, करि सेवकने ऊह्वास ॥ ज० ॥ १ ॥ अष्टमी तप जावें करो
॥ ए आंकणी ॥ आणी हर्ष उमेद ॥ ज० ॥ तो तुमें पामशो जव तणो,
करशो कर्मनो ठेद ॥ ज० ॥ अ० ॥ २ ॥ अष्ट प्रवचन ते पालीयें, टालीयें

मदनां गम ॥ ज० ॥ अष्ट प्रातिहार्य मन धरी, जपिये जिननुं नाम ॥
 ज० ॥ अ० ॥ ३ ॥ एहवुं तप तुमें आदरो, धरो मनमां जिनधर्म ॥ ज०
 ॥ तो तुमें बुटशो आपदा, टालशो चिहुं गति मर्म ॥ ज० ॥ अ० ॥
 ४ ॥ ज्ञान आराधन एहथकी, लहियें शिवसुख सार ॥ ज० ॥ आवाग
 मन जन नवि हूठ, ए ठे जग आधार ॥ ज० ॥ अ० ॥ ५ ॥ तीर्यकर
 पदवी लहे, तपथी नवे निधान ॥ ज० ॥ जूठ मल्ली कुमरी परें, पामे ते बहु
 गुण ज्ञान ॥ ज० ॥ अ० ॥ ६ ॥ ए तपना ठे गुण घणा, जांखे श्रीजिनइश
 ॥ ज० ॥ श्रीविजयरत्नसूरींदनो, वाचकदेव सूरीश ॥ ज० ॥ अ० ॥ ७ ॥

॥ अथ ज्ञाविज्ञावनी सद्याय ॥ राग बंगाली ॥

॥ कर्में लखीयुं निश्चय रे होय, नहिं होय जोर जावीशुं कोय ॥
 जावि नां मिटे ॥ उद्यम है सा जावके हाथ, जाविकुं नही किसहीको
 साथ ॥ जावि० ॥ १ ॥ जावि तुं है आपही राजान, उद्यम है राजाको
 बीतान ॥ जावि० ॥ सादेवको तव हुए रे सिलाप, पहेलां प्रधानने
 मलियें आप ॥ जावि० ॥ २ ॥ धर्म कर्म ऊर सद्य हुवे काम, निश्चय पूरे
 मनकी हाम ॥ जावि० ॥ होणहार जे हुवे अधिकार ॥ मति उपजे तैसी
 तेणि वार ॥ जावि० ॥ ३ ॥ कर्में राम लक्ष्मण वनवास ॥ सीता वचनें
 मति गइ नास ॥ जावि० ॥ न सुण्यो कनक वेद पुराण, धाया मारण
 जावि प्रमाण ॥ जावि० ॥ ४ ॥ त्रिकूट बेट लंकानुं रे राय, रावणना सुर
 सेवे पाय ॥ जावि० ॥ योगी वेश करी अपहरि सीत, युद्ध करंतां न
 थइ जीत ॥ जावि० ॥ ५ ॥ कृष्णपुत्र सांवादि कुमार, कैपायन ऋषि
 दुह्वयो अपार ॥ जावि० ॥ द्वारिकानो तेणे कीधो रे लोप, जावीथी न
 गयो तस कोप ॥ जावि० ॥ ६ ॥ आठमो बारमो वलि चक्रीश, हणिया
 ब्राह्मण आणी रीष ॥ जावि० ॥ ब्रह्मदत्तनी गइ दोय आंख, तमस्तमा
 गयो सूत्र दे साख ॥ जावि० ॥ ७ ॥ कुंब घरे वहुं नीर हरिचंद, राज
 पादुं नावि नवनंद ॥ जावि० ॥ वीरतण्णो हुठ गर्जापहार, ते सवि जा
 वीनो अधिकार ॥ जावि० ॥ ८ ॥ जरतेश्वरनी खटखंन आण, आरसी
 लहीनें लहुं केवलनाण ॥ जावि० ॥ तप जप कीधो नही रे लगाव, जावि
 थकी लह्यो संसार ॥ जावि० ॥ ९ ॥ स्त्री वचनें करि आर्द्धकुमार, दीक्षा
 तजी रह्यो घरवार ॥ जावि० ॥ वरस चौवीश लगे पादुयो रे नेह, चरम

शरीरी ठे पण तेह ॥ जाविण ॥ १० ॥ दीक्षा खेतां सुर दीये रे शीख, अ
 वसर नहिं तुज नंदीषण दीख ॥ जाविण ॥ बार धरसर रह्यो गणिकाने
 गेह, जोग कमें दीधो नहिं ठेह ॥ जाविण ॥ ११ ॥ चउदह सय बावन
 गणधार, तेमांहे गौतम लब्धिचंकार ॥ जाविण ॥ जे दिखे ते पहेला
 मुक्तें रे जाय, पठी पोताने केवल आय ॥ जाविण ॥ १२ ॥ एम अनेक सं
 बंध अपार, समजो सहुकोइ हैडा मजार ॥ जाविण ॥ कोडी सया बुद्धें
 कर जोड, पण जाविनी न करे कोइ होड ॥ जाविण ॥ १३ ॥ उद्यमने जा
 विने आयत्त, जावि करे उद्यमनी जीत ॥ जाविण ॥ मुनि चंद्र एणि
 परें बोले अणगार, शास्त्र उपरें कीधो अधिकार ॥ जाविण ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ अथ सुगुरु गुणनी सद्भाय प्रारंभः ॥

॥ पंच महाव्रत सूधां पाले, अंतरंग मल टाले ॥ व्रत दूषण कृण कृण
 संजाले, ज्ञान क्रिया अजुवाले ॥ १ ॥ सुसाधु गुरुशुं मेरो मन माने ॥ ए
 आंकणी ॥ आगम कसतां जे कस पहेंचे, ते कसने गुरु माने ॥ सोना
 तणी परें जे कस पहेंचे, दिनदिन चढते वानें ॥ सु० ॥ २ ॥ सूत्र अर
 थशुं प्रीत करीनें, आपणहुं मन रेहे ॥ उन्नयकाल जे जाजन उपकरण,
 संजाली पडिखेहे ॥ सु० ॥ ३ ॥ खरारे बपोरे अतिथिनी वेला, गोचरीयें
 मुनि जावें ॥ निर्दूषण आहारादिक न मले, तो मन ऊणो न आवे ॥
 ॥ सु० ॥ ४ ॥ अणगालादिक दूषण पांचे, जोजन वेला टाले ॥ आवे
 प्रवचन माता निरतें, जयणाशुं प्रतिपाले ॥ सु० ॥ ५ ॥ कर्मकथा जे
 वकथा चारे, आपणथी न प्रकाशे ॥ लोकतणा जे वचनपरीसह, ते
 मनमांहे अहिंयासें ॥ सु० ॥ ६ ॥ धर्मतणुं कांइ कारण जाणी, निज श
 रीर पण ठेके ॥ उपसर्गादिक आवे हूंतें, व्रत पञ्चस्काण न खंके ॥ सु० ॥
 ७ ॥ काल प्रमाणे संयमनें खप, जोईने गुण लीजें ॥ विनयविमल पंक्ति
 एम बोले, तसु पाय वंदन कीजें ॥ सु० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ मूर्खनी सद्भाय लिख्यते ॥

॥ मायाने वश खोटुं बोले, पुण्यनी वात विगाडे रे ॥ उंका जलमां
 जे नर पेसे, वीजाने बूकाडे रे ॥ १ ॥ मूरखडां लोको आत्म अनुभव
 जाणो ॥ ए आंकणी ॥ चूवा चंदन अंग लगावे, जे नर हींके आठा रे
 ॥ तेहतुं जल पण तो हुं जाणुं, जो जमने वाखे पाठा रे ॥ मू० ॥ २ ॥

पापसंघाते माया मांसे, मोह तणे वश पडिया रे ॥ माहरुं माहरुं करता
 हींसे, ते नर कर्म नडिया रे ॥ मू० ॥ ३ ॥ अहंकारीने लोच घणरो,
 मनमां राखे काती रे ॥ जीवतणी जयणा नहिं जाणे, ते सरिखो नहिं
 घाती रे ॥ मू० ॥ ४ ॥ रूडुं कहेतां रीष चढावे, राचे मूरख साथे रे ॥
 पाप तणी गांठडली बांधी, मरवुं लीधुं माथे रे ॥ मू० ॥ ५ ॥ घोडा वहे
 ल पातखीयें चढवुं, जोंय पगवुं नवि धरवुं रे ॥ ज्ञातज्ञातनां जोजन क
 रवां, तो ए आखर मरवुं रे ॥ मू० ॥ ६ ॥ हाथीनी अंवाडीयें चढवुं,
 उपर उत्र ते धरवुं रे ॥ आगल पाळा डोड करे पण, तो ए आखर मरवुं
 रे ॥ मू० ॥ ७ ॥ नोवत ने निशान गडगडे, हाकम थडने फरवुं रे ॥
 आगल हाथी बेसण हाथी, तोये आखर मरवुं रे ॥ मू० ॥ ८ ॥ गर्वे
 मातो डव्यें तातो, मारुं मारुं करवुं रे ॥ रली रली जंमारज जरीया. तो
 पण आखर मरवुं रे ॥ मू० ॥ ९ ॥ मंदिर मालियां गोख जालियां, मेडी
 उपर चढवुं रे ॥ सुंदरस्त्रीशुं जोग जोगवता, तोए आखर मरवुं रे ॥ मू०
 ॥ १० ॥ परमात्मशुं प्रीति बनावो, नीच संग न करियें रे ॥ सुमतिमंदि
 रसां वासो वसियें, तो जवसायर तरीयें रे ॥ मू० ॥ ११ ॥ नाना सहोटा
 राजा राणा, सहुनो मारग एक रे ॥ मूरख कहे धन मारुं मारुं, पण मेडी
 जावुं रे ठेक रे ॥ मू० ॥ १२ ॥ शीयल असूलक बगतर पेरी, जीतो मोह
 मेवासी रे ॥ दुर्जनथी जो दूरे रहीयें, तो थड्यें सुखवासी रे ॥ मू० ॥
 १६ ॥ केवलरूपी साहेब मेरा, तास जजनमां रहियें रे ॥ नित्यलाज कहे
 प्रजु गोडी पारस, तेहथी अनुजव लहियें रे ॥ मू० ॥ १४ ॥

॥ अथ अध्यात्म सद्याय ॥ राग काफी ॥

॥ किसके चेले किसके बे पूत, आतमराम एकिले अबधूत ॥ जीव
 ज. ७ ले ॥ अहो मेरे ज्ञानीका घर सूत, दिल मान ले ॥ १ ॥ आया ए
 किला जावेगा एक, आप स्वारथी मलिया अनेक ॥ जी० ॥ मटिय गरीं
 दकी जूठ गुमान, आजके काळ गिरेगी निदान ॥ जी० ॥ २ ॥ तृष्णापा
 वलडी वर जोड, बाबु काहेकुं सींच्यो गोर ॥ जी० ॥ आगें अंगीठी नावे
 गी साथ, नाथ रहोगे खाली हाथ ॥ जी० ॥ ३ ॥ आशा जोडी पातरां
 लोच, विषय जिक्काचर नाथो थोच ॥ जी० ॥ कर्मकी कथा मारो दूर, वि
 नय विराजो सुख जरपूर ॥ जी० ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ पंक्ति श्री देवचंद्रजीकृत समकितनी सद्वाय ॥

॥ समकित नवि लह्युं रे, ए तो रुख्यो चतुर्गति मांहे ॥ त्रस थावरकी करुणा कीनी, जीव न एक विराध्यो ॥ तीन काल सामायिक करतां, शुरू उपयोग न साध्यो ॥ समकित० ॥ १ ॥ जूठ बोखवाको ब्रत लीनो, चोरीको पण त्यागी ॥ व्यवहारादिक महानिपुण ज्यो, पण अंतर्दृष्टि न जागी ॥ स० ॥ २ ॥ ऊर्ध्वजुजा करि उंधो लटके, जस्म लगा धूम गटके ॥ जटा जूट शिर मूंके जूठो, विण श्रद्धा जव जटके ॥ स० ॥ ३ ॥ निज परनारी त्यागज करके, ब्रह्मचारी ब्रत लीनो ॥ स्वर्गादिक याको फल पामी, निजकारज नवि सीध्यो ॥ स० ॥ ४ ॥ बाह्य क्रिया सब त्याग प रिग्रह, ड्रव्य विंग घर लीनो ॥ देवचंद्र कहे आविध तो हम, बहूत वार कर लीनो ॥ स० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री आत्मोपदेश सद्वाय ॥

॥ सासरीये एम जश्यें रे बाइ, सासरीयें एम जश्यें ॥ जिनधर्म ते सासरुं कहीयें, जिनवर देव ते ससरो ॥ जिनआणा सासू रढीयाळी, तेना कह्यामां विचरो रे बाइ ॥ सासरीये० ॥ १ ॥ अरां ने परां क्यांहि न ज मीयें, जमतां जस नवि लहीयें रे बाइ ॥ सा० ॥ ए आंकणी ॥ शियल स्वजाव सोहे घाघरीयो, जीवदया कांचलडी ॥ समकित उढणी उढी रे जीणी, शंकामेले न खरडी रे बाइ ॥ सा० ॥ २ ॥ निश्चय ने व्यवहार तणा वे, पाये नेउर खलके ॥ बेउविध धर्म साधु श्रावकनो, कानें अको टा ऊलके रे बाइ ॥ सा० ॥ ३ ॥ तपतणा वे बेरखा बांहे, तगतगे तेजे सारा ॥ ज्ञान परमत तणुं ते अर्चा, मांहे परिणामनी धारा रे बाइ ॥ सा० ॥ ४ ॥ राग सिंझरनुं कीधुं टीधुं, शियलनो चांमलो शोहे ॥ जावनो हार ह्येयामां लहेके, दाननां कांकण सोहे रे बाइ ॥ सा० ॥ ५ ॥ सुमति सा हेली साथें लेह्नें, दीठे मारग वहीयें ॥ क्रोध कषाय कुमति अज्ञानी, तेह्यी वात न करीये रे बाइ ॥ सा० ॥ ६ ॥ मिथ्यात्वी पीयरमां न वसी यें, रहेतां अलखामणां थश्यें ॥ मोह माया मावतर वीरुच्यां, दोहिलो काल निगमीयें रे बाइ ॥ सा० ॥ ७ ॥ अनुजवप्रीतम साथे रमतां, प्रेमे आनंदपद लहियें ॥ विनयप्रज्ञ सूरी प्रसादें, जावें शिवसुख लहीयें रे बाइ ॥ सा० ॥ ८ ॥ इत्यात्मोपदेश सद्वाय संपूर्णः ॥

॥ अथ द्वितीय श्री आत्मोपदेशनी सव्याय ॥

॥ हुं तो प्रणमुं सद्गुरु राया रे, माता सरसतीना वंहुं पाया रे, हुं तो गाऊं आत्म राया ॥ जीवनजी वारणें मत जाजो रे, तुमै घेर वेठा कमा वो चेतनजी, वारणें मत जाजो रे ॥१॥ ताहरे वाहिर दुर्मति राणी रे, के तासुं कुमति केहेवाणी रे, तुनें जोलवी बांधशे ताणी रे ॥ जी० ॥ वा० ॥ २ ॥ ताहारा घरमां ठे त्रण रत्न रे, तेनुं करजे तुं तो यत्न रे, ए अखूट खजीनो ठे धन रे ॥ जी० ॥ वा० ॥ ३ ॥ ताहारा घरमां पेठा ठे धूतारा रे, तेने काढोने प्रीतम प्यारा रे, एथी रहो ने तुमें न्यारा ॥ जी० ॥ वा० ॥ ४ ॥ सत्तावनने काढो घरमांथी रे, त्रेवीशने कहो जाये इहांथी रे, पठी अनुभव जागशे मांहेथी ॥ जी० ॥ वा० ॥ ५ ॥ शोल कपायने दीयो शी ख रे, अढार पापस्थानकने मगावो जीख रे, पठे आठ करमनी शी वीक ॥ जी० ॥ वा० ॥ ६ ॥ चारने करोने चकचूर रे, पांचमीशुं थालं हजूर रे, पठे पामो आनंद जरपूर ॥ जी० ॥ वा० ॥ ७ ॥ विवेकदीवे करो अजुवा लो रे, मिथ्यात्व अंधकारनें टालो रे ॥ पठें अनुभव साथें मालो रे ॥ जी० ॥ वा० ॥ ८ ॥ सुमति साहेलीशुं खेलो रे, दुर्मतिनो ठेढो मेहलो रे, पठे पामो मुक्ति गढ हेखो रे ॥ जी० ॥ वा० ॥ ९ ॥ ममतानें केम न मारो रे, जीती बाजी कांइ हारो रे, केम पामो जवनो पारो रे ॥ जी० ॥ वा० ॥ १० ॥ शुद्ध देवगुरु सुपसाय रे, मारो जीव आवे कांइ गाय रे, पठे आनंदघनमय थाय रे ॥ जी० ॥ वा० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ शिष्य विषे शिखामणनी सव्याय ॥

॥ ढाल पहेली ॥ सुण सुण प्राणी शीखडी, खंपटशुं लोचाणो रे ॥ लल नाशुं लागी रह्यो, बदन जोइ विकलाणो रे ॥१॥ नारीने निरखी रखे, जा णो चंपकली ए फूली रे ॥ समजे विषनी बेलडी, मत रहे तिण पर फूली रे ॥ ना० ॥ २ ॥ ऋण रोवे ऋणमें हसे, ऋण बली विरहें प्रजाले रे ॥ प्री त धरे ऋण पापिणी, ऋण बली रोष देखाडे रे ॥ ना० ॥ ३ ॥ जन पूठे तव जारने, कहे मुऊ बांधव एहो रे ॥ सूंस करी अतिआकरा, कूड कप टनो गेहो रे ॥ ना० ॥ ४ ॥ समजावी करी सानशुं, केने नयननी शानें रे ॥ पगनी गति शानें करी, वचन तणे अनुमानें रे ॥ ना० ॥ ५ ॥ मुख मरडीने कोइशुं, वात करे विषयाली रे ॥ पाडी पुरुषने पाशमां, देइ

मीट ने चाली रे ॥ ना० ॥ ६ ॥ धन वीर्य चित्त रूपनी, हरिणाक्षी हरनारी रे ॥ कामिनि सरखी को नहिं, धरतीमां धूतारी रे ॥ ना० ॥ ७ ॥ जे हठे चंचल बीजली, चंचल कुंजर कानो रे ॥ चंचल वान संध्या तणो, चंचल पीपल पानो रे ॥ ना० ॥ ८ ॥ जेहवो रंग पतंगनो, जेहवी वादल बांहो रे ॥ नेहू इंस्यो नारी तणो, जेहवी कायर बांहो रे ॥ ना० ॥ ९ ॥

॥ ढाल बीजी ॥ देशी नाराणानी ॥

॥ अथिर मूठ उंदर तणी रे, अथिर ज्युं ठारनो त्रेह ॥ प्राणीडा ॥ वरें ठबीलडी जी ॥ मुग्ध किश्युं मोही रह्यो रे, अथिर तो नारीनो नेहू ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १ ॥ कामिनी फूली केलशी रे, रखे मन समजे एम ॥ प्रा० ॥ व० ॥ २ ॥ कांकचना कांटा जिर्सी रे, जाणे कौची जेम ॥ प्रा० ॥ व० ॥ ३ ॥ एकने मूकी आदरे रे, वली बीजानो संग ॥ प्रा० ॥ व० ॥ ४ ॥ बीजार्थी त्रीजो जुवे रे, जेहना नव नव ढंग ॥ प्रा० ॥ व० ॥ ५ ॥ निज स्वारथ अण पूगतै रे, वदन करी रे विकराल ॥ प्रा० ॥ व० ॥ ६ ॥ प्रीति पूरवनी मूकीने रे, दे मुखमांथी गाल ॥ प्रा० ॥ व० ॥ ७ ॥ जोया विण जिम तिम लवे रे, नारी निठुर निटोल ॥ प्रा० ॥ व० ॥ ८ ॥ लवती पण लाजे नहीं रे, बोले इलका बोल ॥ प्रा० ॥ व० ॥ ९ ॥ कदिय न होये केहनी रे, नीच नारीनी जात ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १० ॥ विश्वास करे जे तेहनो रे, तेनो करे ते घात ॥ प्रा० ॥ व० ॥ ११ ॥ विषयथकी विष देइने रे, सूरिकंता रे नार ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १२ ॥ पति परदेशी मारियो रे, जो जो कामविकार ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १३ ॥ दीधेशुं लपटी करे रे, पाप वली प्रचूत ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १४ ॥ लाखमांहे परजालियो रे, चुहणीयें निज पूत ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १५ ॥ हंस वड निज पुत्रने रे, हंसावलियें हेज ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १६ ॥ प्रार्थना करी लोक नी रे, देखी करुणा तेज ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १७ ॥ कुमरी कहेण मान्युं नहीं रे, करियो प्रार्थना जंग ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १८ ॥ आपी सुतने आपदा रे, जुठ रमणीना संग ॥ प्रा० ॥ व० ॥ १९ ॥ लीलावतीयें प्रार्थियो रे, विक्रम चरित्र निज जात ॥ प्रा० ॥ व० ॥ २० ॥ अंग वलूरी आपणुं रे, दियुं दुःख सुतनी मात ॥ प्रा० ॥ व० ॥ २१ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ जंबू छीपना चरतमां ॥ ए देशी ॥

॥ वरवी तो वाघण जेसी, बीठण जेहवी रे ॥ सापणी शाकिणीथी वूरी,

नारी ठे एहवी रे ॥ नारी चूंकी ॥१॥ ऊटकी रे मटकी ठेह दे, एहवी जा
णी चूको रे ॥ विकसित वदन तुम देखीने, मत जाणो मुख फूलो रे ॥
ना० ॥ २ ॥ इत्यादिक अवगुण घणा, जाणी धरजे शीलो रे ॥ प्राणीयडा
सुण शिलथी, लहियें अविचल लीलो रे ॥ नारी० ॥ ३ ॥ एक मूरख
माखी परें, मधुयें जिम वींटाय रे ॥ जमर सरीखा जाण ते, रस लेई छूर
थाय रे ॥ नारी० ॥ ४ ॥ शेठ सुदर्शन सारिखा, जंबू वयर कुमारो रे ॥
नारीने वश नवि पड्या, ते महोटा जूजारो रे ॥ नारी० ॥ ५ ॥ वलिहारी
हुं तेहनी, चरण शरण मुऊ तेहनुं रे ॥ पातक सर्व पखालीयें, ध्यान घरी
वली एहनुं रे ॥ नारी० ॥ ६ ॥ कामिनी फुल किंपाक शी, ज्ञान सागर
एम लहियें रे ॥ तन मन चपल त्रिया तणां, जाणी अलग्ग रहियें रे ॥
नारी० ॥ ७ ॥ इति शियलविषे शिखामण सद्याय ॥

॥ अथ कुगुरुनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ ठेडो नांजी ॥ ए देशी ॥ शुरु संवेगी किरिया धारी, पण कुटिलाइ न मू
के ॥ बाह्य प्रकारे किरिया पाले, अच्यंतरथी चूके ॥१॥ कपटी कहिया एह
जिणेंदें, दुष्टनुं नाम न लीजें ॥ ए आंकणी ॥ कालां कपडां खंजे धावली,
काख देखाडी बोले ॥ तरुणी सुंदर देखी विशेषें, पुस्तक वांचवा बोले ॥ क०
॥ २ ॥ पैसा देखी काढे पडघो, पडघा मान करावे ॥ खाजां व्होरे खांत क
रीने, पूरीने वोसिरावे ॥ क० ॥ ३ ॥ ज्ञानमिषें उपदेश देइने, सूक्ष्म परि
ग्रह राखे ॥ ए कपटीनुं नाम न लीजें, इम उत्सूत्र जे जांखे ॥ क० ॥ ४ ॥
ताख कूटवा साथें हींके, श्राविका ठे दश बार ॥ यात्राने मिष एणी परें
विचरे, छूर रह्या आचार ॥ क० ॥ ५ ॥ पाशेर घीथी करे पारणुं, व
ली खावे अधशेर ॥ तोही ताळा इणि परें बोले, उपवासें आवे फेर ॥
॥ क० ॥ ६ ॥ बगलानी परें पगलां मांके, आडुं मोडुं जोवे ॥ महिला
साथें बोले मीतुं, साधु वेष बगोवे ॥ क० ॥ ७ ॥ आचारांगें वखनो
जांख्यो, श्वेतने मानोपेतें ॥ ते तो मारग छूरें मूक्यो, कपडां रंगें हेतें
॥ क० ॥ ८ ॥ बाजीगर जेम बाजी खेले, धीवरे मांकी जाल ॥ ते
संवेगी सूधा मत जाणो, ए सहू आल जंजाल ॥ क० ॥ ९ ॥ जुंचुं
घर अगोचर होवे, मासकदप तिहां कीजें ॥ सुखशातायें पडिलेहण
चाले, साधु जन्म फल लीजें ॥ क० ॥ १० ॥ रात जगावे महिला

मल्लीने, गावे गीत रसाल ॥ चार कथानां कर्मज बांधे, मनमां थइ उज
 माल ॥ क० ॥ ११ ॥ मध्यान्हें महिलाने तेडे, हसीने पूढे वात ॥ अढा
 रमो उपधान व्हो तो, अम तुम मलशे धात ॥ क० ॥ १२ ॥ तव ते का
 मिनी हसीने बोले, साचुं कदो ठो स्वाम ॥ गहवासी गुरु आवीने वढशे,
 तव तुम जाशे महाम ॥ क० ॥ १३ ॥ नीचुं जोशने इणीपरें जांखे, जणवा
 नो खप कीजें ॥ नानी वय ठे हजीय तुमारी, एक एक गाथा लीजें ॥
 क० ॥ १४ ॥ घोटकनी परें पंथें चाले, शहैरमां नीचूं जोवे ॥ गड वड
 गाडांनी परें चाले, जिनशासनने वगोवे ॥ क० ॥ १५ ॥ रुमाल पाठां
 रूडां वेचे, जूनां हाथमां जाले ॥ तृष्णा तोये किमहि न मूके, वली जा
 णे कोइ आले ॥ क० ॥ १६ ॥ ठकाय जीवनो दाह करावे, ठाम ठाम
 पाप बंधावे ॥ आंबिल तपनुं उठुं लश्ने, कांइ अमने वहोरावे ॥ क० ॥
 ॥ १७ ॥ कदाग्रहमां पहेला व्रतनो, एहने लागे दोष ॥ मृषावाद तो
 पग पग बोले, तेहनो न करे शोष ॥ क० ॥ १८ ॥ अदत्त वस्तु अजाण
 थइने, साधारण सीरावे ॥ चोथा व्रतनी वात ठे महोटी, तेहमां काम
 जगावे ॥ क० ॥ १९ ॥ विधवा पासे विद्वल थइने, काम कुसंगी मागे ॥
 वायसनी परें मैथुन सेवे, चोथा व्रतने जांगे ॥ कु० ॥ २० ॥ मैथुन सेवे
 परिग्रह मांहे, प्रौढां पातक बांधे ॥ रासजनी परें लोट्या हींने, वली उ
 घाडे खांधे ॥ क० ॥ २१ ॥ ठठ अठमादि ने अछार्इ, नाम धरावे तप
 सी ॥ सहिमा कारण राखें खावे, प्रगटे तव होय हांसी ॥ क० ॥ २२
 ॥ नजर पिंकोलीया थइने विर्लज, पासढा थइ वेसे ॥ चोराशी गह व्हो
 री खावे, महोटा घरमां पेसे ॥ क० ॥ २३ ॥ मुखें मुहपत्ती राखी बोले,
 आंखे करे ठे चाला ॥ मांहो मांहे शानें समजे, आंखे करे ठे टाला ॥
 क० ॥ २४ ॥ ए कपटीनो संग निवारो, जेणे ए जेख वगोयो ॥ जेखउढा
 पी महा ए चूंनो, मनुष्य जन्म फल खोयो ॥ क० ॥ २५ ॥ आदित्यकी
 अरिहंत आचारिज, उपाध्याय ने साधु ॥ धोले जेखें सहु एम बोले,
 वारुने आराधुं ॥ कपटी० ॥ २६ ॥ मूल पंथ मिथ्यात्वे चाले, समजतो
 नही लेश ॥ जिनमतनो मारग ठांकीने, कलहो करे विशेष ॥ क० ॥ २७
 ॥ आप मतीनो संग तजीने, साधु वचने रहियें ॥ वाणी वाचकजस
 एम बोले, जिन आझा शिर गहियें ॥ क० ॥ २८ ॥ इति ॥

॥ अथ षट्साधुनी सद्याय ॥

॥ राग गोडी अथवा रामघी ॥ मनडुं ते मोह्युं मुनिवर माहुरें रे, देव
की कहे सुविचार रे ॥ व्रीजी ते वार आव्या तुमो रे, मारो सफल कस्यो
अवतार रे ॥ मनडुं ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ साधु कहे सुण देवकी रे, अमो
हुं ठए चात रे ॥ ब्रोहि संधाडि धर ताहरी रे, अमो देवा आहारनी दात
रे ॥ म० ॥ २ ॥ सरखी वय सरखी कला रे, सरखा संप शरीर रे ॥ तन
वान शोजे सारखा रे, जे देखी जूली धीर रे ॥ म० ॥ ३ ॥ पूर्व नेह
धरि देवकी रे, पूठी साधुनी वात रे ॥ कोण गाम वसता तमो रे, कोण
पिता कोण मात रे ॥ म० ॥ ४ ॥ नदिलपुरवासें पिता रे, नाम गा
हावई सुलसा मात रे ॥ नेम जिणंद वाणी सुणी रे, पान्या वैराग्य
विख्यात रे ॥ म० ॥ ५ ॥ वत्रीश कोडि सोवन तजी रे, तजी वत्रीश
नार रे ॥ एक दिने संयम लीयो रे, जाणि अथिर संसार रे ॥ म० ॥
॥ ६ ॥ पूर्वकर्मने टालवा रे, धर्यो ठठठम उदार रे ॥ आज ठठखमण
नहिं वाणी रे, आव्या नगर मजार रे ॥ म० ॥ ७ ॥ नानी महोटी बहु
धरी रे, फरतां प्होता एज आवासें रे ॥ एम कही साधु वढ्या रे, चाळ्या
नेम जिणंदनी पासें रे ॥ म० ॥ ८ ॥ साधु वचन सुणि देवकी रे, चेल्यां
हृदय मजार रे ॥ बालपणे मूजने कस्युं रे, निमित्ती पोलाणपुरी सार रे
॥ म० ॥ ९ ॥ आठ पुत्र ताहरे थशे रे, तेहवा न जन्मे अनेरी मात रे ॥
ए जरत क्षेत्र मध्ये जाणी रे, तेतो जूठी निमित्तनी वात रे ॥ म० ॥ १० ॥
ए संशय नेम जिन टालशे रे, जइ पूहुं प्रश्न उदार रे ॥ रथमां वेसी चा
ढ्यां देवकी रे, जइ वांध्या नेमिजिन सार रे ॥ म० ॥ ११ ॥ तव नेमि
जिणंद कहे देवकी रे, सुणो पुत्रनी वात रे ॥ ठ अणगार देखि तिहां रे,
तव उपन्यो स्नेह विख्यात रे ॥ म० ॥ १२ ॥ देवकी सुत ठए ताहारा रे,
तें धर्या उदर नव मास रे ॥ हरिणगमेषी देवता रे, जन्मतां हर्या तुज
पास रे ॥ म० ॥ १६ ॥ सुलसानी पासें ठव्या रे, प्होती सुलसानी
आश रे ॥ पुण्यप्रजावें ते पामिया रे, संसारना जोग विलास रे ॥ म० ॥
॥ १४ ॥ नेम जिणंद वाणी सुणी रे, पामी हर्ष उद्धास रे ॥ वली ठ अ
णगार जइ वांदिया रे, निरखे नेह जरि तास रे ॥ म० ॥ १५ ॥ पाहा
नो प्रगढ्यो त्यां कने रे, विकश्या रोमकूप देह रे ॥ अनिमिष नयणे निर

मलीने, गावे गीत रसाल ॥ चार कथानां कर्मज बांधे, मनमां थइ उंज
 माल ॥ क० ॥ ११ ॥ मध्यान्हें महिखाने तेडे, हसीने पूठे वात ॥ अढा
 रमो उपधान व्हो तो, अम तुम मलशे धात ॥ क० ॥ १२ ॥ तव ते का
 मिनी हसीने बोले, साचुं कहो ठो स्वाम ॥ गहवासी गुरु आवीने वढशे,
 तव तुम जाशे महाम ॥ क० ॥ १३ ॥ नीचुं जोशने इणीपरें चांखे, जणवा
 नो खप कीजें ॥ नानी वय ठे हजीय तुमारी, एक एक गाथा लीजें ॥
 क० ॥ १४ ॥ घोटकनी परें पंथें चाले, शहेरमां नीचूं जोवे ॥ गड वड
 गाडांनी परें चाले, जिनशासनने वगोवे ॥ क० ॥ १५ ॥ रुमाल पाठां
 रूडां वेचे, जुनां हाथमां जाले ॥ तृष्णा तोये किमहि न मूके, वली जा
 ऐ कोइ थाले ॥ क० ॥ १६ ॥ ठकाय जीवनो दाह करावे, ठाम ठाम
 पाप बंधावे ॥ आंबिल तपनुं उंतुं लशने, कांइ अमने वहोरावे ॥ क० ॥
 ॥ १७ ॥ कदाग्रहमां पहेला व्रतनो, एहने लागे दोष ॥ मृषावाद तो
 पग पग बोले, तेहनो न करे शोष ॥ क० ॥ १८ ॥ अदत्त वस्तु अजाण
 यशने, साधारण सीरावे ॥ चोथा व्रतनी वात ठे महोटी, तेहमां काम
 जगावे ॥ क० ॥ १९ ॥ विधवा पासे विद्वल अशने, काम कुसंगी मागे ॥
 वायसनी परें मैथुन सेवे, चोथा व्रतने जांगे ॥ कु० ॥ २० ॥ मैथुन सेवे
 परिग्रह मांहे, प्रौढां पातक बांधे ॥ रासजनी परें लोव्या हींनि, वली उ
 घाडे खांधे ॥ क० ॥ २१ ॥ ठठ अठमादि ने अछार्श, नाम धरावे तप
 सी ॥ महिमा कारण राखें खावे, प्रगटे तव होय हांसी ॥ क० ॥ २२
 ॥ नयर पिंजोलीया अशने विर्लज, पासवा थइ वेसे ॥ चोराशी गह व्हो
 री खावे, महोटा घरमां पेसे ॥ क० ॥ २३ ॥ मुखें मुहपत्ती राखी बोले,
 आंखे करे ठे चाला ॥ मांहो मांहे शानें समजे, आंखे करे ठे टाला ॥
 क० ॥ २४ ॥ ए कपटीनो संग निवारो, जेणे ए जेख वगोयो ॥ जेखउठा
 पी महा ए जूंनो, मनुष्य जन्म फल खोयो ॥ क० ॥ २५ ॥ आदियकी
 अरिहंत आचारिज, उपाध्याय ने साधु ॥ धोले जेखें सहु एम बोले,
 वारुने आराधुं ॥ कपटी० ॥ २६ ॥ मूल पंथ मिथ्यात्वे चाले, समजतो
 नही लेश ॥ जिनमतनो मारग ठांकीने, कखहो करे विशेष ॥ क० ॥ २७
 ॥ आप मतीनो संग तजीने, साधु वचने रहियें ॥ वाणी वाचकजस
 एम बोले, जिन आझा शिर गहियें ॥ क० ॥ २८ ॥ इति ॥

॥ अथ षट्साधुनी सद्याय ॥

॥ राग गोडी अथवा रामघी ॥ मनहुं ते मोक्षुं मुनिवर माहुरे, देव
की कहे सुविचार रे ॥ त्रीजी ते वार आव्या तुमो रे, मारो सफल कस्यो
अवतार रे ॥ मनहुं ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ साधु कहे सुण देवकी रे, अमो
हुं ठए त्रात रे ॥ त्रोहि संधाडि धर ताहरी रे, अमो लेवा आहारनी दात
रे ॥ म० ॥ २ ॥ सरखी वय सरखी कला रे, सरखा संप शरीर रे ॥ तन
वान शोत्रे सारखा रे, जे देखी जूली धीर रे ॥ म० ॥ ३ ॥ पूर्व नेह
धरि देवकी रे, पूठी साधुनी वात रे ॥ कोण गाम वसता तमो रे, कोण
पिता कोण मात रे ॥ म० ॥ ४ ॥ चद्विखपुरवासें पिता रे, नाम गा
दावई सुखसा मात रे ॥ नेम जिणंद वाणी सुणी रे, पाम्या वैराग्य
विख्यात रे ॥ म० ॥ ५ ॥ वत्रीश कोडि सोवन तजी रे, तजी वत्रीश
नार रे ॥ एक दिने संयम लीयो रे, जाणि अथिर संसार रे ॥ म० ॥
॥ ६ ॥ पूर्वकर्मने टाळवा रे, धर्यो ठठठम उदार रे ॥ आज ठठखमण
नहिं वाणी रे, आव्या नगर मजार रे ॥ म० ॥ ७ ॥ नानी महोटी बहु
धरी रे, फरतां प्होता एज आवासें रे ॥ एम कही साधु वड्या रे, चाळ्या
नेम जिणंदनी पासें रे ॥ म० ॥ ८ ॥ साधु वचन सुणि देवकी रे, चेल्यां
हृदय मजार रे ॥ बालपणे मूजने कस्युं रे, निमित्ती पोलाणपुरी सार रे
॥ म० ॥ ९ ॥ आठ पुत्र ताहरे थशे रे, तेहवा न जन्मे अनेरी मात रे ॥
ए जरत क्षेत्र मध्ये जाणी रे, तेतो जूठी निमित्तनी वात रे ॥ म० ॥ १० ॥
ए संशय नेम जिन टाळशे रे, जइ पूखुं प्रश्न उदार रे ॥ रथमां वेसी चा
ट्यां देवकी रे, जइ वांध्या नेमिजिन सार रे ॥ म० ॥ ११ ॥ तव नेमि
जिणंद कहे देवकी रे, सुणो पुत्रनी वात रे ॥ ठ अणगार देखि तिहां रे,
तव उपन्यो स्नेह विख्यात रे ॥ म० ॥ १२ ॥ देवकी सुत ठए ताहारा रे,
ते धर्या उदर नव मास रे ॥ हरिणगमेषी देवता रे, जन्मतां हर्या तुज
पास रे ॥ म० ॥ १३ ॥ सुखसानी पासें ठव्या रे, प्होती सुखसानी
आश रे ॥ पुण्यप्रजावें ते पामिया रे, संसारना जोग विखास रे ॥ म० ॥
॥ १४ ॥ नेम जिणंद वाणी सुणी रे, पामी हर्ष उद्वास रे ॥ वडी ठ अ
णगार जइ वांदिया रे, निरखे नेह जरि तास रे ॥ म० ॥ १५ ॥ पाहा
नो प्रगट्यो त्यां कने रे, विकर्या रोमकूप देह रे ॥ अनिमिष नयणे निर

खीया रे, धरी पुत्र प्रेम स्नेह रे ॥ म० ॥ १६ ॥ वांदी निज घेर आवियां
रे, होंश पुत्र रमावण जास रे ॥ कृष्णजीयें देव आराधियो रे, मातने सु
ख निवास रे ॥ म० ॥ १७ ॥ गजसुकुमाल खेलावती रे, पोहोती देवकी
नी आश रे ॥ कर्म खपावि मुक्तें गयां रे, ठ अणगार सिद्ध वास रे ॥ म०
॥ १८ ॥ साधु तणा गुण गावतां रे, सफल होये निज आश रे ॥ धर्मसिंह
मुनिवर कहे रे, सुणतां लीलविलास रे ॥ मन० ॥ १९ ॥ इति ॥

॥ शीखामण कोने आपवी ? ते विषे सञ्चाय ॥

॥ रे बेटा, जली रे जणी तुं आज ॥ ए देशी ॥ शीखामण देतां खरी रे,
मूढ न माने मन्न ॥ शीलायें जल सींचतां रे, उगे नहीं जेम अन्न रे ॥ वे
हेनी, त्यां बोल न बोलो एक ॥ ज्यां नही विनय विवेक रे बेहेनी ॥ एवा
माणस अनेक रे ॥ वे० ॥ त्यां बोल म बोलो एक ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
शिक्षा दीजें संतने रे, जेहनी उत्तम जात ॥ काटे पण कीटे नही रे, जिम
पडी पटोले ज्ञात रे ॥ वे० ॥ त्यां ॥ २ ॥ विघटाव्यां विघटे नही रे,
मालें घेहेला थाय ॥ कसोटीयें कुंदन परें रे, कसतां नवि क्कण साय
रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ३ ॥ रुग रुग दीसे कूंगरा रे, पग पग पाणी पूर ॥
हीरो ने अमृत बने रे, शोध्या न मळे सनूर रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ४ ॥
आवल रूपें रूअडी रे, रुमरो मरूळ सोय ॥ रूप रहित सहु आदरे रे,
आवल आदरे न कोय रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ५ ॥ आपमतीला आदमी
रे, इष्ठाचारी अपार ॥ हास्यां दोस्यां हारमां रे, नावे ते निरधार रे ॥
बेहे० ॥ त्यां ॥ ६ ॥ पडसूदी वाली वळे रे, वाली वळे वली वेल ॥ कुमा
णस ने काठनी रे, वाली न वळे वेल रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ७ ॥ उदयरतन
उपदेशथी रे, रीजे जे पुरुष रतन्न ॥ तेहनां लीजें जामणां रे, जे करे
शियल जतन्न रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ सातवारनी सञ्चाय ॥

॥ आदित्य कहे ठे मानवीने, आदीश्वरने ध्याळ ॥ पांचें इंद्रिय वश
करो तो, वेला मुक्तें जाळ ॥ १ ॥ सोम कहे हुं सोम वारने, दृष्टि जखेरी
जावे ॥ परस्त्रीने मा करी थापे, फरि गर्जावासो नावे ॥ २ ॥ मंगल कहे
सदा शिव रामा, मन विचारी जोइ ॥ जेहने मुख नहीं प्रसुनी वाणी,
ते जीव तो मूढ होइ ॥ ३ ॥ बुद्ध कहे ठे काला वाळा, अवर न वीजो

खीया रे, धरी पुत्र प्रेम स्नेह रे ॥ म० ॥ १६ ॥ वांदी निज घेर आवियां
रे, होंश पुत्र रमावण जास रे ॥ कृष्णजीयें देव आराधियो रे, मातने सु
ख निवास रे ॥ म० ॥ १७ ॥ गजसुकुमाल खेलावती रे, पोहोती देवकी
नी आश रे ॥ कर्म खपावि मुक्तें गयां रे, ठ अणगार सिद्ध वास रे ॥ म०
॥ १८ ॥ साधु तणा गुण गावतां रे, सफल होये निज आश रे ॥ धर्मासिंह
मुनिवर कहे रे, सुणतां लीलविलास रे ॥ मन० ॥ १९ ॥ इति ॥

॥ शीखामण कोने आपवी ? ते विषे सञ्चाय ॥

॥ रे बेटी, जली रे जणी तुं आज ॥ ए देशी ॥ शीखामण देतां खरी रे,
मूढ न माने मन्न ॥ शीलार्थें जल सींचतां रे, उगे नहीं जेम अन्न रे ॥ बे
हेनी, त्यां बोल न बोलो एक ॥ ज्यां नहीं विनय विवेक रे बेहेनी ॥ एवा
माणस अनेक रे ॥ बे० ॥ त्यां बोल म बोलो एक ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
शिक्षा दीजें संतने रे, जेहनी उत्तम जात ॥ काटे पण क्रीटे नही रे, जिम
पडी पटोले जात रे ॥ बे० ॥ त्यां ॥ २ ॥ विघटाव्यां विघटे नही रे,
गालें घेहेला थाय ॥ कसोटीयें कुंदन परें रे, कसतां नवि ऋण साय
रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ३ ॥ रुग रुग दीसे कूंगरा रे, पग पग पाणी पूर ॥
हीरो ने अमृत बने रे, शोध्या न मले सनूर रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ४ ॥
आवळ रूपें रूअडी रे, रुमरो मरूळ सोय ॥ रूप रहित सहु आदरे रे,
आवळ आदरे न कोय रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ५ ॥ आपमतीला आदमी
रे, इष्ठाचारी अपार ॥ हास्यां दोस्यां हारमां रे, नावे ते निरधार रे ॥
बेहे० ॥ त्यां ॥ ६ ॥ पडसूदी वाली वले रे, वाली वले वली वेल ॥ कुमा
णस ने काठनी रे, वाली न वले वेल रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ७ ॥ उदयरतन
उपदेशथी रे, रीजे जे पुरुष रतन्न ॥ तेहनां लीजें जामणां रे, जे करे
शियल जतन्न रे ॥ बेहे० ॥ त्यां ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ सातवारनी सञ्चाय ॥

॥ आदित्य कहे ठे मानवीने, आदीश्वरने ध्याउं ॥ पांचें इंद्रिय वश
करो तो, वेला मुक्तें जाउं ॥ १ ॥ सोम कहे हुं सोम वारने, दृष्टि जलेरी
जावे ॥ परस्त्रीने मा करी थापे, फरि गर्जावासो नावे ॥ २ ॥ मंगल कहे
सदा शिव रामा, मन विचारी जोइ ॥ जेहने मुख नही प्रचुनी वाणी,
ते जीव तो मूढ होइ ॥ ३ ॥ बुद्ध कहे ठे काला वाला, अवर न बीजो

जाचुं ॥ महारे मंदिर महोटा आवे, प्रभु विना नवि राचुं ॥४॥ बृहस्पति वारे धन संचयजे, ते अनरथनुं मूल ॥ मूत्रा पठी साथें नहिं आवे, पठी रहेशे धूल ॥५॥ शुक्रें सुकृत करणी कीजे, संसार मांहे सार ॥ तेणे त्रिभु वन तेहने साने, एवी दीन दयाल ॥ ६ ॥ शनैश्वर वारे धन सांचीयने, कारज पूरां थाय ॥ प्रभुजीनी जो शोचण होय तो, वेहेलो मुक्तें जाय ॥७॥

॥ अथ प्रसन्नचंद्रराजर्षिनी सञ्चाय ॥

॥ मारगमां मुनिवर मढ्यो ॥ ऋषि ए रूडो ॥ साधतो मुक्तिनो पंथ ॥ ऋषीश्वर ए रूडो ॥ उत्कृष्टी रयणी रहे ॥ १ ॥ सूक्ष्मे साधु निर्ग्रथ ॥ २ ॥ एक पगे उजो रह्यो ॥ ३ ॥ सूरज सामी दृष्टि ॥ ४ ॥ बोलाव्यो वो ले नहीं ॥ ५ ॥ ध्यान धरे परमेष्ठी ॥ ६ ॥ श्रेणिक कहे स्वामी सुणो ॥ ७ ॥ जो मरे तो जाये केथ ॥ ८ ॥ स्वामी कहे जाये सातमी ॥ ९ ॥ तीव्र वेदन ठे तेथ ॥ १० ॥ वाग्यां देवनां दुंदुभि ॥ ११ ॥ उपन्युं केवल ज्ञान ॥ १२ ॥ श्रेणिकने समजावियो ॥ १३ ॥ अशुच अने शुचध्यान ॥ १४ ॥ प्रसन्नचंद्र सरस्वी मळे ॥ १५ ॥ तो हुं तरुं ततकाल ॥ १६ ॥ दुषम कालें दोहिलो ॥ १७ ॥ समयसुंदर मनवाल ॥ १८ ॥ ५ ॥ इति प्रसन्नचंद्रराजर्षिनी सञ्चाय ॥

॥ अथ जीवोपदेशनी सञ्चाय ॥

॥ सेवो सह गुरु जविजना, नामें नवनिधि दायो रे ॥ पंच महाव्रत पा लनां, समताशुं चित्त लायो रे ॥ से० ॥ १ ॥ हित चिंत सवि जीवशुं, षट् काय दोष विचार रे ॥ त्रिविध त्रिविध करि वोसिरे, ममता मोह निवार रे ॥ से० ॥ २ ॥ पृथिवी अप तेज वायुनुं, एनुं सत्तज नामो रे ॥ रूप्य सवे चूत जाणीयें, चूत रहे तिण ठामो रे ॥ से० ॥ ३ ॥ वि ति चउरिंद्रिय प्रा णीया, जांख्या सिरि अरिहंतो रे ॥ सुर नर तिरि वली नारकी, जीव ना म कहांतो रे ॥ से० ॥ ४ ॥ षट्काय हिंसाथकी घणुं, द्वींद्रियनां ठे पापो रे ॥ अनंत असंख्यात जाणीयें, बोले ए जिनवर आपो रे ॥ से० ॥ ५ ॥ द्वीं द्रियने हणवाथकी, चउरिंद्रिय पाप विशेषो रे ॥ सहस्त गुणुं अधिकुं स ही, जिणवर ए उपदेशो रे ॥ से० ॥ ६ ॥ चउरिंद्रियथी जाणजो, पूरव संख्या सारी रे ॥ शत वली पंचेंद्रिय थइ, जाले पर उपकारी रे ॥ से० ॥ ७ ॥ पीत वर्ण पृथ्वी जणी, पाणी रातेरुं होय रे ॥ धवल वर्ण वलि तेमनो,

नीलो वायरो जोय रे ॥ सेवो ॥ ७ ॥ पंचवरण राजिका रे, आगमें करि
 ए जाणो रे ॥ पंच थावर जयणा करो, तो ते चतुर सुजाणो रे ॥ सेवो ॥
 ८ ॥ षट्काय दोष लही करी, मतिमंता तेह निवारे रे ॥ जप तप क्रिया
 साचवी, जिनवचन नेमने धारे रे ॥ से ॥ १० ॥ दमदंत मुनिवरनी परें,
 शमरस मनमां जावे रे ॥ कर्म कठोर खपावने, शिवपद नगर सिधावे रे
 ॥ से ॥ ११ ॥ गुण गिरुवा गुरु सेवियें, लहियें पुण्य संयोग रे ॥ नवि चिं
 ते जग माहरो, धिक् धिक् जव तणो जोग रे ॥ से ॥ १२ ॥ रागनी हा
 नि उंची रही, जिनशुं चित्त लगावे रे ॥ जति जरा जय टाळीने, अजरा
 मर पद पावे रे ॥ से ॥ १३ ॥ समिति गुप्ति धर साधुजी, सेवी सुजस
 सवायो रे ॥ गुणवंत गुरुना नामथी, शिव सुख संपद थाळ रे ॥ से ॥ १४
 ॥ तपगड नायक गुणनिलो, श्री विजय सूरिंदो रे ॥ तस पदसूरि शि
 रोमणि, श्री विजयप्रज मुण्णिंदो रे ॥ से ॥ १५ ॥ तसगड पंक्ति सोह
 तो, पुण्यरुचि पंक्ति शिष्यो रे ॥ जीवरुचि ए गुण गावतां, मंगल होय
 निश दीसो रे ॥ से ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ अथ तेर काठियानी सधाय लिख्यते ॥

॥ जांकरिया मुनिवर, धन्य धन्य तुम अवतार ॥ ए देशी ॥ सोजागी
 चाई, काठीया तेर निवार ॥ उत्तम पदवी तो लहो जी, जय जय जंपे रे
 संसार ॥ सो ॥ का ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ साधु समीपें आवतां जी, आ
 लस आणे अंग ॥ धर्मकथा नवि सांजले जी, मोडे अंग बहु जंग ॥ सो ॥
 ॥ का ॥ २ ॥ बीजो मोह महाबली जी, पुत्र कलत्रशुं लीन ॥ प्राणी धर्म
 न आचरे जी, घर धनने आधीन ॥ सो ॥ का ॥ ३ ॥ त्रीजो अवज्ञा का
 ठियो जी, शुं जाणे गुरु एह ॥ व्यापारें सुख संपजे जी, कीजें हर्षें तेह ॥
 सो ॥ का ॥ ४ ॥ चौथे मान धरे घणुं जी, मुळ सम अवर न कोइ ॥ के
 म वंडुं जण जण प्रत्ये जी, एम महोटी माम मन होइ ॥ सो ॥ का ॥
 ५ ॥ पांचमे क्रोधवशे करी जी, ठांने धर्मनां स्थान ॥ धर्मलाज मुजने न
 वि दीयो जी, नवि दीयो गुरु सन्मान ॥ सो ॥ का ॥ ६ ॥ बडे जीव प्र
 मादथी जी, करे मदिरादिक सेव ॥ गुरु वाणी नवि सद्दे जी, नवि मा
 ने जिनदेव ॥ सो ॥ का ॥ ७ ॥ सातमे कृपणपणाथकी जी, नावे साधु समी
 प ॥ धर्मकथा नवि सांजले जी, मंकाशे धन टीप ॥ सो ॥ का ॥ ८ ॥ आठ

मे गुरुजय उयन्यो जी, कहेशे नरकनां दुःख ॥ के कहेशे केम नाविया
जा, पामशो कहो केम मोक्ष ॥ सो० ॥ का० ॥ ए॥ नवमे देहरे आवतां जी,
दाखवे शोक विशेष ॥ धरनां कारज सवि करे जी, धर्मनां काज उवेख ॥
सो० ॥ का० ॥ १० ॥ अज्ञान दशमे काठिये जी, देवतत्व गुरुतत्व ॥ धर्मतत्व
गुरु सद्दहो जी, एम आणे मिथ्यात्व ॥ सो० ॥ का० ॥ ११ ॥ अव्याक्षेपक अ
ग्यारमे जी, ऊलपलतो दिन रात ॥ प्राणीधर्म न उलखे जी, समजाव्यो
बहु जात ॥ सो० ॥ का० ॥ १२ ॥ वारमे धर्मकथा तजी जी, कौतुक जोवा जा
य ॥ रात दिवस उजो रहे जी, नयणेनिंद न जराय ॥ सो० ॥ का० ॥ १३ ॥
विषय तेरमो काठियो जी, विषयशुं राता लोक ॥ विषय साकर लेखवे जी,
अवर सवे जी फोक ॥ सो० ॥ का० ॥ १४ ॥ सिद्धक्षेत्र जातांथकां जी, काठि
या ए अंतराय ॥ द्रव्य जावथी टालियें जी, तो मनोवंठित थाय ॥ सो०
॥ का० ॥ १५ ॥ तेर काठिया जिने कहा जी, समजी वर्जो एह ॥ कुशल
सागर वाचक तणो जी, उत्तम कहे गुणगेह ॥ सो० ॥ का० ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीषट्ज्ञावनी सद्यः प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ चोपाइनी देशी ॥

॥ श्री सद्गुरुना प्रणमी पाय, सरसति सामिणी समरी माय ॥ ठए
जावनो कहुं सुविचार, अनुयोगद्वारतणे अनुसार ॥ १ ॥ पहेलो जाणो औ
दयिक जाव, बीजो कहियें उपशम जाव ॥ त्रीजो द्वायिक जाव पवित्र,
चोथो उवसम जाव विचित्र ॥ २ ॥ पारिणामिक ते पंचम जाण, उठो सां
न्निपातिक सुवखाण ॥ एहनो अर्थ यथारथ कहुं, जेहवो गुरु आगमथी
खहुं ॥ ३ ॥ उदयावलीमां आव्यां जेह, कर्मदलिक जोगवीयें तेह ॥ जेम
गति स्थित्यादिक पर्याय, तेहथी थयो ते औदयिक जाव ॥ ४ ॥ रस प्रदे
श वेदन जिहां नही, सत्तामांहे सर्वे सही ॥ जस्मे आछादित जेम आग,
तेम औपशमिक कह्यो वडजाग ॥ ५ ॥ उदयें आव्यां ठे जे कर्म, ह्य की
जें तेहनो गत जर्म ॥ जेम खपुष्प अत्यंताजाव, तेहथी उपनो द्वायिक
जाव ॥ ६ ॥ उदयागत दलियां संघात, पुजल वेदे तिहां विख्यात ॥ मिश्र
जाव परिणामीयो जेण, द्वायोपशमिक कह्यियें तेण ॥ ७ ॥ जीव अजी
वनुं नव नव पणे, परिणमवुं थावुं विधि घणे ॥ जेम रविनो उदयास्त स्व
जाव, तेहथी थयो पारिणामिक जाव ॥ ८ ॥ ए जे जाव पंचनो योग,

द्विक त्रिक चतु पंचनो संयोग ॥ तेहना थाये ब्वीस जेय, ते साम्निपा
तिक ज्ञानी कह्ये ॥ ए ॥

॥ ढाल वीजी ॥ सुमति सदा दिखमें धरो ॥ ए देशी ॥

आगमवाणी सांचलो, टाका ने निर्युक्ति सुज्ञानी ॥ चाष्य अने चूर्णी
वली, ए पंचांगें जुत्त ॥ सु० ॥ आगम० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ जेद कहुं
ठए जावना, ते सुणजो एक चित्त ॥ सुज्ञानी ॥ एकवीश जेद कहा जला,
औदयिकजावना मित्त ॥ सु० ॥ आ० ॥ ११ ॥ मिथ्यात्व मोहतणे उदें, होय
अज्ञानी जीव ॥ सु० ॥ आठे कर्म उदयें करी, असिद्धता होय सदीव ॥
॥ सु० ॥ आ० ॥ १२ ॥ बीजी कपायनी चोकडी, तेहनो उदय जव थाय
॥ सु० ॥ अविरतिता होय जीवनें, जेद त्रीजो चित्त छाय ॥ सु० ॥ आ० ॥
॥ ४ ॥ योगजनक कर्मने उदें, कोश्या प्रगटे ठक ॥ सु० ॥ किळ नील
कपोत ष, तेज पलमा लुक्क ॥ सु० ॥ आ० ॥ ५ ॥ क्रोध मान माया व
ली, लोच त्रयोदश जेद ॥ सु० ॥ निरय तिरिय मणु सुरगई, इष्टी पुरुष
नपुं वेद ॥ सु० ॥ आ० ॥ ६ ॥ वली कही मिथ्यात्व मोहनी, ए थया
एकवीश जेय ॥ सु० ॥ उपशमना ने जेद ठे, ते कहुं चित्त धरेय ॥ सु० ॥
आ० ॥ ७ ॥ दर्शन मोह उपशमथकी, उपशम समकित होय ॥ सु० ॥
चारित्रमोहने उपशमें, उपशम चारित्र होय ॥ सु० ॥ आ० ॥ ८ ॥ जेद
ए उपशमना जण्या, ते चित्तसाहे धार ॥ सु० ॥ परमानंद पद पाश्यें,
लहीयें ज्ञान अपार ॥ सु० ॥ आ० ॥ ए ॥ इति ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ रसीयानी देशी ॥

॥ जेद सुणो नव द्वायिक जावना, केवल दर्शन ज्ञान ॥ सुगुणनर ॥
द्वायिक समकेत त्रीजो जाधियें, अहस्काय चरण प्रधान ॥ सु० ॥ १ ॥
धन धन जिनवर वचन सोहासणां ॥ सजुरुथी लहीयें तेह ॥ सु० ॥ जेम
रयणायरसांथी पामीयें, रत्न अमूलक जेह ॥ सु० ॥ धन० ॥ २ ॥ दान
लद्धि ने दाजलद्धि वली, जोगलद्धि उपजोग ॥ सु० ॥ वीर्यलद्धि ए
नव जेदें थयो, द्वायिकआवनो योग ॥ सु० ॥ धन० ॥ ३ ॥ जेद अढार
खजवसमना जण्या, मति श्रुत अवधि सुज्ञान ॥ सु० ॥ मनःपर्यव वली
ज्ञान सोहामणुं, मइ सुअ उही कुज्ञान ॥ सु० ॥ धन० ॥ ४ ॥ चक्रु
अचक्रु उही दंसणा, दानादिक पण लद्धि ॥ सु० ॥ दायोपशम समकित

वली धारियें, शोलमो जेद प्रसिद्ध ॥ सु० ॥ धन० ॥ ५ ॥ देशविरति ने
सर्वविरति कही, ए थया जेद अठार ॥ सु० ॥ पांच लद्धि वे जावथकी
होये, तेमाटे बेमां धार ॥ सु० ॥ धन० ॥ ६ ॥ त्रण्य जेद कहा परिणामना,
ते सुणतां सुख थाय ॥ सु० ॥ जव्यपणुं अजव्यपणुं वली, जीवपणुं चित्त
लाय ॥ सु० ॥ धन० ॥ ७ ॥ सर्व मलीनें पांचे जावना, हूआ त्रेपन जेय ॥
सु० ॥ उत्तरपयडीयें जाणवा, ज्ञानी सुणो चित्त देय ॥ सु० ॥ धन० ॥ ८ ॥

॥ ढाल चोथी ॥ इडर आंवा आंवली रे ॥ ए देशी ॥

॥ हवे सांजल सन्निवायना रे, ढवीश थाये जंग ॥ वीश जंग शून्य ते
हना रे, स्वामी ठकना चंग ॥ १ ॥ जविक जन, सुणियें जिनवर वयण ॥
ए आंकणी ॥ नरय तिरिय मणु सुरगई रे, ए चारे गतिमांहि ॥ मिश्र उ
दय परिणामनो रे, त्रिक थौंगिक जंग आंहि ॥ जवि० ॥ २ ॥ ए त्रणमां
उपशम मले रे, चउक संयोगीयो थाय ॥ ते पण चउगइमां अठे रे, जेद
बीजो चित्त लाय ॥ जवि० ॥ ३ ॥ परिणामुदय खय मिश्रलो रे, हुड संयो
गीयो एह ॥ चउगइमांहे ए हुवो रे, त्रीजो जेद ससनेह ॥ जवि० ॥ ४ ॥
परिणाम उदय हायिकें रे, वरते केवली संयोग ॥ चोथो जंग ते ए कह्यो
रे, थाये त्रिक संयोग ॥ जवि० ॥ ५ ॥ हायिक ले पारिणामिको रे, द्विक
संयोगीयो एह ॥ सिद्ध परमात्माने हुवे रे, पंचम जंग कह्यो तेह ॥ जवि०
॥ ६ ॥ उपशम श्रेणीगत जीवनें रे, पंच संयोगी होय ॥ चारित्र्योपश
मिकें लहो रे, हायिक समकेत जोय ॥ जवि० ॥ ७ ॥ जीवपणुं पारिणा
मिकें रे, उदयजावें मणुगति ॥ खडवसम इन्द्रिय तणो रे, उठो जंग एह
मित्त ॥ जवि० ॥ ८ ॥ ए ठए जंग सन्निवायना रे, स्वामी पण दश जास
॥ निरुपयोगी वीश ठे रे, जांगा न कहा तास ॥ जवि० ॥ ९ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥ रातडी रमीने रे, किहांथी थाचिया ॥ इ देशी ॥

॥ हवे सुणजो गुणठाणा उषें रे, उत्तर जाव विचार ॥ मिथ्यादृष्टि
गुणठाणा विषे रे, उदयना एकवीश धार ॥ १ ॥ जतियण श्रीजिनवाणी
सांजलो रे ॥ ए आंकणी ॥ हायोपशजना दह जेदज कहा रे, दानादि
क लब्धि पंच ॥ चरकु अचरकु दंसण वे वली रे, तीन अज्ञान सुचंग ॥
जवि० ॥ २ ॥ पारिणामिकना जेद होये त्रणे रे, सर्व मली चउत्रीश ॥ ह
वे सास्त्रादन गुणठाणे जप्पारे, मिष्ठ विण उदयना वीश ॥ जवि० ॥

॥ ३ ॥ मिश्र तणा दश जेदज तेह ठे रे, पारिणामिकना दोय ॥ अजव्य
पणुं मांहेथी टालीयें रे, सरवे बत्राश होय ॥ जवि० ॥ ४ ॥ मिश्रगुणठा
णे औदयिक जावना रे, विण अज्ञानी उंगणीश ॥ द्वादश जेद खउवस
मना जणया रे, पांच लब्धि सुजगीश ॥ जवि० ॥ ५ ॥ त्रिक दर्शन त्रण
ज्ञान कहां जलां रे, समकित मिश्रज रूप ॥ पारिणामिकना जेद छिक व
ली रे, तेत्रीश सर्व अनूप ॥ जवि० ॥ ६ ॥ अविरति सम्यग्दृष्टि गुणपदे
रे, उंगणीश उदयना तेज ॥ उपशम जावें समकित सुंदरु रे, ह्यायिक स
मकित हेज ॥ जवि० ॥ ७ ॥ पूर्वोदित वली द्वादश मिश्रना रे, दोय जेद
परिणाम ॥ सर्व मलीने पांत्रीश ए थया रे, चउगतिना जस स्वाभि ॥ जवि०
॥ ८ ॥ देशविरतिविषे सत्तर जेद ठे रे, औदयिक जावना धार ॥ देव
निरय गइ बे ए काठीये रे, उवसम सम्यक्त्व विचार ॥ जवि० ॥ ९ ॥ ह्या
यिक जावें समकित जाणीयें रे, पारिणामिकना दोय ॥ देशविरति युत
तेरह मिश्रना रे, सहु मली चौत्रीश होय ॥ जवि० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ ढाल बठी ॥ क्युं जाणुं क्युं बनी आवशे ॥ ए देशी ॥

॥ प्रमत्त संयत गुणपदविषे, दशपंच उदयना जेद हो राज ॥ असंब
मताने तिरिय गइ, कीजें तास विषेद हो राज ॥ १ ॥ जिनवचनामृत पी
जीयें ॥ ए आंकणी ॥ उपशम समकित सुंदरु, ह्यजजावें समकेत हो राज
॥ मिश्रना तेरह जेद ठे, सर्वविरति संयुत हो राज ॥ जिन० ॥ २ ॥ ह्रीण
मोह पर्यंत जाणीयें, पारिणामिकना दोय हो राज ॥ एटले सर्व मली थ
या, बत्रीश जेद तुं जोय हो राज ॥ जिन० ॥ ३ ॥ सातमे औदयिकजाव
ना, द्वादश जेद प्रधान हो राज ॥ आद्य त्रिक लेश्या विना, उपशम
समकित जाण हो राज ॥ जिन० ॥ ४ ॥ समकित ह्यजजावें हुवे, चउदश
मिश्र प्रकार हो राज ॥ मनःपर्यव संयुत करो, ए थया त्रीश विचार हो
राज ॥ जिन० ॥ ५ ॥ अपूरवकरण गुण आठम, दश जेद उदयना धार
हो राज ॥ तेजो पद्मलेश्या विना, समकित उपशम सार हो राज ॥
॥ जिन० ॥ ६ ॥ ह्यजजावें समकेत वरु, मिश्रना तेर जगीश हो राज ॥
मिश्रसमकेत ते टालीयें, सहु मली सत्तावीश हो राज ॥ जिन० ॥ ७ ॥
नवमे औदयिक जावना, पूर्वोदित दश जेद हो राज ॥ पाठांतर (पूर्वोक्त
तेरह मिश्रनां) ह्यायिक समकित जाणीयें, उपशमना वे जेद हो राज ॥

जिन० ॥ ७ ॥ पूर्वोक्त तेरह मिश्रना, सघला अष्टावीश हो राज ॥ ए नव
मा गुण पद तणा, उत्तर जाव जगीशं हो राज ॥ जिन० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ ढाले सातमी ॥ धन धन संप्रति साचो राजा ॥ ए देशी ॥

॥ हवे दशमा गुणगण विषे सुण, उदय तणा जेद चारो रे ॥ लोच
संजलण मणुगइ असिद्धता, लेश्या शुक्क चित्त धारो रे ॥ १ ॥ जय जय
स्वामी वीर जिणेसर ॥ ए आंकणी ॥ जस वाणी अति मीठी रे ॥ सुणतां
शुचमति अंकुर विकसे, निकसे दुर्मति धीठी रे ॥ जय जय स्वामी वीर
जिणेसर ॥ २ ॥ उपशम समकित उपशम चारित्र, क्षायिक समकित एको
रे ॥ जेद कहो तेर मिश्रना तेहज, बावीश सर्व विवेको रे ॥ जय० ॥ ३ ॥
उपशांतमोहे तीन उदयना, मणुअ गइ शुक्क असिद्धो रे ॥ उपशमना
बे जेद लहीजे, क्षायिक समकित प्रसिद्धो रे ॥ जय० ॥ ४ ॥ चारित्र विर
हित मिश्रना द्वादश, सहु मली वीश ए जाणो रे ॥ हवे द्वादशमे औदयि
क जावना, एइज त्रण्य वखाणो रे ॥ जय० ॥ ५ ॥ क्षायिक समकेत क्षायिक
चारित्र, पूर्वोक्त मिश्रना बारो रे ॥ सर्व मलीने ए गुणगणे, उगणीश जेद
विचारो रे ॥ जय० ॥ ६ ॥ तेरमे औदयिकना त्रण तेहिज, क्षायिकना
नव जेदो रे ॥ जीवपणुं पारिणामिक जावें, सहु मली तेर उमेदो रे ॥
जय० ॥ ७ ॥ चउदशमे बे जेद उदयना, मणुअ गइने असिद्धो रे ॥ क्षायि
क जावें नव निधि सम प्रगट्या, परिणामी जीव लीधो रे ॥ जय० ॥ ८ ॥
द्वादश जेद ए सर्व मलीने, चौदशमे गुणगणे रे ॥ सिद्धने दश जेद
औदयिक विरहित, धारो ज्ञानी वाणे रे ॥ जय० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ ढाल आठमी ॥ देशी कुमकानी ॥

॥ वीर जिणेसर वालहा, अतिमीठी जस वाणि ॥ चतुर नर सांचलो ॥
हवे सुणो जाव विषे कहुं, गुणपदनुं वखाण ॥ चतु० ॥ १ ॥ मिथ्यात्व मोह
तणे उदें, पामे पढम गुणगण ॥ चतु० ॥ औदयिक जावथकी होये,
गुणपद पहेलुं जाण ॥ चतु० ॥ २ ॥ पहेला कषायना उदयथी, चोआथी
पडे जेण ॥ चतु० ॥ वमतां सास्वादन लहे, औदयिक जावथी तेण ॥
चतु० ॥ ३ ॥ कोइ आचारज एम कहे, पारिणामिकथी होय ॥ चतु० ॥
पंचसंग्रह टीका तणो, एइवो आशय जोय ॥ चतु० ॥ ४ ॥ क्षायोपश
मिक जावथी, लहे त्रीजुं गुणगण ॥ चतु० ॥ प्रथमथी चढतो चोआथी,

॥ ३ ॥ मिश्र तणा दश जेदज तेह ठे रे, पारिणामिकना दोग ॥ अत्रव्य
पणुं मांहेथी टालीयें रे, सरवे बत्राश होय ॥ जविण ॥ ४ ॥ मिश्रगुणठा
णे औदयिक जावना रे, विण अज्ञानी उगणीश ॥ द्वादश जेद खउवस
मना जण्या रे, पांच लब्धि सुजगीश ॥ जविण ॥ ५ ॥ त्रिक दर्शन त्रण
ज्ञान कहां जळां रे, समकित मिश्रज रूप ॥ पारिणामिकना जेद द्विक व
ली रे, तेत्रीश सर्व अनूप ॥ जविण ॥ ६ ॥ अविरति सम्यग्दृष्टि गुणपदें
रे, उगणीश उदयना तेज ॥ उपशम जावें समकित सुंदरु रे, ह्यायिक स
मकित हेज ॥ जविण ॥ ७ ॥ पूर्वोदित वली द्वादश मिश्रना रे, दोग जेद
परिणाम ॥ सर्व मलीने पांत्रीश ए थया रे, चउगतिना जस स्वामि ॥ जविण
॥ ८ ॥ देशविरतिविषे सत्तर जेद ठे रे, औदयिक जावना धार ॥ देव
निरय गइ बे ए काठीये रे, उवसम सम्यक्त्व विचार ॥ जविण ॥ ९ ॥ ह्या
यिक जावें समकित जाणीयें रे, पारिणामिकना दोग ॥ देशविरति युत
तेरह मिश्रना रे, सहु मली चोत्रीश होय ॥ जविण ॥ १० ॥ इति ॥

॥ ढाल ठठी ॥ क्युं जाणुं क्युं बनी आवशे ॥ ए देशी ॥

॥ प्रमत्त संयत गुणपदविषे, दशपंच उदयना जेद हो राज ॥ असंब
मताने तिरिय गइ, कीजें तास विषेद हो राज ॥ १ ॥ जिनवचनामृत पी
जीयें ॥ ए आंकणी ॥ उपशम समकित सुंदरु, ह्यजावें समकेत हो राज
॥ मिश्रना तेरह जेद ठे, सर्वविरति संयुत हो राज ॥ जिनण ॥ २ ॥ ह्रीण
मोह पर्यंत जाणीयें, पारिणामिकना दोग हो राज ॥ एटले सर्व मली थ
या, बत्रीश जेद तुं जोय हो राज ॥ जिनण ॥ ३ ॥ सातमे औदयिकजाव
ना, द्वादश जेद प्रधान हो राज ॥ आद्य त्रिक लेश्या विना, उपशम
समकित जाण हो राज ॥ जिनण ॥ ४ ॥ समकित ह्यजावें हुवे, चउदश
मिश्र प्रकार हो राज ॥ मनःपर्यव संयुत करो, ए थया त्रीश विचार हो
राज ॥ जिनण ॥ ५ ॥ अपूरवकरण गुण आठम, दश जेद उदयना धार
हो राज ॥ तेजो पद्मलेश्या विना, समकित उपशम सार हो राज ॥
॥ जिनण ॥ ६ ॥ ह्यजावें समकेत वरु, मिश्रना तेर जगीश हो राज ॥
मिश्रसमकेत ते टालीयें, सहु मली सत्तावीश हो राज ॥ जिनण ॥ ७ ॥
नवमे औदयिक जावना, पूर्वोदित दश जेद हो राज ॥ पाठांतर (पूर्वोक्त
तेरह मिश्रनां) ह्यायिक समकित जाणीयें, उपशमना वे जेद हो राज ॥

जिन० ॥ ७ ॥ पूर्वोक्त तेरह मिश्रना, सघला अष्टावीश हो राज ॥ ए नव
मा गुण पद तणा, उत्तर जाव जगीश हो राज ॥ जिन० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ ढाल सातमी ॥ धन धन संप्रति साचो राजा ॥ ए देशी ॥

॥ हवे दशमा गुणगण विषे सुण, उदय तणा जेद चारो रे ॥ लोच
संजलण मणुगइ असिद्धता, लेश्या शुक्ल चित्त धारो रे ॥ १ ॥ जय जय
स्वामी वीर जिणेश्वर ॥ ए आंकणी ॥ जस वाणी अति मीठी रे ॥ सुणतां
शुचमति अंकुर विकसे, निकसे दुर्मति धीठी रे ॥ जय जय स्वामी वीर
जिणेश्वर ॥ २ ॥ उपशम समकित उपशम चारित्र, क्षायिक समकित एको
रे ॥ जेद कहो तेर मिश्रना तेहज, बावीश सर्व विवेको रे ॥ जय० ॥ ३ ॥
उपशांतमोहें तीन उदयना, मणुअ गइ शुक्ल असिद्धो रे ॥ उपशमना
वे जेद लहीजें, क्षायिक समकित प्रसिद्धो रे ॥ जय० ॥ ४ ॥ चारित्र विर
हित मिश्रना द्वादश, सहु मली वीश ए जाणो रे ॥ हवे द्वादशमे औदयि
क जावना, एइज त्रण्य वखाणो रे ॥ जय० ॥ ५ ॥ क्षायिक समकेत क्षायिक
चारित्र, पूर्वोक्त मिश्रना वारो रे ॥ सर्व मलीने ए गुणगणे, उगणीश जेद
विचारो रे ॥ जय० ॥ ६ ॥ तेरमे औदयिकना त्रण तेहिज, क्षायिकना
नव जेदो रे ॥ जीवपणुं पारिणामिक जावें, सहु मली तेर उमेदो रे ॥
जय० ॥ ७ ॥ चउदशमे वे जेद उदयना, मणुअ गइने असिद्धो रे ॥ क्षायि
कजावें नव निधि सम प्रगट्या, परिणामी जीव लीधो रे ॥ जय० ॥ ८ ॥
द्वादश जेद ए सर्व मलीने, चौदशमे गुणगणे रे ॥ सिद्धने दश जेद
औदयिक विरहित, धारो ज्ञानी वाणे रे ॥ जय० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ ढाल आठमी ॥ देशी कुमकानी ॥

॥ वीर जिणेश्वर बालहर, अतिमीठी जस वाणि ॥ चतुर नर सांजलो ॥
हवे सुणो जाव विषे कहुं, गुणपदनुं वखाण ॥ चतु० ॥ १ ॥ मिथ्यात्व मोह
तणे उदें, पामे पढम गुणगण ॥ चतु० ॥ औदयिक जावथकी होये,
गुणपद पहेलुं जाण ॥ चतु० ॥ २ ॥ पहेला कषायना उदयथी, चौथार्थी
पडे जेण ॥ चतु० ॥ वमतां सास्वादन लहे, औदयिक जावथी तेण ॥
चतु० ॥ ३ ॥ कोइ आचारज एम कहे, पारिणामिकथी होय ॥ चतु० ॥
पंचसंग्रह टीका तणो, एइवो आशय जोय ॥ चतु० ॥ ४ ॥ क्षायोपश
मिक जावथी, लहे त्रीजुं गुणगण ॥ चतु० ॥ प्रथमथी चढतो चौथार्थी,

पडतो पामे ए ठाण ॥ चतु० ॥ ५ ॥ दर्शनमोहनी कर्मनो, क्य उपशम
जव थाय ॥ चतु० ॥ तेमाटे त्रण जावथी, हुवे चोथुं गुणठाय ॥ चतु०
॥ ६ ॥ चारित्रमोहनी कर्मनो, क्योपशम जव थाय ॥ चतु० ॥ देश
प्रमत्त अप्रमत्त लहे, क्योपशमिक तत्व ॥ चतु० ॥ ७ ॥ उपशम चारित्र
मोहनो, अपूर्वथी जवसंत जाव ॥ चतु० ॥ उपशम श्रेणिने आशरी, चारे
उपशम जाव ॥ चतु० ॥ ८ ॥ चारित्र मोहना क्यथकी, अपूर्वथी हीण
मोहांत ॥ चतु० ॥ क्ययिक जावथकी होये, क्यपकश्रेणि गुणतंत ॥ चतु०
॥ ९ ॥ क्य हुळ घाती कर्मनो, क्ययिक जाव प्रधान ॥ चतु० ॥ त्रयोद
शमे गुण स्थानके, योग सहित जगवान ॥ चतु० ॥ १० ॥ योग जनक कर्म
क्य थयुं, तव हुइ लेख्या सुक ॥ चतु० ॥ क्यजावे अयोगी केवली, कम्म
कलंक विसुक्क ॥ चतु० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ ढाल नवमी ॥ हो मतवाले साजना ॥ ए देशी ॥

॥ ते तरिया ज्विते तरिया, जे जाव विचारें जविया रे ॥ सूत्र आग
म पंचांगी माने, सप्तजंगीना दरिया रे ॥ ते० ॥ १ ॥ निश्चय ने व्यवहार
वतावे, नय प्रज्ञाण चित्त धारया रे ॥ हेय गेय उपादेय वखाणे, कार्य का
रण आचरिया रे ॥ ते० ॥ २ ॥ उत्पत्ति नाश ने ध्रौव्य प्ररूपे, ड्रव्य गुण
पज्जव जरिया रे ॥ ड्रव्य क्षेत्र काल जावने माने, ते शिवरमणीयें वरिया
रे ॥ ते० ॥ ३ ॥ जे षट्जाव स्वरूप न जाणे, करे नित्य बहु ड्रव्य किरि
या रे ॥ एकांते मिथ्यात्वज कहीयें, ते संसारमां करिया रे ॥ ते० ॥ ४ ॥
कारणविण जे कारण साधे, ते जवमांहे फरशे रे ॥ कारणयोगें जे
कारण साधे, ते जन वहेला तरशे रे ॥ ते० ॥ ५ ॥ धर्मधुरंधर पुण्यप्राज्ञा
विक, कस्तूरचंद्र सोजागी रे ॥ जिन पूजे जिनचैत्य करावे, सूत्रसिद्धांभ
ना रागी रे ॥ ते० ॥ ६ ॥ शा जोजाने दोशी दुर्लज, बीजा बहु जवि प्राणी
रे ॥ श्रीमहाज्ञाप्य विशेषानश्यक, सांजखे चित्तमां आणी रे ॥ ते० ॥
७ ॥ तेह तणा आग्रहथी ए शुज, जाव स्वरूप विचारो रे ॥ अनुयोग
द्वार षडशीतिमांथी, आण्यो अति विस्तारो रे ॥ ते० ॥ ८ ॥ जणतां गु
णतां सुणतां संपत्ति, खीखा खाडी जंकारो रे ॥ जिनवाणी रगें सांजख
तां, नित नित जय जयकारो रे ॥ ते० ॥ ९ ॥ अचलगर्भें गिरुआ गळ

पति, विधिसागर सूरिराया रे ॥ बुरहानपुर शहरे गुरुमहेरें, जावप्रकाश
में गाया रे ॥ ते० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ कलश ॥

॥ एभ कह्या जावविचार सुंदर, जेहवा गुरुजि मुखें सुण्या ॥ जिनराज
वाणी हैये आणी, निर्जरा कारण थुण्या ॥ सतर नय मद (१७७५) मास
आश्विन, सिद्धयोग गुरु वास रे ॥ श्रीसूरिविद्यातणो विनयी, ज्ञानसागर
सुख करे ॥ १ ॥ इति श्रीषट्जाव अथवा जावप्रकाशः सध्याय समाप्तः ॥

॥ अथ श्रीषडावश्यकनी सध्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ साहेबा मोतीडो हमारो ॥ ए देशी ॥

॥ श्रीसद्गुरुने सदा प्रणामीजें, पडिक्कमाणानो सह खप कीजें ॥ साधु
जी पडिक्कमाणुं कीजें, मुनिजी परमारथ लहीजें ॥ स्याद्वाद मुद्रा चित्त
धारी, षट् आवश्यक कीजें सुविचारी ॥ साधुजी० ॥ १ ॥ अध्यात्म मारग
आचरीयें, सप्तजंगी नय मतमां धरियें ॥ आवश्यक निर्युक्त्यनुसार, करूं
खाध्याय संक्षेपे सार ॥ साधु० ॥ २ ॥ आवश्यकदि सहुना निक्षेपा, ते
करतां नवि लागे क्षेपा ॥ नाम स्थापना द्रव्य ने जाव, अनुपयोग उपयो
गी जीव ॥ सा० ॥ ३ ॥ क्षेत्रथकी जंरतह ऐरावत, कादथकी वेसंज प
वित्त ॥ पासढादिक संगति टाले, धर्मविना जय जाये आलें ॥ सा० ॥ ४
॥ पहेलुं श्रीगुरुवंदन करतां, आर्जवता मनमांहे धरतां ॥ करेमिजं इरि
यावहि पडिक्कमियें, कृतकारि तनु पाप उपशमियें ॥ सा० ॥ ५ ॥ विधि
परके पडिक्कमाणुं सार, तिहां पहेलुं सामायिक धार ॥ चउवीसहें नामें
बीय, वंदण पडिक्कमाणुं चउविय ॥ सा० ॥ ६ ॥ काउस्सग्ग ने ठहुं प
च्चस्काण, षट् आवश्यक आत्म शुद्धि ठाण ॥ नयनिक्षेप प्रमाणीने जा
णी, निमित्त सहित करजो जवि प्राणी ॥ सा० ॥ ७ ॥ मांहोमांहे अं
गुल जेली सार. दोय हस्तनी कोशाकार ॥ पेट उपर कोहणी संठवीयें,
योगमुद्रा चेत्यवंदन स्तवियें ॥ सा० ॥ ८ ॥ उजो अंतर पग अंगुल चार,
पुंठलथी कांइ ऊणा चार ॥ एहवी कही जिनमुद्रा सार, दाथ प्रलंब
उन्नत निरधार ॥ सा० ॥ ९ ॥ शुक्तिसमा दो गर्जितहस्त, मुक्काशुक्ति
मुद्रा शस्त ॥ ललाड लग्ग अलग्ग किंचित्त, नमोबुणं कहीयें इग चित्त

॥ सा० ॥ १० ॥ तस्सुत्तरी करणादिक चार, सद्भाए आदिक पण सार ॥
काजस्सग्ग करतां ए हेतु नव्व, मनमां विचारे जे जन चव्व ॥ सा० ॥ ११ ॥
अन्नढणादिक वार आगार, आगल पणिंदीदण सार ॥ बोही खोचाई न
कोय, शोख आगारें काजस्सग्ग होय ॥ सा० ॥ १२ ॥

॥ ढाल बीजी ॥ चोपाइनी देशी ॥

॥ हवे कहुं काजस्सग्ग उंगणीश दोष, ते टलतां होये संतोष ॥ घोडग
खय खंजाइ माल, उरु सुजट खलिण सुविशाल ॥ १ ॥ वहुवानी परें
लज्जा धरे, निलयादिकनो आश्रय करे ॥ लंब थण चू संजइ वाथस्स,
कोठ मूक सुर कंप पहेस्स ॥ २ ॥ काजस्सग्ग दोष कहा उंगणीश, ते
टाली करीयें सुजगीश ॥ दृष्टि पडिलेहण पहेली कही, सूत्र अर्थ तडु
जय सहही ॥ ३ ॥ अस्कोडा परकोडा करे, त्रणवार ऊरु अधाशुं धरे ॥
समकित मिश्र मिथ्या मोह खरे, काम स्नेह दृष्टि राग परिहरे ॥ ४ ॥
त्रणवार विधानह तंत, देव गुरु धर्म आदरवा खंत ॥ वली कुगुरु कुदेव
कुधर्म, परिहरवुं तुम जाणो मर्म ॥ ५ ॥ ज्ञान दर्शन चारित्र आदरुं, तेह
विराधन टाली खरुं ॥ मन वच काय गुप्ति आदरुं, मन वच काय दंरु
परिहरुं ॥ ६ ॥ पडिलेहण मुहपात्त पणवीस, हवे बोलुं काया पचवीश ॥
हास्य रति अरति वामे जुजें, दुगंधा शोक जय दक्षिण जुजें ॥ ७ ॥
कृष्ण नील कापोत मस्तकें, ठांको रस शुद्धि गारव मुखें ॥ माया निदान
मिथ्या त्रण्य शब्द, परिहरो हृदय मध्य त्रण शब्द ॥ ८ ॥ क्रोध मान नावे
बाहु मूल, माया लोच दक्षिण जुज मूल ॥ वाम पग पृथिवी जल तेउ
काय, बाउ वनस्पति त्रस दक्षिण पाय ॥ ९ ॥ ए पडिलेहण मुनिनें
पचाश, श्रावकने मुहपत्तिनो नाश ॥ आगम निश्चय विधि मन धरे,
जावक्रिया कीधे जव तरे ॥ १० ॥ अहो कायं काय ए त्रस, जत्ता
जवणी ज्ञायं च जे त्रस ॥ पहिले षट् बीजे षट् जाण, वंदन वार आवर्त्त
अहिनाण ॥ ११ ॥ आदर रहित वंदे गुरु सार, जाल्यादिक मद स्तब्ध
अपार ॥ वांदण देइ नासे ततकाल, घणा मुनि वांदे समकाल ॥ १२ ॥
तीड फाल देइ वंदन करे, अंकुश जिम उघो कर धरे ॥ कष्टप चालें पुन
वंदन करे, मत्स्य तणी परें पासुं फरे ॥ १३ ॥ द्वेष जय मैत्री गारव
कारणे, जानु उपर कर वे धारणे ॥ मुजने जजे. एहवुं मन जाण, आहा

रकालें ते वंदन काण ॥ १४ ॥ चोरी तर्जित हेलना रुष्ट, ग्लानिविकथा
करहृष्टाहृष्ट ॥ नृपकर हीण मोचन अस्पर्श, अधिक ठठर करशिर संस्प
र्श ॥ १५ ॥ मूक रजोहरण जमाडि, ए वत्रीशे छूषण ठांकि ॥ एणी परें
वांदणां देतां सार, कृष्णपरें होये लाज अपार ॥ १६ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ यत्तिनी देशी ॥

॥ पडिक्रमण अध्ययन मजार, एकादिक तेत्रीश सार ॥ आशातना गु
रुनी तेत्रीश, सांजलजो जवियण सुजगीश ॥ १ ॥ गुरुने आगल पाठल
पासैं, ढुकडो चाले वेसे पासैं ॥ उचो रहे एम त्रण त्रि नव, पाणी गुरु प
हेलुं शिष्य लेव ॥ २ ॥ गुरु पहिलो श्रावक बोलाव; गुरु पहिलो आलो
याव ॥ गुरुने अणदेखे आलोय, बीजाने देखे आलोय ॥ ३ ॥ गुरु विण
बीजाने निमंत्रे, गुरु पूठ्या विण बीजाने निमंत्रे ॥ स्निग्ध मधुर स्वय
जक्षण करतो, निशि बोलावे मौन धरंतो ॥ ४ ॥ बीजे कार्य उत्तर नवि
दीये, तेड्यो तत्रथी उत्तर दिये ॥ गुरु पूठे मस्तक वंदेइ, गुरुने तुंकारे
बोलेइ ॥ ५ ॥ कार्य कहे ते किम न करेइ, कर्कश वचन कही सपरेइ ॥
दौर्मनस्य कथाछेदन, गुरुपद घटन पर्षदा जेदन ॥ ६ ॥ क्षण उठे पोते
क्षण करे, गुरु संथारे वेसे सुए ॥ गुरुथी उंचे आसन वेसे, समासन
वेसे सुविशेषे ॥ ७ ॥ नमवुं यथाजात वे वार, शिरने नमवुं चऊ वार ॥
त्रण्य गुप्त बारह आवर्त्त, डुयवेश एक निर्गत्य ॥ ८ ॥ पंचवीश आवश्यक
ए कहीया, गुरु शिष्यना षट वच लहीया ॥ दोष षट तेम षट ठे गुणा,
योग्य अयोग्य पणे वंदन जण्या ॥ ९ ॥ मण तण वयण कृत कारित्त,
अनुमोदन उपयोग पवित्त ॥ शुज जावें करो पञ्चस्काण, षट आवश्यक
पूरण जाण ॥ १० ॥ रयणत्रय शून्य जे आया, इण वासित्त करो जवि
राया ॥ शुद्धातम गुण तव प्रगटे, जेम रविथी कजबंध विघटे ॥ ११ ॥
एह आतम शुद्ध करेवा, मुनि बहुयें ए चित्त धरेवा ॥ तदा ज्ञानादिक
गुण सार, वरलक्षी शिव सुख अपार ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ ढाल चोथी ॥ चोपाइनी ॥

॥ आगल पूर्वाचार्य विशेष, सामायिक पालण सुविशेष ॥ संज्ञाखुं
असंज्ञाखुं होय, ते संजारी आगल जोय ॥ १ ॥ निक्षेपा नय कारण जाण,
उत्पाद व्यय ध्रौव प्रमाण ॥ हेय ज्ञेय ड्रव्य ने तत्त्व, आवश्यक प्रत्येकें

सत्त्व ॥ २ ॥ नाम मात्र निस्केपो तेह, जीवाजीवाकृति ठवणेह ॥ अनु
पयोग द्रव्य अक्षर उच्चार, उपयोगी जावें करि सार ॥ ३ ॥ जीवाजीव
चोवीशे स्वाम, ठवणा प्रतिमा सन्नय नाम ॥ जीवा चोवीश द्रव्य प्रसिद्ध,
तद्गुणधारी जाव प्रसिद्ध ॥ ४ ॥ नाम ठवणा सुगम व्याख्यान, क्रिया
यथास्थित ने अनुमान ॥ अनुपयोगी द्रव्य वंदन सार, उपयोगी जाव
वंदन सार ॥ ५ ॥ जाव विना आलोइ द्रव्य, जाव पडिक्कमणुं जावे नव्य
॥ काउस्सग्ग तेम जाणो सार, पच्चरकाण निक्षेप विचार ॥ ६ ॥ हवे आ
वश्यक नव संयुक्त, जिण वयणे नवियण सुण तत्त्व ॥ नयविण जाणे
ज्ञानी केम, ते उद्यम करीयें नवि जेम ॥ ७ ॥ प्रथम नय द्रव्यार्थिक
जाण, तेतो सवि जीव द्रव्य समाण ॥ सामायिक बोले निशदीस, गुण
तो तेहिज द्रव्य सुजगीश ॥ ८ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥ साहेबा मोतीडो हमारो ॥ ए देशी

॥ संवर रूपें सामायिक अस्ति, अशुचबंध पण करणे नास्ति ॥ साधु
जी स्याद्वाद विचारो, नवियां सप्त जंगी धारो ॥ स्वपर कारण अस्ति
नास्ति, अवक्तव्य चोथे प्रतिशस्ति ॥ साधुजी० ॥ १ ॥ अहि न कहेवाये
समकाल, नहि न कहेवाये ततकाल ॥ ठे नहि जणे न कहेवाय, सप्त
जंगी नय शब्द पर्याय ॥ साधु० ॥ २ ॥ चउविसठो एहज रीतें, आत्म
स्तव तुं जाणे चित्त ॥ सामान्य विशेष गुणने ग्रहीयें, सम्यक्त्वादिक गुण
संग्रहीयें ॥ साधु० ॥ ३ ॥ आत्मा तो मिथ्यात्वी होये, तेहने स्तवनें शुं
गुण होये ॥ व्यवहारें जिनवर चउवीश, स्तवनें मोक्ष होये सुजगीश ॥
साधु० ॥ ४ ॥ हवे थोलुं रुजु सूत्र विचार, वर्तमान काले व्यवहार ॥
तीतानागत विण्ठानुत्पन्न, सम कालें चोवीश प्रसन्न ॥ साधु० ॥ ५ ॥
चोथे निक्षेपे जिनवर धरजो, नवियण मोक्षार्थी आदरजो ॥ जावनिस्केपें
जे पर्याय, तेहने मोक्ष शब्दनय मनाथ ॥ साधु० ॥ ६ ॥ जे जेहनां रूढें
जेम होय, पज्जय तेहना अन्य केम होय ॥ समजिरूढ एहवुं माने,
सविगुण ऊर्ध्व पज्जय शिवथानें ॥ साधु० ॥ ७ ॥ आर्हतपणुं सधवुं अनु
नवतां, एवंजुत अर्हत तव वदतां ॥ एम वंदण पडिक्कमण नय जाणो,
गीतारथ पासें मन आणो ॥ साधु० ॥ ८ ॥ कारण पांच मले सहु कोइ,
निपजे विणसे कारज जोइ ॥ एकेके नवि निपजे कृत्य, पांचे मली माने

समकित्त ॥ साधुं ॥ ए ॥ जिणकालें करीयें ते काल, जीव स्वजाव वीजो संजाल ॥ नियत थावा हिंने तो थाये, आवश्यक जाणो मनमांहे ॥ साधुं ॥ १० ॥ ऋयोपशम मोहादिक कर्म, आवे उदय आवश्यक धर्म ॥ धर्म विषे उद्यम फोरववी, कारणपंच मळे करणी करवी ॥ साधुं ॥ ११ ॥ आवश्यक शुभगुण उप्पाय, अशुभकर्मनो नाशज थाय ॥ जीव स्वजाव निर्मल तिहां ध्रौव, एणिपरे उत्पाद व्यय ध्रौव ॥ साधुं ॥ १२ ॥ श्रीजिणवरें जे जे शास्त्र, ते अनुसारें आगम शास्त्र ॥ शब्द प्रमाण कहीजें एहनें, आवश्यक षट् वली तेहनें ॥ साधुं ॥ १३ ॥ आवश्यक नय निक्षेपा ज्ञेय, त्रण निक्षेप मोक्षार्थे हेय ॥ चोथो उपादेय निक्षेप, हेय ज्ञेय उपादेय संक्षेप ॥ साधुं ॥ १४ ॥ षट्द्रव्य मांहे व्यवहारें कहीयें, आत्मा बांधे ठोडे लहीयें ॥ निश्चयनय आत्मा अबंध, पुजल बंधाये घणुं बंध ॥ साधुं ॥ १५ ॥ तत्त्वमांहे संवर आश्रय, मोक्ष ए आवश्यक अंतर्भव ॥ सामायिक संवर निरधार, चउविसठो मोक्ष उदार ॥ साधुं ॥ १६ ॥ शुभ आवश्यक शेष, आत्मस्वरूपें संवर विशेष ॥ ए दश द्वार विचारी करीयें, आवश्यक किरिया आदरीयें ॥ साधुं ॥ १७ ॥ एणीपरें षट् आवश्यक नित्य करतां, केवल कमला मुनिवर वरता ॥ शुद्धात्म निज रूपें धरेता, ज्ञान समुद्र सुख संपत्ति नरता ॥ साधुं ॥ १८ ॥

॥ कलश ॥

॥ एम द्रव्यनय पर्यायनय मुख, आवश्यक षट् आदरो ॥ जिनराज वाणी हिये आणी, प्राणी संशय मत धरो ॥ विधिपद्मगुह्यपति सूरिविद्या, उदधिसूरि शिरोमणि ॥ तस शिष्य पत्रणे ज्ञानसागर, जणो नवियण शिव जणी ॥ १ ॥ इति श्रीषडावश्यक सध्यायः संपूर्णः ॥

॥ अथ श्रीमणिचंद्रजी कृत वैराग्यकारक सध्यायो प्रारंभः ॥

॥ चोपाई ॥ श्रवण कीर्त्तन सेवन त्रण्यसार, वचन वंदन ध्यान मन धार ॥ लघुता एकता समता सही, नवधा क्रिया ते इम सहही ॥ १ ॥ गुण अनंत जीवद्रव्यनां कहां, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यें ग्रहां ॥ तेह तणुं सांजलवुं करे, प्रथमक्रिया पातक परिहरे ॥ २ ॥ कीर्त्तन कथनी करे अतिघणी, जे द्रव्यगुणपर्याये जणी ॥ वचनयोगी पातक परिहरे, बीजी क्रिया सज थई आदरे ॥ ३ ॥ सेवन करतो हृदयमजार, गुण संजारे

वारोवार ॥ दुर्गति कापे निश्चें सही, त्रीजा बोलथकी ए लही ॥ ४ ॥
 वंदन करतो जावथी वली, चेतन डव्यना गुणकेवली ॥ घणे वीर्य उह्वासें
 जेह, चोथी क्रियानो म धर संदेह ॥ ५ ॥ निंदाकरे विजावज तणी, रा
 गादिक दुःख देता जणी ॥ लघुकर्मी तिणे निश्चे थाय, पंचमक्रियायें गु
 ण शोलाय ॥ ६ ॥ ध्यान धरंतो तेहनो धणी, थिर करी थापे बहुगुण
 जणी ॥ घातिकर्मनो ठेदक तेह, ठठी क्रिया धर संदेह ॥ ७ ॥ इमलघुता
 यें चिते घणुं, घणा मोक्ष गया हुं जमुं ॥ तो हुं हीणपणार्थी बहु, गुण
 सातमे ते इम संदहुं ॥ ८ ॥ एकलो मरे एकलो जन्मीजें, सखायकिणें
 नवी नीपजे ॥ सुखदुःख तेतो एकलो एह, सर्वथी अल्लगो आठमे तेह
 ॥ ९ ॥ रस समंता ते नवमो जाणी, सर्वजूतनिज जूत समाणी ॥ सरखा
 खजाव चतुर्गुणना कद्या, नवमे बोलेशिवपद लह्या ॥ १० ॥ एहवा जव जे
 धरे मुण्डि, कथनी कथी ए गणि मुण्डिचंद ॥ विनय करीने जणशे जेह,
 अविचल पदवी लेहशे मेह ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ द्वितीय संघाय प्रारंभः ॥

॥ जे देखुं ते तुज नही, नवि देखूं ते तूही ॥ इणजावे वरते सदा,
 संघले तुंहिंजतुंहिं ॥ १ ॥ जेणें तुजकुं पिठाणीयो, नवि जूवे पारकी द्वार ॥
 आपसजावमें ते रह्यो, नवि लीयें मनकी सार ॥ २ ॥ दोहा ॥ मनें जे
 आणी में लीयो, आतमगुणने सार ॥ मनकूं डूरे मूकीनें, शून्य न करे
 व्यापार ॥ ३ ॥ ताळी लागी आपकुं, परकुं देखत नांहिं ॥ आप सजा
 वमें जीलतो, जाणे सब वस्तु याही ॥ ४ ॥ एणीपरे ज्योति जगायकें,
 उद्योत जये सब ठोर ॥ अंतरंग प्रगटी कला, हुवे उरकी उर ॥ ५ ॥
 ढाल ॥ जीत्यो जीत्यो रे मोटो मोहराय के, दीठी दीठी रे लोकालोक
 आज के ॥ जाण्या जाण्या रे स्थूल सूक्ष्म काज के, पाम्या पाम्या रे आ
 तम गुणराज के ॥ ६ ॥ नामगोत्र उदयथी पूजे सुरराज के, वेदनी आठ
 थी विचरे महाराज के ॥ शैलेशीकरणे शिवराजके, जणे मण्डिचंद्र सिद्ध
 लां हवे काज के ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ तृतीय संघाय प्रारंभः ॥

॥ राग केदारो ॥ जेहने अनुजव आतम केरो रे, होवे ते धन्य धन्यरे ॥
 सारपणुं चित्तमें ते जावे, जेद अजेद जिन्नाजिन्न रे ॥ जे ॥ १ ॥ इत्य गुण

पञ्चव में खेले, परपरणितिथी न्यारो रे ॥ आप सजावमें आप खेले, केवल
नणा जस प्यारो रे ॥ जे० ॥ १ ॥ पुजल वस्तु देखीने न धसे, अनारात
काल न निरखे रे ॥ वर्तमानमां रहवे दूखा, अतीत काल नवि परखे रे
॥ जे० ॥ ३ ॥ बाह्य आतमातणां जे कारण, तेहने जाणी उवेखे रे ॥ सार
पणुं जगतमां देखे, अनंतचतुष्टय लेखे रे ॥ जे० ॥ ४ ॥ अंतर आतम
मांहे रहेतो, परमातमने ध्यातो रे ॥ जणे मणिचंद्र तेहने नमीयें, आप
सजावमें रातो रे ॥ जे० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ चतुर्थ सधाय प्रारंभः ॥

॥ राग केदारो ॥ आतम अनुभव जेहने होवे, चारचित्तनिज जाणे रे ॥
विहित जातायत सुश्लिष्ट, सुलीनतायें छय आणे रे ॥ आ० ॥ १ ॥
विहित ते अवसर चित्त जाणे, जातायत खेंची आणे रे ॥ प्रथम अच्यास
एणि परें होवे, किंचित् आणंद जाणे रे ॥ आ० ॥ २ ॥ सुश्लिष्ट ते वली
गाड्युं रहवे, सकाय ध्याननें योगें रे ॥ सुलीन ते निश्चल चित्त रहेवे, पर
मानंद उपयोगें रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ बाधि आतमा शरीरादिक जाणो, अंतर
आतमें करी ठांभो रे ॥ परमात्मा ते साक्षात् देखे, केवली सिद्ध पिठाणें
रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ परमातमनुं ध्यान करंतां, रसलोहें सुवन्न रे ॥ जणे
मणिचंद्र तेहने ध्याउं, जेनुं परमातममें मन्न रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ पंचम सधाय प्रारंभः ॥

॥ राग केदारो ॥ अनुभव सिद्ध आतम जे होवे, यमचतुष्टय जोवे रे
॥ इडा प्रवृत्ति स्थिरसिद्ध यममां, निज शक्तें चित्त जोडे रे ॥ अ० ॥ १ ॥
प्रथमयमें अहिंसादिक वारता, करतां सुणतां मीठी रे ॥ जाणे जिननी
आण आराधुं, बीजी वात अनिष्टी रे ॥ अ० ॥ २ ॥ बीजे खमे प्रवर्त्ते यो
गी, जिनआणा मांहे मागी रे ॥ यम पाखवानें तत्पर योगी, प्रमाददशा
तस जागी रे ॥ अ० ॥ ३ ॥ बीजे यममें यमी निरतिचारी, अप्रमत्त शुद्ध
रूपें रे ॥ परिसह परनां वैरी तेह पासैं, होवे ते शांतरसरूपें रे ॥ अ० ॥ ४ ॥
सिद्धयम ते चोथो कहियें, परार्थक साधक शुद्ध रे ॥ जणे मणिचंद्र
योगदृष्टि तंत्रें, वचन श्रीहरि बुद्ध रे ॥ अ० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ षष्ठ सधाय प्रारंभः ॥

॥ राग केदारो ॥ कोये किनहींकू काज न आवे, मूढ मोहें वेला ग

मावे रे ॥ शब्द रूप रस गंध फरसावे, शुजाशुजे सुखदुःख पावे रे ॥ को०
 ॥१॥ जडसजावमें चेतन मूंज्यो, यथास्थितजाव ते बूज्यो रे ॥ तेरी करत
 अलुंज्यो, शांतरसजाव न सूज्यो रे ॥ को० ॥ २ ॥ जडकी संगते जडता
 व्यापे, ज्ञानमार्ग रह्यो ढांकी रे ॥ योग करे ते आपे ए जाणे, हुं करतां
 कहे थाकी रे ॥ को० ॥ ३ ॥ अज्ञानी मिथ्यात्वी योगें, प्रकृति प्रदेश दल
 बांधे रे ॥ कषायरसस्थिति न उं किरतां, संसारस्थिति बहु बांधे रे ॥ को०
 ॥ ४ ॥ सर्व पदार्थथी हुं अलगो, ए बाजीगरकी बाजी रे ॥ उदयागति
 जावें ए निपजें, संसारावर्त्तन हुं को साजी रे ॥ को० ॥ ५ ॥ अंतर आत
 म ते नैर कहियें, त्यागजोग नवि इहे रे ॥ जणे मणिचंद्र यथास्थित जा
 वें, सुखदुःखादिकनें प्रीठे रे ॥ को० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ सप्तम सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ राग आशावरी ॥ चेतनां चेत तोकूं संजलावे, अनादि सरूप जणावे
 रे ॥ सुमतिकुमतिदोय नारी ताहरे, कुमति कहे तिम चाले रे ॥ चै० ॥१॥
 कुमति तणो परिकर ठे बहुलो, राति दिवस करे दुबलो रे ॥ विषयकषाय
 मां जीनो रहवे, नवि जाणे ते जोकुलो रे ॥ चे० ॥ २ ॥ सुमतिने मिलवा नवि
 दिये, तुजने मोहनी ठाक्यो रे ॥ जक्ष्याजक्ष्यतुजने करावे, अनंत कालतांश
 राख्यो रे ॥ चे० ॥ ३ ॥ अवसर पामी चेतना बोली, प्रभु सुमतिनें घर रा
 खो रे ॥ कुमतिने सुखमीठाइ देइ, सुमति तणा गुण चाखो रे ॥ चे० ॥ ४ ॥
 एणे अन्यासें देशव्रत आवे, अवसरें कुमतिने ठोडे रे ॥ सुमतितणुं बल
 वाध्युं जाणी, संयमस्त्री तव आणे रे ॥ चे० ॥ ५ ॥ सुमतिस्त्री परिवारे
 वाधे, तव मुक्तिस्त्री मेलावे रे ॥ आपस्वरूपें चेतन थावे, तव निर्जय स्या
 नक पावे रे ॥ चे० ॥ ६ ॥ आपसरूप यथास्थिति जावें, जोइनें चित्ते आणो रे
 ॥ सुमति कुमति ते पटंतर देखी, जणे मणिचंद्र गुण जाणोरे ॥ चे० ॥ ७ ॥

॥ अथ अष्टम सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ राग आशावरी ॥ चेतन चेतनमें धरी रागो, ज्ञान दरिसन सुख वीर्य
 गुणे लागो ॥ उर वात दीसे धंधा, एह संसारमें मांड्या फंदा ॥ चे० ॥
 १ ॥ चेतन बाह्यसर्ववस्तु ठांनो, अंतर आतममें स्थिर मांनो रे ॥ शुद्ध
 वस्तु परमात्म कामे, तेह उपाय अठे इण ठामें ॥ चे० ॥ २ ॥ आतम
 गुणनें चित्त निज घालो, तेहमांहे जो कण एक मालो ॥ ध्यान अग्निजल

पूरी जाले, कर्मरूपी तिहां काष्ठ प्रजाले ॥ चे० ॥ ३ ॥ राग द्वेष लोह
जस्मज थावे, शांत रसे सोवन्न गुण गावे ॥ निरालंबन मन थोत्ते सोये,
घातिकर्म तिहां रहे नवि कोये ॥ चे० ॥ ४ ॥ एणिविध असंख्य प्रदेश
द्रव्य जावे, प्रदेश प्रत्ये अनंत गुण थावे ॥ गुणे अगुरुलघु पञ्चव अनंत,
ज्ञणे मणिचंद्र होय एम जव अंत ॥ चे० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ नवम सद्वाय प्रारंभ ॥

॥ जगसरूप चेतना संजलावे, नरजव अधिर देखावे रे ॥ दश दृष्टांते
दोहिलो आवे, पुण्यपसार्थे ते जव पावे रे ॥ ज० ॥ १ ॥ आर्यक्षेत्र उत्तम
कुल आवे, योगइंद्रिय परवडां पावे रे ॥ सज्जुरु सामग्री मेल्यावे, तिहां अं
तराय काठिया नावे रे ॥ ज० ॥ २ ॥ सांजलवानी जे श्रद्धा आवे, अटपआ
उखे शुं थावे रे ॥ अधवचाले मरण जो पावे, खोटो मोह लगावे रे ॥ ज०
॥ ३ ॥ मेरो मेरो करे जे घेलो, सब खारथको मेलो रे ॥ उठि चलेगो हंस
एकेलो, विठड्यां मिलणो दोहिलो रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ को दुःख वांटी न लहे
कोइ, दुःख जोगवो तुम्हो जाइ रे ॥ मसाणतांइ पहाँचाडे लोगा, त्रुटी
जाण सगाइ रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ सब मिलि आपणो स्वारथ रोवे, पराङ्गति
कुण जोवे रे ॥ उठुं अधिकुं कहुं कर्तुं होवे, पूंठे कहीय वगोवे रे ॥ ज० ॥
६ ॥ पुण्यपाप सार्थे सखाई, तेणे एहवी गति पाइ रे ॥ तिहां जीव चूख्यो
जखे षट्काय, पण धर्मवात न सुहायी रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ धन रामाने कारणे
ध्यातो, आरंजे करी होय मातो रे ॥ जन्म गमाव्यो न जाणे जातो, फरे
कर्मे करी तातो रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ पंच कारण जो एकता पावे, कर्मराशि त्रुटी
जावे रे ॥ मुक्तियोग्य ते चेतन थावे, मणिचंद्र गुण आवे रे ॥ ज० ॥ ९ ॥

॥ अथ दशम सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ समकिती तेह यथास्थिति जावे, तेह मनपज्जव होये सजावे ॥ तेह
पज्जव जिण देखे जाणे, उदयवेला ते आवी टाणे ॥ स० ॥ १ ॥ बाऊ नि
मित्त घणी रीतें ज्ञासे, पण तथाविध कारण ठे पासे ॥ तेह देखी उदा
सी न रहेवे, कोइनो दोष तेहने नवि देवे ॥ स० ॥ २ ॥ हुंकरता मानी कर्म
बंधावे, तेह कर्म सत्तार्ये थावे ॥ उदय माफक बंध उदये आवे, तेह
विना कोइ उदीरणा पावे ॥ स० ॥ ३ ॥ निकाचना विण बंध खरी जावे,
निकाचना विण कोइ उदये आवे ॥ बंधवेलाये जेहवो रस होये, उदय

वेला तेहवो तिहां सोये ॥ स० ॥ ४ ॥ ड्रव्य क्षेत्र काल जब मिलि आवे,
तब विपाक ते पुरो आवे ॥ तिण कारणे समता आणो, जण्णे मणिचंद्र
यथास्थित जाणो ॥ स० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथैकादश सद्भाय प्रारंजः ॥

॥ राग रामघ्नी ॥ आत्मरामें रे मुनि रमे, चित्त विचारीने जोय रे ॥ ता
हरुं दीसे नवि कोय रे, सहु स्वारथ मढ्युं जोय रे, जन्म मरण करे लाय
रे, पूठें सध मिळि रोय रे ॥ आ० ॥ १ ॥ सजनवर्ग सवि कारिमो, कूडो कु
टुंब परिवार रे ॥ कोइ न करे तुळ सार रे, धर्मविण नहि कोइ आधार रे,
जिणें पामे जवपार रे ॥ आ० ॥ २ ॥ अनंत कळेवर मूकीयां, तें कियां स
गपण अनंत रे ॥ जव जेदें रे तुं जम्यो, तोहि न आव्यो तुळ अंत रे ॥
चेतो हृदयमांहे संत रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ जोग अनंता तें जोगव्या, देवमनु
अगतिमांहि रे ॥ लूति न पास्यो रे जीवडो, हजी तुळ वांग ठे त्यांहे रे,
आणो संतोष चित्तमांहे रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ ध्यान करो रे आतम तणुं, पर
वस्तुथी चित्त वारी रे ॥ अनादि संबंध तुळ को नाहिं, शुरू निश्चय एम
धारी रे ॥ इणविध निज चित्त ठारी रे, मणिचंद्रे आतम तारी रे ॥ आ० ॥ ५ ॥

॥ अथ द्वादश सद्भाय प्रारंजः ॥

॥ चेतन जब तूं ज्ञानविचारे, तब पौजलिकसंगति ठांके ॥ आपहि आ
प सजावमें आवे, परपरिणति दूरें गमावे ॥ चे० ॥ १ ॥ चेतन जब तुं ज्ञा
नथी न्यारो, तब पुजळ तुळ लागे प्यारो ॥ मोहनीकरमे तुळने मार्यो,
चेतन तें तो कहु न विचार्यो ॥ चे० ॥ २ ॥ मोहराजकी बहु राजधानी, ते
मांहि सूता जे अज्ञानी ॥ कर्मरायकी हुंभी लखाणी, नरक निगोदे जइ
शकराणी ॥ चे० ॥ ३ ॥ जब लगे आतमड्रव्य नवि बूजे, तब लग मिथ्या
मनके मुजे ॥ क्रियाकष्ट ते करे घणोरा, कर्म तणा नवि आवे ठेडा ॥ चे०
॥ ४ ॥ धर्म धर्म सहुको करी माने, धर्म मर्म तो विरला जाणे ॥ बाहिर
दृष्टि बाहिर ध्यावे, कारज सो कारण करीं जावे ॥ चे० ॥ ५ ॥ ज्ञानी ते
जो ज्ञान विचारे, कारज कारण दो नय धारे ॥ कारण ग्रही कार्यमां आवे,
तब सो ज्ञानी शिवपद पावे ॥ चे० ॥ ६ ॥ आपहि आप सजावमें
खेले, परपरिणीत सवि दूर मेळ्हे ॥ आरहंत जाषित धर्म आराधे, मुक्ति
मार्ग ते निश्चय लाधे ॥ चे० ॥ ७ ॥ तेह तणां कारण जे जोये, निश्चय

वत हृदयथी न ठाने ॥ ज्ञान दरिसन चारित्र आराधे, सेवकने सुख संपति वाधे ॥ चे० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ त्रयोदश सद्याय प्रारंभः ॥

॥ राग चैरव ॥ अण्विमास्युं करे कां मूढा, लोभ लागे वंठा ठे झूना ॥ माया करे तुज सहु कहे कूडा, माने विजय तुज नावे रूडा ॥ अ० ॥ १ ॥ क्रोधे करीने तपो कां जाई, अचंकारि परहाथे विकाई ॥ हास्य रति जय शोक निवारो, देवदुगंठा तुमें चित्तमांथी कारो ॥ अ० ॥ २ ॥ सिध्यामति तुज बहुत कमाई, ए महामोह सबहिं दुःखदायी ॥ चारचक्रं करी चक्रगति पाय, न्यायेरति मणु देव गति प्राय ॥ अ० ॥ ३ ॥ मोहमन्त्र अणुबंध खपावे, यथास्थिति जावे समदृष्टि आवे ॥ ते ज्ञानी जगमें सुख पावे, नवतणां दुःख सर्व गमावे ॥ अ० ॥ ४ ॥ अप्रत्यक्षान चक्रकठी जब आवे, तव सर्वसंयम चित्तें आवे ॥ संजल चक्रकनो कषाय जब जावे, तव वीतराग संयम ते कहावे ॥ अ० ॥ ५ ॥ खीण वीतराग नर होय जे कोई, दुःख दोहग तस नाशज होई ॥ नाण दंसण चरणविधन खपावे, केवलनाण दंसण तव पावे ॥ अ० ॥ ६ ॥ तथा जव्यत्व सामग्री आवे, शुरुस्वरूप उपररुचि कहावे ॥ उपाय करी कर्म खपावो रे जाई, जणे मणिचंद्र पामो ठकुराई ॥ अ० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ चतुर्दश सद्याय प्रारंभः ॥

॥ राग आशावरी ॥ चेतन जब तूमहिं आपें न्यारा ॥ परवस्तु उपर क्या धरे प्यारा ॥ जिणें करी बंधण होई जाई, हारी मूकी आपणी ठकुराई ॥ चे० ॥ १ ॥ माया करि पाशमां तुम पाड्या, मुखे मीठाई देई जमाड्या ॥ ठांमी निद्रा जब मोह केरी, तव जाणे सोये दुर्गति फेरी ॥ चे० ॥ २ ॥ आगम पढी आगमी नाम कीना, मानें चढी उपदेश बहु दीना ॥ खयोप शम विणु क्रिया बहु किन्ही, ताको फल सुरपदवी लीनी ॥ चे० ॥ ३ ॥ जबतां प्रमाददशा नवि जावे, तव तांइ तुम संसार जमावे ॥ मोह पिशाच तुह्य दुःख देखावे, अप्रमत्त जबके सूड हाथे आवे ॥ चे० ॥ ४ ॥ उदयागत वस्तु यथास्थिति जावो, बंध नीकाचनो नहिं कोई दावो ॥ जणे मणिचंद्र श्म कर्म खपाई, जिम पामो आपणी ठकुराई ॥ चे० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ पंचदश सद्याय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ जो चेतें तो चेतजे, जो बूजे तो बूज ॥ खानारा सहु खाई

जशे, माथे पडशे तूज ॥ १ ॥ आपसवारथ सह्युं, न करे तुज कोय
सार ॥ परमारथ जाण्यो नही, झूट्यो तुंहि गमार ॥ २ ॥ परमारथ जब
जाणीयो, चिहुंगति देखे पास ॥ पद्यव सवि दूर लेखवे, आपही रहे उ
दास ॥ ३ ॥ निराशपणे चितवे सदा, आपहि मग्नता होय ॥ मुहूर्त्त एक
रहे मन मग्नता, शांतिरस पावे सोय ॥ ४ ॥ कायावचन मन त्याग करी,
आपही ज्योति जगाय ॥ घातीकर्मकुं दय करी, केवललढी पाय ॥ ५ ॥
अनंत अतिशय तस हुवा, लोकालोक प्रकाश ॥ नव्य जीव तिम बूजवे,
पूरे शिवपुर वास ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ षोडश सध्याय प्रारंभः ॥

॥ राग केदारो गोडी ॥ शिवपुर वासतां सुख सुणो प्राणी, कहेतां पार
न आवे नाणी ॥ कोयक राय वनमांहे गयो झूटो, तृषाक्रांत पडियो ए
कीलो ॥ १ ॥ तव एक नील आव्यो राय पासें, पायुं नीर आणी उड्हा
सैं ॥ राय पल्लीपतिने तेडी घर आवे, तस इठायें सुख जोगवावे ॥ २ ॥
केतो काल तिहांकणे रहियो, निजथानक जावा गहगहियो ॥ पूढे कुटुंब
तुह्य सुख अवदात, तेह उपम देखाडो तात ॥ ३ ॥ तेह वनचर किसि
उपम कहावे, तिम सिद्धसुख नाणी कीशुं देखावे ॥ मण्चिचंद्र कहे निराश
धावे, शांतिरस पार किमे न आवे ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ अथ सप्तदश सातवारनी सध्याय प्रारंभः ॥

॥ आदि तुं जोजे रे आपणी, अनादि निगोदहमांहि ॥ अनंत चतु
ष्टय तिहां हुंता, हवडां ठतां ठे आंहि ॥ १ ॥ सोमतणी पेरें शियलो, शां
तिरसैं करी जाण ॥ तेणे उंमा गुण हशे, होशे केवल नाण ॥ २ ॥ मंगलें
मांगलिक करे, जिणसिद्ध साहू धर्म ॥ पापतिमिर दूरें जशे, पामीश तुं
शिव शर्म ॥ ३ ॥ बुद्धि बुध चळी करे, ठांमे जे पाप ॥ ज्ञान दरिसन चा
रित्र लहे, टालीश संताप ॥ ४ ॥ गुरुतणी संगति करे, पामीश तेणे नाण
॥ कर्म खपावी आपणां, प्होंचीश तुं निर्वाण ॥ ५ ॥ शुक्र राखे निज म
स्तकें, बल वीर्य तिणे होये ॥ संयम साधीश आपणो, कर्म दय तेणे होये
॥ ६ ॥ शनैः शनैः अज्यासथी, क्रोधादिकनो त्याग ॥ केवल नाण मले
सही, होशे शिवमाग ॥ ७ ॥ कलंक राहुने ठांमजे, मार्गशुद्ध ए जाणी ॥
डुष्टग्रह नवमो जशे, मण्चिचंद्र शुद्धवाणी ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथाष्टादश पन्नरतिथिनी सद्याय प्रारंजः ॥

॥ शुक्लपक्ष पडवेथी निश्चल, धर्मकला तस वाधे जी ॥ विविध विघन बीजे दुविध धर्म, यति श्रावकनो साधे जी ॥ १ ॥ त्रीजे त्रण तत्त्व आराधो, चारित्र दर्शन ज्ञान जी ॥ चोथे चीर ज्ञावना ज्ञावो, मैत्रादिक शुभ ध्यावोजी ॥ २ ॥ पंचमीयें नाण पंच पामे, पंचमगति पहुंचावे जी ॥ ठठि ये ठठी लेश्या आणे, ठक्काय रखावे जी ॥ ३ ॥ सप्तमीयें सप्त जय निवारी, सातेसुख उपजावे जी ॥ अष्टमीयें अष्ट कर्म निवारी, सिद्धना आठ गुण पावे जी ॥ ४ ॥ नवमीयें नव तत्त्व विचारी, नववाड ब्रह्मव्रत राखे जी ॥ दशमीयें दशविधसंयम पाली, दशरुचि समकित राखे जी ॥ ५ ॥ एकादशें एकादश अंगा, श्रावक एकादश पडिमा जी ॥ द्वादशमुं द्वादशमीयें, साधुनी द्वादश पडिमा जी ॥ ६ ॥ तेरशीयें तेर काठिया वारि, तेर क्रिया निवारे जी ॥ चउदशीयें चउद पूर्व आराधो, चउद राज पार उतारे जी ॥ ७ ॥ पन्नरशीयें योग पन्नर निवारी, संज्ञा पन्नर ठांसे जी ॥ कृष्णपक्षपडवेथी उठी कला, अमावास्यातांइ जाणोजी ॥ ८ ॥ शुक्लपक्षथी चढती कला, सही धर्मतणी वखाणी जी ॥ कृष्णपक्षानी पडती कला कही, मणिचंद्र एह वखाणी जी ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथैकोनविंशति सद्याय प्रारंजः ॥

॥ राग केदारो गोडी ॥ मिष्ठत्व कहीजे कुतत्त्व वाधानो, यथास्थिति ज्ञाव नावे ॥ आसना उठ्यपखविपर आश धरावे, अनंतानुबंधीयो हठ करावे ॥ १ ॥ गुणवंत जाण्यो तोहे द्वेष आवे, मुहूर्त्तथी मांडी जावजीव करावे ॥ अनंतानुबंधीयो क्रोध आवे, ज्ञानानुबंधी ते दुर्गति पावे ॥ २ ॥ गुणवंत प्रतिदेख्याथी हीणो, अवगुण आगस करी चूवे दीणो ॥ माने चढ्यो निज पराक्रम बोळे, दुर्गति तणुं बारणुं ते खोळे ॥ ३ ॥ धर्म थोडो करी बहु प्रकासे, आपे एम जाणे मेरो थश ज्ञासे, धर्म देखाडी उरो बहु लोक, अनंतानुबंधी माया करे फोक ॥ ४ ॥ परवस्तु अपनो करीने माने, नगमे रंगाये रह्यो निज ठाणे ॥ लोभसागर पुरो नवि थावे, तृष्णायें करी दुर्गति जावे ॥ ५ ॥ ए अनंतानुबंधी कह्या चारे, एकनी मुख्यतागुणता त्रण धारे ॥ नरकनिगोद पहुंचाडे जार्इ, हारीने जाये आपणी ठकुरार्इ ॥ ६ ॥ यथास्थितिचव उपर मन रंजे. गुण जाण्या पडे ते न गंजे ॥ धर्म माया

न करे पुण्य वंचे, जणे मण्णिचंद्र परवस्तु न संचे ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ विंशति सञ्चाय प्रारंभ ॥

॥ राग केदारो गोडी ॥ आजको लाहो लीजीये, कालकेणे दीठी ॥ जो जे आप सजावमे, जब वात अनीठी ॥ १ ॥ ढाण ढाण तुं मत चले, वि रह उपजावे ॥ आप सजावमें आवतां, बहु प्राप्तज थावे ॥ २ ॥ विचंठ जसाए, पुढळातीत तुं रंजे ॥ आपसजावमां अमीरसा, तेहने देखी तुं गंजे ॥ ३ ॥ सुपन जसी ए घातडी, राधावेधज साधो ॥ एकांते ते स्वाद न चाखवो, जंर सनेह न बांधो ॥ ४ ॥ अखोढो नाटक रमे, नाटक लय लागी ॥ आपसजावमां आवियो, लह्युं नाण सौजागी ॥ ५ ॥ सूचिवे अण देखवे, परोवाए दोरो ॥ राग द्वेषधारा विचें, वर्त्ते चेतन गोरो ॥ ६ ॥ सुहृत्तमात्रस्थिरतावशें, त्रूटे घातीयां कर्म ॥ तथा जव्यत्व कारण मिले, पाणियें शिवशर्म ॥ ७ ॥ ए अज्यास करतां थकां, स्थिरता जो वाधे ॥ मण्णिचंद्र छय द्यागी रहे, परभाणंद साधे ॥ इति ॥

॥ अथैकविंश सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ राग केदारो गोडी ॥ साधे ते यथास्थिति जाव, अप्रत्याख्यानीनो एह स्वजाव ॥ जाणे सर्वपद्यव ढोडावे, पणयोगे पच्चस्काण न थावे ॥ १ ॥ कांये ठांकुं कांये राखुं योग, एटसा विण नवि चाले जोग ॥ तेतो देशथी पच्चस्का ण थावे, प्रत्याख्यानीयो उद्वेष धती पावे ॥ २ ॥ संजल सर्व सावद्य योग ठांके, कर्मसंतो ते उदय वली मंके ॥ चारित्रयोगें करी मन पाहुं उसारे, हुं करता नही इम ते संजारे ॥ ३ ॥ उद्वयचारित्रियानो एह स्वजाव, तेने जाणे ज्ञानी विजाव ॥ समकितसहित चारित्र गुणएक, हेय उपादेय ठंके न वि वेक ॥ ४ ॥ जाणे आप सवे हुं थावे, शुजाशुज ठंकी सुख पावे ॥ आतम स्वजावमां मन लय द्यायो, सर्व सूकी मनें शूना थाउं ॥ ५ ॥ जो एहहुं चित्त चिंते थिरता पावे, तिणे अप्रमत्त दशा जीव थावे ॥ इम करतां उंच लय द्यावे, तो घातीयां वली कर्म खपावे ॥ ६ ॥ रूपक श्रेणी आवी जो हाथ, खमावीने हुउं सनाथ ॥ यथाख्यात संयम तव पावे, तेथी सा वद्य योगज पावे, केवली संजलण थावे ॥ ७ ॥ जब शैलेशीकरणें आवे, योग हुं ता ते सर्व रंधावे ॥ जणे मण्णिचंद्र सम श्रेणीसिद्ध पावे, तेथी अनंत सुख जीव थावे ॥ ८ ॥ इति ॥

ज्ञानविमलजीकृत शोलसुपननी सव्वाय. (१२३)

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजी कृत शोलसुपननी सव्वाय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ श्री गुरुपद प्रणमी करी, शोल सुपन सुविचार ॥ दुःसम स
मय तणा कहुं, शास्त्रतणे अनुसार ॥१॥ शारद बुधदायी ॥ ए देशी ॥ ढाल ॥
पाहलीपुर नयरे, चंद्रगुति राजान ॥ चाणायक नामें, बुद्धिनिधान प्रधान ॥
एकदिन सुखसेजें, सूतो रयण मजार ॥ तव देखे नरपति, सोल सुपन सुख
कार ॥ २ ॥ त्रुटक ॥ सुखकारक वरक दुःख केरां, निरखे नृप बडवखतें
॥ वाजीत्रतूरे उगतसूरें, आवी वेठो तखतें ॥ चाणायक नायक मति केरो,
आवी प्रणमे पाय ॥ सोल सुपन रयणांतरें लाध्यां, ते बोखे नरराय ॥ ३
॥ ढाल ॥ धुरि सुहणे देखे, सुरतरु जांगी माल ॥ बीजे आयमीयो, सू
रज बिंब अकाल ॥ त्रीजे चंद्रचाखणी, चोथे नाच्यां चूत ॥ पांचमे धार
फणालो, दीठो अहि अद्भुत ॥ ४ ॥ त्रुण ॥ अति अद्भुत विमान बड्युं, ति
म ठठे सुहणे देखे ॥ कमल उकरटे सातमे, आठमे आगियो अंधारें पेखें
॥ सुको सरोवर नवमे, दक्षिणपासे चरीयो नीर ॥ दशमे सुहणे सोवनथा
खे, कूतर खाये खीर ॥ ५ ॥ ढाल ॥ गज उपर चढिया, वानर देखे झ्यार ॥
मर्यादा छोपे, सागर सुपन ए बार ॥ मोटे रथ जुता, वाढडा तेरमे देखे ॥
जांखां तिम रयणां, चउदमे सुपने पेखे ॥ ६ ॥ त्रुण ॥ तिम देखे पनरमे
वृषजें, चढिया राजकुमार ॥ काला गज बेहुमांह मांहे, वढता सोल ए सा
र ॥ एहवां सोल सुपन जे लाध्यां, संचारे नृप जाम ॥ एहवे आवी दिये
वधाइ, वनपालक अचिराम ॥ ७ ॥ ढाल ॥ स्वामी तुह्य वनमां, श्रुतसागर
गुण खाणि ॥ जडवाहु मुनीसर, चौद पुरवधर जाणि ॥ आठ्या निसुणीने,
बंदन काजें जाय ॥ चाणायक साथें, नरपति प्रणमे पाय ॥ ८ ॥ त्रुण ॥
पाय नमीने नृपति पूठे, सोल सुपन सुविचार ॥ कृपा करी जगवन् मुज
दाखो, एह करो उपगार ॥ तव गिरुआ गणधर, बोढ्या नरपति आगें ॥
दुसम आरें सुपननो, होशे बहुखो छाख ॥ ९ ॥ ढाल ॥ सुरतरु केरी शा
खा जांगी, तेहनूं ए फलसार जी ॥ आज पढी कोय राजा जावे, नही
खिये संयम चार जी ॥ आयम्यो सूरज बिंब अकाले, ते आयम्युं केवल
नाण जी ॥ जातिसमरण निर्मल लंहीण, मण पक्कव नाण जी ॥
॥ १० ॥ त्रीजे चाखणी चंद्र थयो जे, जिनमत एणिपरे होशेजी ॥ थाप
उत्थाप करशे बहुला, कपटी कुगुरु विगोशे जी ॥ चूत नाच्या जे चूतखे

चोथे, ते कुयुरु कुदेव मनाशे जी ॥ दृष्टिराग व्यामोह्या श्रावक, तेहना
 ज्ञक्ता थारो जी ॥ ११ ॥ बारफणो विषधर जे दीठो, तेहनुं ए फल जाणो
 जी ॥ बार वरस दुर्जिह पडशे, होशे धर्मनी हाणी जी ॥ वड्युं विमान
 आवत जे पाहुं, ते चारण मुनि नवि होशे जी ॥ सातिचार आचारी थो
 डा, धर्म अधर्मे जाशे जी ॥ १२ ॥ कमल उकरडानुं फल एही, नीच उंच
 करी गणीयें जी ॥ कृत्रिय कुल शूरा तेहि पण, पेसासीते हणीयें जी ॥
 आगिया सुहणानुं फल जाणो, जिनधर्मे दृढ थोडा जी ॥ मिथ्याकरणी
 करता दीसे, श्रावक वांका थोडा जी ॥ १३ ॥ सूका सरोवर दक्षिण पासें,
 नीर जरीयुं सुविदास जी ॥ आप उगारण काजे मुनिवर, दक्षिण दिशमां
 जाशे जी ॥ जिहां जिहां जिनकल्याणिक तिहां तिहां, धर्म विभेद थारो
 जी ॥ संत असंत परे मनाशे, धर्मीजन सीदाशे जी ॥ १४ ॥ सोवनथाले
 खीर जखे जे, कूतर दसमे सुहणेजी ॥ उत्तमनी उपराजी लक्ष्मी, मध्यम
 बहुपरिमाणेजी ॥ गज उपर जे वानर चढीया, ते होशे मिथ्यात्वी राजाजी ॥
 जिनधर्मे वली संशय करता, मिथ्यामतमां ताजाजी ॥ १५ ॥ मर्यादा लो
 पे जे सागर, ते ठाकुर मुकशे न्याय जी ॥ जूठ साचा साचा जूठा, करशे
 लांच पसायजी ॥ जेह वडेरा न्याय चलावे, तेह करे अन्याय जी ॥ कूड
 कपट ठलठळ घणोरा, करता जूठ उपाय जी ॥ १६ ॥ मोटें रथे जे वाढडा
 जुत्या, तेरमे सुपने नरेशजी ॥ घडपणे संयम नही लीय कोये, लघुपणे
 कोयेक लेशे जी ॥ सूखें पीड्या दुःखे जीड्या, पण वैराग न धरशे जी ॥
 गुरवादिक मूकीने शिख्या, आपमति थइ फरशे जी ॥ १७ ॥ जांखां रत्न
 चौदमे दीठां, ते मुनिवर गुण हाणी जी ॥ आगम गत व्यवहारनें ठंकी,
 द्रव्यनी व्रतें लीणा जी ॥ कहणी रथणी एकन दीसे, होशेचित्त अनाचारे
 जी ॥ शुद्ध परंपर वृत्ति उवेखे, न वहे व्रतनो जार जी ॥ १८ ॥ राजकुमर
 जे वृषजे चढीया, ते मांहोमांहे नवि मलशेजी ॥ विरुआं वयर सगां संघा
 ते, परशुं नेह ते धरशेजी ॥ काला गज वेहु वढता दीठा, ते माग्या मेह न
 वरसे जी ॥ वणज व्यापारें कपट घणोरा, तोही पेट न जरशे जी ॥ १९ ॥
 सोखें सुपननो अर्थ सुणीने, जडवाहु गुरु पासें जी ॥ दुसम समय तणां
 फल निसुणी, राजा हिये विमासे जी ॥ समकित मूल वारवत लेवे, सारे
 आतमकाजजी ॥ जविक जीव बहुला प्रतिबोध्या, जडवाहु गुरुराज जी

॥ १० ॥ गुणरागी उपशमरस रंगो, विरतिप्रसंगी प्राणी जी ॥ साची स
दृहणाशुं धारे, समकित ए सहि नाणी जी ॥ निंदा न करे वदनें केहनी,
बोले अमृतवाणी जी ॥ अपरंपारजनजलधि तरेवा, शमता नाव समाणी
जी ॥ ११ ॥ श्रीजिनशासन चासन सुंदर, बोधिवीजसुखकारजी ॥ जीव
दया मनमांहे धारो, करुणारस जंडार जी ॥ ए सजाय जणी ने समजो,
हुसम समय विचार जी ॥ धीरविमल कविराज पसायें, कवि नयविमल
जयकार जी ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री उदयवीजयजी कृत उत्तराध्ययनषट्त्रिंश सद्यायोः प्रारंभ्यंते ॥

॥ तत्र प्रथम विनयाध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ श्रीनेमीसरजिनतणुं जी ॥ ए देशी ॥ पयवण देवी चित्तधरी जी, वि
नय वखाणीश सार ॥ जंबूने पूठे कह्यो जी, श्रीसोहम गणधार ॥ १ ॥
जविकजन विनय वहो सुखकार ॥ ए आंकणी ॥ पहिले अध्ययने कह्यो
जी, उत्तराध्ययन मजार ॥ सघला गुणमां मूलगो जी, जे जिनशासन
सार ॥ जवि० ॥ १ ॥ नाण विनयथो पामीयें जी, नाणें दरिसण शुद्ध ॥
चारित्र दरिसणथी हुवे जी, चारित्रथी पुण सिद्धि ॥ ज० ॥ ३ ॥ गुरुनी
आण सदा धरे जी, जाणे गुरुनो जाव ॥ विनयवत गुणरागीयो जी, ते मु
निसरल सजाव ॥ ज० ॥ ४ ॥ कणनुं कुंरु परहरी जी, विष्टाशु माने राग
॥ गुरुद्रोही ते जाणवा जी, सूअर ऊपम लाग ॥ ज० ॥ ५ ॥ कोह्या कान
नी कूतरी जी, ठाम न पामे र जेम ॥ शील हीण अकह्यागरा जी, आद
र न लहे तेम ॥ ज० ॥ ६ ॥ चंदतणी परें उजली डी, कीरति तेह लहंत
॥ विषयकषाय जीती करी जी, जे नर विनय वहंत ॥ ज० ॥ ७ ॥ वि
जयदेव गुरु पाटवि जी, श्रीविजयसिंह सूरिंद ॥ शिष्य उदयवाचक जणे
जी, विनय सयल सुखकंद ॥ ज० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ द्वितीय परिसह अध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ शांतिसुधारस कुंरुमां ॥ ए देशी ॥ सोहमसामि जंबूप्रतें, उपदेशे ध
र्म सुविचार रे ॥ उत्तराध्ययन वीजें कह्यो, परिसहतणो अधिकार रे ॥ १
॥ इंद्रियजय तुम्हें आदरो ॥ ए आंकणी ॥ जिम लहो सुख संसार रे ॥
अनुक्रमे नाण किरिया थकी, शाश्वतां सुख लहो सार रे ॥ इं० ॥ २ ॥ खुह
तृषा सीत नें तावडो, रुंस अचेद तिम होय रे ॥ अरतिरति नारि चर्या वली,

पुण्य कीजिये, जेहथी सुख थाये रे ॥ नवि नवि संपद अजिनवी, वली
सुजश गवाये रे ॥ शु० ॥ ६ ॥ विजयदेव गुरु पाटवी, विजयसिंह मुणिं
दो रे ॥ शिष्यनदय कहे पुण्यथी, होइ परम आणंदो रे ॥ शु० ॥ ७ ॥ इति

॥ अथ पंचम अकामाध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ सकल मनोरथ पूरवे ॥ ए देशी ॥ पंचम अध्ययने कहे ए, पंचम गण
धर नियजीए सद्दहै ए, जंबुस्वामी ते सही ए ॥ १ ॥ मरण सकाम अका
म ए, मूरखमरण अकाम ए, सकाम ए, बीज उजाण पणाथकी ए ॥ २ ॥
प्रथम अनंती वार ए, जीव लहै निरधार ए, सार ए, वीजुं पुण्य कोइक
लहे ए ॥ ३ ॥ इह परलोक न सद्दहै, जे जावै ते सुखी कहे, नवि रहे, तत्त्व
तणी मन वासना ए ॥ ४ ॥ पंचै आश्रव आदरे, त्रिविध परें माया करै, नवि
तरै, ते अज्ञानी जीवडो ए ॥ ५ ॥ सान्नायिक पोसह धरे, साधु तणा गुण
अनुसरे, निस्तरे, ते प्राणी नाणी सही ए ॥ ६ ॥ गुण अबगुण झम जाणी
ए, गुण धरी एगुण खाणी ए, वाणी ए, विजयसिंह गुरु शिष्यनी ॥ ७ ॥ इति

॥ अथ षष्ठ ग्रथियाध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल ॥ मधुविंदुअनो ॥ ए देशी ॥ संसारें रे जीव अनंत जवे करी,
रे बहुला रे संबंध चिहु गति फरी फरी ॥ नवि राखेरे काय न तव नि
निर धरी, सगार्इ रे कहोकिण परें कहीयें खरी ॥ १ ॥ नुटक ॥ कहो खरी
॥ २ ॥ पर एह सगार्इ, कारिमो संबंध ए ॥ सवि मृषा मात पिता बहेनी,
ननेह प्रबंध ए ॥ घरे तरुण गृहिणी रंगे परणी, त्राण कारण ते नही ॥
रंगे कणग मोतिअ धन्न धण कण, संपदा सवि संग्रही ॥ ३ ॥ ढाल ॥ ए
॥ ४ ॥ रे जंगम पातक दोइ कहां, जेह करतां रे चउगइ दुःख जीवें सद्द
तं ॥ तेह टालो रे पातक दूरें जवियणां, जिम पामो रे इहपर जवसुख अ
ते घणां ॥ ५ ॥ अतिघणां सुख तुम्हें लहो जवियण, जैनधर्म करी खरो ॥
रदार परधन परहरी तिणे, जैनधर्म समाचरो ॥ जे मदे माचे रूपे राचे,
धर्म साचे नवि रमे ॥ अंजलिजख परेंजन्म जातो, मूढ ते फल विण गमे
॥ ६ ॥ ढाल ॥ अध्ययने रे ठठें श्रीजिनवर कहे, शुजदृष्टि रे तेह जली परे स
द्दहे ॥ ते सद्दही रे तपनियमादिक आदरे, आदरतो रे केवललढी पण
वरे ॥ ७ ॥ शु० ॥ लढी वरे जिनधर्म करतो, हंलुअकभीं जे हुवे ॥ पंचमो
गणधर स्वामी जंबू, पूठीयो इणि परें कहे ॥ श्रीविजय देवसूरिंद पटधर,

विजय सिंह मुनीसरु, तस शिष्य वाचक उदय इण्णिपरें, उपदिशे जत्रि
हित करु ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ सप्तम एडकाध्ययन सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ अज जिम कोइक पोषे आंगण, प्राहुण्डाने हेते रे ॥ ते अजजव मन गम
ता चरतो, तास विपाक न चेते रे ॥ १ ॥ श्रीजिनवीर, इणीपरें जंपे ॥ ए आंक
णी ॥ विषयविकार म राचो रे ॥ तप जप सयम किरियानो खप, कीजें जे जग
साचो रे ॥ श्री० ॥ ११ ॥ मद्य मांस आहार करंतो, विषयविकार उमाह्यो रे ॥
नरकतणुं ते आउखुं बांधे, अजपरिकरमे वाह्यो रे ॥ श्री० ॥ १३ ॥ कोडी लोत्ते
सहस गमावे, मंदमति जिम कोइ रे ॥ अंबतणां फलकारण ठांनिये, रा
ज्यरुद्धि घरी सोइ रे ॥ श्री० ॥ १४ ॥ तिम नरजव सुखकारणी ठांने, अमर
तणां सुख जोग रे ॥ तिम वली मोहकतणां सुख मोटां, किम पामे जड लो
क रे ॥ श्री० ॥ १५ ॥ एण्णिपरें मूढपणुं परहरीयें, पंक्ति गुण आदरीयें रे ॥
विजयसिंह गुरुशिष्य कहे इम, उदय सदा सुख वरीयें ॥ श्री० ॥ १६ ॥ इति

॥ अथाष्टम कपिलाध्ययन सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ रुक्मिणी अंगज जनमीयो ॥ ए देशी ॥ केवलनाण गुण पूरीयो, चोर
पांचशें हेत रे ॥ सुधन कपिलो मुनि उपदिसे, सुणो सुगुण सचित्त रे ॥ १
॥ विषम ए विषयरस परिहरो ॥ ए आंकणी ॥ धरो धैर्य मनमांहि रे ॥
कायर नवि ठांमी शके, त्यजे सुर उछाहि रे ॥ वि० ॥ ११ ॥ एह संसार जल
निधि समो, कह्यो ते दुःख जंमार रे ॥ वाहाण सरिस एकज साहु, तिहां
धर्म आधार रे ॥ वि० ॥ १३ ॥ जेह मन वचन काया करी, जयणा करे सार
रे ॥ तेह सघलां दुःख परहरी, लहे सुख श्रीकार रे ॥ वि० ॥ ४ ॥ लाज
जिम जिम हुवे अति घणो, तिम तिम लोच वाधंत रे ॥ दोइ मासा धन
कारणे, नवि कोडि सरंत रे ॥ वि० ॥ ५ ॥ पंचसय एम प्रतिवोध्या, रुषि
राय उपदेश रे ॥ आठमा एह अध्ययननो, कह्यो अर्थ लवलेश रे ॥ वि०
॥ ६ ॥ विजयदेवगुरु पाटवी, विजयसिंह सूरिंद रे ॥ शिष्य तस वाचक
इम जणे, उदयविजय सुखकंद रे ॥ वि० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ नवम नमिराय अध्ययन सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ सुहवि सुहागण सुंदरी सारी ॥ ए देशी ॥ देवतणी रुद्धि जोगवी आ
व्यो, मिथिलानयरी नरिंदो ॥ नमि नामिजें इंडे परखी, जाण्यो गुरु मु

पिंदो रे ॥ त्रिका एहवा मुनिवर वंदो ॥ सुखसंपति निज हाथे करिनें,
जिम चिरकाले नंदो रे ॥ ज० ॥ ए० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ चारित्र लेई मि
थिला नाथो, संवेगरसमां जीनो, नमिराय रुपि पंथे चाखे, राग न रोप
अदीनो रे ॥ ज० ॥ १॥ तास परी द्वाहेते सुरपति, वांजणवेशें आवे ॥ मि
थिला अग्निजलती देखाडे, सुरपति पूठे जावे रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ निजनगरी
जलती कां मूकी, तिम वली आथि अनेरी ॥ मुनि कहे माहरुं कांइ न
विणसे, केहनी रुद्रि जखेरी रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ इंद्रजणे नगरी समरावी,
अरियण सवि वश कीजें ॥ अनुक्रमें संयममारग खेइ, अविचल सुखपद
कीजें रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ मुनि बोले जे अविचल मगरी, तस मंजाण करेशुं ॥
अथिरतणो प्रतिबंध ते ठांकी, थिरशुं प्रीति धरेशुं रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ कोडि
कटक जीते जे तेहथी, मन जीते ते शूरो ॥ एम प्रशंसी हरि सुरलोके, प
होतो पुण्यें पूरो रे ॥ ज० ॥ ९ ॥ अविचल सुख पाम्यो मुनिराजा, नवमे अध्य
यने ॥ वात कही कहे उदयविजय इम, विजयसिंह गुरुवचनें रे ॥ ज० ॥ १० ॥

॥ अथ दशम डुमपत्राध्ययन सद्याय प्रारंजः ॥

॥ प्राणिया परतांत नवि कीजें ॥ ए देशी ॥ पंरुरपान थये परिपाके, तरुथी
पडे कोइ काले रे ॥ तिम धन जोवन जीवित पण तुं, गौतमनाणे नियाखे रे
॥ १ ॥ गौतमने श्रीवीर पयपे ॥ ए आंकणी ॥ म करे सय प्रमाद रे ॥ तेम
इह परजव सुख पामीजे, टाळीजे विषवाद रे ॥ गौ० ॥ १ ॥ राजतणी अ
णीयें जलकणिका, जिम हुवे अथिर सजाव रे ॥ तिम नरनां आउखां जा
णो, धर्म सदा थिर जाव रे ॥ गौ० ॥ ३ ॥ षटकायामां हि काल अनंतो, जमी
यो दुःख सहंत रे ॥ वली जरा वलि केश पंरुरा, इंद्रिय शक्ति न हुंती रे ॥
गौ० ॥ ४ ॥ तेहवा मांहे जिनवर नवि दीसें, पंचमकाले चरते रे ॥ मतमति नव
नवी वाणी दीसे, धर्म ते कहो किहां वरते रे ॥ गौ० ॥ ५ ॥ जिनवाणी निसु
णी इम गौतम, अनुक्रमे केवलनाणी रे ॥ दशमे अध्ययनें इम जांखे, वीरजि
नेसर वाणी रे ॥ गौ० ॥ ६ ॥ विजयदेवगुरु पट्ट प्राजाविक, विजयसिंह गुरु शि
ष्यो रे ॥ वाचक उदयविजय इम बोले, पुण्य पद्दोचे जगीशो रे ॥ गौ० ॥ ७ ॥

॥ अथ एकादश बहुश्रुताध्ययन सद्याय प्रारंजः ॥

॥ सहगुरु जोवे वाटडी ॥ ए देशी ॥ वीर जिणंदनी देशना, आगमगुण
देखी ॥ जे बहुसुअ ते वरणव्यो, अविनीत उवेखी ॥ वी० ॥ १ ॥ जे जे

जाँव वेखाणीया, जावो ते जवि लोको ॥ जिम इह जव परजव हुवे, तुम
सुख संयोगो ॥ वी० ॥ १ ॥ जे बहुश्रुत मुनिवर हुवे, तेहने उपमान ॥ सुर
तरु सायर शशी रवि, मज रथ बहुमान ॥ वी० ॥ ३ ॥ अधचक्री चक्री हरि,
धनकोशसिंह ॥ सीता नदी मंदिर गिरि, जंबू तरुलीह ॥ वी० ॥ ४ ॥ इत्या
दिक उपम घणी, बहुसुअ अणगार ॥ अध्ययनें अग्यारमे, सह ए अधि
कार ॥ वी० ॥ ५ ॥ विजयदेव गुरुपाटवी, विजयसिंह सूरिंद ॥ शिष्यनदय
कहे सुअधरा, प्रतपो डुचंद ॥ वी० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ द्वादश हरिकेशी अध्ययन सद्यय प्रारंभः ॥

॥ जगवह्वजगुरुजी, तूं वसीयो मोरे मझ ॥ ए देशी ॥ ऋषि वनवासी सुर
वरसेवित, पाले पंच आचारा ॥ पंचे निजइंद्रिय वश करतो, तपसी उग्रविहार
॥ १ ॥ मातंग मुनीश्वरा ॥ ए आंकणी ॥ हरिकेशी धनधन्य ॥ सूधो मुनिवर जे
कहायो, किरियागुण संपन्न ॥ मातंगण ॥ १ ॥ मास तणो तपसी हरिकेशी, ति
डुःख जखनी ठाणी ॥ मल्लशोजित तनु रखो संवेगी, निर्मल काउस्सग
जाणी ॥ माण ॥ ३ ॥ राजसुता जडा तिहां आवी, यदनं नमवा काम ॥ जम
तीमांहे मुनिवर देखी. मुह मधकोडे ताम ॥ माण ॥ ४ ॥ ते देखी सुरवर
तव कोप्यो, कन्या कीधी डुष्ट ॥ त्रोडे हारनें मोडे तनु सा, प्रलपे चूता
विष्ट ॥ माण ॥ ५ ॥ ते निसुणी राजा तिहां आव्यो, करी उपचार अने
क ॥ बोलाव्यो सुर कहे सुता जो, परणे मुनि सविवेक ॥ माण ॥ ६ ॥
तो साजी ततक्षण ए थाये, ते निसुणी कन्या तेह ॥ राजायें मुनिनें पर
णावी, मूकी जखने गेह ॥ माण ॥ ७ ॥ राते मुनि अविचल तेणें दीठो,
आवी प्रजातें गेह ॥ ऋषि निरखीनें योग्य कही इम, जाणी पुरोहित
तेह ॥ माण ॥ ८ ॥ मांके जाग पुरोहित एकदिन, विप्र मल्या लख कोडि ॥
मास खमण पारणे तिहां मुनिवर, आव्यो मनने कोड ॥ माण ॥ ९ ॥
आरंभी अविवेकी बांजण, न लहे धर्मविचार ॥ मुनि देखी कहे कृण तूं
दीसे, जा अंत्यज अवतार ॥ माण ॥ १० ॥ यद्वा तदा मुनिमुखथी बोले,
यागनुं फल तुम्ह एह ॥ शुरुपात्र गोचरीयें पहोतो, हूं तुम्ह वारणि जे
ह ॥ माण ॥ ११ ॥ रोपें बांजण सुत तव मुनिनें, करवा यष्टिप्रहार ॥ उव्या
तव ते जहें कीधा, रुधिर वमंत कुमार ॥ माण ॥ १२ ॥ पाय लागी मुनि
ने ते खामे, पुरोहित सुत अपराध ॥ प्रतिलाज्जी प्रतिबोध लहो तिणे,

बालकने थड़े समाधि ॥ मा० ॥ १३ ॥ मुक्तिमुनि पढोतो जय वरल्या, ए
अधिकार अशेष ॥ अध्ययने बारमें वखाण्यो, श्रीमहावीर जिणेश ॥ मा०
॥ १४ ॥ विजयदेव गुरुपाट प्राजाविक, श्रीविजयसिंह सूरिराय ॥ तेह
तणो बालक इम बोले, उदयविजय उवजाय ॥ मा० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ त्रयोदश चित्रसंज्ञति अध्ययन सहाय प्रारंभः ॥

॥ सकल मनोरथ पूरवे ॥ ए देशी ॥ चित्र अने संज्ञूत ए, गजपुरमां
विहरंत ए, महंत ए, दोइ मातंग मुनीश्वरा ए ॥ १ ॥ एकदिन तेहने
बंदे ए, चक्रीनियम निठंद ए, आणंदे ए, पटराणी पण वंदती ए ॥ २ ॥
नारी रयण ते दीठी ए, काम अग्नि अंगीठी ए, पईठी ए, मनमां ते सं
ज्ञूतनें ए ॥ ३ ॥ चक्रतणुं नियाण ए, करे ते अजाण ए, जाणए, चित्रे वा
यो नवि रहे ए ॥ ४ ॥ चित्र नियाणां त्रिणशुरू ए, संज्ञूतो मुनि अत्रिशु
रूए, सुरक्रुडि ए, जवि बीजे दोइ पामीया ए ॥ ५ ॥ त्रीजे जवि मुनि
संज्ञूत ए, चक्री थयो नरपुर हुंत ए, धन्यपूत ए, चित्र पुरिमतावे थयो
ए ॥ ६ ॥ सुविहिताने ते अनुसरे ए, अनुक्रमे संयम आदरे ए, विचरे ए,
एकदिन ते कंपिलपुरे ए ॥ ७ ॥ पुरकंपिलें दोइ जणा ए, यथा एकठा व
हुगुणा ए, अति घणा ए, चक्री कहे सुख जोगवो ए ॥ ८ ॥ चित्र कहे
लीजें दीख ए, ते न लहे चक्री शीख ए, सुपरिख ए, कर्मतणी जग एह
वी ए ॥ ९ ॥ चक्री अपैठांण ए, मुनि निज पुण्य प्रमाण ए, जाण ए, उ
त्तम पदवी पामीयो ए ॥ १० ॥ विजयदेव पटधारक ए, विजयसिंह प्राजा
विक ए, वाचक उदय ए, कहे गुण मुनितणा ए ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ चतुर्दश इक्षुकार कमलाध्ययन सहाय प्रारंभः ॥

॥ देवतणी रे वाणी सुणी रे ॥ ए देशी ॥ देवतणी क्रुडि जोगवी रे,
पुर इक्षुकार मजार ॥ मोरा लाल रे ॥ जृगु पुरोहित कुल आविया रे, सुर
दोइ शुभ तिथिवार ॥ मोरा० ॥ १ ॥ ते मुनि बालक वंदीयें रे ॥ २ ॥ आंकणी
॥ मातपितानी साथ ॥ मो० ॥ दिख्क बेइ थया केवली रे, वली राणी न
र नाथ ॥ मो० ॥ ते० ॥ ३ ॥ मावित्रे बीहावीया रे, ऋषि देखीता संत ॥
॥ मो० ॥ एकदिन ऋषि तेणे दीठडा रे, तरुतबे आहार करंत ॥ मो० ॥
॥ ते० ॥ ४ ॥ जातिस्मरण जाणीयुं रे, पूरवजव विरतंत ॥ मो० ॥ मात
पिताने बूजवी रे, चारित्र तेह लहंत ॥ मो० ॥ ते० ॥ ५ ॥ मातपिता

दीक्षा लीये रे, तिम वली राणी राय ॥ मो० ॥ ए खटजण थया केवळी
रे, पद्दोता शिवपुर मांय ॥ मो० ॥ ते० ॥ ५ ॥ विजयदेवगुरु पाटवीरे,
श्रीविजयसिंह मुनिराय ॥ मो० ॥ तेह तणो शिष्य उपदिशे रे, उदयवि
जय उवजाय ॥ मो० ॥ ते० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ पंचदश त्रिखुकाराध्ययन सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ रुक्मिणी रूप रंगिली नारी ॥ ए देशी ॥ तप करतां मुनिराजीया
लाला, न करे जोग नियाण ॥ मुनि मारग सुधो धरे लाला, ते बोढ्या
गुण खाणी ॥ मुनीश्वर तो त्रिखु गुण शुरू ॥ पन्नरमा अध्ययनमां ला
ला, इम चांखे संबुद्ध ॥ मु० ॥ १ ॥ मंत्र तंत्र नवि केलवे लाला, तस न
राग न रोष ॥ शूरा परिसह जीतवा लाला, चारित्रना नहि दोष ॥ मु०
॥ ते० ॥ २ ॥ परिचय नही गृहस्थनो लाला, अरसविरस आहार ॥
पूजादिक वांठे नही लाला, साचा ते अणगार ॥ मु० ॥ ते० ॥ ३ ॥ इणपरि
मुनिगुण सांजली लाला, परखी किरिया नाण ॥ साधुपंथ तुम्हे आदरो
लाला, त्रण तत्त्वना जाण ॥ मु० ॥ ते० ॥ ४ ॥ विजयदेव गुरु पाटवी
लाला, विजयसिंह गुरु लीह ॥ शिष्यउदय कहे एहवा लाला, मुनि प्रत
पोनिशिदीह ॥ मु० ॥ ते० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ सप्तदश पापश्रमणाध्ययन सध्याय प्रारंभः ॥

॥ आदि तुं जोनें जीवडा ॥ ए देशी ॥ श्रीजिनधर्म सुणो खरो, लही दीक्षा सार ॥ नियठंदे जे संचरे, ते पुरुष गमार ॥ १ ॥ वीरजिनेसर उप दिशे ॥ ए आंकणी ॥ पाप श्रमण जे तेह ॥ सत्तरमा अध्ययनमां, मुनि जां ख्यो जेह ॥ वी० ॥ १ ॥ ज्ञानदायक निज गुरु तणो, खोपक जे साघ ॥ पंच प्र माद वशें पड्यो, चारित्र न समाधि ॥ वी० ॥ ३ ॥ कंठ लगें जोजन जळुं, करी सूवे जेह ॥ रात दिवस विकथा करे, गुणनी नहिं रेह ॥ वी० ॥ ४ ॥ जव बेहू चूकी करी, करे काय कलेश ॥ विषमिश्र तेहने परहरी, धरो सुगुण विशेष ॥ वी० ॥ ५ ॥ विजयदेव गुरु पाटवी, विजयसिंह सूरीश ॥ शिष्य उदय कहे पुण्यथी, पहाँचे सुजगीश ॥ वी० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथाष्टादश संयतिराजाध्ययन सध्याय प्रारंभः ॥

॥ लौकिक वाडानो ॥ ए देशी ॥ कंपिलपुरनो राजीयो, जग गाजियो रे संजय नरराय के ॥ पाय नमे नर जेहना रे, पहाँचे जडवाय के ॥ १ ॥ धन धन संजय नरवरु ॥ ए आंकणी ॥ जगसुरतरु रे शासन बनमांहि के ॥ वांह ग्रही जवकूपथी, दुःखरूपथी रे जिनधर्म समाहि के ॥ ध० ॥ १ ॥ एकदिन केशरी काननें, रस वाहो रे जाये मृगया हेत के ॥ त्रास पमाडे जंतुने, एक मृगलो रे दुहव्यो तिण खेत के ॥ ध० ॥ ३ ॥ तीरपीडार्थें तडफड्यो, पड्यो हरणलो रे मुनिवरनी पास के ॥ ते देखी चिंता करे, राय खामतो रे मुनि तेजे त्रास के ॥ ध० ॥ ४ ॥ राय कहे मुनिरायने, हुं तो तुम्ह तणो रे अपराधी एह के ॥ राख राख जगबंधु तुं, मुज जांखो रे जिन धर्म सरेह के ॥ ध० ॥ ५ ॥ ध्यान पारी मुनिवर जणे, राय कां हणे रे हरि णादिक जीव के ॥ निरपराधी जे बापडा, पाउंता रे दुःखीया बहु रीव के ॥ ध० ॥ ६ ॥ हय गय रथ पायक वली, धन कामिनी रे कारिमुं सवि जाण के ॥ धर्मज एक साचो अठे, एम निसुणी रे तेह संजय राण के ॥ ध० ॥ ७ ॥ गर्दजाली पासें लीये, जिनदीक्षा रे संसारी सार के ॥ गुरु आदेशें अनुक्रमें, पुहवीतले रे करे उग्रविहार के ॥ ध० ॥ ८ ॥ मार्गें एक मुनिवर मळ्यो, तेह साथें रे करे धर्मविचार के ॥ जिनदीक्षा पामी तख्यो, जरतेसर रे चक्री सनतकुमार के ॥ ध० ॥ ९ ॥ सगर मधव संतीअरो, कुंथू पन्न अने हरिषेण नरिंद के ॥ जयचक्री नगइ नमी, करकंभू रे दो

मुह सुणिचंद के ॥ ध० ॥ १० ॥ महबल राय उदायणो, वली राजा रे द
शारणचंद्र के ॥ नाण क्रिग पोते करि, एतो तरीया रे संसार समुद्र के
॥ ध० ॥ ११ ॥ विजय जयदेव सूरीश्वरू, पट्टोश्वर रे विजयसिंह गुणखाण
के ॥ उदयविजय कहे ए कह्यो, अध्ययने रे अठारमे जाण के ॥ ध० ॥ १२ ॥

॥ अथ एकोनविंश मृगापुत्राध्ययन सद्यय प्रारंभः ॥

॥ शारद बुधदायी सेवक ॥ ए देशी ॥ ढाल ॥ सुग्रीव नयर वर, वन
वाडी आराम ॥ बलचंद्र नरेश्वर, राज करे गुणधाम ॥ इंद्राणी सरखी, रा
णी मृगा अजिराम ॥ मकरध्वज सुंदर, कुंअर बलश्री नाम ॥ १ ॥ त्रु० ॥
बलश्री नाम कुंवर अति सुंदर, जीत्यो कामविकार ॥ संयम लेइ कर्म ख
पेइ पाम्यो नवजल पार ॥ लंगणीशमे अध्ययने जिनवर, वीर दीये उप
देश ॥ जणतां गुणतां नवचवना, नासे पाप कलेश ॥ २ ॥ ढाल ॥ एकदि
न वरमंदिर, अंतैउर परिवार ॥ परवरियो पेखे, नयर मजार कुमार ॥ दी
गो तव मुनिवर इर्याये नलपंत ॥ तस ऊहापोहे, जातिसमरण हुंत ॥ ३
॥ त्रु० ॥ जातिसमरण पामी देखे, पूरव नव संबंध ॥ पंचमहाव्रत सांजरे
वली, चलगइ दुःख प्रबंध ॥ मात पिता आगल जइ बोले, दुःख अनंती
वार ॥ जे जे में पाम्यां ते कहेतां, किमही न आवे पार ॥ ४ ॥ ढाल ॥ सं
सार असार ए, दीसे मलजंकार ॥ संबल विण वाटें, जातां दुःखदातार
॥ बहुजनम मरण नय, नरथतिरिय दुःख गण ॥ तिहां बलता घरथी,
सार ग्रहे ते जाण ॥ ५ ॥ त्रु० ॥ सार ग्रहे ते जाण विचारी, आपणपुं तार
शुं ॥ द्यो प्रभु तुम्ह आदेश अम्हे, हवे संयमगुण धारशुं ॥ शीत ताप
रुह तृषा, अनंती दुःख संबलि रूख ॥ पूतली अग्नि वर्ण आलिंगी,
दीठां नरके दुःख ॥ ६ ॥ ढाल ॥ दुःखथी निकलना, मृगापुत्र नरसिंह
॥ मात्रिअ आदेशे, दीस्क लहे मुनि लीह ॥ अनुक्रमें ते मुनिवर, शिव
पुर राज्य लहंत ॥ जिहां नाणदंसण वली, परमाणंद अनंत ॥ ७ ॥ त्रु० ॥
परमाणंद अनंत ते लहीये, साधुतणा गुण धरता ॥ श्री जिनशासन उत्तम
पामी, सूधी किरिया करता ॥ किरियानो ते आगर गणधर, विजयदेव
पटधर ॥ विजयसिंह गुरराज विराजे, शिष्य उदय जयकार ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ विंशतितम अनाथीराय अध्ययन सद्यय प्रारंभः ॥

॥ जोतां रे जतां रे कानन सघलुं ॥ ए देशी ॥ मगधदेश राजगृही

नगरी, राजा श्रेणिक दीपे रे ॥ चतुरंग सेनायें परवरियो, तेजें दिणयर
 जीपे रे ॥१॥ धन धन श्रीऋषिराज अनाथी ॥ ए आंकणी ॥ रूपे देवकुमार
 रे ॥ संवेग रंग तरंगें जीले, यौवनवय अणगार रे ॥ ध० ॥ १ ॥ एक दिन कानन
 पहेतो श्रेणिक, बंधा श्रीऋषिराय रे ॥ लघुवय देखी हरखें पूठे, प्रचु
 तुम्ह कोमल काय रे ॥ ध० ॥ ३ ॥ आ तुम्ह रूप अनोपम यौवन,
 तरुणीजन आधार रे ॥ इति अवसर नारीरस लीजें, बडपण संयमचार रे
 ॥ ध० ॥ ४ ॥ ध्यान पूरि तव मुनिवर बोले, राजन हुं तुं अनाथ रे ॥ नाथ
 विना संयम में लीधुं, नृप कहे हुं तुम्ह नाथ रे ॥ ध० ॥ ५ ॥ जोईये ते
 तुम्हनें हुं पूरुं, द्यो तुम्हें ए बहु आथ रे ॥ मुनि कहे राजन् नाथ न ता
 हरे, किम आइश मुज नाथ रे ॥ ध० ॥ ६ ॥ राय कहे हय गय रथ पाय
 क, मणि माणक जंकार रे ॥ माहरे ठे हुं नाथ सहूनो, तव बोले अणगार
 रे ॥ ध० ॥ ७ ॥ कोसंबी नयरीनो राजा, मजु पिता गुणवंत रे ॥ तास कु
 अर हुं अति थणुं बल्लज, लहु वय लीलावत रे ॥ ध० ॥ ८ ॥ एक दिन
 मुज अंगें थई वेदना, न टले कोइ उपायें रे ॥ मात पिता माहरे दुःखें
 दुःखियां, नारी हैयडुं जराय रे ॥ ध० ॥ ९ ॥ बहुल विलाप कस्या तेणी
 ये, मुज दुःख नवि लेवाय रे ॥ तव में निर्णय एहवो कीथो, धर्मज एक
 सहाय रे ॥ ध० ॥ १० ॥ इम चिंतवतां वेदन नाठी, प्रात संयम में लीधो
 रे ॥ नाथ अनाथ तणो ए विहरो, सुणी नरनाथ प्रसिद्धो रे ॥ ध० ॥ ११
 ॥ ते सुखी राजा समकित पाम्यो, मुक्ति गयो अणगार रे ॥ वीशमे अध्
 यने जिनवीरें, ए जांख्यो अधिकार रे ॥ ध० ॥ १२ ॥ श्रीविजयदेव सूरि
 श्वर पाटें, विजयसिंह सुनिराय रे ॥ उदयविजय वाचक तस
 साधु तणा गुण गाय रे ॥ ध० ॥ १३ ॥ इति ॥

॥ अथैकविंश समुद्रपाल अध्ययन सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ पूज्य पधारो पाटीयें ॥ ए देशी ॥ नयरी चंपामां वसे, एतो श्रावक
 पालक नाम ॥ सजनी ॥ एकदिन प्रवहण पूरियां, पोहोतो पिहुडपुर गामा ॥
 सजनी ॥ १ ॥ समुद्रपाल मुनिवर जयो ॥ ए आंकणी ॥ ए तो संवेगी विख्या
 त ॥ सजनी ॥ अध्ययनें एकवीशमे, एह सयल अवदात ॥ स० ॥ स० ॥ १॥
 ते तिहां धन जेखुं करी, परण्यो विदेशें नारी ॥ स० ॥ सगर्जा नारी खेइ
 चढ्यो, नियपुर आवण हार ॥ स० ॥ स० ॥ ३ ॥ समुद्रमांहि सुत जन

मुह सुणिचंद के ॥ ध० ॥ १० ॥ महबल राय उदायणो, वली राजा रे द
शारणजद्र के ॥ नाण क्रिग पोते करि, एतो तरीया रे संसार समुद्र के
॥ ध० ॥ ११ ॥ विजय जयदेव सूरीश्वरू, पट्टोधर रे विजयसिंह गुणखाण
के ॥ उदयविजय कहे ए कह्यो, अध्ययने रे अठारमे जाण के ॥ ध० ॥ १२ ॥

॥ अथ एकोनविंश सृगापुत्राध्ययन सद्यय प्रारंजः ॥

॥ शारद बुधदायी सेवक ॥ ए देशी ॥ ढाल ॥ सुग्रीव नयर वर, वन
वाडी आराम ॥ बलचंद्र नरेश्वर, राज करे गुणधाम ॥ इंद्राणी सरखी, रा
णी सृगा अजिराम ॥ मकरध्वज सुंदर, कुंअर बलश्री नाम ॥ १ ॥ त्रु० ॥
बलश्री नाम कुंवर अति सुंदर, जीत्यो कामविकार ॥ संयम लेइ कर्म ख
पेइ पाम्यो जवजल पार ॥ जंगणीशमे अध्ययने जिनवर, वीर दीये उप
देश ॥ जणतां गुणतां जवजवना, नासे पाप कलेश ॥ २ ॥ ढाल ॥ एकदि
न वरमंदिर, अंतैउर परिवार ॥ परवरियो पेखे, नयर मजार कुमार ॥ दी
गे तव मुनिवर इर्याये जलपंत ॥ तस ऊहापोहे, जातिसमरण हुंत ॥ ३
॥ त्रु० ॥ जातिसमरण पामी देखे, पूरव जव संबंध ॥ पंचमहाव्रत सांजरे
वली, चउगइ दुःख प्रबंध ॥ मात पिता आगल जइ बोले, दुःख अनंती
वार ॥ जे जे में पाम्यां ते कहेतां, किमही न आवे पार ॥ ४ ॥ ढाल ॥ सं
सार असार ए, दीसे मलजंकार ॥ संबल विण वाटें, जातां दुःखदातार
॥ बहुजनम मरण जय, नरयतिरिय दुःख ठाण ॥ तिहां बलता घरथी,
सार ग्रहे ते जाण ॥ ५ ॥ त्रु० ॥ सार ग्रहे ते जाण विचारी, आपणपुं तार
शुं ॥ दो प्रभु तुम्ह आदेश अम्हे, हवे संयमगुण धारशुं ॥ शीत ताप
बुह तृषा, अनंती दुःख सह संबलि रूख ॥ पूतली अग्नि वर्ण आलिंगी,
दीठां नरके दुःख ॥ ६ ॥ ढाल ॥ दुःखथी निकलवा, सृगापुत्र नरसिंह
॥ मावित्र आदेशे, दीस्क लहे मुनि लीह ॥ अनुक्रमें ते मुनिवर, शिव
पुर राज्य लहंत ॥ जिहां नाणदंसण वली, परमाणंद अनंत ॥ ७ ॥ त्रु० ॥
परमाणंद अनंत ते लहीये, साधुतणा गुण धरता ॥ श्री जिनशासन उत्तम
पामी, सूधी किरिया करता ॥ किरियानो ते आगर गणधर, विजयदेव
पटधर ॥ विजयसिंह गुरराज विराजे, शिष्य उदय जयकार ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ विंशतितम अनाथीराय अध्ययन सद्यय प्रारंजः ॥

॥ जोतां रे जतां रे कानन सघळुं ॥ ए देशी ॥ मगधदेश राजगृही

नगरी, राजा श्रेणिक दीपे रे ॥ चतुरंग सेनायें परवरियो, तेजें दिणयर
 जीपे रे ॥१॥ धन धन श्रीऋषिराज अनाथी ॥ ए आंकणी ॥ रूपें देवकुमार
 रे ॥ संवेग रंग तरंगें जीले, यौवनवय अणगार रे ॥ ध० ॥ १॥ एक दिन कानन
 पहतो श्रेणिक, बंधा श्रीऋषिराय रे ॥ लघुवय देखी हरखें पूठे, प्रभु
 तुम्ह कोमल काय रे ॥ ध० ॥ ३ ॥ आ तुम्ह रूप अनोपम यौवन,
 तरुणीजन आधार रे ॥ इति अवसर नारीरस लीजे, बडपण संयमचार रे
 ॥ ध० ॥ ४ ॥ ध्यान पूरि तव मुनिवर बोले, राजन हुं तुं अनाथ रे ॥ नाथ
 विना संयम सें लीधुं, नृप कहे हुं तुम्ह नाथ रे ॥ ध० ॥ ५ ॥ जोईयें ते
 तुम्हनें हुं पूरुं, द्यो तुम्हें ए बहु आथ रे ॥ मुनि कहे राजन् नाथ न ता
 हरे, किम आइश मुऊ नाथ रे ॥ ध० ॥ ६ ॥ राय कहे हय गय रथ पाय
 क, मणि माणक जंकार रे ॥ माहरे ठे हुं नाथ सहूनो, तव बोले अणगार
 रे ॥ ध० ॥ ७ ॥ कोसंबी नयरीनो राजा, मऊ पिता गुणवंत रे ॥ तास कु
 अर हुं अति घणुं बह्वज, लहु वय लीलावत रे ॥ ध० ॥ ८ ॥ एक दिन
 मुऊ अंगें थई वेदना, न टले कोइ उपायें रे ॥ मात पिता माहरे दुःखे
 दुःखियां, नारी हैयहुं जराय रे ॥ ध० ॥ ९ ॥ बहुल विदाप कस्या तेणी
 यें, मुज दुःख नवि लेवाय रे ॥ तव में निर्णय एहवो कीधो, धर्मज एक
 सहाय रे ॥ ध० ॥ १० ॥ इम चिंतवतां वेदन नाठी, प्रात संयम में लीधो
 रे ॥ नाथ अनाथ तणो ए विहरो, सुणी नरनाथ प्रसिद्धो रे ॥ ध० ॥ ११
 ॥ ते सुखी राजा समकित पाम्यो, मुक्ति गयो अणगार रे ॥ बीशमे अध्
 यने जिनवीरें, ए चांख्यो अधिकार रे ॥ ध० ॥ १२ ॥ श्रीविजयदेव सूरी
 श्वर पाटें, विजयसिंह मुनिराय रे ॥ उदयविजय वाचक तस बालक,
 साधु तणा गुण गाय रे ॥ ध० ॥ १३ ॥ इति ॥

॥ अथैकविंश समुद्रपाल अध्ययन सध्याय प्रारंभः ॥

॥ पूज्य पधारो पाटीयें ॥ ए देशी ॥ नयरी चंपामां वसे, एतो श्रावक
 पालक नाम ॥ सजनी ॥ एकदिन प्रवहण पूरियां, पोहतो पिहुडपुर गामा ॥
 सजनी ॥ १ ॥ समुद्रपाल मुनिवर जयो ॥ ए आंकणी ॥ ए तो संवेगी विख्या
 त ॥ सजनी ॥ अध्ययनें एकवीशमे, एह सयल अवदात ॥ स० ॥ स० ॥ १ ॥
 ते तिहां धन जेहुं करी, परण्यो विदेशी नारी ॥ स० ॥ स० ॥ २ ॥ सगर्जा नारी लेइ
 चढ्यो, नियपुर आवण हार ॥ स० ॥ स० ॥ ३ ॥ समुद्रमांहि सुत जन

मियो, समुद्रपाल तस नाम ॥ स० ॥ पुत्र कलत्र लेइ आवीयो, पालक
 चंपाठाम ॥ स० ॥ स० ॥ ४ ॥ अनुक्रमें ताते परणावीयो, रुक्मिणी नारी
 सरूप ॥ स० ॥ एक दिन गोंख बिराजतो, देखे नगर स्वरूप ॥ स० ॥
 स० ॥ ५ ॥ एक चोर तव दीठडो, तस कंठ कणयर माल ॥ स० ॥ गाढे
 बंधनें बांधीयो, जोगवी दुःख असराळ ॥ स० ॥ स० ॥ ६ ॥ ते देखी तस
 उपनो, मन वैराग्य अपार ॥ स० ॥ समुद्रपाल तव चिंतवे, जुळ कठिन
 कर्म अधिकार ॥ स० ॥ स० ॥ ७ ॥ माताने पूढी लीये, संयमजार कुमा
 र ॥ स० ॥ मुक्ति गयो मुनिराजीयो, सुख पाम्यो श्रीकार ॥ स० ॥ स०
 ॥ ८ ॥ विजयदेव पटें जयो, विजयसिंह गणधार ॥ स० ॥ शिष्य उदय
 वाचक कहे, मुनि गुणमोहनगार ॥ स० ॥ स० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ द्वाविंश रहनेमि अध्ययन सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ फागनी ढालनीवा सूरिती महिनानी देशी ॥ सौरीपुर अति सुंदर,
 श्रीवसुदेव नरिंद ॥ रोहणी देवकी राणी, राम केशव दोइ नंद ॥ समुद्रवि
 जय वली राजीयो, राणी शिवादे कंत ॥ मन आनंदन नंदन, नेमीश्वर अ
 रिहंत ॥ १ ॥ सहस्र अघ्योतर सुंदर, लक्षण अंग अजंग ॥ अनुक्रमे पामीयुं
 मोहन, यौवन नवरस रंग ॥ एकदिन तेहतणे कारण, गोपीनो जरतार ॥ उ
 ग्रसेन पासें मागे, राजुल राजकुमारी ॥ २ ॥ मनअलि मालती मालती, चा
 लती गजगति गेली ॥ मयणतणी सेना सजी, विकसी मोहनवेली ॥ वड
 सोजागिणी रागिणी त्रिभुवन केरो सार ॥ जान लेइ ते परणावा, आवे नेम
 कुमार ॥ ३ ॥ चाले हलधर गिरिधर, बंधूर बंधव जोडि ॥ रवि शशी मंगल
 जीपता, दीपता होडाहोडि ॥ शिरसिंझरीया साथिया, हाथिया मत्त गि
 रिंद ॥ वंदिजन विरुदावली, बोले नव नव ठंड ॥ ४ ॥ ऋंवरें अंबर गाजे, वा
 जे मंगल तूर ॥ फेरी नफेरी नफेरीय, जेरीय जुंगल जूरि ॥ राचे माचे ना
 चे, जाचे साचे प्रेम ॥ गुणमणि ऊरडी गोरडी, मोरडी पाउसि जेम ॥ ५ ॥
 करे केश सुकुमाली, वाली गीत कल्लोल ॥ केवि सुजग शणगारी, प्यारी
 चढे चकमोल ॥ चतुर चकोरडि गोरडी, लूण उतारे एक ॥ जय जय नाद
 सुणावती, आवती धरती विवेक ॥ ६ ॥ हय गय रथ पायक वली, मिलीय
 यादवनी जान ॥ एणिपरें बहु आंवरें, आवे यडसुखतान ॥ ग्रहणमांहे
 शशीपरें, सोहे नेमि कुमार ॥ अनुक्रमें तोरण वारण, पहोता साथें मुरा

री ॥ ७ ॥ पशुवाडे पशु जाणी, आणी करुणा तास ॥ सारथिने प्रजु पूठे,
केम मेळी पशु राशि ॥ गोरव कारण तुह्य तणी, ते जणे ए सहु आज ॥
ते सुण पशु मूकावी, पाठा वढ्या जिनराज ॥ ७ ॥ सहसावन जइ वूजि
यो, जूजियो कर्मह साथ ॥ व्रत धरी तप करी आदरी, तीर्थकर तणी
आथ ॥ ते सुणि अति घणी वेयण, वेइ राजुल नारी ॥ अनुक्रमें जिनवर
नाली, जाणी गइ गिरनार ॥ ८ ॥ दीख लेई प्रजु पासें, अन्यासें गुणरं
गी ॥ इकदिन गिरिजणि जातां, वृष्टे ज्रीनुं अंग ॥ कंचूक चीर सुकववा,
पहोती गिरिदरिमांहि ॥ तव मन मीठी दीठी, रहेनमी उत्साहि ॥ १० ॥
नग्न नारी ते मन वसी, धसमसी बोढ्यो बोल ॥ ते मुनि चारित्र चूकतो,
मूकतो लाजनी ढोल ॥ मुनि सुणि सुंदरी मंदिरे, फरि करि पूरियें वास ॥
यौवनवय सुख लीजीयें, कीजीयें विविध विलास ॥ ११ ॥ सतीयशिरोमणि
जांखी, आखे अणी मुऊ शीख ॥ वाडी न लोपुं तेह तणी, चठणि निम
होय लीख ॥ तुज पण देखी तरुणी, रमणी चूकशे चित्त ॥ तो हठ तरु परें
होशे, चंचल तुज चरित्र ॥ १२ ॥ एम अगम धन कुल तणी, जणी उपमा
सार ॥ बालकुंवारी तारिया, रहनेमी अणगार ॥ विहुं जण ते शिवपुर ग
या, गहगह्यां सुख अजंग ॥ अध्ययनें बावीशमे, ए अधिकार सुचंग ॥ १३
धन धन उपनी निय कुल, राजुलबाल कुंवारी ॥ धन धन नेमि सहोदर,
रहनेमी अणगार ॥ विजयदेव गुरु पटधर, विजयसिंह मुनिराय ॥ तेह
तणो एम बालक, उदयविजय गुण गाय ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ अथ त्रयोविंश केशीगौतम अध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ मनमधुकर मोही रह्यो ॥ ए देशी ॥ शिष्य जिणेंसर पासना, केशी
कुमार मुणिंद रे ॥ गोयम वीरजिणंदना, एक सूरज एक चंद रे ॥ १ ॥ धन धन
ए दो गणधरा ॥ ए आंकणी ॥ गोयम केशी कुमार रे ॥ तिंडुक वन जेला म
ली, करे जिनधर्म विचार रे ॥ धण ॥ १ ॥ संघाडा बेहु जिण तणा, मनमां आणे
संदेह रे ॥ मुक्तिमारग दोइ जिण कहे, तो कां अंतर एह रे ॥ धण ॥ ३ ॥ चार
महाव्रत केशीनें, गोयमनें पुण पंच रे ॥ केशी पूठे गोयमा, कहे उत्तर परपं
चरे ॥ धण ॥ ४ ॥ इजु जड पहिला जिन तणा, अंतिम वक्र जड होइ रे ॥
जाण सरख बावीशना, तिणें हुआ मागें दोइ रे ॥ धण ॥ ५ ॥ परमारथ
पूरण जोयतां, मारमजेद म लेहो रे ॥ रूडि मति तुज गोयमा, केशी ट

लिया संदेहो रे ॥ ध० ॥ ६ ॥ अध्ययने त्रेवीशमे, जे जे पूरुं तेह रे ॥
 गोयम स्वामीयें सहु कह्युं, केशी टलिया संदेह रे ॥ ध० ॥ ७ ॥ मुक्ति ग
 या दौय गणधरा, जिहां सुखखाण अजंग रे ॥ श्रीविजयसिंह सूरीश्वरु,
 शिष्य उदय रसरंग रे ॥ ध० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ चतुर्विंश समिति अध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ समिति गुप्ति सूधी धरो ॥ जवि चेतो रे ॥ इम कहे वीर जिनेश ॥
 जविकचित्त चेतो रे ॥ अध्ययने चतुर्विंश ॥ ज० ॥ ए अधिकार अशेष
 ॥ ज० ॥ १ ॥ वाटें जोई चालियें ॥ ज० ॥ जुग लग जयणा काज ॥ ज० ॥
 सत्य मधुर हितकारियुं ॥ ज० ॥ वयण जणो मुनिराज ॥ ज० ॥ २ ॥
 सुडतार्लाश निवारियें ॥ ज० ॥ एषणा केरा दोष ॥ ज० ॥ पूंजी लीजीयें
 दीजीयें ॥ ज० ॥ जिम हुवे पुण्यनो पोष ॥ ज० ॥ ३ ॥ मलं मूत्रादिक
 परठवो ॥ ज० ॥ पडिलेहि शुद्धगाम ॥ ज० ॥ मन पडतुं थिर कीजीयें ॥
 ज० ॥ जीम सीजे सवि काम ॥ ज० ॥ ४ ॥ मौनी मित जाषियाउ ॥
 ज० ॥ निश्चल काउस्सगगनो जाण ॥ ज० ॥ समिति गुप्ति एम जे धरे ॥
 ज० ॥ ते साचा जग जाण ॥ ज० ॥ ५ ॥ विजयदेव गुरु पाटवी ॥ ज० ॥
 श्रीविजयसिंह सूरीश ॥ ज० ॥ उदयविजय वाचक जणी ॥ ज० ॥ बाल
 क तास जगीश ॥ ज० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ पञ्चविंश विजयघोष जयघोषाध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ देशी मधुकरनी ॥ वाणारसी नगरी वसे, विजयघोष जयघोष हो ॥
 सुंदर ॥ अध्ययने पंचवीशमे, दोइ बांजणी निर्दोष हो ॥ सुं० ॥ १ ॥ ए दोइ
 मुनिवर वांदीयें ॥ ए आंकणी ॥ जिम सीजे सवि काम हो ॥ सुं० ॥ मुक्तिपुरी
 मां जे वस्या, गुणमणि अविचल धाम हो ॥ सुं० ॥ ए० ॥ २ ॥ जयघोषें दी
 द्वा ग्रही, करतो उग्रविहार हो ॥ सुं० ॥ एक दिन पहातो वाणारसी, विज
 यघोष जिहां सार हो ॥ सुं० ॥ ए० ॥ ३ ॥ विजयघोषें तिहां मांकियो, याग
 ते महोटे मंराण हो ॥ सुं० ॥ विहरवा तिहां मुनिवर गयो, उत्तर दिये ते
 अयाण हो ॥ सुं० ॥ ए० ॥ ४ ॥ समजावे मुनिवर कहे, ते प्रतिवोधवा
 काज हो ॥ सुं० ॥ वेद जण्या पण तह तणो, अर्थ कहो कुण आज
 हो ॥ सुं० ॥ ए० ॥ ५ ॥ योग थने नक्षत्रनुं, मुख कहो कवण कहात
 हो ॥ सुं० ॥ धर्मवयण कहो केहुं, तव कहे विप्र विख्यात हो ॥ सुं०

॥ ए० ॥ ६ ॥ स्वामी तुम्हें सहु ए कहो, मुनि तव जांखे पवित्र हो ॥
 सुं० ॥ वेद अग्निहोत्र मुख कह्युं, यागनुं मुनि जगमित्र हो ॥ सुं० ॥ ए०
 ॥ ७ ॥ चंद्र ते नक्षत्रमुख सही, धर्मनुं कासव इंद्र हो ॥ सुं० ॥ विजयघो
 ष इम समजियो, दोइ गया मुक्ति मुण्डि हो ॥ सुं० ॥ ए० ॥ ८ ॥ श्रीवि
 जयदेव गुरु पाटवी, श्रीविजयसिंह सूरिंद हो ॥ सुं० ॥ शिष्य उदय क
 हे मुनिवरा, दोइ प्रतपो कुलचंद्र हो ॥ सुं० ॥ ए० ॥ ए ॥ इति ॥

॥ अथ षड्विंशत्तार्याख्याध्ययन सध्याय प्रारंभः ॥

॥ जाशो तोही राखनुं ॥ ए देशी ॥ दश आचार मुण्डिना, बोले वीर
 जिणंद लाल रे ॥ गोयमस्वामी सांचले, जेहथी सुख अमंद लाल रे ॥ १ ॥
 दश आचार समाचारो ॥ ए आंकणी ॥ आणी मन वैराग लात्र रे ॥ मोक्ष
 तणां सुख पामीयें, जे सेवे बहजाग ॥ ला० ॥ द० ॥ १२ ॥ जातां आवसही
 कहो, निसही पेसतां होइ ॥ ला० ॥ पृष्ठा आपणपें करे, पडिपष्ठा पर
 कोइ ॥ ला० ॥ द० ॥ ३ ॥ पंचमें थानकें ठंरणा, इष्ठा ठठे ठाण ॥ ला० ॥
 सातमे मिठाडुक्कंडं, तहांत आठमे जाण ॥ ला० ॥ द० ॥ ४ ॥ नवमे हो
 ये मंत्रणा, उपसंपद तिम जाण ॥ ला० ॥ अध्ययन ठवीशमे, ए श्रीजिन
 वर वाण ॥ ला० ॥ द० ॥ ५ ॥ विजयदेव गुरु पाटवी, श्री विजयसिंह गण
 धार ॥ ला० ॥ उदयविजय कहे एहथी, लहे जयजयकार ॥ ला० ॥ द० ॥ ६ ॥

॥ अथ सप्तविंश कुशिष्याध्ययन सध्याय प्रारंभः ॥

॥ मरुदेवी माता ॥ ए देशी ॥ वीर गोयमनें इम कहे, अविनीत उवेखो
 शिष्य जी ॥ वांका बलदतणी पेरें, कासवेला आणीयें रीश जी ॥ वीरणा
 १ ॥ समोल ते जांगे जोतस्या, बली सामा मांके शिंग जी ॥ तिम साहमा
 बोले घणुं, इम अविनयथी गुणजंग जी ॥ वी० ॥ १ ॥ आलसूआ अक
 ह्यागरा, ठांकी जाये निजनिजठंड जी ॥ पोष्या गुरुए बली शीखव्या, पण
 न धरे ते गुणवृंद जी ॥ वी० ॥ ३ ॥ बलदने उवेखी रहे, जिम सारथि सु
 ख समाधि जी, तिम गुरु पण अविनीतनें, उवेखी कारज साधे जी ॥ वी०
 ॥ ४ ॥ श्रीविजयदेवगुरु पाटवी, जयो श्रीविजयसिंह गणधार जी ॥ अद्य
 यने सगवीशमे, कह्यो उदय कहे सुविचार जी ॥ वी० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथाष्टाविंश मोक्षमार्गाध्ययन सध्याय प्रारंभः ॥

॥ ठेल ठवीले ठेतस्या ॥ ए देशी ॥ वर्कमान जिनवर कहे, दंसणनाण

चारित्र्ये ॥ अध्ययने अडवीशमे, जिण पाळे थाये पवित्र रे ॥ व० ॥ १ ॥
 नाण पंचविह वरणव्युं, आठे ते समकित जेद रे ॥ जेद आठ चारित्रना,
 तपगुण बारह जेद रे ॥ व० ॥ २ ॥ नाणी जाव सवे लहे, दंसण सवहे ते
 ह रे ॥ चारित्र पातक आवतां, वारे निःसंदेह रे ॥ व० ॥ ३ ॥ पापमेळ ला
 गो हुवे, ते शोधे तप शुद्ध रे ॥ इम ए चार प्रजावथी, मुनि हुवे परमविबु
 द्ध रे ॥ व० ॥ ४ ॥ विजयदेव पटधर जयो, विजयसिंह मुनिराय रे ॥ तास
 शिष्य इम विनवे, उदयविजय उवजाय रे ॥ व० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथैकोनत्रिंश सम्यक्तवपराक्रमाख्याध्ययन सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ सोहम जंबूनें कहे, में जिनपासें विचार ॥ सुणीयुं उगणत्रिशमे, अ
 ध्ययने सुखकार रे ॥ १ ॥ समकित आदरो ॥ तिहुंत्तरबोल उदार रे,
 वली किरिया धरो ॥ ए आंकणी ॥ प्रथम बोल संवेगनो, बीजो ते नि
 वेद ॥ त्रीजो रुचिधर्मह तणी, हवे चउथादिक जेद रे ॥ स० ॥ २ ॥
 जक्ति सुगुरु साहामी तणी, पापप्रकाशन निंद ॥ गर्हण्या सामार्श्यं, चउ
 विसठो अमंद रे ॥ स० ॥ ३ ॥ वंदण पडिक्रमणुं वली, काउस्सग पञ्च
 र्काण ॥ पयथूये मंगल चउदमो, बोल ते नियम नियाणो रे ॥ स० ॥
 ४ ॥ चार काल पडिलेहणा, खामण प्रायश्चित्त ॥ सजाय जणवुं पूठवुं,
 गणवुं चिंतवुं चित्त रे ॥ स० ॥ ५ ॥ धर्मकथाश्रुत सेवना, मन एकाग्र
 निवेश ॥ संयम तप ने निर्जरा, नहिं दुसजाय प्रवेश रे ॥ स० ॥ ६ ॥
 धरिय अप्रतिबंधता, सयणासण सुविवेक ॥ विषयनिवृत्ति संज्ञोगिया,
 पञ्चस्काणनी टेकरे ॥ स० ॥ ७ ॥ उपधि आहार कषाय ए, योगशरीर
 सहाय ॥ जाव अने सट्जावना, अड पञ्चस्काण अमाय रे ॥ स० ॥ ८ ॥
 शिविर तणी पडिरूपतां, वैयावच्च गुण चूरि ॥ वीतरागता पुण क्कमा, मु
 निसरखता अचूर रे ॥ स० ॥ ९ ॥ मार्दव जाव सुसत्यता, करणयोगना
 साच ॥ मण वय काय सुगुत्तता, शुच मन काय सुवाच रे ॥ स० ॥ १० ॥
 नाण दरिसण चारित्र ए, पणइंदिय जयकार ॥ क्रोध मान माया वली,
 दोज तणो परिहार रे ॥ स० ॥ ११ ॥ पिच्चदोसमिच्छात्तनो, जय करवो नि
 रधार ॥ शैलेशीय अकम्मया, ए तिहुत्तरि अवधार रे ॥ स० ॥ १२ ॥
 एता बोलथकी लहे, साधु परमपद सार ॥ विजयसिंह मुनिराजनो,
 उदय कहे हितकार रे ॥ स० ॥ १३ ॥ इति ॥

॥ अथ त्रिंशत्तम तपोमार्गाध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ नारी रे निरुपम नागिला ॥ ए देशी ॥ श्री वीरें तप वर्णव्यो, महोदो
गुण जग एह ॥ पापकर्म टाली करी, मुक्ति पमाडे जेह ॥ श्री० ॥ १ ॥ जिम
सरोवर कादव जख्यो, शोधे नायक तास ॥ गरनालां वूरी करी, सूरकिर
एनी रे वास ॥ श्री० ॥ २ ॥ ते मल जेम रवि शोषवे, जेम रूंध्यां गरनाल
॥ आश्रवें रूंध्यां तप तथा, शोधि करे ततकाल ॥ श्री० ॥ ३ ॥ उपवासो
ऊणोदरी, वृत्ति तणो रे संखेव ॥ रसवाराण संलीनता, कायकलेश धरेव
॥ श्री० ॥ ४ ॥ वेयावच्च आलोचना, विनय अने सजाय ॥ काउस्नग्ग जा
ए तथा, षड् दुग वारह थाय ॥ श्री० ॥ ५ ॥ वारें जेदे तप करो, अंगी
धरो रे समाधि ॥ अध्ययने जिम त्रीशमे, बोले अर्थ अगाध ॥ श्री० ॥ ६ ॥
विजयदेव गुरु पाटवी, विजयसिंह मुनिसिंह ॥ उदयविजय कहे गणध
रा, ए दोय गुरु गुणलीह ॥ श्री० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथैकत्रिंशत्तम चरणविध्यध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ हुं बलिहारी यादवा ॥ ए देशी ॥ वर्द्धमान जिन उपदिसे. धरिये संय
म शुद्धि के ॥ एकदिन चारित्तर दिये, किंचित्मानकी सिद्धि के ॥ १ ॥ सू
धी किरिया पालीयें ॥ ए आंकणी ॥ इंद्रिय निज वश कीजियें, विकथा त
जी मोष के ॥ सन्निति गुप्ति आराधियें, परहरीयें पुण दोष के ॥ सू० ॥ १ ॥ दश
जेदे मुनि धर्म जे, ते आराधो जाणी के ॥ प्रतिमा मुनि श्रावक तणी, व्हो
धरो शुच जाणि के ॥ सू० ॥ ३ ॥ ज्ञाताधर्म तणी कथा, साची आणो चित्त के
॥ वाविस परिसह सांसहो, बोलो वाणी सत्य के ॥ सू० ॥ ४ ॥ जे जे थान
कें इम कह्या, ते पालो सुजगीश के ॥ अध्ययने एकत्रीशमे, बोले श्रीजग
दीश के ॥ सू० ॥ ५ ॥ विजयदेव गुरु पाटवी, विजयसिंह गुरु हीर के ॥
शिष्यउदय कहे दोइ ए, जाणो गोथम वीर के ॥ सू० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ द्वात्रिंश प्रमादताम अध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ कामिनी मूके न मोरो हाथ ॥ ए देशी ॥ वीर कहे वत्रीशमे रे, अ
यने सुविचार ॥ आपहेतु ते परिहरो रे, जिम लहो जवजल पार ॥ १ ॥ जवि
यण जाव धरो गुणराजि, जिम न पडो दुःख पाश ॥ ज० ॥ ए आंकणी ॥ नाण
धरो रे, मोह परहरो रे, जीतो राग ने रोष ॥ पंचइंद्रिय वश कणे रे, म धरो
विषय सदोष ॥ ज० ॥ १ ॥ तृणचारी वसतो वने रे, हरिण जुठ वेधाय ॥

नाद तणे रसें वाहिया रे, जो लय लीणा थाय ॥ ज० ॥ ३ ॥ करिणी फरसें
मोहिया रे, हाथिया चूके ठाम ॥ दरबारे आवी रही रे, परवश सेवे गाम
॥ ज० ॥ ४ ॥ रूपे बुब्ध पतंगीयो रे, दीवे होमे अंग ॥ गंध तणे रस पंकजे
रे, बंधन पामे जूंग ॥ ज० ॥ ५ ॥ आमिष रस बश भाठलो रे, एकमनो
जो होय ॥ पेखो ततक्षण वापडो रे, वेदन पामे सोय ॥ ज० ॥ ६ ॥ एके
कनें परवशे रे, जो ए दुःखीया थाय ॥ तो पांचे परवश तणी रे, कहो गति
केण कहाय ॥ ज० ॥ ७ ॥ इम जाणी ए जीपतां रे, पामे नित्य आणंद ॥
विजयसिंह गुरुनी परें रे, उदय सदा सुखकंद ॥ ज० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ त्रयोद्विंशत्तम कर्मपयडी अध्ययन सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ तोगळे मेवाडो राणो लोंकियो रे ॥ ए देशी ॥ केवलनाणें जाणतो
रे लो, बोले श्रीजिनवीर रे ॥ मुणिंद राय ॥ आठ करमने वश पड्यो रे
लो, न लहे जवजल तीर रे ॥ मु० ॥ कर्म कठिन दल जीतीये रे लो ॥
आठो ए जीते ते लहे रे लो, सुख सधलां वड वीर रे ॥ मु० ॥ क० ॥ १ ॥ ए
आंकणी ॥ नाण पंचने आवरे रे लो, नाणावरणी सोयरे ॥ मु० ॥ दंसणने
जे आवरे रे लो, ते नव जेदें होय रे ॥ मु० ॥ क० ॥ २ ॥ दोय जेदें कछुं
वेदनी रे लो, मोहजेया अडवीस रे ॥ मु० ॥ नयर तिरिय नर सुर तणें
रे लो, आयु कहे जगदीश रे ॥ मु० ॥ क० ॥ ३ ॥ तिन्नी अधिका एक
सो रे लो, नाम कर्मना जेद रे ॥ मु० ॥ गोत्र तणा जेद दो कया रे लो,
विघन तणा पण जेद रे ॥ मु० ॥ क० ॥ ४ ॥ अछावनशुं आगली रे लो,
एकसो पड्डी होय रे ॥ मु० ॥ अध्ययने तेत्रीशमे रे लो, ए परमारथ
जोय रे ॥ मु० ॥ क० ॥ ५ ॥ विजयदेव पाटें जयो रे लो, श्रीविजयसिंह गणधा
र रे ॥ मु० ॥ तेह तणो बालक कहे रे लो, उदयविजय जयकार रे ॥ ६ ॥

॥ अथ चतुद्विंशत्तम लेश्याध्ययन सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ वेगें पधारो महेलथी ॥ ए देशी ॥ किसन नील कापोतें ए, तेज पद्म
चउ पंच ॥ शुक्ल ठठी एहना, हवे सुणो वर्ण प्रपंच ॥ १ ॥ ठ लेश्याशुं
विचारीये ॥ ए आंकणी ॥ जिम तरीये संसार ॥ पहेली त्रण्ये परहरो, वलि
त्रण धरियें सार ॥ ठ० ॥ २ ॥ पहेली कडुई शामली, बीजी नीली तीख ॥
त्रीजी शामल रातडी, ते कषायेली पीख ॥ ठ० ॥ ३ ॥ चउथी आंवल रा
तडी, पीली आसव सार ॥ पंचमी ठठी उजली, साकर सरखी धार ॥ ठ० ॥

४ ॥ दुरन्निगंध त्रण पहेलडी, त्रण आगली रे सुगंध ॥ कुगति त्रण पहे
ली दिये, सुगति त्रणथी बंध ॥ ७० ॥ ५ ॥ ए लेश्या रे चउत्रीशमे, अ
ध्ययने कहे वीर ॥ तेमां उत्तम आदरे, लही वरे मुनि हीर ॥ ७० ॥ ६ ॥
विजयदेव गुरु पाटवी, श्रीविजयसिंह सूरिश ॥ तेहतणो वलि उपदिशे,
उदय कहे सुजगीश ॥ ७० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ पंचत्रिंशत्तम अणगारमार्गाध्ययन सध्याय प्रारंजः ॥

॥ निःस्नेही तुमही जये ॥ ए देशी ॥ वीर कहे जवि लोकने, पालो
मुनि आचार राजे ॥ अध्ययने पंचत्रिंशमे, तेह तणो अधिकार राजे ॥
वी० ॥ १ ॥ पापारंज निषेधीयें, धरियें संयम धीर राजे ॥ वसति विशुद्ध
सेवियें, एम लहियें गुण हीर राजे ॥ वी० ॥ २ ॥ त्रस स्थावर नवि हिं
सियें, मृषावाद परिहार राजे ॥ अण दीधुं नवि लीजियें, धरिये वंज
उदार राजे ॥ वी० ॥ ३ ॥ परिग्रह परिमित कीजियें, राखिये जय शुज
ध्यान राजे ॥ एणि परें धर्म सभाचरे, तस घर नवे निधान राजे ॥ वी० ॥
४ ॥ विजयदेव गुरु पाटवी, विजयसिंह मुनिराय राजे ॥ शिष्य तेहनो
उपदिशे, उदयविजय उवजाय राजे ॥ वी० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ षड्त्रिंशत्तम जीवाजीवविजक्तारख्याध्ययन सध्याय प्रारंजः ॥

॥ ढाल धमालनी ॥ सोहम स्वामी एम कहे रे, सुण जंवू अणगार ॥ वीर
जिणेसर जांखियो रे, जीव अजीव वीचारा ॥ १ ॥ परमारथ परिचय कीजियें
रे, लीजें प्रवचन सार ॥ शुज नाण अमीरस पीजीयें रे, पामीजें जवपार
॥ ५० ॥ ए आंकणी ॥ जीव अजीव दोइ वर्णव्या रे, लोकालोक मजार ॥
जीव अरूवी तेहमां रे, जाणो दोइ अजीव प्रकार ॥ ५० ॥ २ ॥ पुजल रूपी
ए कह्यो रे, आकाशादिक अरूप ॥ संक्षेपथी अजीवनुं रे, वरणव्युं एह
स्वरूप ॥ ५० ॥ ३ ॥ जेद सुण्या दोइ जीवना रे, सिद्ध अने जववास ॥
जेद पन्नर तो सिद्धना रे, जेह मट्या अलोक आकाश ॥ ५० ॥ ४ ॥ पुढ
वी जल जलणानिला रे, वणसे बि ति चउ पंच ॥ इंद्रिय माने जव तणो
रे, जाणजो सूत्र प्रपंच ॥ ५० ॥ ५ ॥ ए सवि जाव जिणेसरें रे, जांख्या
जवि हित काज ॥ सूधा सहहतां थकां रे, पामीयें अविचल राज ॥ ५०
॥ ६ ॥ विजयदेव सूरेश्वर रे, पद प्राजाविक सिंह ॥ विजयसिंह मुनिराजियो
रे, सुविहित गणधर लीह ॥ ५० ॥ ७ ॥ तास नाम सुपसाउले रे, ए ठ

त्रीश सजाय ॥ उदयविजय वाचक जणै रे, जेह्णकी नवनिधि थाय ॥
प० ॥ ७ ॥ इति श्री उत्तराध्ययन षट्त्रिंशाध्ययनानी सञ्चायोः संपूर्णाः ॥

॥ अथ श्रीमेरुविजयजीकृत नंदीषेण सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ राजगृही नगरीनो वासी, श्रेणिकनो सुत सुविलासी हो ॥ मुनिवर
वैरागी ॥ नंदीषेण देशना सुणी जीनो, जिन कहेतां व्रत लीनो हो ॥ मु०
॥ १ ॥ चारित्र नित्य चोखुं पाळे, संयम रमणीशुं माले हो ॥ मु० ॥ एक दि
न जिन पाये लागी, गोचरीनी आझा मागी हो ॥ मु० ॥ २ ॥ पांगरीयो
मुनि वहेरवा, कुधावेदनीकर्म हरेवा हो ॥ मु० ॥ उंच नीच मध्यम कुल
मोहोटा, अटतो संयमरस लोटा हो ॥ मु० ॥ ३ ॥ एक उंचुं धवल घर दे
खी, मुनिवर पेठो शुरू गवेषी हो ॥ मु० ॥ तिहां जइ दीधो धर्मलाज, वे
श्या कहे इहां अर्थ लाज हो ॥ मु० ॥ ४ ॥ मुनियें मन अजिमानज आ
णी, खंरु करि नांख्यो तरणुं ताणी हो ॥ मु० ॥ सोवन वृष्टि हुइ वार को
डी, वेश्याविनता रही कर जोडी हो ॥ मु० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री चोथमह्वजी कृत आयुअस्थिरनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ आउखा त्रूटानें सांधो को नहीं रे, तिण कारण म करो जीव प्रमा
द रे ॥ जरा आव्याने शरणुं को नहीं रे, हिंसा ठोडिने दया पाल रे ॥
आ० ॥ १ ॥ कुटुंब कवीला नारी कारणें रे, भूरख संच्यां बहुलां पाप रे ॥
चोर तणी परें ठंकी जूरशो रे, सहेशो इह लोक परलोक संताप रे ॥
॥ आ० ॥ २ ॥ उंचां चणाव्यां मंदिर मालियां रे, दे दे धरतीमें उंकी
नीव रे ॥ एक दिन अणजाण्यो ऊठी चळ्यो रे, सुख दुःख सहेशो आप
णो जीव रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ चक्रवर्ती हरिबल राणो केसवो रे, जोजो वली
इंद्र सुरारो नाथ रे ॥ उगी उगीने उवेही आयम्यो रे, जो जो कोइ अच
रिजवाली आथ रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ अथिर संसार तजी मुनि नीसख्या रे,
करता मुनि नवल विहार रे ॥ जारंरु पंखीनी दीधी उपमा रे, न धरे म
मता मोह लगार रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ चारित्र पाळे रूडी रीतशुं रे, देवे मु
नि आपनो उपदेश रे ॥ तिको मुनिवर सीधाशे मोहनें रे, जस लेइ
इहलोक परलोक रे ॥ आ० ॥ ६ ॥ शब्दरूप देखी समता धरो रे, म
करो मुनि जणि यारो अजिमान रे ॥ रूपि चोथमह्व सूत्र देखिनें रे, जो
ड कीधी जालोर मजार रे ॥ आ० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजी कृत नवकारफलनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ ए नवकार तणुं फल सांजली, हृदयकमल धरि ध्यान ॥ आगे अनं
त चोवीशी हुइ, तिहां ए पंच प्रधान हो ॥ १ ॥ आतम, समर समर नव
कार ॥ जिन शासनमां सार, पंचपरमेष्ठी उदार, त्रण्य काल निरधार हो
आतम ॥सम० ॥ ए आंकणी ॥ वनमां एक पुलिंद पुलिंदी, मुनि कहे
तस नवकार ॥ अंतकालें बेहु मंत्र प्रजावें, नृप मंदिर अवतार हो ॥आ० ॥
स०॥१॥ रायसिंह अने रत्नवती जे, प्रमदा ने जरतार ॥ त्रीजे जे ते मुक्तें
जाशे, आवश्यके अधिकार हो ॥आ०॥स०॥३॥ चारुदत्तें अज प्रतिबोध्यो,
संजलावी नवकार ॥ सुरलोकें ते सुर थइ उपनो, करि सान्निधि तिणि वार
हो ॥ आ०॥स०॥४॥ नगर रतनपुरें मिथ्या तणी, बहूवरनें दीये आल ॥
महामंत्र मुखें जपे महासती, सर्प थयो फुलमाल हो ॥आ० ॥ स० ॥ ५ ॥
चूमि पडी समलायें देखी, दीधो मुनि नवकार ॥ सिंहलराय तणे घर कुं
वरी, जरुयइ कस्यो विहार हो ॥ आ० ॥ स० ॥ ६ ॥ नगर पोतनपुर शेठ
तणो सुत, मलीयो त्रिदंभी साथ ॥ महासत्त्व मन मंत्र जपंतो, खज मृत
कने हाथ हो ॥आ०॥स०॥७॥ तेह विघन सवि दूरे नाठां, सोवन पुरिसो
पामी ॥ कनकतणुं जिन जुवन करावी, स्थाप्या त्रिजुवन स्वामी हो ॥आ०
॥स०॥७॥ यद्ग प्रसन्न करी बीजोरुं, लेवे मंत्र प्रजावें ॥ हुंमिक जहनें पिंगल
तस्कर, एहथी सुरपद पावे हो ॥ आ० ॥ स० ॥ ८ ॥ सोमदत्त ने मणिरथ
सिंहरथ, मावत ने कुविंद ॥ एम अनेक परमेष्ठी ध्यानें, तरिया जविजन
बुंद हो ॥आ०॥स०॥१०॥ गर्जावासें जीव इम चिंतवे, तो धर्म करशुं सार ॥
जव जनम्यो तव बीसरी वेदन, एहेलें गयो अवतार हो ॥आ०॥स०॥११॥
जिहां लगें आथ तिहां सहु साथी, निर्जननें ते मूकें ॥ कूड कुटुंब तणे तुं
काजें, कां आतमहित चूके हो ॥ आ०॥ स०॥ १२ ॥ यम राजा केणे नवि
जीत्यो, सुकृत कस्युं ते पोतें ॥ अवसर बेरं बेर नहिं आवे, जाये जनम एम
जोते हो ॥ आ० ॥ स० ॥ १३ ॥ सार एह ठे असार संसारे, श्रीजिनसेवा
करियें ॥ विषय कषाय करीने अलगा, ज्ञानविमल गुण धरियें हो ॥आ०
॥ स० ॥ १४ ॥ इति श्रीनवकार सधाय समाप्तः ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजीकृत अष्टचंगीनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ सुगुरुदेव सुधर्मनुं, जेह तत्त्व न जाणे ॥ मुनि श्रावक व्रत नाद रे,

जावें पण नाणें ॥ चेतन ज्ञान दशा ऋजो, तजो परनी निंदा ॥ उदास जा
वपणुं ऋजो, जिम जल अरविंदा ॥ चेतन॥१॥ ए आंकणी ॥ नवि जाणे
नवि आदरे, नवि पाळे अंगी तेह ॥ मिथ्यात्वी सवि जन कह्या, पहिले
जंगे तेह ॥ चे० ॥ २ ॥ नवि जाणे नवि आदरे, अंगी पुण पाळें ॥ कष्ट
क्रिया शीलादिकें, तापस तनु गाले ॥ चे० ॥ ३ ॥ नवि जाणे वली आदरे,
मुनिव्रत नवि पाळे ॥ पासढादिक दुःखी, त्रीजे जंगें निहाले ॥ चे० ॥ ४ ॥
नवि जाणे वली आदरे, पाळे पुण अंगी ॥ अज्ञव्य उत्सूत्र कथक, मुखा
लह्या चोथे जंगे ॥ चे० ॥ ५ ॥ जाणे पण नवि आदरे, व्रत ऋयें नवि पाळे ॥
श्रेणिक प्रमुख जे समकिती, शासन अजुवाले ॥ चे० ॥ ६ ॥ जाणे पण
नवि आदरे, शीलादिक पाळे ॥ पंचानुत्तर सुरवरा, ठठो जेद निहाले ॥
चे० ॥ ७ ॥ जाणे अंगी आदरे, मुनि व्रत नवि पाळे ॥ गीतारथ प्रवचन ल
हे, सत्तम जेद विशाल ॥ चे० ॥ ८ ॥ जाणे पाळे आदरे, जिनमतना वेदी
॥ चउविह संघ जे सुविरति, अष्ठम जंग विनोदी ॥ चे० ॥ ९ ॥ पढम
चउजंगी मांहीला, मिथ्यात्वनिवासी ॥ परचउजंगी समकिती, श्री
जिनमतवासी ॥ चे० ॥ १० ॥ ए अडजंगी जावतां, विधिनें अनुसरतां ॥
ज्ञानविमल मति तेहनी, जिन आण धरंतां ॥ चे० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजीकृत चेतनबोधनी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ चेतन अब कहु चेतियें, ज्ञाननयन उघाडी ॥ समता सहजपणुं ऋ
जो, तजो ममता नारी ॥ चे० ॥ १ ॥ या दुनियां हे बाउरी, जेसें बाजीगर
वारी ॥ साथ कीसीके नां चले, जिवुं कुलटा नारी ॥ चे० ॥ माया तरुठा
या परें, न रहे स्थिरकारी ॥ जानत हे दिलमें जना, पण करत बिगारी
॥ चे० ॥ ३ ॥ मेरी मेरी तुं क्या करे, करे कोणशुं यारी ॥ पलटे एकही
पलकमें, जुं घन अंधियारी ॥ चे० ॥ ४ ॥ परमात्म अविचल ऋजो चिदा
नंद आकारी ॥ नय कहे नियत सदा करो, सब जन सुखकारी ॥ चे० ॥ ५ ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजीकृत आत्माने शीखनी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ माहुरा आत्म, एहिज शीख संजालो ॥ कांहि कुमति कुसंगति टालो रे
॥ मा० ॥ ए आंकणी ॥ सुगुरु सुदेव सुधर्म आदरजे, दोष रहित चित्त ध
रजे ॥ दोष सहित जाणी परिहरजे, जीवदया तुं करजे रे ॥ मा० ॥ १ ॥
पाठली राते वहेलो जागे, ध्यानतणे लय लागे ॥ लोक व्यवहारथकी मत

जागे, कष्ट पडे म म मागे रे ॥ मा० ॥ १ ॥ दुःख आवे पण धर्म म
मूके, कुल आचार म चूके ॥ धरती जोईने पग तुं मूके, पापें किमही म
ढूके रे ॥ मा० ॥ ३ ॥ सङ्गुकेरी शीख सुणीजें, आगमनो रस पीजें ॥
आली रीशें गाल न दीजे, आप वखाण न कीजे रे ॥ मा० ॥ ४ ॥ शक्तें व्रत
पञ्चखाण आदरियें, खान जोइ व्यय करियें ॥ पर उपकारें आगल थाये,
विधिशुं यात्रें जाये रे ॥ मा० ॥ ५ ॥ समकितमां मत करजे शंका, धर्म म
थाइश वांका ॥ ठंकी सत्त्व न थाये ए रंका, संतोष सोवन टंका रे ॥ मा०
॥ ६ ॥ किमही जूतुं वयण म जांखे, जिन जेटे लेइ आखे ॥ शीखरतन
रूढी परें राखे, हीणें दीण म दाखे रे ॥ मा० ॥ ७ ॥ समकित धर्म म
मूके ढीखो, व्यसनें म थाइश वीखो ॥ धर्म काजें थाये तुं पहेलो, एहिज
जसनो टीलो रे ॥ मा० ॥ ८ ॥ ज्ञानदेव गुरु साधारणनुं, ड्रव्य रखोपुं क
रजे ॥ पाखंकी अन्याय ताणुं ड्रव्य, संगति डूरें करजे रे ॥ मा० ॥ ९ ॥
विनय करे जे गुरुजन केरो, पंचपर्व चित्त धारे ॥ हीन महोदय अनुकं-
पायें, दुःखियानें साधारे ॥ मा० ॥ १० ॥ शक्ति पाखें म करीश मोटाइ,
शुचकामें न खोटाइ ॥ ढोडीजें चूगल चोढाने, मलवुं न दुष्टधी कांई रे ॥
मा० ॥ ११ ॥ धर्मकेत्रें निज धनने वावे, जिम आगल सुख पावे ॥ पर
निंदा निजमुखें मत व्वावे, आपे हीणुं जावे रे ॥ मा० ॥ १२ ॥ उदेरी
मत करजे लडाइ, आदरजे सरखाइ ॥ फुलाव्यो चित्त न धरे जडाइ, पा
मीश एम वडाइ रे ॥ मा० ॥ १३ ॥ विधिशुं समजी व्रत आदरजे, त्रण्य का
ल जिन पूजे ॥ बुध पूढीने उद्यम करजे, व्यसन अवश्य परिहरजे रे ॥ मा०
॥ १४ ॥ ज्ञानविमल गुरु सेवा करियें, तो जवसायर तरीयें ॥ शिवसुंदरी
नें सहेजें वरियें, शुद्धमारग अनुसरियें रे ॥ मा० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ जीवउपदेशनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ सहुको सुणजो रे, करम समो नहीं कोइ ॥ ए देशी ॥ चेतन चेतजो
रे, ए काल न मेहले केडो ॥ संबल शीघ्र साथें लेजो, कीनाश वसे ठे नेडो
॥ चे० ॥ १ ॥ ठायामिष करी ए नित्यें, ठल गवेषे ठानो ॥ अर्चित्यो आवी
पकडी जाशे, कांईक चडावी वानो ॥ चे० ॥ २ ॥ तनुरूख ए जीव वटेरो,
इठारामे रमतो ॥ क्रूर कीनाश ए शमली परें, लेई जाशे जमतो ॥
चे० ॥ ३ ॥ वाला बूढा गरजें हुता, यौवन वय लेइ जावे ॥ काचां पाकां

सघलां बेडां, एहने दया न आवे ॥ चे० ॥ ४ ॥ तुं जाणे परवारी जइशुं,
लोचा सघला थोइ ॥ हा हो करतां लेई जाशे, सहुको रहे एम जोइ ॥ चे०
॥ ५ ॥ तुं अमरपरे थिर थइ बेठो, लोचा वाले मूढ ॥ लखपति नरपति शेठ
सठवाह, तुज आगल केइ बूढ ॥ चे० ॥ ६ ॥ आज काल ने पोर परारें, धर्म
विलंबज करतो ॥ ऋण ऋण आयु उठो थाये, अंजलिजल जिम खरतो
॥ चे० ॥ ७ ॥ तारे तो रोहणमां गाजे, बहेरो थइने बेठो ॥ तुज आगल
केइ नर चाड्या, तुं ए पंथे पेठो ॥ चे० ॥ ८ ॥ वार कवार सुखी दुःखी ए,
न गणे एक ए टाणुं ॥ अवर रूठा ते दामें पाचे, नव ले एहनूं आणुं ॥
चे० ॥ ९ ॥ निश्चिंता नवि सुइयें प्राणी, जमनो जाऊो जोरो ॥ मातपिता
दिक जोतां लेहेशे, केहनो न चाले तोरो ॥ चे० ॥ १० ॥ समय थये चेत्यो
नहिं प्राणी, आवे आन बहु फूरे ॥ बुडतां वारे केहवी लागे, सायरनें जि
म पूरे ॥ चे० ॥ ११ ॥ रातदिवस चाले ए पंथें, क्रिणे न जाये कलियो ॥
थावच्चादिक ते मुनि चेत्या, तेहने ए जय टलियो ॥ चे० ॥ १२ ॥ पाणी प
हेदी पाल जे बांधे, ते जगमांहि बलिया ॥ घर लागे कूत्रो जे खोदे, ते मू
रखमां जलिया ॥ चे० ॥ १३ ॥ जराकृति जोवन ए ससलो, आहेडी जम
जाणो ॥ जिहां जाशे तिहां ए मारे, चित्तमां कां नवि आणो ॥ चे० ॥ १४ ॥
एहवुं जाणी धर्म आराधो, शुं करे ते जम बलियो ॥ वीरविमल गुरुशि
ष्य विशुऊ कहे, जइ शिवपुरमां जलियो ॥ चे० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री विशुऊविमलजीकृत जोवनअस्थिरनी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ जोजो रे ए जोवनियुं में, जाण्युं केइ दिन रहेशे रे ॥ घणा दिवसनी
प्रीतडी कांइ, जातुं मुजने कहेशे रे ॥ जो० ॥ १ ॥ जोवनवय जुवती रे
सरातो, धनकारण बहु धातो रे ॥ पुजलशुं निशि टिन रह्यो रातो, काल
न जाण्यो जातो रे ॥ जो० ॥ २ ॥ जाते रे इणे जोवनीयें, वली जरा राद
सी मेली रे ॥ सवे लोही चूशी लीये ए, तिलने जिम करे तेदी रे ॥ जो०
॥ ३ ॥ काला ते धोला थया ए, तननो जोरो जांगे रे ॥ इळा अंधेर
करी बहु वाधे, लोच पिशाच ते लागो रे ॥ जो० ॥ ४ ॥ श्रवणे कांहि
सुणे नही ए, आंखे पण नवि सूजे रे ॥ लाखोगमे लावो चूवे, मूरख तो
हि न बूजे रे ॥ जो० ॥ ५ ॥ दांत सवि मुखथी गया ए, हाथ पग नवि
हाले रे ॥ चित्त्यो काम ए नवि आवे, ए घरडपण बहु साले रे ॥ जो० ॥

॥६॥ सज्जन वर्ग सहू एम जांके, जड ते शुं ए जाणे रे ॥ लव लव करतो
 खाज नहीं ए, कोण गणे तृण तोले रे ॥ जो० ॥ ७ ॥ वंठ बहूरो इणपरें
 घोले, तातयाडीयो ताणो रे ॥ लाठी छेइ लूंमीने हांके, ए वृद्धतणां सुख
 माणो रे ॥ जो० ॥ ८ ॥ कटुक वचन सुणो एम श्रवणे, शिर धूणे बहु छूरे
 रे ॥ जरारें जीरण कस्यो ए, आंखे आंसु चूवे रे ॥ जो० ॥ ९ ॥ सात
 लला आवी अड्या ए, केहने जइने कहियें रे ॥ अवसर तो चेत्यो नहिं
 प्राणी, समतायें हवे सहियें रे ॥ जो० ॥ १० ॥ है है जन्म एलें गयो
 ए, खजन विण रंगशुं मोहियो रे ॥ पाप करी आणीने पोष्यो, नरजव
 एलें खोयो रे ॥ जो० ॥ ११ ॥ जाणंतां पण केइ जव प्राणी, करी जिम
 कचरे खूचे रे ॥ मोह महालाळें गुंथाणा, खेले मसक जिम गूचे रे ॥
 जो० ॥ १२ ॥ एहवुं जाणी चित्तमाहि आणी, पुण्य करो जवि प्राणी रे ॥
 जन्म जरा मरवुं नवि होवे, इम कहे केवल नाणी रे ॥ जो० ॥ १३ ॥ पं
 कित वीरविमल गुरु सेवक, विशुद्ध कहे चित्त धरजो रे ॥ ए संसार अ
 सार मन आणी, धर्म ते वहेलो करजो रे ॥ जो० ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीराजसमुद्रजी कृत वैराग्यनी सध्याय प्रारंभः ॥

॥ सुण वेहेनी पीयुडो परदेसी, आजके काल चलेसी रे ॥ कहे कोण मा
 हरी सार करेसी, कृण कृण विरहो दहेसी रे ॥ सु० ॥१॥ प्रेमविबुद्धो ने
 मदमातो, काल न जाण्यो जातो रे ॥ उचित आणुं आव्युं त्यां तो, रहीं न
 शक्यो रंग रातो रे ॥ सु० ॥ २ ॥ वाट विषम कोइ साथ न आवे, पियुडो
 एकलो जावे रे ॥ विण साथें कहो कृण पहुंचावे, आप कियो फल पावे रे
 ॥ सु० ॥ ३ ॥ जमशे पुर पुर मांहे एकीलो, जेम गलियामांहे घेवो रे ॥
 नवि जाणुं कित जाय रहेवो, विबुडे भिलणो दोहिलो रे ॥ सु० ॥४॥ पोते
 संवल साथ न लीधो, बीजे किणही न दीधो रे ॥ मूढ्य गमावे चढ्यो
 सब सीधो, एको काम न कीधो रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ प्रीतम विण हुं जइ रे वि
 रानी, किणही मन न सुहाणी रे ॥ पीयरकी में प्रीत पिढाणी, जलवल
 वार कहाणी रे ॥ सु० ॥६॥ वैरागी अंतर वैरागी, प्रीत सुणत नवि जागी
 रे ॥ राजसमुद्र जणे वडजागी, नारी विण सोज्जामी रे ॥ सु० ॥ ७ ॥

॥ अथ श्रीसुमतिविजयजीकृत आत्माने उपदेशनी सध्याय प्रारंभः ॥

॥ जीव वारुं तुं मोरा वालमा, परनारीधी प्रित मं जोड ॥ परनारीनी

सघलां बेडां, एहने दया न आवे ॥ चे० ॥ ४ ॥ तुं जाणे परवारी जइशुं,
लोचा सघला धोइ ॥ हा हो करतां लेई जाशे, सहुको रहे एम जोइ ॥ चे०
॥ ५ ॥ तुं अमरपरे थिर थइ बेठो, लोचा वाले मूढ ॥ लखपति नरपति शेठ
सहवाह, तुज आगल केइ बूढ ॥ चे० ॥ ६ ॥ आज काल ने पोर परारें, धर्मे
विलंबज करतो ॥ ऋण ऋण आयु उठो थाये, अंजलिजल जिम खरतो
॥ चे० ॥ ७ ॥ तारे तो रोहणमां गाजे, बहेरो थइने बेठो ॥ तुज आगल
केइ नर चाल्या, तुं ए पंथे पेठो ॥ चे० ॥ ८ ॥ वार कवार सुखी दुःखी ए,
न गणे एक ए टाणुं ॥ अवर रूठा ते दामें पाचे, नव ले एहनुं आणुं ॥
चे० ॥ ९ ॥ निश्चिंता नवि सुइयें प्राणी, जमनो जाऊो जोरो ॥ मातपिता
दिक जोतां लेहेशे, केहनो न चाले तोरो ॥ चे० ॥ १० ॥ समय थये चेत्यो
नहिं प्राणी, आवे आन बहु फूरे ॥ बुडतां वारे केहवी लागे, सायरनें जि
म पूरे ॥ चे० ॥ ११ ॥ रातदिवस चाले ए पंथें, क्णै न जाये कलियो ॥
थावच्चादिक ते मुनि चेत्या, तेहने ए जय टलियो ॥ चे० ॥ १२ ॥ पाणी प
हेली पाव जे बांधे, ते जगमांहि बलिया ॥ घर लागे कूवो जे खोदे, ते मू
रखमां जलिया ॥ चे० ॥ १३ ॥ जराकृति जोवन ए ससलो, आहेडी जम
जाणो ॥ जिहां जाशे तिहां ए मारे, चित्तमां कां नवि आणो ॥ चे० ॥ १४ ॥
एहनुं जाणी धर्म आराधो, शुं करे ते जम बलियो ॥ वीरविमल गुरुशि
ष्य विशुऊ कहे, जइ शिवपुरमां जलियो ॥ चे० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री विशुऊविमलजीकृत जोवनअस्थिरनी सद्योप प्रारंभः ॥

॥ जोजो रे ए जोवनियुं में, जाण्युं केइ दिन रहेशे रे ॥ घणा दिवसनी
प्रीतडी कांइ, जातुं मुऊने कहेशे रे ॥ जो० ॥ १ ॥ जोवनवय जुवती रे
सरातो, धनकारण बहु धातो रे ॥ पुजलशुं निशि दिन रह्यो रातो, काल
न जाण्यो जातो रे ॥ जो० ॥ २ ॥ जाते रे इणे जोवनीयें, वली जरा राह
सी मेली रे ॥ सवे लोही चूशी लीये ए, तिलने जिम करे तेदी रे ॥ जो०
॥ ३ ॥ कावा ते धोला थया ए, तननो जोरो चांगे रे ॥ इडा अंधेर
करी बहु वाधे, लोच पिशाच ते लागो रे ॥ जो० ॥ ४ ॥ श्रवणे कांहि
सुणे नही ए, आंखे पण नवि सूजे रे ॥ दाखोगमे दावो चूवे, मूरख तो
हि न बूजे रे ॥ जो० ॥ ५ ॥ दांत सवि मुखथी गया ए, हाथ पग नवि
हाले रे ॥ चिंत्यो काम ए नवि थावे, ए घरडपण बहु साले रे ॥ जो० ॥

॥६॥ सज्जन वर्ग सहू एम जामे, जड ते शुं ए जाणे रे ॥ लव लव करतो
 लाज नहीं ए, कोण गणे तृण तोले रे ॥ जो० ॥ ७ ॥ वंठ वहूरो इणपरें
 धोले, तातयाडीयो ताणो रे ॥ लाठी छेइ लूंमीने हांके, ए वृद्धतणां सुख
 माणो रे ॥ जो० ॥ ८ ॥ कटुक वचन सुणो एम श्रवणे, शिर धूणे बहु छूरे
 रे ॥ जरार्ये जीरण कस्यो ए, आंखे आंसु चूवे रे ॥ जो० ॥ ९ ॥ सात
 लला आवी अड्या ए, केहने जइने कहिये र ॥ अवसर तो चेल्यो नहिं
 प्राणी, समताये हवे सहिये रे ॥ जो० ॥ १० ॥ है है जन्म एले गयो
 ए, स्वजन विण रंगशुं मोहियो रे ॥ पाप करी आणीने पोष्यो, नरचव
 एले खोयो रे ॥ जो० ॥ ११ ॥ जाणंतां पण केइ चव प्राणी, करी जिम
 कचरे खूचे रे ॥ मोह महालाखें गूंथाणा, खेले मसक जिम गूचे रे ॥
 जो० ॥ १२ ॥ एहवुं जाणी चित्तमांहि आणी, पुण्य करो जवि प्राणी रे ॥
 जन्म जरा मरवुं नवि होवे, इम कहे केवल नाणी रे ॥ जो० ॥ १३ ॥ पं
 क्त वीरविमल गुरु सेवक, विशुद्ध कहे चित्त धरजो रे ॥ ए संसार अ
 सार मन आणी, धर्म ते वहेलो करजो रे ॥ जो० ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीराजसमुद्रजी कृत वैराग्यनी सध्याय प्रारंभः ॥

॥ सुण वेहेनी पीयुडो परदेसी, आजके काल चलेसी रे ॥ कहे कोण मा
 हरी सार करेसी, कृण कृण विरहो दहेसी रे ॥ सु० ॥ १ ॥ प्रेमविबुद्धो ने
 मदमातो, काल न जाण्यो जातो रे ॥ उचित आणुं आव्युं त्यां तो, रही न
 शक्यो रंग रातो रे ॥ सु० ॥ २ ॥ वाट विषम कोइ साथ न आवे, पियुडो
 एकलो जावे रे ॥ विण साथें कहो कृण पहुंचावे, आप कियो फल पावे रे
 ॥ सु० ॥ ३ ॥ जमशे पुर पुर मांहे एकीलो, जेम गलियामांहे घेलो रे ॥
 नवि जाणुं कित जाय रहेलो, विबुडे मिळणो दोहिलो रे ॥ सु० ॥ ४ ॥ पोते
 संबल साथ न लीधो, बीजे किणही न दीधो रे ॥ मूढ्य गमावे चट्यो
 सब सीधो, एको काम न कीधो रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ प्रीतम विण हुं चइ रे वि
 रानी, किणही मन न सुहाणी रे ॥ पीयरकी में प्रीत पिठाणी, जलवल
 ठार कहाणी रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ वैरागी अंतर वैरागी, प्रीत सुणत नवि जागी
 रे ॥ राजसमुद्र जणे वडजागी, नारी विण सोजागी रे ॥ सु० ॥ ७ ॥

॥ अथ श्रीसुमतिविजयजीकृत आत्माने उपदेशनी सध्याय प्रारंभः ॥

॥ जीव वारुं तुं मोरा वाखमा, परनारीथी प्रित म जोड ॥ परनारीनी

संगत नहिं जली, तारा कुलमां लागशे खोड ॥ जी० ॥१॥ जीव ए संसार
 ठे कारमो, दीसे ठे आलपंपाल ॥ जीव एहवुं जाणी चेतजे, आगल ना
 खी ठे जाल ॥ जी० ॥२॥ जीव मात पिता जाई वहेनडी, सहु कुटुंबतणो
 परिवार ॥ जीव वेती वारे सहु सगुं, पठे लांबा कीधा जुहार ॥ जी० ॥३॥
 जीव वेहली लगें सगुं आंगणुं, शेरी लगें सगी माय ॥ जीव सीम लगें
 साजन जलो, पठे हंस एकीलो जाय ॥ जी० ॥ ४ ॥ जीव जातां तो नवि
 जाणीया, नवि जाण्यो धार कुवार ॥ जीव गाडुं जरीयुं इंधणे, खोखरी हां
 रुली साथ ॥ जी० ॥५॥ जीव आठम पाखी न उलखी, बहुलां कीधां पाप ॥
 जीव सुमतिविजय मुनि एम जणे, जीव आवागमन निवार ॥ जी० ॥६॥

॥ अथ श्रीवीरकृत उपदेशनी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ रात दिवस काया मूढ पोषे रे, पठे अनंत दुःखी जीव होशे रे ॥ जीव
 जुजने हृदय विचारी रे, आंख मीची तो रुद्धि पीयारी रे ॥ १ ॥ एतो
 काया अमर न होइ रे, वीर वचन सुणो सहु कोइ रे ॥ एतो दूध दही देह
 ढाले रे, ए तो पाणी घणुं पखाले रे ॥ २ ॥ शण्णार तणे रस लागो रे,
 जीव निश्चें जाइश नागो रे ॥ पांचें इंद्रियनां सुख नवि ठोडे रे, धर्म स्थानक
 आलस मोडे रे ॥ ३ ॥ स्वाये खेले हसे मद आणे रे, जोला धर्मनुं नाम
 न जाणे रे ॥ पुत्रवंती धनने मोहे रे, घृत कारणे ते जल मोहे रे ॥ ४ ॥
 जीव धनने सघलो ध्यावे रे, पण पूरव दीधे पावे रे ॥ अतिलोच किहां न
 समावे रे, लाख कोड तृप्ति नवि थावे रे ॥ ५ ॥ सोनानी कुंगरी कीधी रे, नव
 नंदे साथें न क्षीधी रे ॥ च्यारे चोर कायाधकी टालो रे, सूधुं समकित शि
 यलव्रत पालो रे ॥ ६ ॥ तप करी काया अजुवालो रे, राग द्वेष वैरी दोय
 टालो रे ॥ एतो शीख चले जे कोई रे, तेने अविचल पदवी होई रे ॥ गुरु
 ज्ञानीने उपकारी रे, वीरवचन सुणो नर नारी रे ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजी कृत ते सुखीयानी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ तेतरीया जाइ तेतरीया ॥ ए देशी ॥ ते सुखिया जाइ ते सुखिया,
 जे परदुःखें दुःखिया जी ॥ परसुख देखी जे संतोषिया, जिणे जिन धर्म
 उलखिया जी ॥ ते ॥ १ ॥ ज्ञानादिक बहु गुणना दरिया, उपशमरस जल
 जरियाजी ॥ जे पाले नित सूधी किरिया, जवसायर ते तरिया जी ॥ ते ॥
 ३ ॥ दानतणे रंगें जे राता, शीखगुणें करी माता रे ॥ सवि जगजीवने

दिये जे शाता, पर वनिताना ज्ञाता रे ॥ ते० ॥ ३ ॥ जेणे ठांड्या घरना
 धंधा, जे परधन लेवा अंधा रे ॥ जे नवि बोले बोल निबंधा, तप तपवे जे
 जोधा रे ॥ ते० ॥ ४ ॥ परमेसर आगल जे साचा, जे पाले सूधी वाचा जी ॥
 धर्म कामे कवही नहि पाठा, जिनगुण गावे जाचा रे ॥ ते० ॥ ५ ॥ पापतणां
 दूषण सवि टाले, निजव्रत नित संजाले जी ॥ काम क्रोध वैरीने गाले,
 ते आतम कुल अजुवाले जी ॥ ते० ॥ ६ ॥ निशिदिन ईर्या सुमते चाले,
 नारी अंग न जाले जी ॥ शुक्ल ध्यानमांहे जे माले, तपह तपी कर्म गाले
 जी ॥ ते० ॥ ७ ॥ जे नवि बोले परनी निंदा, जीह अमीरस कंदा जी ॥ जे
 णे त्रोट्या जवना फंदा, तस देखत परम आनंदा जी ॥ ते० ॥ ८ ॥ जे पूजे
 चावें जिनइंदा, सौम्य गुणें जिन चंदा जी ॥ धर्मे धीर गुरु चिरनंदा, नय
 कहे हुं तस बंदा जी ॥ ते० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजीकृत पूर्वसेवालक्षण सधाय प्रारंभः ॥

॥ एकदिन दासी दोडती ॥ ए देशी ॥ राग काफ़ीनी देशी ॥ ज्यने
 कर्मना योगथी, चरम आवर्त्त अनुजाव रे ॥ पूर्वसेवा गुण उपजे, तेहने
 एह जमाव रे ॥ १ ॥ सुगुरुवाणी एम सांजलो ॥ ए आंकणी ॥ पूर्वसेवा
 तणा योगथी, सदाचारनो रंग रे ॥ देवगुरवादिक पूजना, मुक्ति अर्थे तप
 संग रे ॥ सु० ॥ २ ॥ जनक जननी कलाचार्यनी, एहनी जे वली ज्ञाति
 रे ॥ वृद्ध वली धर्म उपदेशका, एह गुरुवर्ग कहेवाती रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ न
 मन पूजन त्रिसंध्यें करे, आसनार्पण जस वाद रे ॥ अपयश तास नवि सां
 जले, नाम सुणी लहे आह्वाद रे ॥ सु० ॥ ४ ॥ सर्वदा तस इष्ट आवरे,
 करे अनिष्टनो त्याग रे ॥ तस धन विषमें जोडे नही, मरणें अनु अनुमति
 लाग रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ गुरुजन बिंबनी स्थापना, अर्चना तास उपगरण
 रे ॥ आप जोगें ते जोडे नही, एह गुरुवर्गनुं तरण रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ शौच
 श्रद्धान शुजवस्तुशुं, करे देवतणी जक्ति रे ॥ मुक्तिनी वासनायें वस्यो, उ
 द्दसे आतम शक्ति रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ यद्यपि वस्तुनिर्णय नथी, तोहे एम
 मति जाव रे ॥ विषयकषाय जित्यो जिणें, तेहिज जवजलनाव रे ॥ सु०
 ॥ ८ ॥ होये अधिक गुण आपमां, ईहियें अधिकता तोहि रे ॥ निर्गुण
 पर जन देखते, धरे छेष नवि कोइ रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ स्वक्रिया कार सवि
 लिंगीया, दीये पात्र परें दान रे ॥ निर्गुणीने पण देय तो, दिये नवि अप

संगत नहिं जली, तारा कुलमां लागशे खोड ॥ जी० ॥१॥ जीव ए संसार
 ठे कारमो, दीसे ठे थालपंपाल ॥ जीव एहवुं जाणी चेतजे, आगल ना
 खी ठे जाल ॥ जी० ॥२॥ जीव मात पिता जाई बहेनडी, सहु कुटुंबतणो
 परिवार ॥ जीव वेती वारे सहु सगुं, पढे लांबा कीधा जुहार ॥ जी० ॥३॥
 जीव देहली लगें सगुं आंगाणुं, शेरी लगें सगी माय ॥ जीव सीम लगें
 साजन जलो, पढे हंस एकीलो जाय ॥ जी० ॥ ४ ॥ जीव जातां तो नवि
 जाणीया, नवि जाण्यो धार कुवार ॥ जीव गाहुं जरीयुं इंधणे, खोखरी हां
 रुली साथ ॥ जी० ॥५॥ जीव आठम पाखी न उलखी, बहुलां कीधां पाप ॥
 जीव सुमतिविजय मुनि एम जणे, जीव आवागमन निवार ॥ जी० ॥६॥

॥ अथ श्रीवीरकृत उपदेशनी सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ रात दिवस काया मूढ पोषे रे, पढे अनंत दुःखी जीव होशे रे ॥ जीव
 जुठनें हृदय विचारी रे, आंख मीची तो रुद्धि पीयारी रे ॥ १ ॥ एतो
 काया अमर न होइ रे, वीर वचन सुणो सहु कोइ रे ॥ एतो दूध दही देह
 लाले रे, ए तो पाणी घणुं पखावे रे ॥ २ ॥ शणगार तणे रस लागो रे,
 जीव निश्चें जाइश नागो रे ॥ पांचें इंद्रियनां सुख नवि ठोडे रे, धर्म स्थानक
 आलस मोडे रे ॥ ३ ॥ स्वाये खेले हसे मद आणे रे, जोला धर्मनुं नाम
 न जाणे रे ॥ पुत्रवंती धनने मोहे रे, घृत कारणे ते जल मोहे रे ॥ ४ ॥
 जीव धनने सधलो ध्यावे रे, पण पूरव दीधे पावे रे ॥ अतिलोच किहां न
 समावे रे, लाख कोड तृप्ति नवि थावे रे ॥ ५ ॥ सोनानी कुंगरी कीधी रे, नव
 नंदे साथें न लीधी रे ॥ च्यारे चोर कायाधकी टालो रे, सूधुं समकित शि
 यलव्रत पालो रे ॥ ६ ॥ तप करी काया अजुवालो रे, राग द्वेष वैरी दोय
 टालो रे ॥ एतो शीख चले जे कोई रे, तेने अविचल पदवी होई रे ॥ गुरु
 ज्ञानीने उपकारी रे, वीरवचन सुणो नर नारी रे ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजी कृत ते सुखीयानी सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ तेतरीया जाइ तेतरीया ॥ ए देशी ॥ ते सुखिया जाइ ते सुखिया,
 जे परदुःखें दुःखिया जी ॥ परसुख देखी जे संतोषिया, जिणे जिन धर्म
 उलखिया जी ॥ ते ॥ १ ॥ ज्ञानादिक बहु गुणना दरिया, उपशमरस जल
 जरियाजी ॥ जे पावे नित सूधी किरिया, जवसायर ते तरिया जी ॥ ते ॥
 ३ ॥ दानतणे रंगें जे राता, शीखगुणें करी माता रे ॥ सवि जगजीवने

करे, आपे वचन विलास ॥ ४ ॥ (पाठातरे) मूरखने पंक्ति करे, एवी
तुऊ आख्यात ॥ वचन सुधारस पोषवा, वर दे शारद मात ॥ ४ ॥ शक्ति
नहिं सिंखातनी, बुद्धि नही खवलेश ॥ वचन विलास करी कहुं, ते
पण नहिं सुविशेष ॥ ५ ॥ पण मुऊ एक आधार ठे, सङ्गुरु तणो पसाय
॥ तस अनुजावें उपजे, वचन सदा सुखदाय ॥ ६ ॥ आगमना अनुस्र
रथी, आणी मन्न पवित्र ॥ पन्नर तिथि सात वारनां, पन्नणुं तेह चरित्र
॥ ७ ॥ जिम मृगनाद लीनो थको, निसुणे थइ एकरंग ॥ तिम सुणजो
त्रवियण तुमें, आणी चित्त अजंग ॥ ८ ॥

॥ अथ प्रतिपदानी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ कपूर होवे अति जजलो रे ॥ ए देशी ॥ पहेली तिथि एणी
परें वदे रे, सांजलो प्राणी सार ॥ एक धर्म जग आदरो रे, जाणी अघिर सं
सार रे प्राणी ॥ धरजो धर्मशुं राग, जिम पामो जवतागो रे ॥ प्राण॥ धण॥ ए
आंकणी ॥ १ ॥ दश दृष्टांते दोहिलो रे, मानवजव अवतार ॥ पामी धर्मने सह
हो रे, पामो जिम जयकारो रे ॥ प्राण॥ धण॥ २ ॥ धर्म वडो संसारमां रे, जांखे
श्री किरतार ॥ सुरमणिसम ए धर्म ठे रे, अंडवडियां आधारो रे ॥ प्राण ॥
धण॥ ३ ॥ धर्मथकी संपद मले रे, धर्मथकी नवनिधि ॥ धर्मथकी संकट टले
रे, धर्मथकी कृद्धि वृद्धि रे ॥ प्राण॥ धण॥ ४ ॥ जुठ धर्मप्रजावथी रे, चक्री जरत
नरेंद्र ॥ अजरामरपद शाश्वतां रे, पाम्यो परमाणंदो रे ॥ प्राण॥ धण॥ ५ ॥ जे
नर जिनधर्म पामीने रे, करशे प्रमाद लगार ॥ तो पडवे कहे नीवडो रे, पड
शे नरक मजारो रे ॥ प्राण॥ धण॥ ६ ॥ एम जाणी जत्रिजावशुं रे, कीजें अनु
त्तर धर्म ॥ विजय लब्धि सदा लहो रे, ठंकी मिथ्या जरमो रे ॥ प्राण॥ धण॥ ७ ॥

॥ अथ द्वितीयानी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल बीजी ॥ कोइलो पर्वत धुंधलो रे लो ॥ ए देशी ॥ बीज कहे जव्य
जीवने रे लो, निसुणो आणी रीऊ रे ॥ सुगुणनर ॥ सुकृतकरणी खेतमें रे
लो, वावो समकित बीज रे ॥ सुण॥ धरजो धर्मशुं प्रीतडी रे लो, करि निश्चय
व्यवहार रे ॥ सुण ॥ इहजवे परजवे जवोजवे रे लो, होवे ज्युं जग जयकार
रे ॥ सुण॥ धरण॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ किरिया ते खातर नांखियें रे लो, समिता
दिजें खेड रे ॥ सुण ॥ उपशम नीरं सींचीयें रे लो, जगे ज्युं समकित
ठोड रे ॥ सुण ॥ धण ॥ २ ॥ वाड करो संतोषनी रे लो, तस पांखळी चिहुं

मान रे ॥ सु० ॥ १० ॥ कृपण दीनांध कार्याक्षमी, पालनाशक्तिथी तास रे ॥
 आतुरे पथ्य दानादिकें, पोष्यवर्ग दयावास रे ॥ सु० ॥ ११ ॥ लोक अप
 वादें जय मन धरे, नवि करें दाननो जंग रे ॥ मनें लहे जवतणुं हेतु ठे,
 सदा दान आश्रवसंग रे ॥ सु० ॥ १२ ॥ ए सदाचार होये सहजनो,
 गुणजनशुं धरे राग रे ॥ निंदा गुणी तणी नवि करे, आपदें दैन्य नवि
 लाग रे ॥ सु० ॥ १३ ॥ संपदायें धरे नम्रता, प्रतिज्ञा करे निर्वाह रे ॥
 त्रिकुलविरुद्ध नवि आचरे, सत्य मितवचन प्रवाह रे ॥ सु० ॥ १४ ॥
 उत्तमकार्य ईहा धरे, वावरे ड्रव्य शुभगाम रे ॥ लोक अनुवृत्ति उचित क
 रे, तप करे करि मन ठाम रे ॥ सु० ॥ १५ ॥ पापसूदन ने चांडायणादिक,
 तप जप ने संन्यास रे ॥ कृद्द मृत्युघ्न प्रमुखा बहु, तप तणा जेद विलास
 रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ आदिथी धर्मनी योग्यता, चित्र जप मंत्र अचन्यास
 रे ॥ कर्मक्षयहेते सवि आदरे, एहिज मोक्ष आवास रे ॥ सु० ॥ १७ ॥
 मान अज्ञान मिथ्याविषे, नहिं जिहां एहवा जाव रे ॥ तेहिज मोक्ष चित्त
 भां धरे, जन्म मरण न संतापरे ॥ सु० ॥ १८ ॥ चार संजीवनीनी परें,
 होये कार्यनी सिद्धि रे ॥ मार्ग सुप्रवेश फल उदयथी, टले कपटनी बुद्धि
 रे ॥ सु० ॥ १९ ॥ जवसुख उत्कट वांठना, एह संसारनुं मूल रे ॥ आप
 उत्कर्ष माती रहे, ते पूर्वसेवा प्रतिकूल रे ॥ सु० ॥ २० ॥ पूर्वसेवाथी हुवे
 शिथिलता, मलकषायादि परिणाम रे ॥ जाग संक्लेश ते मल कह्यो, यो
 ग्यता जव परिणाम रे ॥ सु० ॥ २१ ॥ एहथी मार्ग अनुसारिता, गुणवृद्धि
 होये एम रे ॥ अपुनर्बधकता करे, धरे शुद्ध गुण प्रेम रे ॥ सु० ॥ २२ ॥
 ज्ञानविमल गुरु सेवना, तेहथकी एहवी वात रे ॥ सांजली अंगी जो
 आदरे, होये तोही सुख शात रे ॥ वधे निज गुणसुजात रे ॥ सु० ॥ २३ ॥

॥ अथ श्री लब्धिविजयजी कृत पत्रर तिथिनी पत्रर,

तथा सात वारनी सात सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ श्रीमजोडी जगधणी, दायक शिवगति जेह ॥ अक्षिय
 विघन डूरें हरे, टाले डुरित अठेह ॥ सुधादृष्टि होवे सदा, एहवी जे
 हनी दृष्टि ॥ उरग तजी सुरपति कस्यो, गिरुठ गुणें गरिष्ट ॥ २ ॥ जाविय
 पद पंकज सदा, हुं नित्य प्रणमुं तास ॥ सकल मनोरथ पूरवे, त्रेवीशमो
 जिन पास ॥ ३ ॥ जावें प्रणमुं चारती, पूरे पूरण आश ॥ मुखने पंकित

करे, आपे वचन विलास ॥ ४ ॥ (पाठातरे) मूरखने पंक्ति करे, एवी तुऊ आख्यात ॥ वचन सुधारस पोषवा, वर दे शारद मात ॥ ४ ॥ शक्ति नहिं सिंछातनी, बुद्धि नही खववेश ॥ वचन विलास करी कहुं, ते पण नहिं सुविशेष ॥ ५ ॥ पण मुऊ एक आधार ठे, सङ्गुरु तणो पसाय ॥ तस अनुज्ञावे उपजे, वचन सदा सुखदाय ॥ ६ ॥ आगमना अनुस्मरथो, आणी मन्न पवित्र ॥ पन्नर तिथि सात वारनां, पन्नणुं तेह चरित्र ॥ ७ ॥ जिम मृगनाद लीनो थको, निसुणे थइ एकरंग ॥ तिम सुणजो नवियण तुमें, आणी चित्त अजंग ॥ ८ ॥

॥ अथ प्रतिपदानी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ कपूर होवे अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ पहेली तिथि एणी पें वदे रे, सांजलो प्राणी सार ॥ एक धर्म जग आदरो रे, जाणी अधिर संसार रे प्राणी ॥ धरजो धर्मशुं राग, जिम पामो नवतागो रे ॥ प्राणाधण ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ दश दृष्टांते दोहिलो रे, मानवजव अवतार ॥ पामी धर्मने सह हो रे, पामो जिम जयकारो रे ॥ प्राणाधण ॥ २ ॥ धर्म वडो संसारमां रे, जांखे श्रीकिरतार ॥ सुरमणिसम ए धर्म ठे रे, अंडवडियां आधारो रे ॥ प्राण ॥ धण ॥ ३ ॥ धर्मथकी संपद मले रे, धर्मथकी नवनिधि ॥ धर्मथकी संकट टले रे, धर्मथकी कृद्धि वृद्धि रे ॥ प्राणाधण ॥ ४ ॥ जुळ धर्मप्रजावथी रे, चक्री नरत नरेंद्र ॥ अजरामरपद शाश्वतां रे, पाम्यो परमाणंदो रे ॥ प्राणाधण ॥ ५ ॥ जे नर जिनधर्म पामीने रे, करशे प्रमाद लगार ॥ तो पडवे कहे नीवडो रे, पड शे नरक मकारो रे ॥ प्राण ॥ धण ॥ ६ ॥ एम जाणी नविजावशुं रे, कीजें अनुत्तर धर्म ॥ विजय लब्धि सदा लहो रे, ठंकी मिथ्या नरमो रे ॥ प्राणाधण ॥ ७ ॥

॥ अथ द्वितीयानी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल बीजी ॥ कोइलो पर्वत धुंधलो रे लो ॥ ए देशी ॥ बीज कहे जव्य जीवने रे लो, निसुणो आणी रीऊ रे ॥ सुगुणनर ॥ सुकृतकरणी खेतमें रे लो, वावो समकित बीज रे ॥ सुण ॥ धरजो धर्मशुं प्रीतडी रे लो, करि निश्चय व्यवहार रे ॥ सुण ॥ इहजवे परजवे जवोजवे रे लो, होवे ज्युं जग जयकार रे ॥ सुणाधरण ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ किरिया ते खातर नांखियें रे लो, समिता दिजें खेड रे ॥ सुण ॥ उपशम नीरं सींचियें रे लो, ऊगे ज्युं समकित ठोड रे ॥ सुण ॥ धण ॥ २ ॥ वाड करो संतोषनी रे लो, तस पांखली चिहुं

ठोर रे ॥ सु० ॥ व्रत पञ्चस्काण चोकी ठवो रे लो, वारे थुं कर्मना चोर रे
 ॥ सु० ॥ ध० ॥ ३ ॥ अनुजव केरे फूलडे रे लो, महोरे समकित वृद्ध रे
 ॥ सु० ॥ श्रुतचारित्र फल उतरे रे लो, ते फल चाखौ शिद्ध रे ॥ सु० ॥
 ध० ॥ ४ ॥ ज्ञानामृत रस पीजीयें रे लो, स्वाद द्यो साम्यतांबूल रे ॥ सु०
 ॥ इणरसें संतोष पामशो रे लो, खेहशो जवनिधि कूल रे ॥ सु० ॥ ध० ॥
 ५ ॥ इणविध बीज तुमें सहहो रे लो, ठांकी राग नें छेष रे ॥ सु० ॥ केवल
 कमला पामीयें रे लो, वरियें मुक्तिविवेक रे ॥ सु० ॥ ध० ॥ ६ ॥ समकि
 त बीज ते सहहे रे लो, ते टाले नरकनिगोद रे ॥ सु० ॥ विजय लब्धि
 सदा लहे रे लो, नित नित त्रिविध विनोद रे ॥ सु० ॥ ध० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ तृतीयानी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ इरर आंबा आंबली रे ॥ ए देशी ॥ त्रीज कहे मुज
 उलखी रे, आदरो देवगुरुधर्म ॥ जन्म जरा मृत्युथी बुटो रे, टालो जव
 जय जर्म ॥ जविकजन, धरजो धर्मशुं राग ॥ जिन पामो जवनिधि ताग
 ॥ ज० ॥ ध० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ मोहिनी त्रणे परिहरो रे, राखो मन
 निःशब्द ॥ गारव त्रणे मत करो रे, ठंको त्रण्ये शब्द ॥ ज० ॥ ध० ॥ २ ॥
 मानव जत्रमां मोटकां रे, कहियां तीने रत्न ॥ ज्ञान दर्शन चारित्र अठे
 रे, तेहनुं करियें यत्न ॥ ज० ॥ ध० ॥ ३ ॥ ए त्रण्ये रत्नयोगथी रे, पामिये
 त्रिभुवन राज ॥ श्रीजगवंत शकारशे रे, सरशे वंठित काज ॥ ज० ॥
 ध० ॥ ४ ॥ त्रिवर्गनां सुख मेलवो रे, आणी त्रण्ये योग ॥ मन वचन
 कायायोगथी रे, टालो कर्मना रोग ॥ ज० ॥ ध० ॥ ५ ॥ त्रण गुप्ति सूधी
 धरे रे, जे नर त्रीज आराधि ॥ विजयलब्धि ते पामशे रे, दिन दिन सु
 ख समाधि ॥ ज० ॥ ध० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ चतुर्थीनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल चोथी ॥ कपूर हुवे अतिऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ चोथी कहे जवि
 सांजलो रे, माहारा गुण अजिराम ॥ जाहरी शीखें चालशो रे, तो खेशो
 मुक्तिनुं ठाम रे ॥ आणी, जिनवाणी धरो चित्त ॥ एतो आणी मन शुज
 रीत रे ॥ प्रा० ॥ जि० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ विकथा चारे परिहरो रे, प
 रिहरो चार कपाय ॥ कमारूपी धन संचियें रे, जवो जव पातक जाय रे
 ॥ प्रा० ॥ जि० ॥ १॥ त्रिगडे वेसी जिनवरे रे, जांख्यो चउविह धर्म ॥ दान

शियल तप जावना रे, ए चारे सुखनां हर्म्य रे ॥ प्रा० ॥ जि० ॥ ३ ॥ दानें
ते दोलत पामीयें रे, शीले जस सौजाग्य ॥ तप करी कर्म विनाशियें रे,
जावें जावठ जाग रे ॥ प्रा० ॥ जि० ॥ ४ ॥ जवनिधि पार उतारवा रे, ए चारे
नाव समान ॥ सकल पदारथ आपवा रे, ए चारे प्रगट निधान रे ॥ प्रा०
॥ जि० ॥ ५ ॥ इम जाणी पुण्य कीजीयें रे, सांजली सकुरु वाणी ॥ चिहुं
गतिनां दुःख टालिये रे, होवे कोडी कट्याण रे ॥ प्रा० ॥ जि० ॥ ६ ॥
चोथतणा गुण जाणीने रे, जे धरे चउ धर्मद्वार ॥ विजयलब्धि सदा लहे
रे, साधि पदारथ चार रे ॥ प्रा० ॥ जि० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ पंचमीनी सव्हाय प्रारंभ्यते ॥

॥ ढाल पांचमी ॥ जय जगनायक जगगुरु रे ॥ ए देशी ॥ पुनरपि पांच
म एम वदे रे, सांजलो प्राणी सुजाण ॥ श्री जिन अनुमतें चालीयें रे,
जिम लहियें सुखनी खाण ॥ १ ॥ जविक जन, धरजो धर्मशुं प्रीति ॥ ए
तो आणी मन शुजहीत ॥ ज० ॥ ध० ॥ ए आंकणी ॥ आश्रव पंच झूरें
हरी रे, कीजे संवर पंच ॥ पंच समिति शुज पालीनें रे, तुमें मेलो शिवव
धूसंच ॥ ज० ॥ ध० ॥ २ ॥ पंच सहाव्रत अनुसरी रे, पाखो पंच आचारा ॥
त्रिकरण शुद्धियें ध्यावजो रे, पंचपरमेष्ठी नवकार ॥ ज० ॥ ध० ॥ ३ ॥ स
मकित पंच अजुवालजो रे, धरजो चारित्र पंच ॥ पंच चूपणें पडिवजी,
टालो डूषण पंच खलखंच ॥ ज० ॥ ध० ॥ ४ ॥ मत करो पंच प्रमादने रे,
मत करो पंच अंतराय ॥ पंचमी तप शुज आदरो, जिम दिन दिन दो
लत थाय ॥ ज० ॥ ध० ॥ ५ ॥ पंचमी तप महिमा घणो रे, कहेतां नावे
पार ॥ वरदत्तनें गुणमंजरी, जुठ पाम्या जवनो पार ॥ ज० ॥ ध० ॥ ६ ॥
पांचमी एम आराधीयें रे, लहियें पंचम नाण ॥ वउद रज्ज्वारमक लोक
ना, एतो मनपद्यव शुज जाण ॥ ज० ॥ ध० ॥ ७ ॥ धनघाति कर्म खपाव
तां रे, वाजे हो मंगलशब्द ॥ पंचमी श्रुति अविचल लहे, तिहां सुख अ
नंत सुलब्ध ॥ ज० ॥ ध० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ षष्ठीनी सव्हाय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ इण विध पांचे तिथि जली, बोली शुज परिणाम ॥ एक
एकथी चढते गुणें, मनोहर ठे अजिराम ॥ १ ॥ ठी तणा गुण वर्णवुं,
मूकी रुन अजिमान ॥ हवे जवियण जावें करी, निसुणो थइ सावधान ॥

॥ १ ॥ ढाल ठठी ॥ जुंखडानी देशी ॥ ठठी कहे मुज उलखी रे, ठटको पा
पथी दूर ॥ सनेहा सांजलो ॥ ठकाय रक्षा कीजीये रे, होवे जुं सुख सनूर
॥ स० ॥ १ ॥ चार कषाय राग छेपने रे, नाखजो दूर विचारि ॥ स० ॥
ठण्ड डव्यने उलखी रे, पालो निरतिचार ॥ स० ॥ २ ॥ समकित शुरु
जगाविये रे, चांगिये दुःखनी वेडि ॥ स० ॥ मग रहो जिनधर्ममें रे,
नाखो कुगति उखेडि ॥ स० ॥ ३ ॥ ठठ थाराधो जावशुं रे, जवियण थइ
उजमाल ॥ स० ॥ जक्ति मुक्ति सदा लहो रे, होवे थुं मंगलमाल ॥ स० ॥
४ ॥ लडिध कहे साजन तुमें रे, म करो प्रमाद लगार ॥ स० ॥ दिन
दिन संपदा अजिनवी रे, होवे श्री श्रीकार ॥ स० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ सप्तमीनी सद्यय प्रारंजः ॥

॥ ढाल सातमी ॥ दूहारे जायो दीकरां, सोनारी हे ॥ ए देशी ॥ सा
तम कहे सात आतमा ॥ सुखकारी हे ॥ प्राणी राखीये सोय ॥ सदा सुख
कारी हे ॥ सुख आवे गर्व न कीजीये ॥ सु० ॥ दुःख आवे दीन न होय
॥ स० ॥ १ ॥ सात जय निवारिये ॥ सु० ॥ ठंनिये मिथ्या शंस ॥ स० ॥ सात
अमीरस कुंममां ॥ सु० ॥ जीवीये थइने हंस ॥ स० ॥ २ ॥ सातम दिन
साखेतेमें ॥ सु० ॥ वावीये डव्य विशेष ॥ स० ॥ सुकृतकर्षण उगीने ॥
सु० ॥ उपजे धान्य विवेक ॥ स० ॥ ३ ॥ वाड करो तुमें शीलनी ॥
सु० ॥ तस पांखडीचिहुं गोर ॥ स० ॥ चोकी ठवो सही धर्मनी ॥ सु० ॥
अघ कोल न करे जोर ॥ स० ॥ ४ ॥ मनरूपी माल बनाविये ॥ सु० ॥
वेसीये तिहां सावधान ॥ स० ॥ विरतिरूपी गोफणे करी ॥ सु० ॥ नाखि
ये गोला शान ॥ स० ॥ ५ ॥ दुष्कृत पंखी उकाडीये ॥ सु० ॥ करी निश्चय
व्यवहार ॥ स० ॥ पोंक आरोगिये पुण्यना ॥ सु० ॥ जवियण थइ हुशियार
॥ स० ॥ ६ ॥ सात नय जाण ॥ तुमें ॥ सु० ॥ तडूपी खलां वनाव ॥ स० ॥
करुणारस जल आणीने ॥ सु० ॥ सात नय खलां पिवराव ॥ स० ॥ ७ ॥
जीवदया सगटे जरी ॥ सु० ॥ सुकृत कर्षण सार ॥ स० ॥ संवर बलदनें जो
तरी ॥ सु० ॥ आणिये खला मजार ॥ स० ॥ ८ ॥ ध्यानरूपी थंज रोपीने
॥ सु० ॥ लणिये रूपक संयोग ॥ स० ॥ जिनआणा सही जावीये ॥ सु० ॥
हालरुआं अशोक ॥ स० ॥ ९ ॥ दुःखरूपी वूरां जाटकी ॥ सु० ॥ नाखिये दूर
सुजाण ॥ स० ॥ आतमवल जंकारमें ॥ सु० ॥ जरजो सुकृत ध्यान ॥ स० ॥

॥१०॥ इहन्नव परन्नव न्नवोन्नवे ॥सु०॥ पामियें सुख विचित्र ॥स०॥ संतोप
राखी आतमा ॥ सु० ॥ कीजे पुण्य पवित्र ॥ स० ॥११॥ लब्धि कहे नवि
शुण विधे ॥ सु० ॥ आदरे प्राणी जेह ॥ स० ॥ सात रज्ज्वातम जेदीनें
॥ सु० ॥ सधि सुख लेहेशे तेह ॥ स० ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ अथाष्टमीनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ हरिया मन लागो ॥ ए देशी ॥ आठम कहे आठ मदनो, प्राणी
मूको ते ठाम रे ॥ नवियण हित धरी ॥ आठ प्रकारे आतमा, लंखलो
तुमें अन्निराम रे ॥ ज० ॥ १ ॥ पडिक्कमणां पोपा करी, तोडो दुःखना
वर्ग रे ॥ ज० ॥ समिति गुति सूधां धरी, मेलो सुख अपवर्ग रे ॥ ज० ॥
२ ॥ अष्ट महागुण सिद्धना, ध्यावो ते निश दीस रे ॥ ज० ॥ अष्ट महा
सिद्ध संपजे, प्होंचे मनह जगीश रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ जिनदेवनी करो हा
जरी, दिख पाक करी मन कोड रे ॥ ज० ॥ सनरूपी घोडो बनावीये,
गुरुज्ञान लगाम जोड रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ शीलनी पाखर नाखीयें, तपरूपी
खज लेह हाथ रे ॥ ज० ॥ क्कमा बक्कर पेहेरीनें, ध्यान कबाण सलोथ रे
॥ ज० ॥ ५ ॥ विरति तीर चलावीनें, अष्ट करम मद मोडि रे ॥ ज० ॥ विषय
कषाय जे आकरा, तेहनां ते मस्तक तोडि रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ श्रीजिन आगल
आवीने, मुजरो करो कर जोडि रे ॥ ज० ॥ श्रीजिन केरा पसायथी, मोह
शहरे जाठ दोडी रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ आठम दिन शुभ जाणीनें, धर्मनां करि
यें वखाण ॥ ज० ॥ कपटनो कोट उमाडियें, वाजे थुं जीतनिशान ॥ ज० ॥
८ ॥ एणपरें अष्टमी जावशुं, आदरे प्राणी जेह रे ॥ ज० ॥ लब्धि कहे
नवि तस घरे, प्रगटी पुण्यनी रेह रे ॥ ज० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ नवमीनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ बन्यो रे विद्याजीनो कलपडो ॥ ए देशी ॥ जीरे नवमी कहे नमीयें
सदा, एतो श्रीजिनकेरां विंव हो विशेष ॥ नव अंगे पूजा बनावीयें, एतो
मूकी मननो दंज हो ॥ विशेष ॥ १ ॥ नवियण शुभचारें करी ॥ ए आंकणी ॥
ठंनो विषयकषाय अतीव हो ॥ वि० ॥ स्नात्र महोत्सव कीजीयें, एतो दीजें
दान सदीव हो ॥ वि० ॥ २ ॥ शाजीरे पूजा नक्ति प्रजावना, करि रोपे जे
कीर्ति थंज हो ॥ वि० ॥ सुख अनंतां ते वरे, तस जस जणे सुर रंग हो ॥
वि० ॥ ३ ॥ जिरे जिन आगें स्तवना जावशुं, एतो जे करे नाटारंज

हो ॥ वि० ॥ लाज अनंतो जिन जणे, जुड महिमा जाव अचंज हो ॥ वि०
 ॥ ज० ॥ ४ ॥ जिरे जिन स्तवना गुण गावतां, एतो समकित होये उद्योत
 हो ॥ वि० ॥ लंकापति रावणपरें, एतो बांधी तीर्थकर गोत हो ॥ वि० ॥
 ज० ॥ ५ ॥ जिरे अरिहंत जक्ति प्रजावधी, एतो जाये जवनां पाप हो ॥
 वि० ॥ जिरे नव निधान सुख संपजे, वंली होवे युं अधिक प्रताप हो ॥
 वि० ॥ ज० ॥ ६ ॥ जिरे नवपद ध्यान सदा धरी, एतो पालीयें नवविध
 शील हो ॥ वि० ॥ नव नोकषायने परहरी, एतो लहीयें सुखनी लील
 हो ॥ वि० ॥ ज० ॥ ७ ॥ जिरे नवतत्वने उलखी, एतो पामी मनुष्य अ
 वतार हो ॥ वि० ॥ शत्रु मित्र सरिखा गणो. एतो सकल जंतु निर्धार
 हो ॥ वि० ॥ ज० ॥ ८ ॥ जिरे उपकार ते कीजीयें, एतो टालियें परनी
 पीड हो ॥ वि० ॥ नवमीयें नवपुण्य अनुसरी, एतो ज्ञांगीये जवनी ज्ञी
 ड हो ॥ वि० ॥ ज० ॥ ९ ॥ जिरे इणविध नवमी प्रमोदजुं, एतो आदरे
 प्राणी जेह हो ॥ वि० ॥ लब्धिविजय रंगें करी, एतो शिवसुख लेहशे
 तेह हो ॥ वि० ॥ ज० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ अथ दशमीनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ रोस जणे हरि उठीयें ॥ ए देशी ॥ दशमीयें दुषमन वारियें, काम
 क्रोध मद जोर रे ॥ दशविध यति धर्म आचरी, कापीयें दुःखतणी दोर
 रे ॥ बाल सुरंगा रे आतमा ॥ बहियें धर्मनी होर रे, प्रगटे पुण्यनो तोर
 रे, लहियें मुक्तिनुं गोर रे, बाधे जस चिहुं उर रे ॥ ला० ॥ १ ॥ दशविध
 विनयने अच्यसी, तोडीयें मोहजंजाल रे ॥ दशविध मिथ्यात्व परहरी,
 ठंभियें आलपंपाल रे ॥ ला० ॥ मेलीयें सुकृतमाल रे, प्रगटे ज्ञाग्य विशाल
 रे, होवे संगलमाल रे, लहियें सुख ततकाल रे ॥ ला० ॥ २ ॥ त्रस थावर
 सर्व जीवने, संज्ञा कही तस रंग रे ॥ ते संज्ञा प्रत्ये उलखी, कीजें गुरुनो
 प्रसंग रे ॥ ला० ॥ संज्ञा धर्म न चंग रे, राखीयें चित्त अजंग रे, सुखत
 टिनी वहे अंग रे, उलटे ज्युं गंगरंग रे ॥ ला० ॥ ३ ॥ दशविध प्राण
 त्रस जीवने, जांखे जिनवर वीर रे ॥ ते दश प्राण तुं पामीनें, धरियें
 मन दया धीर रे ॥ ला० ॥ दशविध सुख शरीर रे, हरियें दश विध पीर रे,
 तोडीयें दुःखजंजीर रे, पामीयें जवोदधि तीर रे ॥ ला० ॥ ४ ॥ दश पञ्च
 स्काण सिद्धांतमें, पाट्यां ठे सहि बोल रे ॥ तेहमं नित्य एक जावगुं, करे

पञ्चस्काण अमोल रे ॥ ला० ॥ जाण लाज अतोदरे, मुक्तिशुं करि बंध
कोल रे, लब्धि जणे दिल खोल रे, वाजे जीतना ढोल रे ॥ ला० ॥ ५ ॥

॥ अथैकादशीनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ इम दशतिथि अधिकार अथ, किंचित् कह्यो चरित्र ॥ शा
स्त्र तणा अनुसारथी, वर्णन करी विचित्र ॥१॥ हवे एकादशितिथि तणा,
हे सूरिजन माहाराज ॥ त्रिकरण करीनें आतमा, निसुणो थइ मृगराज
॥२॥ ढाल ॥ नथरो नगीनो माहरो ॥ ए देशी ॥ हवे एकादशी इम वदे,
जविजन ठंकीयें विषयासत्त हो ॥ वसन उढो निर्विकारनां ॥ ज० ॥ जेह
नी ठे सबल प्रतीत हो ॥ १ ॥ गुणना रागी जवी, अवगुण त्यागी सही
होश्यें ॥ ज० ॥ पामी मनुजव संत हो ॥ ए आंकणी ॥ ध्यान तणी अंगी
ठिका ॥ ज० ॥ जोजन तिम संतोष हो ॥ आसव समता पीवतां ॥ ज० ॥
करजो काया पोष हो ॥ गुण० ॥ अ० ॥ १ ॥ मायानिशा डूरें कीजीयें ॥ ज० ॥
शुरू स्वजावें क्षीण हो ॥ तैलाज्यंग तिम उदासीनता ॥ ज० ॥ श्रुत तंबोल
प्रवीण हो ॥ गु० ॥ अ० ॥ ३ ॥ उंचा महेल विवेकना ॥ ज० ॥ वास करो तेह
मांहे हो ॥ अग्यार बोले ते धारियें ॥ ज० ॥ रसपोषण ठे जेह हो ॥ गु० ॥
अ० ॥ ४ ॥ अग्यार अंग रस सांजली ॥ ज० ॥ प्रतिमा वहो अग्यार हो ॥
कर्म कठिन दूरें करी ॥ ज० ॥ लहियें युं मुक्ति डुवार हो ॥ गु० ॥ अ० ॥ ५ ॥
एकादशी तप कीजियें ॥ ज० ॥ एक एकादश वर्ष हो ॥ अग्यार अंग वा
चक होवे ॥ ज० ॥ पामियें सुजस हर्ष हो ॥ गु० ॥ अ० ॥ ६ ॥ इणविध
जवियण आदरो ॥ ज० ॥ जाणो एकादशी सार हो ॥ लब्धि कहे जवि
सांजलो ॥ ज० ॥ होवे ज्युं जवनिस्तार हो ॥ गु० ॥ अ० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ द्वादशीनी सधाय प्रारंभः ॥

रहो रहो बालहा ॥ ए देशी ॥ द्वादशी कहे जविजावशुं, कीजें धर्मनी
गोठ लाल रे ॥ विण दामें रस लीजीयें, जिम साकरनी जरी पोठ लाल रे
॥ १ ॥ जावे जवियण सांजलो ॥ ए आंकणी ॥ बारशें बार उपांगना, नि
सुणो जे कह्या बोल लाल रे ॥ स्वाद ह्यो अमृत तेहना, टाली जडत,
निटोल लाल रे ॥ ज० ॥ २ ॥ बारे व्रत जवि उच्चरी, मेळीयें सुकृत माल
लाल रे ॥ कर्म मलीन डूरें करी, आवक कुल अजुवाल लाल रे ॥
ज० ॥ ३ ॥ बारे जेदें तप जे अठे, आदरो ठंकी क्रोध लाल रे ॥ बारे

हो ॥ वि० ॥ लाज अनंतो जिन ज्ञणे, जुड महिमा ज्ञाव अचंज हो ॥ वि०
 ॥ ज० ॥ ४ ॥ जिरे जिन स्तवना गुण गावतां, एतो समकित होये उद्योत
 हो ॥ वि० ॥ लंकापति रावणपरें, एतो बांधी तीर्थकर गोत हो ॥ वि० ॥
 ज० ॥ ५ ॥ जिरे अरिहंत जक्ति प्रज्ञावथी, एतो जाये जवनां पाप हो ॥
 वि० ॥ जिरे नव निधान सुख संपजे, वंली होवे युं अधिक प्रताप हो ॥
 वि० ॥ ज० ॥ ६ ॥ जिरे नवपद ध्यान सदा धरी, एतो पालीयें नवविध
 शील हो ॥ वि० ॥ नव नोकषायने परहरी, एतो लहीयें सुखनी लील
 हो ॥ वि० ॥ ज० ॥ ७ ॥ जिरे नवतत्त्वने उंलखी, एतो पामी मनुष्य अ
 वतार हो ॥ वि० ॥ शत्रु मित्र सरिखा गणो, एतो सकल जंतु निर्धार
 हो ॥ वि० ॥ ज० ॥ ८ ॥ जिरे उपकार ते कीजीयें, एतो टालियें परनी
 पीड हो ॥ वि० ॥ नवमीयें नवपुण्य अनुसरी, एतो ज्ञांगीये जवनी ज्ञी
 ड हो ॥ वि० ॥ ज० ॥ ९ ॥ जिरे झणविध नवमी प्रमोदजुं, एतो आदरे
 प्राणी जेह हो ॥ वि० ॥ लब्धिबिजय रंगें करी, एतो शिवसुख लेहशे
 तेह हो ॥ वि० ॥ ज० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ अथ दशमीनी सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ रोष ज्ञणे हरि उठीयें ॥ ए देशी ॥ दशमीयें दुषमन वारियें, काम
 क्रोध मद जोर रे ॥ दशविध यति धर्म आचरी, कापीयें दुःखतणी दोर
 रे ॥ लाल सुरंगा रे आतमा ॥ लहियें धर्मनी होर रे, प्रगटे पुण्यनो तोर
 रे, लहियें मुक्तिनुं गोर रे, बांधे जस चिहुं उर रे ॥ ला० ॥ १ ॥ दशविध
 विनयने अच्यसी, तोडीयें मोहजंजाल रे ॥ दशविध मिथ्यात्व परहरी,
 ठंक्रियें आलपंपाल रे ॥ ला० ॥ मेलीयें सुकृतमाल रे, प्रगटे ज्ञान्य विशाल
 रे, होवे मंगलमाल रे, लहियें सुख ततकाल रे ॥ ला० ॥ २ ॥ त्रस थावर
 सर्व जीवने, संज्ञा कही तस रंग रे ॥ ते संज्ञा प्रत्ये उंलखी, कीजें गुरुनो
 प्रसंग रे ॥ ला० ॥ संज्ञा धर्म न चंग रे, राखीयें चित्त अजंग रे, सुखत
 टिनी वहे अंग रे, उलटे ज्युं गंगरंग रे ॥ ला० ॥ ३ ॥ दशविध प्राण
 त्रस जीवने, ज्ञांखे जिनवर वीर रे ॥ ते दश प्राण तुं पामीनं, धरियें
 मन दया धीर रे ॥ ला० ॥ दशविध सुख शरीर रे, हरियें दश विध पीर रे,
 तोडीयें दुःखजंजीर रे, पामीयें ज्ञानोदधि तीर रे ॥ ला० ॥ ४ ॥ दश पञ्च
 रूपाण सिद्धांतमें, पाट्यां ठे सहि बोल रे ॥ तेहमं नित्य एक ज्ञावजुं, करे

पञ्चस्काण अमोल रे ॥ ला० ॥ जाण लाज अतोले रे, मुक्तिशुं करि वंध
कोल रे, लब्धि जणे दिल खोल रे, वाजे जीतना ढोल रे ॥ ला० ॥ ५ ॥

॥ अथैकादशीनी सद्याय प्रारंजः ॥

॥ दोहा ॥ इम दशतिथि अधिकार अथ, किंचित् कह्यो चरित्र ॥ शा
स्त्र तणा अनुसारथी, वर्णन करी विचित्र ॥१॥ हवे एकादशितिथि तणा,
हे सूरिजन माहाराज ॥ त्रिकरण करीनें आतमा, निसुणो थइ मृगराज
॥२॥ ढाल ॥ नथरो नगीनो माहरो ॥ ए देशी ॥ हवे एकादशी इम वदे,
जविजन ठंभीयें विषयासत्त हो ॥ वसन उढो निर्विकारनां ॥ ज० ॥ जेह
नी ठे सबल प्रतीत हो ॥ १ ॥ गुणना रागी जवी, अत्रगुण त्यागी सही
होश्यें ॥ ज० ॥ पामी मनुजव संत हो ॥ ए आंकणी ॥ ध्यान तणी अगी
ठिका ॥ ज० ॥ जोजन तिम संतोष हो ॥ आसव समता पीवतां ॥ ज० ॥
करजो काया पोष हो ॥ गुण० ॥ अ० ॥१॥ मायानिशा डूरें कीजीयें ॥ ज० ॥
शुरू स्वजावें क्षीण हो ॥ तैलाज्यंग तिम उदासीनता ॥ ज० ॥ श्रुत तंवोल
प्रवीण हो ॥ गु० ॥ अ० ॥ ३ ॥ उंचा महेल विवेकना ॥ ज० ॥ वास करो तेह
माहे हो ॥ अग्यार बोले ते धारियें ॥ ज० ॥ रसपोषण ठे जेह हो ॥ गु० ॥
अ० ॥ ४ ॥ अग्यार अंग रस सांजली ॥ ज० ॥ प्रतिमा व्हो अग्यार हो ॥
कर्म कठिन दूरें करी ॥ ज० ॥ लहियें युं मुक्ति डुवार हो ॥ गु० ॥ अ० ॥ ५ ॥
एकादशी तप कीजियें ॥ ज० ॥ एक एकादश वर्ष हो ॥ अग्यार अंग वा
चक होवे ॥ ज० ॥ पामियें सुजस हर्ष हो ॥ गु० ॥ अ० ॥ ६ ॥ इणविध
जवियण आदरो ॥ ज० ॥ जाणो एकादशी सार हो ॥ लब्धि कहे जवि
सांजलो ॥ ज० ॥ होवे ज्युं जवनिस्तार हो ॥ गु० ॥ अ० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ द्वादशीनी सद्याय प्रारंजः ॥

रहो रहो बालहा ॥ ए देशी ॥ द्वादशी कहे जविजावशुं, कीजें धर्मनी
गोठ लाल रे ॥ विण दामें रस लीजीयें, जिम साकरनी जरी पोठ लाल रे
॥ १ ॥ जावे जवियण सांजलो ॥ ए आंकणी ॥ वारशें वार उपांगना, नि
सुणो जे कह्या घोस लाल रे ॥ स्वाद स्यो अमृत तेहना, टाली जडत,
नितोल लाल रे ॥ ज० ॥ २ ॥ वारे व्रत जवि उच्चरी, मेळीयें सुकृत माल
लाल रे ॥ कर्म मलीन डूरें करी, आवक कुल अजुवाल लाल रे ॥
ज० ॥ ३ ॥ वारे जेदें तप जे अठे, आदरो ठंभी क्रोध लाल रे ॥ वारे

जावना जावियें, वारियें ममता विरोध लाल रे ॥ जा० ॥ ४ ॥ कुरस व
चन कहेतां थकां, दिवस तणुं तप जाय लाल रे ॥ अधिक खीजंतां मास
नुं, तप तप्युं निःफल थाय लाल रे ॥ जा० ॥ ५ ॥ शाप दियंतां वर्षनुं, तप
जाये सुणो धीर लाल रे ॥ हणतां श्रमणपणुं हणो, एणी परें बोले वीर
लाल रे ॥ जा० ॥ ६ ॥ श्रीजिनवरें हो वर्षावी, जिस्कुप्रतिमा वार लाल
रे ॥ ते तुमें ज्रवियण पडिवज्जी, पाळियें शुद्ध आचार लाल रे ॥ जा० ॥
७ ॥ इणविध जे नर द्वादशी, आदरे शुभ परिणाम लाल रे ॥ ते नर वं
ठित पामशे, शाश्वतां सुख अजिराम लाल रे ॥ जा० ॥ ८ ॥ द्वादशी जेह
आराधशे, धरशे जिनशुं राग लाल रे ॥ लब्धिविजय कहे ते नरा, पाम
शे जवनो जाग लाल रे ॥ जा० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ त्रयोदशीनी सद्यय प्रारंभः ॥

॥ रंगरो रे रसीया रे फुल गुलावरो ॥ ए देशी ॥ ते रस श्रोता आगळें,
जाखे मन आढहाड हे ॥ श्रीजिनवाणी सांजळी, ते रस चाखो स्वाद हे
॥ १ ॥ रसिया रे सूरिजन जावें हे सांजलो ॥ श्री जिन चिंव जरावियें,
कीजें जिन प्रासाद हे ॥ ज्ञानजक्ति सवि साचवी, ते रस चाखो स्वाद
हे ॥ २ ॥ काठोया तेरे परहरी, कीजें नव पद याद हे ॥ समकित
वास सदा लही, ते रस चाखो स्वाद हे ॥ ३ ॥ श्रीजिन अनुमति
चाळियें, तजीयें मिथ्यावाद हे ॥ अनुभव रूपी शेलडी, ते रस चाखो
स्वाद हे ॥ ४ ॥ तेरमे गुणगणे संचरी, शुक्तिध्यान प्रसाद हे ॥
केवल कमळा पाक्षीले, ते रस चाखो स्वाद हे ॥ ५ ॥ ते रसना गुण
जाणीनें, जे नर तजशे प्रमाद हे ॥ ते नरना गुण बोलशे, सुर नर अमृत
वाद हे ॥ ६ ॥ शुभजावें सुकृतपणे, तेरशगुण आराधि हे ॥ लब्धि
विजय कहे नेहशुं, लहियें सुख समाधि हे ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ चतुर्दशीनी सद्यय प्रारंभः ॥

॥ प्यारी ते पीयुने विनवे हों राज ॥ ए देशी ॥ हवे चउदशतिथि
इम वरे रे हां, एतो सांजलो चतुर सुजाण ॥ ज्रवियां जावशुं ॥ श्रुत सि
झांतना बोलजे रे हां, एतो ते करो वचन प्रमाण ॥ १ ॥ वडना
कुसुम तणी परें रे हां, एतो दोहिलो मनु अवतार ॥ २ ॥ आर्यदेश
पण दोहिलो रे हां, एतो दोहियुं श्रावक कुल सार ॥ ३ ॥ अरु

ते पण दोहिली रे हां, एतो दोहिलो ज्ञानसंयोग ॥ ज० ॥ दोहिली
जिननी सेवना रे हां, एतो दोहिलो मननो योग ॥ ज० ॥ ३ ॥ ए सवि
दुर्लभ पामवां रे हां, जिम रयणतणे दृष्टांत ॥ ज० ॥ ते तुम पुण्यप्रजाव
थी रे हां, एतो पाम्यो मनुजव संत ॥ ज० ॥ ४ ॥ पामी चउदश तप त
णो रे हां, एतो खप करो मननें प्रमोद ॥ ज० ॥ चौद नियम संभारजो
रे हां, एतो संक्षेपजो तिम चौद ॥ ज० ॥ ५ ॥ चौद पूरवना ज्ञान्यथी रे
हां, एतो चौदमे चढे गुणठाण ॥ ज० ॥ अंतगड केवली होथे रे हां, ए
तो अक्षर पंच प्रमाण ॥ ज० ॥ ६ ॥ चौद जुवन ए लोकनां रे हां, एतो
देखी जाणे ज्ञाव ॥ ज० ॥ चौद रज्ज्वात्मक जेदीने रे हां, एतो शिव
सुख ते नित्य पाव ॥ ज० ॥ ७ ॥ चौद लाख मनु योनिना रे हां, एतो
बूटीयें दुःखथी जीव ॥ ज० ॥ इम जाणी चउदश आदरो रे हां, एतो
दिल करि ज्ञाव अतीव ॥ ज० ॥ ८ ॥ चउदशना गुण सांजली रे हां,
धरियें सुविहित बुध ॥ ज० ॥ लब्धिविजय रंगें करी रे हां, एतो लहियें
रुद्धि समृद्धि ॥ ज० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ पूर्णिमानी सव्याय प्रारंभ ॥

॥ सुडला संदेशो रे कहे माहरा पूज्यनें रे ॥ ए देशी ॥ पूनम कहे ज
व्य जीवने रे, सांजलो सजुरु वाणी रे ॥ अथिर तन धन आउखुं रे, जलबु
हुद परें जाण रे ॥ जावे हे जवियण सांजलो ॥ ए आंकणी ॥१॥ असार स
सारने पेखीनें रे, धर्मशुं धरो प्रतिबंध रे ॥ वांधव सयण ए जाणजो रे,
स्वार्थचूत संबंध रे ॥ जा० ॥ १ ॥ सकल कुटुंबने पोषवा रे, जे नर करेय
ढे पाप रे ॥ तेह तणां रे फल दोहिलां रे, सहेशे ते एकलो आप रे ॥
जा० ॥ २ ॥ जिम मृग तृष्णानें कारणें रे, जमतो रणमां धाय रे ॥ जमे
पढे ए जीवडो रे, जव जव दुःखीयो धाय रे ॥ जा० ॥ ४ ॥ ए धन घरणी
ए धामने रे, कांइ न ले गयो साथ रे ॥ जिहां जइनें जीव उपनो रे,
तिहां सहि होये तेहनें हाथ रे ॥ जा० ॥ ५ ॥ इम जाणीनें धर्म कीजो
यें रे, टाली ते विषय विकार रे ॥ दिन दिन दोखत अजिनवी रे, पामि
यें हर्ष अपार रे ॥ जा० ॥ ६ ॥ पूरण जीवितव्य पामीनें रे, आदरो पूरण
धर्म रे ॥ पूरण शांत स्वजावथी रे, पूरण ठेदो ए कर्म रे ॥ जा० ॥ ७ ॥
पूरण जन्म जरायकी रे, पूरण बूटीयें दुःख रे ॥ पूरण लीला पामीयें रे,

पूरण सुर नर सुख रे ॥ जा० ॥ ७ ॥ पूरण पन्नर सिद्धना रे, जाणियें पूरण
 ण जेद रे ॥ पूरण पन्नर योगना रे, ते पण जावनिर्वेद रे ॥ जा० ॥ ८ ॥
 पन्नर जातिनां चांखियां रे, परमाधामी जोर रे ॥ ते पण दुःखथकी बूटी
 यें रे, टाळी ते कर्म अघोर रे ॥ जा० ॥ १० ॥ पन्नर कर्म चूमि उलखी रे,
 ठेगो कषाय ते शोख रे ॥ जवियण दिन दिन पामीयें रे, संपदा पुण्यरंग
 रोल रे ॥ जा० ॥ ११ ॥ जिम शशी शोखकला सही रे, जांखे जिनवर वाच रे
 ॥ तिम ए धर्मकला शशी रे, पामीयें जगतमां साच रे ॥ जा० ॥ १२ ॥
 पूरणमासी ए जाणीने रे, जे सही करशे ए पुण्य रे ॥ विजयलब्धि ते
 पामशे रे, दिन दिन निज सुखतन्न रे ॥ जा० ॥ १३ ॥ आठम चउदश
 पूर्णिमा रे, अंग उपांगें अधिकार रे ॥ जिनवरे कहियो महानिशीथमां
 रे, बीजप्रमुखनो विचार रे ॥ जा० ॥ १४ ॥ ते सवि जाणो व्यवहारथी रे,
 धर्म उद्यम उपदेश रे ॥ निश्चयमागें अप्रमादी जे होवे रे, ते पाळे पन्नर
 तिथि विशेष रे ॥ जा० ॥ १५ ॥ एम जाणीने जवि जावियें रे, डव्य ने जावथी
 धर्म रे ॥ सघली तिथि आराधतां रे, लब्धि कहे सदा सुख शर्म रे ॥ जा० ॥ १६ ॥

॥ अथ श्रीज्ञानविमलजीकृत सतासतीनी सद्यय प्रारंभः ॥

॥ सुप्रजात नित्य वंदियें, जरतबाहु बली थंजा रे ॥ अजय कुमार ने
 ढंढणो, सिरिज ने कयवन्नो रे ॥ सु० ॥ १ ॥ अर्णिकापुत्र ने अयमत्तो, नागदत्त
 शूलिजहो रे ॥ वयरस्वामी नंदिखेण जी, धन्नो ने ससिजहो रे ॥ सु० ॥ २ ॥
 सिंहगिरि किर्त्ति सुकोसलो, करंकंरू पुंरुरीको रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ गयसुकुमाल
 जंबु प्रजु, केशी अवंती सुकुमालो रे ॥ दशारण जड्र जस जड्रजी, श्लाती
 चिलाती पुत्र सालो रे ॥ सु० ॥ ४ ॥ बाहु उदाइ मनक मुनि, आर्यरहित
 आर्यगिरीशो रे ॥ आर्यसुहस्ती प्रजव बली, संब प्रद्युम्न मुनीशो रे ॥ सु०
 ॥ ५ ॥ मूत्रदेव कालिक सूरि, विष्णुकुमार श्रेयांसो रे ॥ आर्द्रक दृढ
 प्रहार बली, क्रूरगडु मेह मुनीशो रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ सयंजव प्रसन्नचंद्र जी,
 महासाल वंकचूलो रे ॥ एह सता नाम लीजियें, जिम होय सुंदर कुखो
 रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ सुलसा चंदनवालिका, मणोरमा मयणरेहा रे ॥ कुंती न
 र्मदासुंदरी, ब्राह्मी सुंदरी गुणगेहा रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ दमयंती सती रेवती,
 शिवा जयंती नंदा रे ॥ देवकी डौपदी धारिणी, श्रीदेवी सुजडा जहारे
 ॥ सु० ॥ ९ ॥ ऋषिदत्ता राजीमती, पद्मावती प्रजुवती कहीयें रे ॥ अंज

ना ने कलावती, पुष्पचूला मन लहीयें रे ॥ सु० ॥ १० ॥ गौरी गांधारी
 लखमणा, जंबुवती सत्यजामा रे ॥ पद्मा सुसीमा रुकमिणी, ए अड हरि
 नी रामा रे ॥ सु० ॥ ११ ॥ ज्येष्ठा सुज्येष्ठा मृगावती, चिखणा पद्मा प्रजा
 राणी रे ॥ बहेनी सात श्रुतिज्ञानी, बुद्धि महागुण खाणी रे ॥ सु० ॥ १२ ॥
 जक्षा जक्षदिना वली, चूया ने सुयदिना रे ॥ सेणा वेणा रेणा कही, ए
 शकनालनी कना रे ॥ सु० ॥ १३ ॥ इत्यादिक जे महा सती, त्रिभुवनमां
 हि विराजे रे ॥ आज लगें पण जेहसो, जस पडह जग गाजे रे ॥ सु० ॥ १४
 ॥ शीखवती सुरसुंदरी, कौशल्या ने सुमित्रा रे ॥ देवदत्तादिक जाणीयें,
 सवि जिनजननी पवित्रा रे ॥ सु० ॥ १५ ॥ दुरित उपद्रव उपशमे, होवे मंग
 लमाळा रे ॥ ज्ञानविमलगुण संपदा, पामीजे सुविशाला रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ इति
 ॥ अथ श्री ज्ञानविमलजीकृत रात्रिज्ञोजननी सद्याय लिख्यते ॥

॥ शारद बुध दायी ॥ ए देशी ॥ ढाल ॥ श्रीगुरुपद प्रणमी, आणी प्रेम अ
 पार ॥ ठहुं व्रत जाणो, निशिज्ञोजन परिहार ॥ आराधी पामो, सुरसुख शिव
 सुख सार ॥ इह जवें वलि परजवें, जेम लहीयें जयकार ॥ १ ॥ त्रुटक ॥ जय
 जयकार होवे जगमांहे, निशिज्ञोजन परिहरतां ॥ पातक पोढां एहनां जां
 र्यां, रयणीज्ञोजन करतां ॥ बहुविध जीव विराधन हेतें, एह अन्नद्वय
 जणीजें ॥ प्रत्यक्ष दोष कहा आगममां, जवि ते हृदय धरीजें ॥ १ ॥ ढाल ॥
 मतिनें हणे कीडी, वमन करावे माखी ॥ लूताथी कोढी, जलोदरी जू जांखी ॥
 गळू वीधे कांटो, वाळे होय खरजंग ॥ सडे पेट थिरोले, विंठीयें तालू अंग
 ॥ ३ ॥ त्रुण ॥ अंग उपांगे होय वली हीणो, जो आवी विष जात ॥ दृष्टि दोष
 इहलोके जाणो, परजवें नरके पात ॥ दोय घडी परजाते सांजे, टाली करो
 आहार ॥ नोकारसीतणूं फल पामो, संजाळो चोविहार ॥ ४ ॥ ढाल ॥ देव
 पूजा आहुती दान, आरु स्नान नवि सूजे ॥ रात्रें खाथाथी, निश्चें नरकें मूंजे ॥
 धान्य आचमन करतां, पवित्र होये नवि तेह ॥ निशिज्ञोजन करतां, लहे अ
 वतारज एह ॥ ५ ॥ त्रुण ॥ एह अवतारज घूक मांजारी, काक गृध्रह अहि
 विंठी ॥ वडवागुल सिंचाण घरोली, इत्यादिक गति नीची ॥ हंस मोर पिक
 शुक्र ने सारस, उत्तम पंखी जेह ॥ रातें चण न करे तो मानव, किम खाये
 अन्न तेह ॥ ६ ॥ ढाल ॥ इम जाणी ठमो, निशिज्ञोजन जवि प्राणी ॥ ए आग
 ममांहे, वेद पुराणनी वाणी ॥ दिनकर आथमते, पाणी रुधिर समान ॥

अन्न मांस बराबरी, कहे मार्कण्डेय पुराण ॥ ७ ॥ ऋ० ॥ जाण होये ते वली
 इम जाणे, अस्त थाये जव सूर ॥ हृदय नाजिकमल संकुचाणे, किम हो
 ये सुखपूर ॥ यजुर्वेदमांहें इम जांख्युं, मासे पद्म उपवास ॥ स्कंद पुराणें
 दिवस जम्यानुं, सात तीर्थ फल खास ॥ ७ ॥ राम जणे हरि उठीयें ॥ ए
 देशी ॥ परशासन मांहि कळुं, रयणी जोजन पाप रे ॥ दोष घणा ठे रे ते
 हमां, एम जांखे हरि आप रे ॥ वेद पुराणनी ठाप रे, पांऊव पूठे जवाप
 रे, एतो पापनो व्याप रे ॥ ए ॥ रयणीजोजन परिहरो ॥ ए आंकणी ॥ ज
 व ठळुं लगे पारधी, जे तुं पाप करेइ रे ॥ ते एक सरोवर शोषता, ते एक
 सो जव जोय रे ॥ एक दव दीधे ते होय रे, एह सम पाप न कोय रे ॥
 रयणी० ॥ १० ॥ एकसो आठ जव दवतणा, एक कुवाणिज्य कीध रे ॥ एक
 शो चुमादिश ते जवे, कूडुंआल एक दीध रे ॥ रयणी० ॥ ११ ॥ आल ए
 कावन सो जवे, एक परनारीनुं पाप रे ॥ एकसो नवाणुं जव तेहवे, एक
 निशि जवे पाप रे, तेहथी अधिक संताप रे ॥ रय० ॥ १२ ॥ तेमाटे नवि
 कीजीयें, जिम लहीयें सुखसार रे ॥ रयणीजोजन सेवतो, नरजवे पशु
 अवतार रे ॥ चार नरकतणां बार रे, प्रथम ते ए निरधार रे ॥ रय० ॥ १३ ॥
 ते उपर झण्य मित्रनो, जांख्यो एक दृष्टांत रे ॥ पडिकमणां सूत्र वृत्तिमां,
 ते सुणजो स्वि संत रे ॥ जिम जांगे तुह्य ज्ञांति रे, शिवसुंदरी केरा कंत
 रे, जिम आठ जवि गुणवंत रे ॥ रय० ॥ १४ ॥ आज न हेजो रे दीसे ना
 हलो ॥ ए देशी ॥ एक कुलगामें मित्र त्रय वसे, मांहो मांहे नेह ॥ श्रा
 वक जडक ने मिथ्यासति, आप आप गुणगेह ॥ १५ ॥ जवि निशिजो
 जन विरमण व्रत धरो ॥ ए आंकणी ॥ जैन आचारज एकदिन आविया,

श्वानें खाधो प्रथम नरके गयो, ग्रहतो नरकें दुःख ॥ ऋद्रक नियमतणा
 प्रजावथी, सौधमें सुरसुख ॥ ऋ० ॥ ११ ॥ मिथ्यात्वीनुं पण निश्चोजन
 थकी, विषमिश्रित थयुं अन्न ॥ अंग सडी मरी मांजार थीयो, प्रथम नर
 कें उत्पन्न ॥ ऋ० ॥ १२ ॥ श्रावक जीव चवीने अनुक्रमे, थयो निर्द्धन द्वि
 जपुत्र ॥ श्रीपुंजनामे तस लघु वंधवो, मिथ्यात्वी थयो तत्र ॥ ऋ० ॥ १३ ॥
 श्रीधरनामें वेहु महोटा थया, चाळे कुल आचार ॥ ऋद्रक सुर तव जोवे
 ज्ञानशुं, प्रतिबोध्या तिणिवार ॥ ऋ० ॥ १४ ॥ जातिसमरण पाम्या वेहु
 जण, नियम धरे दृढचित्त ॥ रयणीचोजन न करे सर्वथा, कुटुंब धरे अप्री
 त ॥ ऋ० ॥ १५ ॥ ढाल ॥ श्रेणिक मन अचरिज थयुं ॥ ए देशी ॥ चोजन
 नापे तेहने, पिता माता करे रीषो रे ॥ त्रण्य उपवास थया तिस्ये, जोयो नि
 यम जगीशो रे ॥ १६ ॥ एक मतां व्रत आदरो ॥ ए आंकणी ॥ जिस हो
 ये सुर रखवाला रे ॥ दुषमन दुष्ट दूरे टले, होये मंगलमाला रे ॥ ए० ॥
 १७ ॥ ऋद्रकसुर साङ्गिधि करे, करवा प्रगट प्रजावे रे ॥ अकस्मात् नृप
 पेटमां, शूलव्यथा उपजावे रे ॥ ए० ॥ १८ ॥ विफल थया सवि ज्योतिषी,
 मंत्री प्रमुखनें चिंता रे ॥ हाहारव पुरमां थयो, मंत्रवादी नाग दसता रे

अन्न मांस वरावरी, कहे मार्कण्डेय पुराण ॥ ७ ॥ ऋषि ॥ जाण होये ते बली
 इम जाणे, अस्त थाये जव सूर ॥ हृदय नात्रिकमल संकुचाणे, किम हो
 ये सुखपूर ॥ यजुर्वेदमांहें इम जांख्युं, मासे पक्ष उपवास ॥ स्कंद पुराणें
 दिवस जम्यानुं, सात तीर्थ फल खास ॥ ७ ॥ राम जणे हरि उठीये ॥ ए
 देशी ॥ परशासन मांहि कह्युं, रयणी नोजन पाप रे ॥ दोष घणा ठे रे ते
 हमां, एम जांखे हरि आप रे ॥ वेद पुराणनी ठाप रे, पांखव पूठे जवाप
 रे, एतो पापनो व्याप रे ॥ ८ ॥ रयणी नोजन परिहरो ॥ ए आंकणी ॥ न
 व ठळुं लगे पारधी, जे तुं पाप करेइ रे ॥ ते एक सरोवर शोषता, ते एक
 सो जव जाय रे ॥ एक दव दीधे ते होय रे, एह सम पाप न कोय रे ॥
 रयणी ॥ १० ॥ एकसो आठ जव दवतणा, एक कुवाणिज्य कीध रे ॥ एक
 शो चुमादिश ते जवे, कूडुंआल एक दीध रे ॥ रयणी ॥ ११ ॥ आल ए
 कावन सो जवे, एक परनारीनुं पाप रे ॥ एकसो नवाणुं जव तेहवे, एक
 निशि जवे पाप रे, तेहथी अधिक संताप रे ॥ रयणी ॥ १२ ॥ तेमाटे नवि
 कीजीये, जिम दहीये सुखसार रे ॥ रयणी नोजन सेवतो, नरजवे पशु
 अवतार रे ॥ चार नरकतणां वार रे, प्रथम ते ए निरधार रे ॥ रयणी ॥ १३ ॥
 ते उपर ब्रह्म सिन्नो, जांख्यो एक दृष्टांत रे ॥ पडिकमणां सूत्र वृत्तिमां,
 ते सुणजो सवि संत रे ॥ जिम जांगे तुह्य जांति रे, शिवसुंदरी केरा कंत
 रे, जिम थाठे नवि गुणवंत रे ॥ रयणी ॥ १४ ॥ आज न हेजो रे दीसे ना
 हलो ॥ ए देशी ॥ एक कुलगानें मित्र त्रय वसे, मांहो मांहें नेह ॥ श्रा
 वक जद्रक ने मिथ्यासति, आप आप गुणगेह ॥ १५ ॥ नवि निशि नो
 जन विरमण व्रत धरो ॥ ए आंकणी ॥ जैन आचारज एकदिन आविया,
 वंदी निसुणे वाणी ॥ श्रावककुलथी रे जावथकी ग्रहे, अजह्य सकल पञ्च
 रक्षाण ॥ जणी ॥ १६ ॥ जद्रक निशि नोजन विरमण करे, सहेजे आणी
 नेह ॥ मिथ्यासति ते नाव प्रतिबुद्धीयो, कूड कदाग्रह गेह ॥ जणी ॥ १७ ॥
 श्रावक जद्रक संगतिथी थयो, सकल कुटुंब व्रतवंत ॥ एकदिन राजनियो
 गतणे वशें, जमि न शक्या गुणवंत ॥ जणी ॥ १८ ॥ संव्यासमये ते घर
 आविया, वेहुने कहे परिवार ॥ जद्रक निशि नोजन नवि जम्यो, श्रावके
 कीधो आहार ॥ जणी ॥ १९ ॥ घूकापातें जलान्तर तस थयुं, व्रतजंग गुण
 पात ॥ व्याधि पीड्यो मरीने ते थयो, कुर मांज रनी जाति ॥ जणी ॥ २० ॥

श्वानें खाधो प्रथम नरके गयो, ग्रहतो नरकें दुःख ॥ ऋद्रक नियमलणा
 प्रजावर्धी, सौधमें सुरसुख ॥ ऋ० ॥ ११ ॥ मिथ्यात्वीनुं पण निशिचोजन
 थकी, विषमिश्रित थयुं अन्न ॥ अंग सडी मरी मांजार थीयो, प्रथम नर
 कें उत्पन्न ॥ ऋ० ॥ १२ ॥ श्रावक जीव चवीने अनुक्रमे, थयो निर्झन द्वि
 जपुत्र ॥ श्रीपुंजनामे तस लघु वंधवो, मिथ्यात्वी थयो तत्र ॥ ऋ० ॥ १३ ॥
 श्रीधरनामें बेहु महोटा थया, चाले कुल आचार ॥ ऋद्रक सुर तव जोवे
 ज्ञानगुं, प्रतिबोध्या तिणिवार ॥ ऋ० ॥ १४ ॥ जातिसमरण पाम्या बेहु
 जण, नियम धरे दृढचित्त ॥ रयणीचोजन न करे सर्वथा, कुटुंब धरे अर्धी
 त ॥ ऋ० ॥ १५ ॥ ढाल ॥ श्रेणिक मन अचरिज थयुं ॥ ए देशी ॥ चोजन
 नापे तेहने, पिता माता करे रीषो रे ॥ त्रण्य उपवास थया तिस्यें, जोयो नि
 यम जगीशो रे ॥ १६ ॥ एक मतां व्रत आदरो ॥ ए आंकणी ॥ जिम हो
 ये सुर रखवाला रे ॥ दुषमन दुष्ट दूरें टले, होये मंगलमाला रे ॥ ए० ॥
 १७ ॥ ऋद्रकसुर सात्रिधि करे, करवा प्रगट प्रजावे रे ॥ अकस्मात् नृप
 पेटमां, शूलव्यथा उपजावे रे ॥ ए० ॥ १८ ॥ विफल थया सवि ज्योतिषी,
 मंत्री प्रमुखनें चिंता रे ॥ हाहारव पुरमां थयो, मंत्रवादी नाग दसता रे
 ॥ ए० ॥ १९ ॥ सुरवाणी तेहवे समे, थइ गगने घनगाजी रे ॥ निशिचोजन
 व्रतनो धणी, श्रीपुंज द्विज दिनचोजी रे ॥ ए० ॥ २० ॥ तस कर फरस
 थकी होवे, नूपति नीरुज अंगें रे ॥ पडह वजावी नयरमां, तेडाव्यो धरी
 रंगे रे ॥ ए० ॥ २१ ॥ नूपति निरोगी थयो, पंच सय गाम तस दीधां रे ॥
 ते महिमाथी बहु जणे, निशिचोजन व्रत लीधां रे ॥ ए० ॥ २२ ॥ श्रीपुंज
 श्रीधर अनुक्रमें, सौधमें थया देवा रे ॥ राजादिक प्रतिबुजिया, धर्म करे
 सयमेवा रे ॥ ए० ॥ २३ ॥ नरचव ते त्रण पामिया, पाली संयम सूधा
 रे ॥ शिवसुंदरीने ते वस्था, थया जगत प्रसिद्धा रे ॥ ए० ॥ २४ ॥ एम
 जाणी ऋत्रि प्राणीया, निशिचोजन व्रत कीजें रे ॥ श्रीज्ञानविमलगुरु ना
 मथी, सुजस सोजाग खहीजें रे ॥ ए० ॥ २५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीज्ञानविमलजीकृत हितशिक्षानी सधाय प्रारंभः ॥

॥ एम धन्नो धरणीने परिचावे ॥ ए देशी ॥ आपें आप सदा समजावे,
 मनमां दुःख मत पावे रे ॥ कोइ किसीके काम न आवे, आप कियां फल
 पावे रे ॥ १ ॥ आपें आप सदा ॥ जिम पंखी तरुयें मली आवे, रयणी

वीते जावे रे ॥ जिम तीरथ मेली सवि संघो, करि करि निज घर जाव रे
 ॥ आ० ॥ १ ॥ आपथकी कर्त्तव्य थयां जे, जोगवे तेह एकीलो रे ॥ मा
 हरुं माहरुं करतो अहोनिश, मूढपणे होय घेलो रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ स्थिर
 नहिं ए संसारी प्राणी, तन धन यौवन वान रे ॥ जिम संव्यानां वादखनो
 रंग, जेम चंचल गजकान रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ एम जाणीने धर्म आराधो,
 आपे आप सवाहो रे ॥ ज्ञानविमल प्रजुने चित्त ध्याउं, जिम शिवसुख
 ने पाउं रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजीकृत कायारूपकामिनीतो जीवरूपस्वामीने
 उपदेशनी सद्यय प्रारंभः ॥

॥ देशी रसीयानी ॥ सुगुण सोजागी हो साहिव माहरा, सुण मुऊ आ
 तम राम वाढहेसर ॥ काया कामिनी कंथ प्रत्ये कहे, प्रीतम तुं अजि
 राम सोजागी ॥ सु० ॥ १ ॥ रयण अमूलक में तुं संग्रहो, मत हुउं का
 च समान चतुर नर ॥ धुर ठेहडा लगे तेहनें चाहतां, निपट खराखरी
 काम पन्होता ॥ सु० ॥ २ ॥ पूरव पुण्ये हुं तुऊने मली, उत्तमकुलनी ए
 काथे रंगीला ॥ अक्सर मलिया लाहो लीजीयें, कृण लाखीणो रे जाय
 ठबीलो ॥ सु० ॥ ३ ॥ कामिनी कंततणो संबंध करी, पण नवि विसरे हेज

॥सु०॥१०॥मुज बडपण थये तुह्य रसीया होशो, श्यो रस माणशो त्यांय रंगीला ॥ ए ऊखाणो मलशे लोकनो, उंट बलद तणो न्याय ॥ सु०॥११ ॥ हमणां सरखी जोडी विहुं तणी, नवयौवन रस जूरि सवूणा ॥ अविचल प्रीति करो प्रीतम तुह्ये, होश हैया तणी पूर सनेहा ॥सु०॥१२॥प्रसन्न थइ नें मुजशुं विलसतां, होशे सुत सुविवेक सवूणो ॥ बडपणे सुखदायी तुह्यने होशे, धरशे जनकशुं नेक विदूणो ॥सु०॥१३॥ सुप्रतिष्ठ प्रीतमनें जे जांख वुं, तेह अघटतुं रे सुकल बहूनें ॥ शोक्यवेध होये अतिहि आकरा, बांठा सुखनी रे होये सहूने ॥सु०॥१४॥सुमति साहेली माहरी अति जळी, ते पण प्रीतम जोग तुमारे ॥ सहज सवूणा सादिव सेवतां, अविचल सुखसंयोग वधारे ॥ सु० ॥१५॥ एम घरवटशुं प्रीतम प्रीठवी, अतिहि अनोपम प्रेम लगाड्यो ॥सुकृत सुकामण करिनें वश कियो, जगजसवाद शुं तेम जगाड्यो सु०॥१६॥तप जप किरिया समकित सुखडी, विलसे कामिनी कंत सदाये ॥धीरविमल कवि सेवक नय कहे, उत्तम संगति सुजस जलाये ॥ सु०॥१७॥

॥ अथ श्रीमान विजयजीकृत श्रावकना बारव्रतनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ चोपाइ ॥ श्री जिनवीर वदे शुभ वाण, श्रावक साधु धर्म अहिनाण ॥ देशविरति श्रावकनो धर्म, आदरो जविजन समजी मर्म ॥ १ ॥ समकित मूल अणुव्रत पंच, त्रण गुण व्रतनो ठे परपंच ॥ चउ शिक्षा व्रत ए व्रत बार, प्रथम कहुं समकित विस्तार ॥ २ ॥ दोष अठार रहित अरिहंत, देव खरो गुरु साधु महंत ॥ पंच महाव्रत धारी जेह, धर्म जिनेश्वर जापित तेह ॥ ३ ॥ पंचपो प्रथम मिथ्यात्व उमेद, लौ किकने लोकोत्तर जेद ॥ देव अने गुरुगत ए दोय, एकेके जोडे चउ होय ॥ ४ ॥ ए चउजेय होय अव्यथी, विवरीनें ठंको शुभमति ॥ हरि हर ब्रह्मादिक जे देव, मुक्तिदायक जणि न करुं सेव ॥ ५ ॥ परतीर्थ पाखंसी जेह, गुरुबुद्धें वंडूं नहिं तेह ॥ पात्रबुद्धें पोषुं नहिं कदा, अनुकंपादिकें देवुं सदा ॥ ६ ॥ वंडूं नहिं जिनजव फल तिष्ठ, जिनप्रतिमा परतिष्ठि ह्ठ ॥ पासठादिक जे अगियठ, जावे न नमुं न करुं सठ ॥ ७ ॥ क्षेत्र थ की आहिं ने परदेश, न करुं मिथ्यामतनो लेश ॥ जावजीव थिरता का लथी, आतमशक्ति लगें जावथी ॥ ८ ॥ नृपगण बल सुर अजिउंगेण, गुरुनिग्गह विक्ती कंतारेण ॥ ठाठिमी विणु न करुं मिष्ठ, चार आगार

बीते जावे रे ॥ जिम तीरथ मेळी सवि संघो, करि करि निज घर जावे रे
 ॥ आ० ॥ २ ॥ आपथकी कर्तव्य थयां जे, जोगवे तेह एकीलो रे ॥ मा
 हरुं माहरुं करतो अहोनिश, मूढपणे होय घेलो रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ स्थिर
 नहिं ए संसारी प्राणी, तन धन यौवन वान रे ॥ जिम संध्यानां वादखनो
 रंग, जेम चंचल गजकान रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ एम जाणीने धर्म आराधो,
 आपे आप सवाहो रे ॥ ज्ञानविमल प्रजुने चित्त ध्याउं, जिम शिवसुख
 ने पाउं रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलजीकृत कायारूपकामिनीचो जीवरूपस्वामीने
 उपदेशनी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ देशी रसीयानी ॥ सुगुण सोजागी हो साहिब माहरा, सुण मुऊ आ
 तम राम वाढहेसर ॥ काया कामिनी कंथ प्रत्ये कहे, प्रीतम तुं अजि
 राम सोजागी ॥ सु० ॥ १ ॥ रयण अमूलक में तुं संप्रहो, मत हुउं का
 च समान चतुर नर ॥ धुर ठेहडा लगें तेहनें चाहतां, निपट खराखरी
 काम पन्होता ॥ सु० ॥ २ ॥ पूरव पुण्ये हुं तुजने मली, उत्तमकुलनी ए
 काय रंगीला ॥ अवसर मळिया लाहो लीजीये, कण लाखीणो रे जाय
 ठवीलो ॥ सु० ॥ ३ ॥ कामिनी कंततणो संबध करी, पण नवि विसरे हेज
 हवि मळी ॥ हुं सोहागण सोहवि तुज ठते, एम केम सरशे प्रीत हेज
 सांचल ॥ सु० ॥ ४ ॥ कुमति कुचिंता प्रमुख कुरूप त्रिया, तेनी साथे वि
 लसे रे नेह लगाय ॥ निज घर ठंकी परघर जावतां, कोय न कहशे रे कंत
 जलाय ॥ सु० ॥ ५ ॥ तेह कुघरणी संगमथी कदा, विषय कषाया रे अंगज हो
 शे ॥ तबहु दुःखदायक अति वांकडां, महेणां देइने सयण वगोशे ॥ सु०
 ॥ ६ ॥ वणज करेवा शेठे धन दियो; कुमति कुघरणी रे ते सवि मूसे ॥ चो
 खे देखें कहो किम पोहोंचशो, स्वामी धर्म कहो किणपरें रदेशे ॥ सु० ॥
 ७ ॥ पाळे प्रीति सदा परणी त्रिया, पण परतरुणी रे प्रीति न पाळे ॥
 हमणां मद वाह्या नथी जाणता, निरति पडशे रे मोह सम गाले ॥ सु०
 ॥ ८ ॥ कुलवंती कामिनी मुऊ समी, फिर नवि मळशे रे चित्त अत्र
 धारो ॥ पडढाया सुख त्यां लगें सांचळे, जव लगें लागे ताप निराळो
 ॥ सु० ॥ ९ ॥ सयण मळीने दुर्जन जव मिले, तव ते सांचरे सयण सुगु
 णनर ॥ कपट कुघरणी केरां जाणशो, तव चित्त धरगो रे वयण चतुर नर

॥सु०॥१०॥मुज वडपण थये तुह्य रसीया होशो, श्यो रस माणशो त्यांय
 रंगीला ॥ ए ऊखाणो मलशे लोकनो, उंट वलद तणो न्याय ॥ सु०॥११ ॥
 हमणां सरखी जोडी विहुं तणी, नवयौवन रस चूरि सवूणा ॥ अविचल
 प्रीति करो प्रीतम तुहें, होंश हैया तणी पूर सनेहा ॥सु०॥१२॥प्रसन्न थइ
 नें मुजशुं विलसतां, होशे सुत सुविवेक सवूणो ॥ वडपणे सुखदायी तुह्यने
 होशे, धरशे जनकशुं नेक विडूणो ॥सु०॥१३॥ सुप्रतिष्ठ प्रीतमनें जे चांख
 वुं, तेह अघटतुं रे सुकुल वहूनें ॥ शोक्यवेध होये अतिहि आकरा, वांठा
 सुखनी रे होये सहूने ॥सु०॥१४॥सुमति साहेली माहरी अति जली, ते पण
 प्रीतम जोग तुमारे ॥ सहज सवूणा साहिव सेवतां, अविचल सुखसंयोग
 वधारे ॥ सु० ॥१५॥ एम घरवटशुं प्रीतम प्रीठवी, अतिहि अनोपम प्रेम
 खगाड्यो ॥ सुकृत सुकामण करिनें वश कियो, जगजसवाद शुं तेम जगाड्यो
 सु० ॥१६॥ तप जप किरिया समकित सुखडी, विलसे कामिनी कंत सदाये
 ॥ धीरविमल कवि सेवक नय कहे, उत्तम संगति सुजस जलाये ॥ सु० ॥१७॥

॥ अथ श्रीमान विजयजीकृत श्रावकना बारव्रतनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ चोपाइ ॥ श्री जिनवीर वदे शुभ वाण, श्रावक साधु
 धर्म अहिनाण ॥ देशविरति श्रावकनो धर्म, आदरो जविजन समजी
 मर्म ॥ १ ॥ समकित मूल अणुव्रत पंच, जण गुण व्रतनो ठे परपंच ॥
 चउ शिद्धा व्रत ए व्रत बार, प्रथम कहुं समकित विस्तार ॥ २ ॥ दोष
 अढार रहित अरिहंत, देव खरो गुरु साधु महंत ॥ पंच महाव्रत धारी
 जेह, धर्म जिनेश्वर जाषित तेह ॥ ३ ॥ पंचपो प्रथम मिथ्यात्व उमेद, लौ
 किकने लोकोत्तर जेद ॥ देव अने गुरुगत ए दोय, एकेके जोडे चउ होय
 ॥ ४ ॥ ए चउजेय होय ड्रव्यथी, विवरीनें ठंफो शुभमति ॥ हरि हर ब्र-
 ह्मादिक जे देव, मुक्तिदायक जणि न करुं सेव ॥ ५ ॥ परतीर्थ पाखंकी
 जेह, गुरुबुद्धें वंडूं नहिं तेह ॥ पात्रबुद्धें पोषुं नहिं कदा, अनुकंपादिकें
 देवुं सदा ॥ ६ ॥ वंडूं नहिं जिनजव फल तिष्ठ, जिनप्रतिमा परतिष्ठि
 इठ ॥ पासढादिक जे अगियठ, जावे न नमुं न करुं सठ ॥ ७ ॥ क्षेत्र थ
 की आहिं ने परदेश, न करुं मिथ्यामतनो लेश ॥ जावजीव थिरता का
 दथी, आत्मशक्ति खगें जावथी ॥ ८ ॥ नृपगण बल सुर अजिउंगेण,
 गुरुनिग्गह विक्ती कंतारेण ॥ ठठिंकी विणु न करुं मिष्ठ, चार आगार

प्रत्ये पण इह ॥ ए ॥ समकित आदरीयें इण रीति, अतिचार पण टाळो नीति ॥ उन्नति कीजें जिन शासनें, चढते उत्साहें निजमने ॥ १० ॥ विधिं देव अने गुरु वंदि, नित्य पञ्चस्काण करी आनंदि ॥ सात क्षेत्रें धन वावियें, पण परमेष्ठि सदा ध्यास्यें ॥ ११ ॥ संघविनय कीजें ऋक्तिं, न हिं तो समकित होये किं ॥ पंचशुद्धि विधिं ऋविजना, व्रत आदरी यें अइ शुभमना ॥ १२ ॥

॥ ढाल बीजी ॥ राग परजीयो ॥ स्थूल प्राणातिपात विरमण, प्रथम अणुव्रत कहुं जिने ॥ निरपराध त्रस जीव न हणुं, संकटपी निरपेहीने ॥ १३ ॥ धरो श्रावक विरति ऋविजन, त्रसनी अविरती ऊतरे ॥ अवि रति ऋवन्नमण होवे, विरतिथी ऋवजल तरे ॥ १४ ॥ धरो श्रावक विरति ऋविजन ॥ ए आंकणी ॥ हणावुं पण नहीं त्रिकरणें, एम पहेलुं व्रत क हुं ॥ स्थूल मृषावाय विरमण, अणुव्रत बीजुं लहुं ॥ ध० ॥ १५ ॥ कन्यका गो झूमि अलिअं, बोळुं बोलावुं नही ॥ थापणमोसो साही कू डी, दुविध त्रिविधे पण नहीं ॥ ध० ॥ १६ ॥ द्विपद चउपद सरवे जाणि, धूर तिग अलीयर्थी ॥ स्थूल अदत्तादान विरमण, त्रीजुं व्रत धरो अवश्य र्थी ॥ ध० ॥ १७ ॥ पडी मूकी गई आवी, वस्तु चोरी त्रिकरणें ॥ न करुं न करावुं किवारे, चोर नाम लहे जिणे ॥ ध० ॥ १८ ॥ स्वदारासंतोप अ थवा, अन्यदारा वर्जना, स्थूलमैथुन विरति चौथुं, अणुव्रत धरो सज्जना ॥ ध० ॥ १९ ॥ योषिता तो दार शब्दे, पुरुष अर्थ धरी मने ॥ दिव्यमैथुन दुविध त्रिविधें, मनुष्यनुं इक विध तने ॥ ध० ॥ २० ॥ तिरियनुं इकविध^१ त्रिकरणे, एम जागे मन धरो ॥ स्थूल परिग्रह विरति पंचम, व्रतें इठामि ति करो ॥ ध० ॥ २१ ॥ इहां नवविध परिग्रहनी, करवी संख्या ते सही ॥ मान उपर अधिक त्रिकरणें, रखावुं राखुं नही ॥ ध० ॥ २२ ॥ ढाल त्रीजी ॥ राग सारंग मद्धार ॥ इर आंवा आंवली रे ॥ ए देशी ॥ ठा दिग्विरमण व्रतें रे, दशदिशि कीजें मान ॥ जावा मोकलवा तणुं रे, ति गकरणें सावधान ॥ २३ ॥ ऋवि जन आदरीयें व्रत अंगें, जिम वरीयें शिव वधू रंगें ऋविजन, आदरीयें व्रत अंगें ॥ ए आंकणी ॥ सातमुं व्रत दुविधा धरो रे, जोगोपजोग परिमाण ॥ जोजनथी ने कर्मथी रे, तज अजदयादि क जाण ॥ ऋवि० ॥ २४ ॥ उंवर पीपल पीपरडी रे, वड कहुं वर पंच ॥

सुरा मांस माखण मधूरे, हिम विष करहा वंच ॥ ज० ॥ १५ ॥ रात्रिनो
जन माटी सवेरे, अथाणुं बहु बीज ॥ काचां गोरसशुं मद्युं रे, विदल वंस्या
क नहीज ॥ ज० ॥ १६ ॥ जे तुष्टफल महुडादिकां रे, अजाण्यां फल फूल
॥ वर्णादिक जस बिगडीयां रे, एह चखितरस शूल ॥ ज० ॥ १७ ॥ वासी
विदल पीली लापशी रे, जलमां रांध्युं अन्न ॥ कुथित अन्न फूट्युं सवेरे,
पकात्रादिक मन्न ॥ ज० ॥ १८ ॥ मान पनर विश त्रिश दिना रे, ऋतु
वर्षा उष्ण शीत ॥ दधि दिन दोष गया पढी रे, ठंनो श्रावक रीति ॥ ज०
॥ १९ ॥ अनंतकाय कूपल सवेरे, कंद मूल सवि वारि ॥ लूणी ठाल थो
हरि गलो रे, गिरिकर्त्री कुंआरि ॥ ज० ॥ २० ॥ वरियाली सत्तावली रे, नी
ली मोथी हलद्र ॥ अमृतवेली लोढो लूणो रे, चूमिफोडा त्यज चद्र ॥
ज० ॥ २१ ॥ द्विदल अंकूरा आंबली रे, कवली सूअर वाल ॥ नीलो कटु
रो पख्यंको रे, टंक वाथूलो वाल ॥ ज० ॥ २२ ॥ वंश करेलां आदिवा रे,
बीजा ए पण जाण ॥ समजंग गूढ पर्व शिरा रे, विन्नरुहनी अहिनाण ॥
ज० ॥ २३ ॥ सच्चित्तादिक चउदनी रे, प्रतिदिननी करि संख ॥ जोगवुं
अधिक तत्रिकरणें रे, जावजीव निःशंक ॥ ज० ॥ २४ ॥ बंचदिसि तनूयें
पण हुवे रे, चउदमे नियम विस्तार ॥ अशनादिक आहारनी रे, कीजें
विगति विस्तार ॥ ज० ॥ २५ ॥ बीजा ए पण आरंजा रे, नियमीयें ए
णें व्रत ॥ कर्मथी पन्नर ठंमीयें रे, कर्मादानह जत्ति ॥ ज० ॥ २६ ॥
॥ ठाल चोथी ॥ राग केदारो ॥ कपूर होवे अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥
अग्निआरंजे जे हुवे रे, वृत्ति ते कर्म इंगाल ॥ वनस्पति ठेदादिकें रे, वृत्ति
वनकर्म कराल रे जविका, न करो कर्मादान ॥ एहनां फल कडवां निटा
न रे ॥ जविका ॥ २७ ॥ शकट कराववां बेचवां रे, साडीकर्म अति हीन
॥ चाडानी आजोविका रे, चाडीकर्म मछीन रे ॥ ज० ॥ २८ ॥ चूमिविदा
री हलादिकें रे, जीवन फोकी कर्म ॥ त्रस अंग आगर वहोरवेरे, दंतवा
ण्णिय कुकर्म रे ॥ ज० ॥ २९ ॥ जिहां जीव उत्पत्ति तेहनो रे, वकरो वा
णिज्जा लाख ॥ मदिरादिकनुं वेचवुं रे, रसवाणिज्जा म राख रे ॥ ज० ॥ ३० ॥
जीवभात निमित्तनो रे, विक्रय विषवाणिज्जा ॥ केशवंत गो दासादि रे,
वेचवे केशवाणिज्जा रे ॥ ज० ॥ ३१ ॥ यंत्रविक्रय यंत्र पीखवुं रे, यंत्र
पीखन कर्म तेह ॥ निर्लठन कर्म पशु तणां रे, अंगठेदन वृत्ति जेह रे ॥

॥ ज० ॥ ४३ ॥ दवनुं दान तलावनुं रे, तह सर डहनुं शोष ॥ क्रूर कर्मका
रीतणुं रे, पोषवुं असती पोष रे ॥ ज० ॥ ४३ ॥ चउविह अनरथदंरु ठेरे,
प्रथम आरतिरूप ध्यान ॥ बीजो पाप उपदेशना रे, श्रीजो हिंस्रप्रदान रे
॥ ज० ॥ ४४ ॥ दाक्षिण विण अधिकरण ये रे, तुरिय प्रमादाचरण ॥ ए
हथी विरति डुहा त्रिकरणे रे, आठमे व्रत आचरणे रे ॥ ज० ॥ ४५ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥ जोलीडा हंसा रे विषय न सचीये ॥ ए देशी ॥ आ
रति रौद्र निवारी जेणे तज्युं, डुगविध अठविहे सावद्य ॥ घटिका डुग
खगे समता तस नवसुं, सामायिक व्रत सद्य ॥ ४६ ॥ परिणत जन सुणो
सकुरु देशना ॥ ए आंकणी ॥ जिम लहो मग्ग उमग्ग ॥ शुद्ध प्ररूपक
डुल्लेज कलियुगे, तस चरणे जे खग्ग ॥ तस पासें व्रत मग्ग ॥ ४७ ॥
॥ परिणत० ॥ ठंके दिशि परिमाण प्रखुं तेहनुं, जे संक्षेप सरूप ॥ देशाव
काशिक व्रत दशसुं अहवा, सवि व्रत संक्षेप रूप ॥ ४८ ॥ परिणत
जन० ॥ अन्य आंरन्न डुविध त्रिविधें तजो, मुहूर्त्तादिप्रमाण ॥ प्रतिदिन
चउद नियम विहाणे धरो, संवरो सांज सुजाण ॥ परि० ॥ ४९ ॥ आव
श्यक पर्व दिवसे आदरो, व्रत पोषध उपवास ॥ आहार तनुसत्कार अ
ब्रह्म तथा, सावद्यनो त्याग खास ॥ प० ॥ ५० ॥ सो चउविह डुगविह
तिविहे करो, दिन अहोरत्तिसें सरत्ति ॥ देशथी सर्वथी आहार पोषध
धरो, सर्वथी तिगसें सचित्त ॥ प० ॥ ५१ ॥ नवम एकादश डुग व्रत आराधो,
परिणमे अतिथि संविज्ञाग ॥ सकुरु साधुनें पडिलात्री, जमे श्रावक महा
ज्ञाग ॥ प० ॥ ५२ ॥ गुरुविरहे दिशि अवलोकन करे, समरी जेणें प्रति
बुद्ध ॥ पडिलाच्यो विण न जमे त्रिकरणें, पाले ए व्रत शुद्ध ॥ प० ॥ ५३ ॥
एह विवक्षित जंगें व्रत कख्यां, स्थूलनये धरो मन्न ॥ जगवई खंगें रे विव
री जांखियां, जामायें गुणवन्न ॥ प० ॥ ५४ ॥ इम श्रावकव्रत आदरो जवि
जना, पालो तजी अतिचार ॥ आणंदादिक परें सद्गति लहो, पंचम गति
एणि सारा ॥ प० ॥ ५५ ॥ मोक्षमारग एहवो तो वीर जिने, कह्यो करीय संसार ॥
शांतिविजय बुध विनयी विनयशुं, मान कहे हितकार ॥ प० ॥ ५६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री हेतवीजयजीकृत अठार नातरांनी सध्याय प्रारंभः ॥

॥ पेहेलाने समरुं पास पांचासरो रे, समरी सरसती माय ॥ निज गुरु
केरा रे चरण नमी करी रे, रचशुं रंगें सजाय ॥ १ ॥ जवि तुमे जोजो रे

संसार नातरां रे ॥ आंकणी ॥ एकजवे हुश्यां अठार, एहवुं जाणीने दूरें
 निवारजो रे, जिम पामो सुख अपार ॥ ज० ॥ १ ॥ नगरमां मोडुं रे
 मथुरा जाणियें, तिहां वसे गणिका एक ॥ कुबेरसेना रे नाम ठे तेहवुं रे,
 विलसे सुख अनेक ॥ ज० ॥ ३ ॥ एकदिन रमतां परशुं प्रेममां रे, उदरे
 रक्षुं उधान ॥ पूरणमासें प्रसव्युं जोडवुं रे, एक बेटो बेटा सुजाण ॥ ज०
 ॥ ४ ॥ वेश्या विमासे आपणने घरे रे, कुण जालवशे ए बाल ॥ क्षण क्षण
 जोवां धोवां ने धवराववां रे, कुण करे सार संजाल ॥ ज० ॥ ५ ॥ एहवुं
 विमासी रे पेटांमां लइ रे, घाब्यां बालक दोय ॥ मांहे ते मेळी नामां
 कित मुद्रिका रे, नदीमां चलावे सोय ॥ ज० ॥ ६ ॥ जमुनामां वहेती रे
 आवी शौरीपुरें रे, वाणुं ते वाळुं तेवार ॥ तव तिहां आव्या रे दोय व्य
 हारीया रे, नदी कांठे हर्ष अपार ॥ ज० ॥ ७ ॥ दूरची दीठी रे पेटा आ
 वती रे, हेडे विमासे दोय ॥ एहमां जे होशे रे ते आपण विहु रे, वहेची
 लेशुं सोय ॥ ज० ॥ ८ ॥ बोलबंध कीधा दोय व्यवहारीये रे, काढी पेटा ते
 वार ॥ पेटा उपाडी रे ठानी सोडमां रे, खेइ आव्या नगर सजार ॥ ज० ॥
 ९ ॥ पेटा उघाडी रे निहाळतां रे, दीठां बालक दोय ॥ मनमां विचारे रे
 दोय व्यवहारीया रे, शुं जाणे पुर कोय ॥ ज० ॥ १० ॥ जेने सुत नहिं ह
 तो तेणें बेटो वियो रे, बीजे बेटा हो लीध ॥ मुद्रिकामेळें रे नाम कुबेर
 दत्त दियो रे, कुबेरदत्ता बली दीध ॥ ज० ॥ ११ ॥ अनुक्रमें वाध्यां रे दोय
 जण्यां गुण्यां रे, पाम्यां जोवन सार ॥ माता तात जोशने परणावियां रे,
 विलसे सुख अपार ॥ ज० ॥ १२ ॥

॥ ढाल बीली ॥ एकदिन वेठा मालीयें रे ढाल, नरनारी मली रंग रे ॥
 रंगीला कंत ॥ आवोने पियुडा आपण खेळियें रे ॥ करुंडुं घणी मनोहार रे
 ॥ १ ॥ आ० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ हास्य विनोद करे घणां रे ढाल, माने निज
 धन्य अवदात रे ॥ रं० ॥ सार पासे रमीयें सोगळे रे ढाल, आणी मनमां
 उमंग रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ २ ॥ रमत रमे खुशीमां घणां रे ढाल, दाव
 नाखे जरतार रे ॥ रं० ॥ दीठी नामांकित मुद्रिका रे ढाल, हियडे वि
 मासे नार रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ ३ ॥ वेहु रूपें वेहु सारिखां रे ढाल,
 सरखां वींटीमां नाम रे ॥ रं० ॥ नारी विचारे चित्तमां रे ढाल, में ए कीध
 अकाम रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ ४ ॥ रमत मेळी पीयरमां गइ रे ढाल,

पूंठे मातने वात रे ॥ रं० ॥ मात कहे हुं जाणुं नही रे लाल, जाणे
 ताहरो तात रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ ५ ॥ तात कहे सुणजो सुता रे लाल, सं
 क्हेपे सघली वात रे ॥ रं० ॥ पेटीमांहेथी वहेंचीयां रे लाल, बालक दोय
 विख्यात रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ ६ ॥ कुबेरदत्ता मन चिंतवे रे लाल, में कीधो अप
 राध रे ॥ रं० ॥ जाइ वर्यो ने जाइ जोगव्यो रे लाल, ए सवि कर्मनी वात
 रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ ७ ॥ एम चिंतवीने संयम लीयो रे लाल, पाले पंचा
 चार रे ॥ रं० ॥ समिति गुप्तिनो खप करे रे लाल, ठकाय रक्षा सार रे ॥
 रं० ॥ आ० ॥ ८ ॥ कुबेरदत्त मन चिंतवे रे लाल, ए नगर मांहे न रहेवाय
 रे ॥ रं० ॥ बेन वरीने बेन जोगवी रे लाल, घर घर ए कहेवाय रे ॥ रं० ॥
 आ० ॥ ९ ॥ कुबेरदत्त तिहांथी चालियो रे लाल, आव्यो मथुरा मांय
 रे ॥ रं० ॥ वेश्यामंदिर आवीयो रे लाल, करे वेश्याशुं अन्याय रे ॥ रं०
 ॥ आ० ॥ १० ॥ कुबेरदत्त निज मातशुं रे लाल, सुख विलसे दिन रात
 रे ॥ रं० ॥ एम करतां सुत जनमीयो रे लाल, ए सवि कर्मनी वात रे
 ॥ रं० ॥ आ० ॥ ११ ॥ तप जप संयम साधतां रे लाल, पालतां किरि
 या सार रे ॥ रं० ॥ ज्ञान अवधि तिहां ऊपन्युं रे लाल, दिथे तिहां
 ज्ञानविचार रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ १२ ॥ अवधिज्ञानें साधवी रे लाल, टी
 ठो मथुरा मजार रे ॥ रं० ॥ निजजननी सुख विलसतो रे लाल, धिक
 धिक तस अवतार रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ १३ ॥ गुरुणीनें पूठी करी रे लाल,
 आवी मथुरा जाम रे ॥ रं० ॥ वेश्यामंदिर जइ उतरी रे लाल, करवा
 धर्मनुं काम रे ॥ रं० ॥ आ० ॥ १४ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ इण अवसर नानो बालुडो रे कांइ, पालणे पोढ्यो
 जेह ॥ गाळं हालरुआं ॥ हीलो हीलो कही हुलरावती रे कांइ, साधवी
 चतुर सुजाण ॥ गा० ॥ १ ॥ सगपण ठे ताहरे माहरे कांइ, सांजल साची
 वान ॥ सुण तुं बालुडा ॥ काको जत्रीजो पोतरो रे कांइ, दीकरो देवर
 जेठ ॥ सु० ॥ १ ॥ सगपण ठे ताहरे माहरे कांइ, खट बीजां कहुं तेह
 ॥ सु० ॥ वधव पिता वडवो रे कांइ, ससरो सुत जरतार ॥ सु० ॥ ३ ॥ सग
 पण ठे ताहरे माहरे कांइ, खट त्रीजां कहुं तेह ॥ सुण तुं माताजी ॥
 माता कहुं सासू कहुं रे कांइ, वली कहुं शोक्य जोजाइ ॥ सु० ॥ ४ ॥ वडी
 व्हाइ वली मुज सगपण बहु रे कांइ, तुज मुज सगपण एह ॥ सु० ॥ ५ ॥

इ संबंध सत्रि सांजली रे कांइ, घरमांथी आव्यां दोय ॥ सुण तुं श्रम
णी नी ॥५॥ अबतां आल न दीजीयें रे कांइ, तुम मारग नहिं एह ॥ सु०
श्रमणी कहे सुणो दोय जणां रे कांइ, खोटुं नहिंय लगार ॥ सु० ॥ ६ ॥
पेटीमां घाली मूकियां रे कांइ, जमुनायें वहेती जोय ॥ तुमें सांजलजो ॥
सौरीपुर नगर तिहां बली रे कांइ, पेटी काढी सोय ॥ तु० ॥ ७ ॥ इम निसुणी
ते दोय जणे रे कांइ, संयम लीघो तेणि वार ॥ तुमें ॥ संयम लेइ तप आद
री रे कांइ, देवलोकें पद्दोतां तेणिवार रे ॥ मन रंगीला ॥ ७ ॥ तपथी सत्रि
सुख संपजे रे कांइ, तपथी पामे ज्ञान रे ॥ म० ॥ तपथी केवल ऊपजे रे कांइ,
तप मद्दोटुं वरदान रे ॥ म० ॥ ए ॥ तपगच्छपति गुण गावतां रे कांइ,
रुद्धि वृद्धि घर आय ॥ म० ॥ पंक्ति दानविजय तणो रे कांइ, हेतविजय
गुण गाय ॥ म० ॥ १० ॥ इति अठारनात्रानी सञ्चाय संपूर्ण ॥

॥ अथ श्रीवृद्धिविजयजीकृत दशवैकालिकनी सञ्चाय प्रारंजः ॥

॥ तत्र प्रथमाध्ययन सञ्चाय प्रारज्यते ॥

॥ सुग्रीव नयर सोहामणुं जी ॥ ए देशी ॥ श्रीगुरुपदपंकज नमी जी,
बलि धरी धर्मनी बुद्धि ॥ साधुक्रिया गुण चांखशुं जी, करवा समकित
शुद्धि ॥ मुनीश्वर, धर्म सयल सुखकार ॥ तुम्हें पावो निरतिचार ॥ मुनी
श्वर, धर्म सयल सुखकार ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ जीवदया संयम तणो जी,
धर्म ए मंगलरूप ॥ जेहना मनमां नित्य वसे जी, तस नमे सुर नर रूप
॥ सु० ॥ ध० ॥ १ ॥ न करे कुसुमकिलामणा जी, विचरतो जिम तरुवृंद ॥
संतोषे बलि आतमा जी, मधुकर ग्रहि मकरंद ॥ सु० ॥ ध० ॥ ३ ॥ तेणि
परें मुनि घर घर नमी जी, लेतो शुद्ध आहार ॥ न करे बाधा कोइने जी,
दिये पिंरुने आवार ॥ मु० ॥ ध० ॥ ४ ॥ पहिले दशवैकालिके जी, अध्ययने अ
धिकार ॥ ज्ञांख्यो ते आराधतां जी, वृद्धिविजय जयकार ॥ मु० ॥ ध० ॥ ५ ॥ इति

॥ अथ द्वितीयाध्ययन सञ्चाय प्रारंजः

॥ शील सुहामणुं पालीयें ॥ ए देशी ॥ नमवा नेमी जिणंदनें, राजुल
रूडी नार रे ॥ शीलसुरंगी संचरे, गोरी गढगिरनार रे ॥ १ ॥ शील सुहाम
णी मन धरो ॥ ए आंकणी ॥ तुमें निरुपम निर्ग्रथ रे ॥ सत्रि अजिजाष तजी
करी, पावो संयमपंथ रे ॥ शी० ॥ १ ॥ पाजस जीनी पद्मिनी, गइ ते गुफा
मांहि तेम रे ॥ चतुरा चीर निचोवती, दीठी रुषि रहनेम रे ॥ शी० ॥ ३ ॥

चित्त चले चारित्रियो, वयण वदे तव एम रे ॥ सुख जोगवीर्यें सुंदरी, आप
णे पूरण प्रेम रे ॥ शी० ॥ ४ ॥ तव रायजादी एम जणे, जूंन एम शुं जाखे रे
॥ वयणविरुद्ध ए बोलतां, कांइ कुललाज न राखे रे ॥ शी० ॥ ५ ॥ हुं पुत्री
उग्रसेननी, अने तुं यादवकुलजायो रे ॥ एं निर्मल कुल-आपणां, तो केम
अकारज थायो रे ॥ शी० ॥ ६ ॥ चित्त चलावी एणिपरें, निरखीश जो तुं
नारी रे ॥ तो पवनाहत तरुपरें, थाइश अथिर निरधारी रे ॥ शी० ॥ ७ ॥
जोग जला जे परहस्या, ते वली बांठे जेह रे ॥ वमनजकी कूतर समो,
कहीर्यें कुकमीं तेह रे ॥ शी० ॥ ८ ॥ सरप अंधक कुलतणा, करे अग्नि
प्रवेश रे ॥ पण वमियुं विष नवि लीये, जुठ जातिविशेष रे ॥ शी० ॥
९ ॥ तिम उत्तमकुल उपना, ठोडी जोगसंजोग रे ॥ फरि तेहने बांठे
नहिं, हुवे जो प्राणवियोग रे ॥ शी० ॥ १० ॥ चारित्र किम पाली शके,
जो नवि जाये अजिलाष रे ॥ सीदातो संकल्पथी, पग पग इम जिन
जांखे रे ॥ शी० ॥ ११ ॥ जो कण कंचन कामिनी, इच्छता अने जोगव
ता रे ॥ त्यागी न कहियें तेहनें जो, मनमें श्री जोगवता रे ॥ शी० ॥
१२ ॥ जोग संयोग जला लहि, परहरे जेह निरीह रे ॥ त्यागी तेहज जां
खियो, तस पद नमुं निश दीह रे ॥ शी० ॥ १३ ॥ एम उपदेशने अंकुशें,
मयगल परें मुनिराजो रे ॥ संयम मारग स्थिर कस्यो, साखुं वंठित काजो
रे ॥ शी० ॥ १४ ॥ ए बीजा अध्ययनमां, गुरुहित शीख पयासें रे ॥ लाज
विजय कविरायनो, वृद्धिविजय एम जासे रे ॥ शी० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ तृतीयाध्ययन सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ पंच महाव्रत पालीर्यें ॥ ए देशी ॥ आधाकमीं आहार न लीजियें,
निशिजो जन नवि करीर्यें ॥ राजपिंरु ने सद्यांतरनो, पिंरु वली परहरियें
के ॥ १ ॥ मुनिवर ए मारग अनुसरियें ॥ जिम जवजलनिधि तरीर्यें ॥ मुनि०
॥ एण ॥ ए आंकणी ॥ साहामो आण्यो आहार न लीजें, नित्य पिंरु नवि
आदरीर्यें ॥ शी इवा एम पूठी आपे, तेह नवि अंगीकरियें के ॥ मुण ॥ १ ॥
कंद मूल फल बीज प्रमुख वली, लवणादिक सचित्त ॥ वजें तिम वली
नवि राखीजें, तेह सन्निधि निमित्त के ॥ मुण ॥ ३ ॥ उवटणुं पीठी परहरि
र्यें, स्नान कदा नवि करीर्यें ॥ गंध विलेपन नवि आचरियें, अंग कुसुम नवि
धरियें के ॥ मुण ॥ ४ ॥ गृहस्थनुं ज्ञाजन नवि वावरियें, परहरियें वली

आचरण ॥ ठाया कारण ठत्र न धरियें, धरे न उपानह चरण के ॥ मु० ॥
 ५ ॥ दातण न करे दर्पण न धरे, देखे नवि निज रूप ॥ तेल चोपडीये ने
 कांकी न कीजें, टीजें न वल्ले धूप के ॥ मु० ॥ ६ ॥ मांची पलंग नवि
 बेसीजें, किजें न विजणे वाय ॥ गृहस्थगेह नवि बेसीजे, विण कारण समु
 दाय के ॥ मु० ॥ ७ ॥ वमन विरेचन चिकित्सा, अग्नि आरंभ नवि कीजें ॥
 सोगठां सेत्रंज प्रमुख जे क्रीडा, ते पण सवि वरजीजें ॥ मु० ॥ ८ ॥ पांच
 इंद्रिय निजवश आणी, पंचाश्रव पच्चस्कीजें ॥ पंच समिति त्रण गुप्ति
 धरीनें, ठक्काय रक्षा ते कीजें के ॥ मु० ॥ ९ ॥ उनाले आतापना लीजे,
 शीयाले शीत सहीयें ॥ शांत दांत थइ परिसह सहेवा, स्थिर वरसाले
 रहियें के ॥ मु० ॥ १० ॥ इम डुक्कर करणी बहु करंतां, धरतां जाव उदा
 सी ॥ कर्म खपावी केइ हूआ, शिवरमणीशुं विदासी के ॥ ॥ मु० ॥ ११ ॥
 दशवैकालिक त्रीजे अध्ययनें, जांख्यो एह आचार ॥ लाज विजयगुरु
 चरण पसाये, वृद्धिविजय जयकार के ॥ मु० ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ अथ चतुर्थाध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ सुण सुण प्राणी, वाणी जिन तणी ॥ ए देशी ॥ स्वामी सुधर्मा रे
 कहे जंबु प्रत्ये, सुण सुण तुं गुणखाणि ॥ सरस सुधारसहूंती मीठडी, वीर
 जिणेसर वाणी ॥ स्वा० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ सूक्ष्म बादर त्रस थावर वली,
 जीव विराहण टाळा ॥ मन वच काया रे त्रिविधे स्थिर करी, पहिलुं व्रत सु
 विचार ॥ स्वा० ॥ १ ॥ क्रोध लोभ जय हास्यें करी, मिथ्या म जांखो रे वयण ॥
 त्रिकरण शुद्धें व्रत आराधजे, बीजुं दिवस ने रयण ॥ स्वा० ॥ ३ ॥ गाम
 नगर वनमांहे विचरंतां, सचित्त अचित्त तृण मात्र ॥ कांइ अदीधां मत
 अंगीकरो, त्रीजुं व्रत गुणपात्र ॥ स्वा० ॥ ४ ॥ सुर नर तिर्यच योनि संबं
 धियां, मैथुन कस्य परिहार ॥ त्रिविधे त्रिविधे तुं नित्य पालजे, चोथुं
 व्रत सुखकार ॥ स्वा० ॥ ५ ॥ धन कण कंचन वस्तु प्रमुख वली, सर्व
 अचित्त सचित्त ॥ परिग्रह मूर्छा रे तेहनी परहरी, धरी व्रत पंचम चित्त
 ॥ स्वा० ॥ ६ ॥ पंच महाव्रत एणीपरें पालजो, टाळजो जोजन राति ॥
 पापस्थानक सघलां परहरि, धरजो समता सवि जांति ॥ स्वा० ॥ ७ ॥
 पुढवी पाणी वायु वनस्पति, अग्नि ए थावर पंच ॥ वि ति चउ पंचिंदि
 जलयर थलयरा, स्वयरा त्रस ए पंच ॥ स्वा० ॥ ८ ॥ ए ठक्कायनी वारो

विराधना, जयणा करि सवि वाणि॥विण जयणा रे जीवविराधना, ज्ञांखे
तिहुअण ज्ञाण ॥ स्वा०॥ए ॥ जयणापूर्वक बोलतां वेसतां, करतां आहार
विहार ॥ पापकर्म बंध कदिये नवि हुवे, कहे जिन जगदाधार ॥ स्वा० ॥
॥१०॥ जीव अजीव पहिलां उलखी, जिम जयणा तस होय॥ ज्ञानविना
नवि जीवदया पले, टले नवि आरंज कोय ॥ स्वा० ॥ ११ ॥ जाणपणाथी
संवर संपजे, संवरें कर्म खपाय ॥ कर्मक्यथी रे केवल ऊपजे, केवली मु
क्ति लहेय ॥ स्वा० ॥१३॥ दशवैकालिक चउथाध्ययनमां, अर्थ प्रकाश्यो रे
एह ॥ श्री गुरु ब्रह्मविजयपद सेवतां, वृद्धिविजय लहे तेह ॥ स्वा०॥१३॥

॥ अथ पंचमाध्ययन सद्याय प्रारंजः ॥

॥ वीर क्लाणी राणी चेलणा ॥ ए देशी ॥ सुकता आहारनी खप
करो जी, साधुजी समय संज्ञाल ॥ संयम शुद्ध करवा ज्ञणी जी, एषणा
दूषण टाल ॥ सुऊ० ॥ १ ॥ प्रथम सजायें पोरिती करी जी, अणुसरी
वली उपयोग ॥ पात्र पडिलेहण आचरो जी, आदरी गुरु अणुयोग ॥
सु० ॥ २ ॥ ठार धूअर वरसातना जी, जीव विराहण टाल ॥ पग पग
ईर्या शोधतां जी, हरिकायादिक नाल ॥ सु० ॥ ३ ॥ गेह गणिका तणां
परिहरो जी, जिहां गयां चल चित्त होय ॥ हिंसक कुल पण तेम तजो
जी, पाप तिहां प्रत्यक्ष जोय ॥ सु० ॥ ४ ॥ निज हाथे वार उघाडीने
जी, पेसीयें नवि घरमांहि ॥ बाल पशु जिहुक प्रमुखने संघटे, जश्यें
नहिं घरमांहि ॥ सु० ॥ ५ ॥ जल फल जलण कण लूणशुं जी, जेट
तां जे दिये दान ॥ ते कढ्ये नहिं साधुनें जी, वरजवुं अन्न ने पान ॥
सु० ॥ ६ ॥ स्तन अंतराय बालक प्रत्ये जी, करीनें रडतो उवेय ॥ दान
दिये तो उलट नरी जी, तोहि पण सांधु वरजेय ॥ सु० ॥ ७ ॥ गर्जवती
वली जो दिये जी, तेह पण अकल्प होय ॥ बाल निशरणी प्रमुखें चढी
जी, आणि दीये कढ्ये न सोय ॥ सु० ॥ ८ ॥ मूढ्य आण्युं पण मत ली
यो जी, मत लीयो करी अंतराय ॥ विहरतां थंज खंजादिकें जी, न अ
नो थिर ठवो पाय ॥ सु० ॥ ९ ॥ एणीपरें दोष सर्वे ठांमतां जी, पामीयें
आहार जो शुद्ध ॥ तो लहियें देह धारण ज्ञणी जी, अणलहे तो तपवृद्धि
॥ सु० ॥ १० ॥ वयण लज्जा तृपा नदना जी, परिसहयी स्थिरचित्त ॥
गुरुपातें इरियावही पडिक्की जी, निमंत्री साधुने नित्य ॥ सु० ॥ ११ ॥

शुद्ध एकांत ठामें जई जी, पडिक्कमी ईरियावही सार ॥ ज्ञोयण दोष स
वि ठांनिने जी, स्थिर थइ करवो आहार ॥ सु० ॥ ११ ॥ दशवैकालिके
पांचमे जी, अच्ययनें कह्यो ए आचार ॥ ते गुरु लाजविजय सेवतां जी,
वृद्धिविजय जयकार ॥ सु० ॥ १३ ॥ इति ॥

॥ अथ षष्ठाध्ययन सधाय प्रारंभः ॥

॥ म म करो माया काया कारिमी ॥ ए देशी ॥ गणधर सुधर्म एम
उपदिसे, सांजलो मुनिवरबुंद रे ॥ स्थानक अढार ए उअखो, जेह ठे
पापना कंद रे ॥ ग० ॥ १ ॥ प्रथम हिंसा तिहां ठांडियें, जूठ नवि जां
खियें वयण रे ॥ तृष पण अदत्त नवि लीजीयें, तजीयें मेहुण सयण रे
॥ ग० ॥ २ ॥ परिग्रह मूर्खां परिहरो, नवि करो ज्ञोयण राति रे ॥ ठंनो
ठक्काय विराधना, जेद समजी सहु जांति रे ॥ ग० ॥ ३ ॥ अकटर आ
हार नवि लीजीयें, उपजे दोष जे मांहि रे ॥ धातुनां पात्र मत वावरो,
गृहीतणां मुनिवर प्राही रे ॥ ग० ॥ ४ ॥ गादीये मांचीये न वेसीयें,
वारियें शय्या पजंग रे ॥ रात रहियें नवि ते स्थजे, जिहां होवे नारि
प्रसंग रे ॥ ग० ॥ ५ ॥ स्नान मज्जन नवि कीजीयें, जिणे हुवे मनतणो
होत्र रे ॥ तेह शणगार वस्त्रि परिहरो, दंत नख केश तणां शोत्र रे ॥
ग० ॥ ६ ॥ ठठे अच्ययनें एम प्रकाशोयो, दशवैकालिक एह रे ॥ लाजवि
जय गुरु सेवतां, वृद्धिविजय लह्यो तेह रे ॥ ग० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ सप्तमाध्ययन सधाय प्रारंभः ॥

॥ कपूर हुवे अति उजलो रे ॥ ए देशी ॥ साचुं वयण जे जांखियें रे,
साची जाषा तेह ॥ सच्चा मोसा ते कहियें रे, साचुं मृषा होय जेह रे ॥ १ ॥
साधुजी करजो जाषा शुद्ध ॥ करी निर्मल निजबुद्धि रे ॥ सा० ॥ कर० ॥
ए आंकणी ॥ केवल जूठ जिहां होवे रे, तेह असच्चा जाण ॥ साचुं नहिं
जूठुं नहीं रे, असत्या अमृषा ठाण रे ॥ सा० ॥ क० ॥ १ ॥ ए चारेमांहे कही
रे, पहेली जाषा होय ॥ संयमधारी बोलवी रे, वचन विचारी जोय रे ॥ सा०
॥ क० ॥ ३ ॥ कठिन वयण नवि जांखियें रे, तुकारो रेकार ॥ कोइना मर्म
न बोलीयें रे, साचा पण निर्धार रे ॥ सा० ॥ क० ॥ ४ ॥ चोरने चोर न
जांखियें रे, काणाने न कहे काण ॥ कहीयें न अंधो अंधने रे, साचुं कठिन
ए जाण रे ॥ सा० ॥ क० ॥ ५ ॥ जेहथी अतरथ उपजे रे, परने पीडा थाय ॥

साधुं वयण ते ज्ञांखतां रे, क्षात्रधी त्रोटो जाय रे ॥ सा० ॥ क० ॥ ६ ॥ धर्म
सहित हितकारीया रे, गर्वरहित समतोला ॥ थोडखा ते पण मीठडा रे,
बोल विचारी बोल रे ॥ सा० ॥ क० ॥ ७ ॥ एम सवि गुण श्रंगीकरी रे, पर
हरि दोष अशेष ॥ बोलतां साधुनें हुवे नहिं रे, कर्मनो बंध लववेश रे
॥ सा० ॥ क० ॥ ८ ॥ दशवैकालिक सातमे रे, अध्ययने ए विचार ॥ क्षात्र
विजयं गुरुधी लहे रे, वृद्धिविजय जयकार रे ॥ सा० ॥ क० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथाष्टमाध्ययन सहाय प्रारंभः ॥

॥ राम सीताने धीज करावे ॥ ए देशी ॥ कहे श्रीगुरु सांजलो चेला रे,
आचारज ए पुण्यना वेला रे ॥ ठक्काय विराहण टालो रे, चित्त चोखे चा
रित्र पालो रे ॥ १ ॥ पुढवी पाषाण न जेदो रे, फल फूल पत्रादि न ठेदो रे ॥
बीज कूपल वन मत फरजो रे, जीव विराधनधी फरजो रे ॥ २ ॥ वली अग्नि
म जेटशो जाई रे, पीजो पाणी जनुं सदाइ रे ॥ मत वावरो काचुं पाणी
रे, एहवी ठे श्री वीरनी वाणी रे ॥ ३ ॥ हिम धूअर वड उंबरां रे, फल कुं
थुआ कीडी नगरां रे ॥ नील फूल हरी अंकूरा रे, इन्माल ए आठे पूरा
रे ॥ ४ ॥ स्नेहादिक जेदें जाणी रे, मत हणजो सूक्ष्म प्राणी रे ॥ पडि
लेही सवि वावरजो रे, उपकरणे प्रमाद म करजो रे ॥ ५ ॥ जयणायें
रुगलां जरजो रे, वाटे चालतां वात म करजो रे ॥ मत ज्योतिष निमित्त
प्रकासो रे, निरखो मत नाच तमासो रे ॥ ६ ॥ दीतुं अणदीतुं करजो रे,
पाप व्यसन न श्रवणे धरजो रे ॥ अणसूजतो आहार तजजो रे, राते स
न्निध सवि वरजो रे ॥ ७ ॥ वावीस परिसह सहेजो रे, देह दुःखे फल स
इहजो रे ॥ अण पामे कार्पण्य म करजो रे, तप श्रुतनो मद नवि धरजो
रे ॥ ८ ॥ स्तुति गति समता ग्रहेजो रे, देश काल जोइने रहेजो रे ॥
गृहस्थशुं जाति सगाइ रे, मत काढजो मुनिवर कांइ रे ॥ ९ ॥ न रमाडो
गृहस्थनां वाल रे, करो क्रियानी संजाल रे ॥ यंत्र मंत्र औपधनो जामो रे,
मत करजो कुगनिकामो रे ॥ १० ॥ क्रोधें प्रीति पूरवली जाय रे, वली
मानें विनय पलाय रे ॥ माया मत्राइ नसाडे रे, सवि गुण ते लोत्र न
साडे रे ॥ ११ ॥ ते माटें कपाय ए चार रे, अनुक्रमें दमजो अणगार रे
॥ उपेशमशुं केवल जावे रे, सरलाइ संतोप सजावें रे ॥ १२ ॥ ब्रह्मचा
रीने जाणजो नारी रे, जैसी पोपटने मांजारी रे ॥ तेणे परिहरो तस

परसंग रे, नव वाड धरो वलि चंग रे ॥ १३ ॥ रसलोबुप थइ मत पोपो
रे, निजकाय तप करीनें शोषो रे ॥ जाणो अधिर पुज्जपिंरु रे, व्रत पाळ
जो पंच अखंरु रे ॥१४॥ कहियुं दशवैकालिकें एम रे, अध्ययने आठमे ते
म रे ॥ गुरु दाजविजयथी जाणी रे, बुध वृद्धिविजय मन आणी रे ॥१५ ॥

॥ अथ नवमाध्ययन सधाय प्रारंजः ॥

॥ शेत्रुंजे जइयें लालन, शेत्रुंजे जइयें ॥ ए देशी ॥ विनय करेजो चे
ला, विनय करेजो ॥ श्रीगुरु आणा शीश धरेजो ॥ चेला० ॥शी० ॥ए आं
कणी ॥ क्रोधी मानी ने परमादी, विनय न शीखे वली विषवादी ॥चे०॥
व०॥१॥ विनयरहित आशातना करतां, बहु जव जटके दुर्गति फरतां ॥
चे० ॥ दु०॥अग्नि सर्प विष जिम नवि मारे, गुरु आसायण तेथी अधिक
प्रकारें ॥ चे० ॥अ० ॥ २ ॥ अविनयें दूषियो बहुल संसारी, अविनयी
मुक्तिनो नहिं अधिकारी ॥ चे० ॥ न० ॥ कोह्या काननी कूतरी जेम, हां
की काढे अविनयी तेम ॥ चे० ॥ अ० ॥ ३ ॥ विनय श्रुत तप वली आ
चार, कहीयें समाधिनां ठाम ए चार ॥ चे० ॥ ग० ॥ वली चार चार
जेद एकेक, समजो गुरुमुखथी सविवेक ॥ चे० ॥ श्री० ॥ ४ ॥ ते चारेमां
विनय ठे पहेलो, धर्म विनय विण जांखे ते घेलो ॥ चे० ॥ चां० ॥ मूल
थकी जिम शाखा कहियें, धर्मक्रिया तिम विनयथी लहिये ॥ चे० ॥
वि० ॥५॥ गुरु मान विनयथी लहे सो सार, ज्ञान क्रिया तप जे आचार
॥ चे० ॥जे०॥ गरथ पखें जिम न होये हाट, विण गुरुविनय तेम धर्मनी
वाट ॥ चे० ॥ध०॥६॥ गुरु नान्हो गुरु महोटो कहियें, राजा परें तस आ
णा वहियें ॥चे०॥आ०॥ अद्वयश्रुत पण बहुश्रुत जाणो, शास्त्रसिद्धांते तेह
मनाणो ॥ चे० ॥ ते० ॥ ७ ॥ जेम शशी ग्रहगणें विराजे, मुनि परिवारमां

साचुं वयण ते जांखतां रे, लाजथी त्रोटो जाय रे ॥ सा० ॥ क० ॥ ६ ॥ धर्म
सहित हितकारीया रे, गर्वरहित समतोल ॥ थोडला ते पण मीठडा रे,
बोल विचारी बोल रे ॥ सा० ॥ क० ॥ ७ ॥ एम सवि गुण अंगीकरी रे, पर
हरि दोष अशेष ॥ बोलतां साधुनें हुवे नहिं रे, कर्मनो बंध लववेश रे
॥ सा० ॥ क० ॥ ८ ॥ दशवैकालिक सातमे रे, अध्ययने ए विचार ॥ लाज
विजय गुरुथी लहे रे, वृद्धिविजय जयकार रे ॥ सा० ॥ क० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथाष्टमाध्ययन सद्यय प्रारंभः ॥

॥ राम सीताने धीज करावे ॥ ए देशी ॥ कहे श्रीगुरु सांजलो चेला रे,
आचारज ए पुण्यना वेला रे ॥ ठकाय विराहण टालो रे, चित्त चोखे चा
रित्र पालो रे ॥ १ ॥ पुढवी पाषाण न जेदो रे, फल फूल पत्रादि न ठेदो रे ॥
बीज कूपल वन मत फरजो रे, जीव विराधनथी करजो रे ॥ २ ॥ वली अग्नि
म जेटशो जाई रे, पीजो पाणी जनुं सदाइ रे ॥ मत वावरो काचुं पाणी
रे, एहवी ठे श्री वीरनी वाणी रे ॥ ३ ॥ हिम धूअर वड उंवरां रे, फल कुं
थुआ कीडी नगरां रे ॥ नील फूल हरी अंकूरा रे, इमाल ए आठे पूरा
रे ॥ ४ ॥ स्नेहादिक जेदें जाणी रे, मत हणजो सूक्ष्म प्राणी रे ॥ पडि
लेही सवि वावरजो रे, उपकरणे प्रमाद म करजो रे ॥ ५ ॥ जयणायें
रुगलां जरजो रे, वाटे चालतां वात म करजो रे ॥ मत ज्योतिष निमित्त
प्रकासो रे, निरखो मत नाच तमासो रे ॥ ६ ॥ दीतुं अणदीतुं करजो रे,
पाप व्यसन न श्रवणे धरजो रे ॥ अणसूजतो आहार तजजो रे, राते स
न्निध सवि वरजो रे ॥ ७ ॥ बावीस परिसह सहेजो रे, देह दुःखे फल स
दहजो रे ॥ अण पामे कार्पण्य म करजो रे, तप श्रुतनो मद नवि धरजो
रे ॥ ८ ॥ स्तुति गति समता ग्रहेजो रे, देश काल जोझे रहेजो रे ॥
गृहस्थशुं जाति सगाइ रे, मत काढजो मुनिवर कांइ रे ॥ ९ ॥ न रमाडो
गृहस्थनां बाल रे, करो क्रियानी संजाल रे ॥ यंत्र मंत्र औषधनो जामो रे,
मत करजो कुगनिकामो रे ॥ १० ॥ क्रोधें प्रीति पूरवली जाय रे, वली
मानें विनय पलाय रे ॥ माया मत्राइ नसाडे रे, सवि गुण ते लोत्र न
साडे रे ॥ ११ ॥ ते माटें कषाय ए चार रे, अनुक्रमें दमजो अणगार रे
॥ उपेशमशुं केवल जावे रे, सरलाइ संतोष सजावें रे ॥ १२ ॥ ब्रह्मचा
रीने जाणजो नारी रे, जैसी पोपटने मांजारी रे ॥ तेणे परिहरो तसं

परसंग रे, नव वाड धरो वलि चंग रे ॥ १३ ॥ रसलोबुप थइ मत पोपो
रे, निजकाय तप करीनें शोपो रे ॥ जाणो अथिर पुज्जपिंकरे, व्रत पाव
जो पंच अखंरु रे ॥ १४ ॥ कहियुं दशवैकालिके एम रे, अध्ययने आठमे ते
मरे ॥ गुरु धाजविजयथी ज्ञाणी रे, बुध वृद्धिविजय मन आणी रे ॥ १५ ॥

॥ अथ नवमाध्ययन सद्याय प्रारंभः ॥

॥ शेत्रुंजे जइयें लालन, शेत्रुंजे जइयें ॥ ए देशी ॥ विनय करेजो चे
ला, विनय करेजो ॥ श्रीगुरु आणा शीश धरेजो ॥ चेला ॥ शी ॥ ए आं
कणी ॥ क्रोधी मानी ने परमादी, विनय न शीखे वली विषवादी ॥ चे ॥
व ॥ १ ॥ विनयरहित आशातना करतां, बहु जव जटके दुर्गति फरतां ॥
चे ॥ २ ॥ अग्नि सर्प विष जिम नवि मारे, गुरु असायण तेथी अधिक
प्रकारें ॥ चे ॥ अ ॥ ३ ॥ अविनयें दूषियो बहुल संसारी, अविनयी
मुक्तिनो नहिं अधिकारी ॥ चे ॥ न ॥ कोह्या काननी कूतरी जेम, हां
की काढे अविनयो तेम ॥ चे ॥ अ ॥ ४ ॥ विनय श्रुत तप वली आ
चार, कहीयें समाधिनां ठाम ए चार ॥ चे ॥ ठा ॥ वली चार चार
जेद एकेक, समजो गुरुमुखथी सविवेक ॥ चे ॥ शी ॥ ४ ॥ ते चारेमां

॥ अथ दशमाध्ययन सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ ते तरीया जाइ ते तरीया ॥ ए देशी ॥ ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो, उपशम रसनो कंदो रे ॥ निर्मल ज्ञान क्रियानो चंदो, तप तेजे जेहवो दि एंदो रे ॥ ते० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ पंचाश्रवनो करि परिहार, पंच महाव्रत धारो रे ॥ षट्जीव तणो आधार, करतो उग्रविहारो रे ॥ ते० ॥ २ ॥ पंच समिति त्रण गुप्ति आराधे, धर्मध्यान निराबाध रे ॥ पंचमगतिनो मारग साधे, शुच गुण तो इम वाधे रे ॥ ते० ॥ ३ ॥ क्रय विक्रय न करे व्यापार, निर्मम निरहंकार रे ॥ चारित्र पाले निरतिचारें, चालंतो खजनी धार रे ॥ ते० ॥ ४ ॥ जोग ने रोग करी जे जाणे, आपे पुण्य वखाणो रे ॥ तप श्रुतनो मद नवि आणे, गोपवी अंग ठेकाणे रे ॥ ते० ॥ ५ ॥ ठांकी धन कण कंचन गेह, थइ निःस्नेही निरीह रे ॥ खेहसमाणी जाणी देह, नवि पोसे पापें जेह रे ॥ ते० ॥ ६ ॥ दोष रहित आहार जे पामे, जे दूखे परिणामें रे ॥ वेतो देहनुं सुख नवि कामे, जागतो आठेइ जामे रे ॥ ते० ॥ ७ ॥ रसना रस रसीयो नवि आवे, निर्लोचनी निर्माय रे ॥ सहे परिसह स्थिर करी काया, अविचल जिम गिरिराय रे ॥ ते० ॥ ८ ॥ राते काउस्सग करी समशाने, जो तिहां परिसह जाणे रे ॥ तो नवि चूके तेहवे टाणे, जय मनमां नवि आणे रे ॥ ते० ॥ ९ ॥ कोइ ऊपर न धरें क्रोध, दिये सहुने प्रतिबोध रे ॥ कर्म आठ जीपवा जोध, करतो संयम शोध रे ॥ ते० ॥ १० ॥ दशवैकालिक दशमाध्ययने, एम जांख्यो आचार रे ॥ ते गुरुदाज विजयथी पामे, वृद्धिविजय जयकार रे ॥ ते० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथैकादशाध्ययन सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ नमो रे नमो श्रीशत्रुंजय गिरिवर ॥ ए देशी ॥ साधुजी संयम सूधो पालो, व्रत दूषण साव टालो रे ॥ दशवैकालिक सूत्र संजालो, मुनि मारग अजुआलो रे ॥ सा० ॥ सं० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ रोगांतिक परिसह संकट, परसंगे पण धार रे ॥ चारित्रथी मत चूको प्राणी, इम जांखे जिनसार रे ॥ सा० ॥ सं० ॥ २ ॥ जमचारी मुंनो कहावे, इह जव परजव हार रे ॥ नरक निगोद तणां दुःख पामे, जमतो बहु संसार रे ॥ सा० ॥ सं० ॥ ३ ॥ चित्त चोखे चारित्र आराधे, उपशम नीर अगाध रे ॥ जीजे सुंदर समतादरिये, ते सुख संपत्ति साधे रे ॥ सा० ॥ सं० ॥ ४ ॥ कामधेनु चिंतामणि सरिखुं,

चारित्र चित्तमें आणो रे ॥ इह जव परजव सुखदायक ए सम, अवर न कांइ जाणो रे ॥ साण॥ ५ ॥ सिज्जंजव सूरियें रचीयां, दश अध्ययन रसा लां रे ॥ मनकपुत्र हेतें ते जणतां, लहियें मंगलमाला रे ॥ साण॥ ६ ॥ श्रीविजयप्रजसूरिने राज्यें, बुध लाजविजयने शिष्यें रे ॥ बुद्धिविजय छिबुध आचार ए, गायो सकल जगीजें रे ॥ साण॥ ७ ॥ इति दशवैकालिक सहाय संण ॥

॥ अथ लालचंद्रशुद्धिस्त श्रीविजयकुंवर अने विजयाकुंवरीनी सहाय ॥

॥ लावणीनी देखीमां ॥ श्रीवीतराग जिनदेव नमुं शिर नामी, कहुं शीलतणो अधिकार, मुक्ति जिण पामी ॥ एक वत्सदेशमें कोसंबिनगरी जाणी, ते दक्षिण देशमें प्रगटपणे वखाणी ॥ तिहां शेर तणो सुत विजयकुमर वैरागी, सुणि शीलतणो महिमा मनमें लय लागी ॥ तव हाथ जोड कर मुनिपें सोगन मागी, हुआ एक मासमें कृष्णपद्मका त्यागी ॥ १ ॥ धन विजय कुमरकी करी कमी कहु नांजी, चित्त चोखे शील आदखुं जरजोबनमां जी ॥ ए आंकणी ॥ पाले श्रायक धर्म शुरुज्ञान मुख उच्चरे, पोसह पडिक्कमणां संवर करता विचरे ॥ करि दया दान संतोष शील शुरु पाले, धरि धर्म ध्यान उर आतमकुं अजुआले ॥ दृढ समकितधारी शंका कंखा नवि आणे, पर पाखंमीको परतो नहीं वखाणे ॥ देवादिकनां दुःख देखी धर्म नवि ठंके, चढते परिणामें करणी अधिकी मंके ॥ धन० ॥ २ ॥ पुण्ययोगें विजयाकुमरी मली गुणवंती, शुरु चोशठ कलानी जाण महा बुद्धिवंती ॥ गजगमणी रमणी बोले को किल वाणी, तनुं कंचन सोहे बदन जाल जलकाणी ॥ अति अधर लाल कोमल कपोल बहु सोहे, कर चरण उदर मुखकमल जोइ मन मोहे ॥ बहु हर्ष जावशुं विजय कुमरजी तीहां, पुण्ययोगें जोड मली परणे घर प्रीया ॥ धन० ॥ ३ ॥ हवे विजय कुमरजीकी सोहे सुंदरताइ, अब सुर सुंदरकी देवरूप ठवि ठाइ ॥ बिहु कानें कुंमल रलें जडियां सोहे, शिर लाब मुकुट मुक्ताफल सुर नर मोहे ॥ गले हार रलें जडिया सोहे बहु जारी, कर कंकण चमकण मुडडीयां ठवि न्यारी ॥ अरु बदन जाल निर्मल शशि नेत्रें सोहे, इत्यादिक गुण करि विजयकुमर मन मोहे ॥ धन० ॥ ४ ॥ तव रंग महेलमें बेठे पलंग बिठाई, प्रीतमकी सेजां सुंदर तन सज आई ॥ अणियालां कज्जल वीजलीयां चमकंती, करजोडी ऊनी

पीयु आगल मलपंती ॥ चमके चूडियां सार मणियें चमकंती, नकवेसर
 वेणी जूमरीयां जमकंती ॥ कर कडियां जडियां मुद्रडियां दमकंती, अरु
 नेजर पगमें घूघरियां धमकंती ॥ धन० ॥ ५ ॥ जब बदन दिखावे काम
 जगावे बाला, इंद्राणी सरखी जूनी रूप रसावा ॥ प्रीतमको आदर मा
 गे सुंदरी उमाइ, तन मन उल्लसंती उजी आशा छाइ ॥ कहे विजयकुमर
 जी अहो सुंदरि जखें आई, पण हमणां तुमशुं काम नहिं मुज कांइ ॥
 दिन तीन लगें तो नहिं मदनकी ठांही, फिर तुम हम पीठें सुखें सुखें
 दिन जाई ॥ धन० ॥ ६ ॥ कहे कुमरी कुमरकूं कहो कारण ठे कांइ, हुं सुं
 दर तन सज कर आइ तुं उमाई ॥ अब अवसर जरियां केम तजो प्रीत
 मजी, में नियम लीयो ठे तुं सुंदरी नहिं सभजी ॥ तब कुमरी पूठे कहो
 प्रीतमजी हमकुं, अब किसी जांतका नियम लिया हे तुमकुं ॥ मुज बाव
 पणायी शियल रुच्यो मनमांही, किया कृष्णपद्मका नियम मुनिपें जाइ
 ॥ धन० ॥ ७ ॥ तब विजया कुमरी जूनी मुख कुमलाई, मुज मनकी
 आशा जरी रही मनमांही ॥ कहे विजयकुमर मुण सुंदरि क्युं कुम
 लाइ, तुम जिम ठे तिम मुज वेग कहो फुरमाई ॥ तब विजयाकुमरी
 धीरजता मन लाई, नीचा नेत्रें करी वात करे मुरजाई ॥ मुज बालपणा
 थी शील रुच्यो मनमांही, यहिला परणेका परिणाम हता नहिं कांही
 ॥ धन० ॥ ८ ॥ गुरुणीपें किया में शुक्लपद्मका सोगन, अब तो महारे
 हूआ दोनुं पद्मका आगन ॥ प्रीतमजी तुम तो परणो नारी अनेरी, पण
 पहेली इष्टा श्मेल तणी हुइ मेरी ॥ कहे विजयकुमरजी अहो वल्लज गु
 णवंती, अब तुम हम जोडी मली बहू दीपंती ॥ हवे रल ठोड कोण
 काच ग्रहे सुण प्यारी, शुरु शील पावशुं मुक्तिरमणी ठे नारी ॥ धन० ॥
 ॥ ९ ॥ बहु देवलोकनां सुख विलस्थां वार अनेरी, पण मनइष्टा पूरण
 जइ नहिं कुण केरी ॥ जीव नरक निगोद जस्यो जवसायर मांही, बहु
 काख गमायो गरज सरी नहिं कांही ॥ अब उत्तम कुल अवतार लीयो
 ठे आइ, पुण्ययोगें मुनिवरकी योगवाई पाई ॥ अब मात तात सब ज्ञात
 मिंले स्वारथका, चढते परिणामें शियल पावशुं नित्यका ॥ धन० ॥ १० ॥
 अब अल्प संपदा देखी कहो किम खोईयें, पण वाटी साटे खेत खोयां
 दुःख होईये ॥ अब यह वात अपने नहिं करनी कीसीकुं, जो हम दोनुने

नियम लिया है खुसीकुं ॥ करजोड़ी कुमरी कहे कुमरशुं अरजी, पण
 वात ए ठानी केम रहेसे कुंवरजी ॥ सुणी ससरो सासु घणां खीजशे
 तुमशुं, पठी किसी शरमसे रह्यो जायशे हमशुं ॥ धन० ॥ ११ ॥ सुण
 प्रीतम प्यारी एह आपणी शिक्षा, यह वात प्रगटी तब निश्चलेवी दीक्षा
 ॥ एकण सेजे सोवे सुंदरि अरुसाई, सुते सुते बाल करे ज्युं वहेनने जाई ॥
 दो बेर करे पडिकमण सामायिक आई, करे दान शील तप जली जाव
 ना जाई ॥ तिहां बार बरस बहि गयां एम करंतां, पठी वात विस्तरी
 शीलपणे विचरंतां ॥ धन० ॥ १२ ॥ तब दक्षिण देशमें विजया विज
 यजी केरां, श्रीविमलकेवली कियां वखाण घणोरां ॥ बेहु चरमशरीरी
 ठे महा उत्तम प्राणी, सहु अचरिज पाम्यां सुणि केवलिमुख वाणी ॥
 सुणि जिनदास श्रावक हुं बहुत प्रसन्न, हुं जाइ करुं तिहां हर्ष धरी
 दरशन्न ॥ बहु हर्ष जावशुं आव्यो नगरि कोसंबी, श्रीविजयकुमरनी
 वात सुणी अचंजी ॥ धन० ॥ १३ ॥ बहु हर्ष जावयी मलियो कुंअर
 कुंवरियां, परिवार जिमाया बहुत हर्ष मन धरिया ॥ तब मात तात कुम
 रका घणुं उमाद्या, तुम कहो शेठजी कुण सगपणतें आया ॥ श्रीजैनधर्म
 स्नेहें होशें करी आयो, शीलवंत कुमर कुमरीको दरिसन पायो ॥
 धन्य तुमचे कुक्षमें उपना उत्तम प्राणी, श्रीविमल केवली शोजा घणी
 वखाणी ॥ धन० ॥ १४ ॥ एक सेजे सोवे शील निर्मलुं पाले, विहुं बाल
 ब्रह्मचारी आतमने अजुवाले ॥ बहु अचरिज सरखी वात सुणी हुं आ
 यो, बली जावमुनिको दर्शन निर्मल पायो ॥ तब मात तात कहे कहोजी
 हमकुं न्हाना, तुम किसी जांतका नियम लीया है ठाना ॥ तब नेत्र नी
 चां करी वात कहे विस्तारी, अब संयम लेवा इहा जई हमारी ॥ धन०
 ॥ १५ ॥ जब मात तातपें मागे कुंवरजी आग्ना, तब नात जात सब
 कुमरकुं कहने लाग्या ॥ तब बहुत हठनशुं लही कुमरजी शिक्षा, चढते
 परिणामें दोनुं लीनी शुरू दीक्षा ॥ बहु कठिन होईनें तपस्याशुं लय ला
 इ, जवि जीव सुधाख्या शुद्ध समकित पद पाइ ॥ अरे जीव अब ठती वांठे
 किम ठटकाइ, धन्य विजय विजया (कुमरी) ने अधिक करी अधिकाई
 ॥ धन० ॥ १६ ॥ चढते परिणामें करणी कीधी निर्मल, मुनि मुक्तें पढोता
 दोनुं पाम्यां केवला ॥ श्रीदोलतरामजी अने जीवाजी स्वामा, ऋषि लालचंद

गुणग्राम किया शिरनामी ॥ सय संवत अढार अडशठें अवसर पाया,
शहेर कोटा केरा रामपुरे गुण गाया ॥ जिहां श्रावक बहु वसे श्रद्धा गुण
वंता, जिहां साधु साधवी आवे विहार करंतां ॥ ज्ञ० ॥ १७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री जावरल्लजीकृत जांजरिया मुनिनी सद्यय प्रारंजः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ सुण बहेनी, पियुडो परदेशी ॥ ए देशी ॥

॥ सरस्वती चरणे शीश नमावी, प्रणमी सङ्गुरु पाया रे ॥ जांजरिया
ऋषिना गुण गातां, उखट अंग सवाया रे ॥ १ ॥ जविजन वंदो मुनि जां
जरियो ॥ ए आंकणी ॥ संसार समुद्र जे तरीयो रे ॥ शियल सन्नाह पेरी
मनशुद्धें, शियल रयणें करी जरियो रे ॥ ज्ञ० ॥ २ ॥ पेठाणपुरे मकरध्वज
राजा, मदनसेना तस राणी रे ॥ तस सुत मदनब्रह्म बालूडो, कीर्ति जा
स कहेवाणी रे ॥ ज्ञ० ॥ ३ ॥ बत्रीस नारी सकोमल परण्यो, जरजोवन
रस लीनो रे ॥ इंद्र महोत्सव उद्यानें पहोतो, मुनि देखी मन जीनो रे ॥
ज्ञ० ॥ ४ ॥ चरणकमल प्रणमी साधुना, विनय करीने बेठो रे ॥ देशना
धर्मनी दे साधुजी, वैराग्यें मन पेठो रे ॥ ज्ञ० ॥ ५ ॥ माता पितानी अ
बुझती मागी, संसार सुख सवि ठांकी रे ॥ संयम मारग सूधो लीधो,
मिथ्याभति सवि ठांकी रे ॥ ज्ञ० ॥ ६ ॥ एकलडो वसुधातल विचरे, तप
तेजे करी दीपे रे ॥ जोवन वय जोगीश्वर बलियो, कर्म कटकने जीपे रे
॥ ज्ञ० ॥ ७ ॥ शील सन्नाह पहेश्यो जेणे सबलो, समिति गुप्ति चित्त धर
तो रे ॥ आप तरे ने परने तारे, दरिसणे डुरगति हरतो रे ॥ ज्ञ० ॥ ८ ॥
त्रंवावतीनगरी मुनि पहोतो, उग्रविहार करंतो रे ॥ मध्यान्हें गोचरीयें
संचरतो, नगरीमा मुनि जमंतो रे ॥ ज्ञ० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ बेडले चार घणो ठे राज, वातां केम करो ठो ॥ ए देशी ॥ इण अव
सरें तीहां सरुणी, गोरडी गोखें वेठी ॥ निजपति चाढ्यो ठे परदेशें, विष
यसमुद्रमां पेठी ॥ १ ॥ विरुड मदन चढाड राज, जेणें तेणे जीती न जा
वे ॥ ए आंकणी ॥ शोल शृंगार सजी सा सुंदरी, जरजोवन मदमाती ॥
चपलनयन चिहुं दिशि फेरवती, विषया रस रंग राती ॥ वि० ॥ २ ॥
चाचर चहूटे चिहुं दिशि जोतां, आवंतो ऋषि दीठो ॥ मलपंतो ने मोह
नगारो, मनशुं लाग्यो मीठो ॥ वि० ॥ ३ ॥ राजकुमार कोडक ठे रूडो,

रूपें अनुपम दीसे ॥ जोवनवय मल्लपंतो योगीश्वर, ते देखी चित्त हिंसे
 ॥ वि० ॥ ४ ॥ तव दासी खासी तेडावी, लावो एहने बोलावी ॥ शेठा
 णीनां वयण सुणीने, दासी तेडण आवी ॥ वि० ॥ ५ ॥ इण घर आवोने
 साधुजी, वोरण काजें वेलां ॥ चोले जावें मुनिवर आवे, शुं जाणे मन
 महेलां ॥ वि० ॥ ६ ॥ थाल जरी मोदक मीठाइ, मुनिवरने कहे वहेरो
 ॥ मेलां कपडां ऊतारीने, आठा वाघा पहेरो ॥ वि० ॥ ७ ॥ आ मंदिर
 माझियां महोटां, सुंदर सेज विठाइ ॥ चतुर नारी मुऊ साथें मुनिवर,
 सुख विलसो लइ लाइ ॥ वि० ॥ ८ ॥ विरहाग्नियें करी हुं दाजी, परम
 सुधारस सींचो ॥ माहारां वयण सुणिने मुनिवर, वात आधी मत खी
 चो ॥ वि० ॥ ९ ॥ विषय वयण सुणी वनितानां, समता रसमां बोले
 ॥ चंदनथी पण शीतलवाणी, मुनि अंतरथी खोले ॥ वि० ॥ १० ॥ तुं
 बालक दीसे ठे बाली, बोलतां नवि लाजे ॥ उत्तम कुलमां जेह उपना, ते
 हने ए नवि ठाजे ॥ वि० ॥ ११ ॥ ए आचार नहीं अम कुलमां, कुल
 षण केम दीजें ॥ निजकुलने आचारे चालीजें, तो जगमां जस लीजें
 ॥ वि० ॥ १२ ॥ वात अठे जगमां वे मोटी, जारी ने एक चोरी ॥ एणे
 जव अपयश बहु पामे, परजव दुःख अघोरी ॥ वि० ॥ १३ ॥ शिष्य
 चिंतामणि सरखुं ठंकी, विषयारस कोण रीजे ॥ वर्षाकाले मंदिर पामी,
 उघाडो कोण जीजे ॥ वि० ॥ १४ ॥ मन वचन कायार्यें करीने, व्रत लीधुं
 नवि खंरु ॥ ध्रुव तणी परे अविचल पालुं, अमे घरवास न मंरुं ॥ विरु
 इ मदन चढाइ राज ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ विठियानी देशी ॥ हारे लाळ शीख साधुनी अवगुणी, जाणे वेग
 थइ घडनाळ रे लाळ ॥ कामवशें थइ आंधळी, करे साधुतणी ते आळ
 रे लाळ ॥ १ ॥ मुनि पाये जांऊर रमऊमे, ते आवी पेटुं साधुने पाय
 रे लाळ ॥ वेळतणी परें सुंदरी, वलगी साधुनी बांय रे लाळ ॥ मु० ॥
 २ ॥ हारे जोर करी जोरावरें, निकट्यो तिहांथी मुनिराय रे लाळ ॥ तव
 पोकार पूंठे सुण्यो, धाड एणें कीधो अन्याय रे लाळ ॥ मु० ॥ ३ ॥
 हां० ॥ तिहांथी मुनिवर चालीयो, पाये जांऊरनो ऊमकार रे लाळ ॥
 लोक बहु निंदा करे, माठो ए अणगार रे लाळ ॥ मु० ॥ ४ ॥ हां० ॥

चोवारे वेठो राजवी, नजरें जोवे श्रवदात रे लाल ॥ दीधो देशवटो ना
रीने, मुनियश तणी थइ वात रे लाल ॥ मु० ॥ ५ ॥ हां० ॥ तिहांथी
मुनिवर चालीया, आव्या कंचनपुर गाम रे लाल ॥ राजा राणी वे प्रेम
शुं, वेठां गोंखे आराम रे लाल ॥ मु० ॥ ६ ॥ हां० ॥ राणी मुनिवर देखी
नें, आंसुडे वूठी धार रे लाल ॥ राजा देखी मन कोपियो, सही एहनो
पूर्व जार रे लाल ॥ मु० ॥ ७ ॥ हां० ॥ राजा गयो रयवाडीयें, तेडाव्यो
ऋषिनें त्यांहि रे लाल ॥ खारु खणी नंमी घणी, बेसाड्यो ऋषिने मांहि
रे लाल ॥ मु० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ देवतणी ऋद्धि जोगवी आव्यो ॥ ए देशी ॥ अणसण खामण करे
मुनि तिहां कणे, समता सायरमां जीक्षे ॥ चोराशी जीवायोनि खमावे,
पापकर्मने पीले रे ॥ मुनिवर तुं मोरे मन वसियो ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥
उदय आव्यां निज कर्म आलोइ, ध्यान जिनेश्वर ध्यावे ॥ खजें हणंतां
केवल पामी, अविचल ठामें जावे रे ॥ मु० ॥ २ ॥ शरीर साधुनुं शूलियें
आरोप्युं, हाहाकार त्यां पडियो ॥ उंधो वख्र लोहिये रंगाणां, अति अन्या
य रायें करियो रे ॥ मु० ॥ ३ ॥ समती उंधो लइ उमंती, ते राणी आगल
पडियो ॥ बंधव केरो उंधो देखीनें, हृदय कमलथी खडियो रे ॥ मु० ॥
४ ॥ अति अन्याय जाणीने राणी, अणशण पोतें लीधो ॥ परमारथ जा
ण्यो राजायें, हाहा ए शुं में कीधो रे ॥ मु० ॥ ५ ॥ ऋषिहत्यानुं पातक
लाग्युं, ते केम बूट्युं जावे ॥ आंसुडां नाखंतो राजा, मुनि कलेवर खमावे
रे ॥ मु० ॥ ६ ॥ गदगदस्वरे रोवंतो राजा, मुनिवर आगल वेठो ॥ मान
जेळीने खमावे रे चूपति, समता सायरमां पेठो रे ॥ मु० ॥ ७ ॥ फरी फ
री जठीनें पायज लागे, आंसुडे पाप पखावे ॥ चूपति उग्र जावना जा
वतो, कर्मपकल सवि टाले रे ॥ मु० ॥ ८ ॥ केवलज्ञान लक्षुं राजायें, जवो
जव वैर खमावे ॥ जांकरिया ऋषिना गुण गातां, पापकर्म शमावे रे ॥ मु०
॥ ९ ॥ संवत सत्तर षपन्न केरा, आवाढ शुद बीज सोहे ॥ सोमवारे स
द्याय ए कीधी, सांजलतां मन मोहे रे ॥ मु० ॥ १० ॥ श्रीपूनम गद्य गुरु
विराजे, महिमाप्रज्ञ सूरिंदा ॥ जावरल सुशिष्य एम पजणे, सांजलजो
सहु वृंदा रे ॥ मु० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ नित्यस्नानजीकृत चंदनवालानी सधाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ अरुणिक मुनिवर चाढ्या गोचरी ॥ ए देशी ॥ श्री सरस्वतीना रे पाय प्रणमी करी, शुणशुं चंदनवाला जी ॥ जेणें वीरनो रे अजिग्रह पूरियो, लाधी मंगल साळा जी ॥१॥ दान उलट धरी जवियण दीजियें, जेम लहियें जग मानो जी ॥ स्वर्गतणां सुख सहेजें पामीयें, ना से दुर्गति स्थानो जी ॥ दान० ॥ २ ॥ नयरी कोसंबी रे राज्य करे तिहां, नामें संतानिक जाणुं जी ॥ मृगावती राणी रे सहियर तेहजी, नंदी ना में वखाणुं जी ॥ दान० ॥३॥ शेष धनावो रे जिण नगरी वसे, धनघंतमां शिरदारो जी ॥ मूलानामें रे गृहिणी जाणियें, रूपें रति अवतारो जी ॥ दान० ॥ ४ ॥ एणें अघसर श्रीवीरजिनेश्वरु, करता उग्र विहारो जी ॥ पोषवद्द पडवे रे अजिग्रह मन धरी, आव्या तिण पुर सारो जी ॥ दान० ॥५॥ राजसुता होये मस्तक हौर करी, कीधा त्रण्य उपवासो जी ॥ पगमां वेडी रे रोतो दुःख जरी, रहेती परघरवासो जी ॥ दान० ॥ ६ ॥ खरे रे वपोरें वेठी उंवरे, एकपग वाहिर एक मांहे जी ॥ सुपडाने खूणें रे अडद ना बाकला, मुजने आपे उत्साहे जी ॥ दान० ॥ ७ ॥ एहवुं धारी रे मन मांहे प्रजु, फरता आहारने काजे जी ॥ एक दिन आव्या रे नंदीने घरे, ईर्या समिति विराजे जी ॥ दान० ॥ ८ ॥ तव सा देखी रे मन हर्षित थड, मोदक खेड सारो जी ॥ बहोरावे पण प्रजुजी नवि लीये, फरि गया तेणीवारो जी ॥ दान० ॥९॥ नंदी जइने रे सहियरने कहे, वीर जिनेसर आव्या जी ॥ जिह्वाकाजे रे पण खेता नथी, मनमां अजिग्रह लाव्या जी ॥ दान० ॥ १० ॥ तेहनां वयण सुणी निज नयरमां, घणा रे उपाय करावे जी ॥ एक नारी तिहां मोदक खेड करी, एक जणी गीतज गावे जी ॥ दान० ॥ ११ ॥ एक नारी शृंगार सोहामणा, एक जणी वाक्क खेड जी ॥ एक जणी मूके रे वेणीज मोकली, नाटक एक करेड जी ॥ दान० ॥ १२ ॥ एणिपरें रासा रे रमणी रंग जरी, आणी हर्ष अपारो जी ॥ बहोरावे बहु जाव जकें करी, तोय न घोये आहारो जी ॥ दान० ॥ १३ ॥ धन्य धन्य प्रजुजी वीर जिनेसरु, तुम गुणनो नहिं पारो जी ॥ दुकर परिसह चितमां आदख्यो, एह अजिग्रह सारो जी ॥ दान० ॥ १४ ॥ एणीपरें फिरतां रे पांच मास थया, उपर दिन पचकीसो जी ॥

अग्निग्रह सरिखो रे जोग मले नहीं, विचरे श्रीजगदीशो जी ॥ दाण॥१५॥
॥ ढाल बीजी ॥

॥ नमो नमो मनक महामुनि ॥ ए देशी ॥ तेषे अवसर तिहां जा
णियें, राय संतानिक आव्यो रे ॥ चंपानगरी उपरे, सेना चतुरंगी दल
लाव्यो रे ॥ तेषें अवसर तिहां जाणियें ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ दधिवा
हन नबलो थयो, सेना सघली नाठी रे ॥ धारणी धूआ वसुमती, वांद
पड्या थइ माठी रे ॥ ते० ॥ २ ॥ मारगमां-जातां थकां, सुजटने पूढे
राणी रे ॥ शुं करशो अमने तमें, करशुं गृहिणी गुणखाणी रे ॥ ते० ॥ ३ ॥
तेह वचन श्रवणें सुणी, सतीस शिरोमणि ताम रे ॥ ततक्षण प्राण
तज्यां सही, जो जो कर्मनां काम रे ॥ ते० ॥ ४ ॥ वसुमती कुमरी
खेइ करी, आव्यो निजघर मांही रे ॥ कोप करी घरणी तिहां, देखी
कुमरी उत्साही रे ॥ ते० ॥ ५ ॥ प्रात समय गयो वेचवा, कुमरीने नि
रधारो रे ॥ वेश्या पूढे मूख्य जेहनुं, ते कहे शतपंच दिनारो रे ॥ ते० ॥
॥ ६ ॥ एहवे तिहांकणे आवियो, शेठ धनावो नाम रे ॥ कहे कुमरी
खेशुं अमें, खासा आपशुं दाम रे ॥ ते० ॥ ७ ॥ शेठ वेश्या जगडे ति
हां, मांहो मांहे विवादो रे ॥ चक्रेसरी सान्निध्य करी, वेश्या उताख्यो
नादो रे ॥ ते० ॥ ८ ॥ वेश्याथी मूकावीने, शेठ तेडी घरे आवे रे ॥ म
नमां अति हर्षित थको, पुत्री कहीने बोलावे रे ॥ ते० ॥ ९ ॥ कुमरी
रूपें रूअडी, शेठ तणुं मन मोहे रे ॥ अग्निव जाणे सरस्वती, कला
चोशठ सोहे रे ॥ ते० ॥ १० ॥ काम काज घरनां करे, बोले अमृत वा
णी रे ॥ चंदनवाला तेहनुं, नाम दीधुं गुण जाणी रे ॥ ते० ॥ ११ ॥
चंदनवाला इक दिने, शेठ तणा पग धोवे रे ॥ वेणी उपाडी शेठजी,
मूला बेठी जोवे रे ॥ ते० ॥ १२ ॥ ते देखीने चिंतवे, मूला मन सं
देह रे ॥ शेठजी रूपें मोहिया, करसे गृहिणी एह रे ॥ ते० ॥ १३ ॥
मनमां क्रोध करी घणो, नावीने तेडावी रे ॥ मस्तक जड करावीशुं, पग
मां वेडी जडावी रे ॥ ते० ॥ १४ ॥ उरडामांहि घालीने, ताहुं देइने
जावे रे ॥ मूला मन हर्षित थइ, बीजे दिन शेठ आवे रे ॥ ते० ॥ १५ ॥
शेठ पूढे कुमरी किहां, घरणीने तिण काळें रे ॥ ते कहे हुं जाणुं नहीं,
एम ते उत्तर आले रे ॥ ते० ॥ १६ ॥ एम करतां दिन त्रण थया,

सोहि न जाणे वात रे ॥ पामोशण एक मोकरी, सघली कही तेणें वात
रे ॥ ते० ॥ १७ ॥ काढी वार उघाडीने, उंबरा वच्चें बेसारी रे ॥ आप्या
अडदना वाकुला, सुपडामांहे तिण वारी रे ॥ ते० ॥ १८ ॥ शेत वूहार
तेडण गयो, कुंवरी चावना जावे रे ॥ इण अवसर व्होरावियें, जो कोइ
साधुजी आवे रे ॥ ते० ॥ १९ ॥ इति ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ वेडले नार घणो ठे राज, वळां केम करो ठो ॥ ए देशी ॥ इण
अवसर श्रीवीर जिनेसर, जंगम सुरतरु आया रे ॥ अतिजावे ते चंदन
वाला, वांदे जिन सुखदाया ॥ १ ॥ आघा आम पधारो पूज्य, अम घर
वहोरण वेला ॥ ए आंकणी ॥ आज अकालें आंवो महोख्यो, मेह अमी
रस वूठा रे ॥ कर्मतणा जय सर्वे नाठा, अमने जिनवर तूठा ॥ आघा
आम पधारो वीर, मुजने पावन कीजें ॥ २ ॥ एम कहीन अडदना वा
कुला, जिनजीने व्होरावे रे ॥ योग्य जाणीने प्रजुजी व्होरे, अचिग्रह
पूरण थावे ॥ आघा० ॥ ३ ॥ वेडी टलीने जांजर हूआं, मस्तक वेणी
रूडी रे ॥ देव करे तिहां वृष्टि सुवननी, साडी वारह कोडी ॥ आघा०
॥ ४ ॥ वात नगरमां सघले व्यापी, धन लेवा नृप आवे रे ॥ मूलाने पण
खवर थइ ठे; ते पण तिहां कणे जावे ॥ आघा० ॥ ५ ॥ शासनदेवी
सांनिध्य करवा, बोले अमृत वाणी रे ॥ चंदनवालानुं ठे ए धन, सांचल
गुणमणिखाणी ॥ आघा० ॥ ६ ॥ चंदनवाला संयम लेशे, तव ए धन
खरचाशे रे ॥ राजाने एणि परें समजावे, मनमां धरी उह्यासे ॥
आघा० ॥ ७ ॥ शेत धनावो कुमरी तेडी, धन लेई घर आवे रे ॥ सुखें
समाधें तिहां कणे रहेतां, मनमां हर्ष न मावे ॥ आघा० ॥ ८ ॥ हवे
तिण कालें वीर जिणंदजी, ह्या केवल नाणी रे ॥ चंदनवाला वात
सुणीने, हियडामां हरखाणी ॥ आघा० ॥ ९ ॥ वीरकने जइ दीक्षा
लीधी, ततकण कर्म खपाव्यां रे ॥ चंदनवाला गुणहविशाला, शिवमं
दिर सीधाव्यां ॥ आघा० ॥ १० ॥ एहवुं जाणी रूडा प्राणी, करजो
शियल जतन्न रे ॥ शियलथकी शिवसंपद लहीयें, शियले रूपरतन्न ॥
आघा० ॥ ११ ॥ नयन वसु संयमनें जेदें, संवत (१७१८) सुरत मजारे रे ॥
वदि आषाढ तणी ठठ दिवसें, गुण गाया रविवारें ॥ आघा० ॥ १२ ॥ श्री

विद्यासागर सूरि शिरोमणि, अचलगढ सोहाया रे ॥ महियल महिमा
अधिक बिराजे, दिन दिन तेज सवाया ॥ आघाण ॥ १३ ॥ वाचक सहज
सुंदरनो सेवक, हर्ष धरी चित्त आणी रे ॥ शील जळी परें पाळो जवियण,
कहे नित्यलाज ए वाणी ॥ आघाण ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री मालमुनिकृत शुकुकार कमलावतीनुं षट्हालीयुं ॥

॥ दोहा ॥ चोवीशे जिनवर नमुं, समरी सरस्वती माय ॥ साधु तणा
गुण गायवा, मुज मन आनंद थाय ॥ १ ॥ ठज्जीव संयम पाळीनें, पदो
ता मुक्ति मजार ॥ संक्षेपें करी वर्णवुं, सूत्र तणे अनुसार ॥ २ ॥ साधु
मारगे चालतां, जूला पड्या वनमांह ॥ जूख तृषायें पीडिया, गोवाल म
व्या उत्साह ॥ ३ ॥ आगत स्वागत बहु करी, खेड थया निज गेह ॥
जात पाणी प्रतिज्ञाजिया, आणी अधिक सनेह ॥ ४ ॥ तिहां मुनि दी
धी देशना, जाख्यो अधिर संसार ॥ वाणी सुणी ठए समजिया, लीधो
संयमजार ॥ ५ ॥ गोवाळिया ते ठए जणा, पाळी संयम सार ॥ देवलोके
जइ उपन्या, एक बिमान मजार ॥ ६ ॥ देवतणां सुख जोगवी, पुण्यतणे
सुपसाय ॥ उत्तमकुळें इहां उपन्या, ते सुणजो हित लाय ॥ ७ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ जंबुछीपना जरतमां, नगरी नामें शुकुकार रे ॥ रुद्रि समृद्धि
यें शोजती, स्वर्गपुरी अनुहार रे ॥ १ ॥ पुण्यतणां फज जाणियें, पुण्ये
सवि सुख थाय रे ॥ ए आंकणी ॥ पुण्यथकी संपत्ति मळे, पुण्ये
बंधित होय रे ॥ परजव जातां जीवने, पुण्य सखाइ जोय रे ॥ पुण्यण
॥ २ ॥ तिण नगरे राजा हतो, गुणवंती तस नार रे ॥ तस कुळें आ
वी उपन्यो, जन्म्यो शुज तिथि वार रे ॥ पुण्यण ॥ ३ ॥ मात पिता
यें थापियुं, नाम जळुं शुकुकार रे ॥ पंच धावे करी उठख्यो, जण्यो
कला बहु प्रकार रे ॥ पुण्यण ॥ ४ ॥ बीजो जीव वली उपन्यो, कोइक
नगरी मजार रे ॥ कमलावती रूपें रूयडी, शीळादिक गुण धार रे ॥
पुण्यण ॥ ५ ॥ यौवन वय दोय पामियां, पूरव कर्म विकार रे ॥ मात
पितार्ये परणावियां, सुख जोगवे संसार रे ॥ पुण्यण ॥ ६ ॥ पुरोहित
हतो रायनो, नारी हती गुणखाण रे ॥ तस उदरे आवी उपन्यो, त्री
जो पुण्यप्रमाण रे ॥ पुण्यण ॥ ७ ॥ चोयो जीव पुत्रीपणे, ब्राह्मण

कुलें अवतार रे ॥ जसापत्नी नामें जखी, ते नृगु पुरोहित थइ नार रे
 ॥ पुण्य० ॥ ७ ॥ हवे इक्षुकार राजा थयो, राज पाळे सुखकार रे ॥ पुरो
 हित पद नृगुने दीयो, जग जस तेहनो विस्तार रे ॥ पुण्य० ॥ ८ ॥ इक्षु
 कार ने कमलावती, नृगु ने जसापत्नी नार रे ॥ सुख जोगवे संसारनां,
 चारे जीव उदार रे ॥ पुण्य० ॥ ९ ॥ सोना रूपा आदें करी, धननो न
 हिं कांइ पार रे ॥ पण पुरोहितने पुत्रज नहिं, दुःख धरे स्त्री जरतार रे ॥
 पुण्य० ॥ १० ॥ दिशा शूनी विण बंधना, घर शूनुं विण पुत्र रे ॥ ते का
 रण बहुविधपणे, उपाय करे अक्षुत रे ॥ पुण्य० ॥ ११ ॥ संबंध हुवे जेह
 जीवथी, ते मेलविया जगमाहि रे ॥ पहेली ढाळ कही जखी, माल
 मुनि उत्साहें रे ॥ पुण्य० ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुख जोगवतां स्वर्गनां, तव ते दोनुं देव ॥ च्यवण चिह्न जाणी
 करी, अविधि जोइ ततखेव ॥ १ ॥ अमें उपजशुं विहु जणा, पुरोहित गृह
 सुखकार ॥ नैमित्तिकरूप लेइ आविया, तिण नगरीनी घहार ॥ २ ॥ नि
 मित्त जांखे बहुजनप्रतें, यश वाच्यो पुरमांहि ॥ ते सांजखी प्रश्न पूठवा,
 आव्यां पुरोहितस्त्री त्यांहि ॥ ३ ॥ पुरोहित कहे रे निमित्तिया, जो मुज
 पुत्रज होय ॥ तमें कहो ते हुं करुं, बोल्या नमित्तिक दौय ॥ ४ ॥ पुत्र
 होशे दौय तुम्ह पण, लेशे संयम जार ॥ नाकारो करवो नहिं, मान्युं
 वचन तिवार ॥ ५ ॥ कोल देखने देवता, गया पोताने ठाम ॥ काल भा
 सें देवथी च्यवी, उपन्या युगलपणे ताम ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ ढाळ बीजी ॥

॥ दान कहे जग हुं वहुं ॥ तथा नणदलनी देशी ॥ मात पिता तव
 हरखियां, जनम्या पूरे मास हो ॥ जविजन ॥ माहामहोत्सवे नाम स्था
 पियुं, देवजड जशोजड तास हो ॥ जविण ॥ १ ॥ अनुक्रमें ते महोटा
 थया, जणया शास्त्र विचार हो ॥ जण ॥ मात पिता मन चिंतवे, हवे केम
 राखशुं कुमार हो ॥ जण ॥ २ ॥ ब्रह्मपुरी वासी नवी, वसिया तिण
 हिज ठाम हो ॥ जण ॥ साधुवीकें नगरी तजी, वली पुत्र तेडी कहे
 ताम हो ॥ जण ॥ ३ ॥ मोकळा केश ने मुहपत्ती, मेल्यां वस्त्र मेल्यां गात्र
 हो ॥ जण ॥ हाथमां जोळी राखे वली, मांहे फांसी पाळी कात्र हो

॥ ज० ॥ ४ ॥ मुख मीठा धीठा घणुं, वख वीटीने राखे शख हो ॥ ज० ॥
 हलवे जोइ पणलां जरे, पण ठे तेह कुपात्र हो ॥ ज० ॥ ५ ॥ रंगरंगीलां
 पातरां, हाथ अमूलक लोट हो ॥ ज० ॥ नाम धरावे साधुजी, हेयामां
 राखे चोट हो ॥ ज० ॥ ६ ॥ दीन हीन दयामणा, पण मायाना पास
 हो ॥ ज० ॥ दीसंता अति डूबला, म करशो तेहनो विश्वास हो ॥ ज०
 ॥ ७ ॥ देखी तुमें नासजो, आवजो आपणे मेह हो ॥ ज० ॥ नहिं कां
 तमने मारशे, कापशे कान नाक तेह हो ॥ ज० ॥ ८ ॥ इत्यादिक बंधें
 करी, जोखवीया दोय बाल हो ॥ ज० ॥ जेम पशु पंखी शीखव्यां, शीखे
 तेहज चाल हो ॥ ज० ॥ ए ॥ चरमशरीरी जीवडा, मोहतणे वश होय
 हो ॥ ज० ॥ तरण तारण साधु नावने, फांसीया कद्या ते सोय हो
 ॥ ज० ॥ १० ॥ धिक् धिक् मोह विडंबना, जेहनी अवली नीति हो
 ॥ ज० ॥ मात पिताये जेम जोखव्या, कुंवर चाखे ते रीत हो ॥ ज० ॥
 ॥ ११ ॥ नगर जोवाने नीकड्या, तव दीठा अणगार हो ॥ ज० ॥ बीके
 नाशी तरु चड्या, पेखे सयख विचार हो ॥ ज० ॥ १२ ॥ मुनि पण
 तरुतखे आवीने, साचवे साधुनी रीति हो ॥ ज० ॥ ते देखी वैरागिया,
 तव मन आवी श्रीति हो ॥ ज० ॥ १३ ॥ अहो ए जीव जयणा करे, ते
 केम करे परघात हो ॥ ज० ॥ अमने पिताये जोखव्या, मोहतणे अय
 दात हो ॥ ज० ॥ १४ ॥ ऊहापोह करतां थकां, जाति समरण लाध हो
 ॥ ज० ॥ पूरव जव देखी करी, उत्तरी वांध्या साध हो ॥ ज० ॥ १५ ॥
 सफल थयो दिन आजनो, जेथ्या महामुनि राय हो ॥ ज० ॥ बीजी ठा
 ले एहवा, माळ मुनि नसे पाय हो ॥ ज० ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ जाति समरण उपन्युं, जाण्यो सर्व विचार ॥ तप संजम पाढ्यां
 हतां, ते दीठां तेणि वार ॥ १ ॥ काम जोगथी उचग्या, सांसारिक सुख
 जेह ॥ शिवसुख अजिलाधी थया, उपनी श्रद्धा एह ॥ २ ॥ वैराग्ये मन
 वाखियुं, जाण्यो अथिर संसार ॥ परजव जातां जीवने, एक जिनधर्म था
 धार ॥ ३ ॥ मात पिता ए केहनां, केहनां धन परिवार ॥ स्वारथनां सहुकां
 सगां, नावे जीवनी खार ॥ ४ ॥ घर आवी कहे मातने, अनुमति थो
 श्रीकार ॥ रत्न पामिया हवे अमें, खेशुं संयमजार ॥ ५ ॥ कुमर तणां

वयणां सुणी, मात तात तेषि वार ॥ मोहतणे वश जे पड्या, ते सुणजे
अधिकार ॥ ६ ॥ माय कहे सुणो नानडा, एम केम घोळो वाण ॥ अम
मत्त आशा ठे घणी, तुम दोय जीवन प्राण ॥ ७ ॥ पुसेहित आमण हू
मणी, घणुं थडू दिखगीर ॥ उत्तर प्रत्युत्तर घणा, नयणे ऊरते नीर ॥ ८ ॥
॥ ढालू श्रीजी ॥

॥ आठे लालनी देखी ॥ सुणो वत्स माहरी-घात, वेद घाणी साक्षात
॥ आठे लाख ॥ अपुत्रीयाने स्वर्ग ठे नहीं ॥ १ ॥ वेद जणी कुलसुत, होम
यज्ञ करी पुत्र ॥ आ० ॥ विप्र जमाडो तुमें वेगशुं ॥ २ ॥ परणी त्रिख
सो जोग, मलियो सर्व संयोग ॥ आ० ॥ पुत्र थया संयम ग्रहो ॥ ३ ॥
सुख विखसोही नार, टाळी विषयविकार ॥ आ० ॥ घरजार सोंपी पुत्र
ने ॥ ४ ॥ वलता दोनुं कुमार, तातने कहे सुविचार ॥ आ० ॥ मिथ्या
घाणीये कोइ नवि तख्यो ॥ ५ ॥ जणे वेद अपार ॥ न करे करणी खगार
॥ आ० ॥ वेद न तारे कोइ जीवने ॥ ६ ॥ करे बहुजीव संहार, ते जाये
नरक मजार ॥ आ० ॥ हिंसाये धर्म जांखे सही ॥ ७ ॥ तेहने गुरुबुद्धि
आण, कोइ जमाडे अजाण ॥ आ० ॥ माठी गति पामे सही ॥ ८ ॥
दुःख आवे जेणि वार, टखे न कोइ खगार ॥ आ० ॥ सगां संबंधी टग मग
जूवे ॥ ९ ॥ होम यज्ञ नहिं जेह, नवि तारे जीवने तेह ॥ आ० ॥ द
यामें आत्महोम यज्ञ ठे ॥ १० ॥ ए देह अनित्य संसार, जोग अशु
चिंतनार ॥ आ० ॥ किंपाकफखनी ठे ऊपमा ॥ ११ ॥ कृणमात्रनां ठे
सुख, ते पामे बहुखां दुःख ॥ आ० ॥ जोग अनर्थनी खाण ठे ॥ १२ ॥
काया माया परिवार, स्वप्नागत संसार ॥ आ० ॥ रमत बाजीगर सम
अठे ॥ १३ ॥ वत्स विचारी जोय, जीव शरीर एक होय ॥ आ० ॥ परजव
फल कोण जोगवे ॥ १४ ॥ अरुणिमां अग्नि जेम, जाव कायामांहि तेम
॥ आ० ॥ देह विणसे जीव विणसे नहीं ॥ १५ ॥ वर्षादि सहित जे होय,
पुरुष विणसे सोथ ॥ आ० ॥ जीव अरूपी वर्षादिक नहीं ॥ १६ ॥ होम
यज्ञादिक वात, तो किम कल्या अयदात ॥ आ० ॥ जीव काया ते जूदां
अठे ॥ १७ ॥ जब अमें हूता अजाण, तब मानी तुम्हू आण ॥ आ० ॥
वात खोटी न समाचरं ॥ १८ ॥ जन्म मरण जरा रोग, दुःखतणा ठे
संयोग ॥ आ० ॥ रत्न पाम्युं गृहवासमां ॥ १९ ॥ रात दिवस जे

जाय, ते तो लेखे न थाय ॥ आ० ॥ धर्म विद्वणो जाणो सही ॥ १० ॥
 एह संसार असार, जोग असुचि जंगार ॥ आ० ॥ काया माया सर्वे
 कारमी ॥ ११ ॥ नर सुख विंडु समान, देव सुख उदधि पिठान ॥ आ० ॥
 अल्प सुखे कोण हारशे ॥ १२ ॥ अर्से जाण्यां सर्व असार, लेशुं संयम
 चार ॥ आ० ॥ अनुमति दीयो आत सातजी ॥ १३ ॥ शाश्वता सुख
 नो चाह, हवे मन ए न सुहाय ॥ आ० ॥ जन्म मरणथकी उजग्या ॥
 ॥ १४ ॥ ते माटे मूकं संसार, ढाल त्रीजी सुखकार ॥ आ० ॥ माखमुनी
 कहे जावशुं ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ साची वात तें सुत कही, समज्यो धर्म विचार ॥ जीव काया जूदां
 सही, पण मुज विनति अवधार ॥ १ ॥ हमणां आपण वेहु जणा, एक
 ठा वसिय संसार ॥ पठी संयम लेशुं सही, करशुं नग्र विहार ॥ २ ॥ मि
 त्राइ होवे मरणशुं, जम आवे फरि जाय ॥ खबर पडे जो मरणनी, तो
 मुज्जे पण खाय ॥ ३ ॥ अमर ठाप लखि नावीया, तो केम रहुं संसार ॥
 साचो धर्म पाम्या पठी, न करुं ढीळ लगार ॥ ४ ॥ पुत्र वयण एहवां सुणी,
 पुरोहित पाम्यो वैराग ॥ नारीप्रत्ये आवी कहे, ते सुणजो वडजाग्य ॥ ५ ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ जीरण शेठनी सजायनी देशी ॥ पुरोहित कहे नारी सुणो जी रे, पुत्र
 पाम्या रे वैराग ॥ दीक्षा लेशे ते सही जी रे, करशे संसारनो त्यागा ॥ नारी
 जी रे ॥ सांजलो माहारी वात ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ पुत्र विना जुगतुं नही
 जी रे, रहेतुं आपणने संसार ॥ योग वेखा ठे आपणी जी रे, तजीये मोह
 विकार ॥ नारी जी रे ॥ सांजलो माहारी वात ॥ नारी जी ॥ २ ॥ तरु
 शोजे शाखे करी जी रे, शाख विण वूठ असार ॥ पंखी शोजे पांखे करी
 जी रे, पंख विण दुःख अपार ॥ नारी जी ॥ ३ ॥ वहाण वेपारी धने करी
 जी रे, धनविना शोच विचार ॥ राजा शोजे सैने करी जी रे, सैनविण न शोजे
 लगार ॥ नारी ॥ ४ ॥ तेम पुत्र विण हुं शोजुं नही जी रे, अर्से लेशुं संयम
 चार ॥ तव नारी कहे सांजलो जी रे, प्रीतम प्राण आधार ॥ प्रीतमजी ॥
 ५ ॥ पुत्र जाय तो जवा दीयो जी रे, आपण रहेतुं एहवास ॥ जोगवाइ स
 खे घणी जी रे, त्रिखसीये छीळ विवास ॥ प्रीत ॥ ६ ॥ संसार सुख रुडां

मल्यां जी रे, जोगविये आपणे जोग ॥ शुक्तजोगी थया पठे जी रे, लेशुं
संयमनी योग ॥ प्रीत० ॥ ७ ॥ जोग बहुल में जोगव्यां जी रे, लाधा अ
नंती वार ॥ तृप्ति न पाम्यो ए जीवडो जी रे, अमें लेशुं संयमजार ॥
नारी० ॥ ८ ॥ आर्य देश उत्तम कुले जी रे, पाम्या नर श्रवतार ॥ तप सं
यम पाळ्या विना जी रे, केम पामीर्यें जव पार ॥ नारी० ॥ ९ ॥ आपणे
तो सुख जोगव्यां जी रे, धन्य एहनो श्रवतार ॥ हजीय लगण नाना वा
बुडा जी रे, लीये ठे संयमजार ॥ नारी० ॥ १० ॥ तो केष रहेहुं माहरे
जी रे, इण श्रवसर संसार ॥ चौथी ढाल सोहामणी जी रे, माखमुनि
हितकार ॥ नारी० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ कर्मवशें सुख दुःख सदां, ते पण कहां न जाय ॥ के जाणे निज
आतमा, के जाणे जिनराय ॥ १ ॥ संपदा सह जीवे लही, न लह्यो धर्म
प्रसंग ॥ ते योगवाइ मली हवे, नवि मूकूं सुतसंग ॥ २ ॥ निज निज स
हु स्वारथ जुए, पण न जुए परमार्थ ॥ परजव जातां जीवने, कोइ राख
वा न समर्थ ॥ ३ ॥ पुत्र विना संसारमां, केम रहे ली जाण ॥ जसापली
वळतुं कहे, सांजलो जीवन प्राण ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ हरिया मन लागो ॥ ए देशी ॥ संयम मारग दोहिलो, दोहिलो सा
धु आचार रे ॥ प्रीतम सांजलो ॥ जूना हंसनी परें संजारशो, फूरशो ह
दय मजार रे ॥ प्री० ॥ १ ॥ रोहित मत्स्यतणी परें, पुत्र ठेदी मोह जा
ख रे ॥ नारीजी सांजलो ॥ दीक्षा खे दोय बाखुडा, तो हुं लेशुं संयम
विशाख रे ॥ नारी० ॥ २ ॥ सेवक कहे राणी सुणो, नथी कोप्यो महा
राज रे ॥ नारी० ॥ पुरोहित दीक्षा लीये श्रवे, ते धन लावे ठे आज रे
॥ प्री० ॥ ३ ॥ तव राणी पूठे वली, तस नारी श्रने पुत्र दोय रे ॥ ते
पण चारित्र आदरे, राणी विमासें सोच रे ॥ प्री० ॥ ४ ॥ मित्राइ हती
माहरे, पण नवि दाख्युं तेण रे ॥ कोइ केहुतुं जगमां नहिं, कूडुं सगप
ण सेण रे ॥ प्री० ॥ ५ ॥ अनित्यपणुं एम ध्यावतां, राणीने उपन्युं ज्ञान
रे ॥ वैराग्ये मन वाखियुं, तव समजावे राजान रे ॥ प्री० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ ढाल ठठी ॥

॥ वीरो सांजस्थो ॥ ए देशी ॥ कहे राणी कमलावती रे, सुणो राज
 इच्छुकार ॥ धनपरिवार तजी करी रे, पुरोहित खीये संयमजार रे ॥ १ ॥
 कहे कमलावती ॥ ए आंकणी ॥ कमला कहे नरपति सुणो रे, पूढे प्रभ
 ज एक ॥ उत्तर देजो तेहनो रे, आणी मनशुं विवेक रे ॥ कहे ॥ २ ॥ व
 म्या आहारने कोण इष्टे रे, दाखवो मुजने रे तेह ॥ प्रशंसा न होय तेहनी
 रे, राय कहे काग श्रान जेह रे ॥ कहे ॥ ३ ॥ ए धन सुवर्ण रयणनो रे, पु
 रोहित करे परिहार ॥ तमें पृथिवीपति राजीया रे, केम लेशो वम्यो आ
 हार रे ॥ क ॥ ४ ॥ सर्व जग होवे तुम धरे रे, जो सर्व धन तुम्ह होय ॥
 तृप्ति न पामे तोहि जीवडो रे, आण शरण नवि कोय रे ॥ क ॥ ५ ॥ पर
 जव चाखे (स्वामी) तुमतणे रे, तो लीयो पुरोहित वित्त ॥ तेतो राणी धन
 घ्हां रहे रे, तो केम करो अनीति रे ॥ क ॥ ६ ॥ एक दिन मरवुं ठे
 सही रे, ठांकी सर्वे रे आथ ॥ परजव जातां जीवने रे, एक धर्म सखा
 यो साथ रे ॥ क ॥ ७ ॥ विलंब न कीजे धर्मनो रे, काण काण खुटे रे
 आय ॥ धर्मविदूणी जे घडी रे, ते तो निःफल जाय रे ॥ क ॥ ८ ॥
 दश दृष्टांते दोहिलो रे, लाधो नर अवतार ॥ पासीने केम हारिये रे, जे
 हथी (सहिये) मुक्तिद्वार रे ॥ क ॥ ९ ॥ काम जोग में जोगव्या रे,
 लाधा वार अनंत ॥ तृप्ति न पाम्यो जीवडो रे, चेतो बहु गुणवंत रे ॥
 ॥ क ॥ १० ॥ आमिप सहित जेम पंखणी रे, पीडा सह रे अपार ॥
 तेम हुं नरपति केम रहुं रे, जाण्यो अधिर संसार रे ॥ क ॥ ११ ॥ दव
 बखता जीव देखीने रे, बीजा हर्षित होय ॥ जाणे न होशे अमारडे रे,
 पण बखशे अंते सोय रे ॥ क ॥ १२ ॥ एम जग बखतुं देखीने रे, स्वामी
 नवि बूजे रे जीव ॥ मरण तो एक दिन आवशे रे, तव मूकावशे धनादि
 सदैव रे ॥ क ॥ १३ ॥ जेम पंखी पंजर पळ्यो रे, देखे दुःख अपार ॥
 तेम मायाबंधनमां पडी रे, नवि पामुं रति लगार रे ॥ क ॥ १४ ॥ कम
 लावतीने वयणसे रे, बूज्यो राय इच्छुकार ॥ नगर राजस्त्री परहरी रे,
 धन सोधन रयण जंगार रे ॥ क ॥ १५ ॥ पुरोहित पुत्र कलत्रशुं रे,
 राय, राणी तेण वार ॥ सुगुरु मुखें व्रत उच्चस्थां रे, लेश संयम करे विहार
 रे ॥ क ॥ १६ ॥ तप जप संयम पासीने रे, उपन्युं केवळ ज्ञान ॥ कर्म

खपावी मुक्तें गया रे, ठ जीव सुगुणनिधान रे ॥ त्रिवियण सांजलो ॥
 १७ ॥ उत्तराव्ययन ए सूत्रथी रे, चन्द्रमे ठे विस्तार ॥ तेहथकी में वर्ण
 व्या रे, षट्ढालें करिसार रे ॥ ज० ॥ १७ ॥ संवत अठार पंचावनें रे,
 ज्येष्ठ वदि त्रिज गुरुवार ॥ अंजार शहेर सोहामणो रे, लोंकागछ सुखका
 ररे ॥ ज० ॥ १९ ॥ गछपति श्रीखूपचंदजी रे, तस शासन सुखदाय ॥
 पूज्य नाथाजी पसायथी रे, मालमुनि गुण गाय रे ॥ ज० ॥ २० ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीमानसिंहकृत कलावतीनुं चोढालियुं प्रारंभः ॥

॥ ढाल पहैली ॥

॥ वन्यो रे कुंवरजीनो सेहरो ॥ ए देशी ॥ मालवदेश मनोहरु, तिहां
 नयरी उज्जेणी नाम हो ॥ नरिंद ॥ शंख राजा तिहां शोजतो, सहु शुभ
 गुण केरुं धाम हो ॥ नरिंद ॥ १ ॥ शीयलतणा गुण सांजलो, शियलें ल
 हियें बहुमान हो ॥ नरिंद ॥ शीयलें सतीय कलावती, जेम पामी सुख
 प्रधान हो ॥ नरिंद ॥ शी० ॥ २ ॥ त्रणसो साठ मांहे वडी, लीलावती
 पट्टराणी कहेवाय हो ॥ नरिंद ॥ नेपाल देशनो नरपति, नामें जितशत्रु
 राय हो ॥ नरिंद ॥ शी० ॥ ३ ॥ जयसेन विजयसेन सुत जला, कलावती
 पुत्री उदार हो ॥ न० ॥ मालवपति शंखरायने, परणावी प्रेम अपार हो
 ॥ न० ॥ शी० ॥ ४ ॥ पंच विषयसुख विलसतां, कलावती राय संघा
 त हो ॥ न० ॥ गर्ज रह्यो पुण्ययोगथी, हरख्यो नृप साते धात हो ॥
 ॥ न० ॥ शी० ॥ ५ ॥ अघरणी उत्सव मांक्रियो, गीत गावे बहु मली
 नार हो ॥ न० ॥ पेटी आवी पीयरथकी, कलावतीने तेणिवार हो ॥ न०
 ॥ शी० ॥ ६ ॥ शंकाती सहु शोक्यथी, खेइ गोपवी गोठण हेठ हो ॥ न० ॥
 एकांते उखेलतां, दोय बेहेरखा दीठा दृष्ट हो ॥ न० ॥ शी० ॥ ७ ॥ नंग
 जड्यां मांहे निर्मलां, अंधारे करे उजवास हो ॥ न० ॥ नामांकित बेहु
 ज्ञातना, पेहेरीने पामी उद्वास हो ॥ न० ॥ शी० ॥ ८ ॥ खाट हिंकोले
 हिंचनां, बहेरखा ऊबुके जेम वीज हो ॥ न० ॥ दासी लीलावती तणी,
 देखी धरे दिलमां खीज हो ॥ न० ॥ शी० ॥ ९ ॥ कहो बाइ ए केणें
 दीयां, आजूषण दोय अमूल्य हो ॥ न० ॥ मुक्तने जे घणुं वालहो, तेणें
 दीयां ए बहुमूल हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १० ॥ दासी लीलावती जणी,
 चांख्यो ते सघलो जेद हो ॥ न० ॥ सांजली क्रोधातुर थइ, उपन्यो चित्त

मां बहु खेद ही ॥ न० ॥ शी० ॥ ११ ॥ राणी प्रत्ये महीपति कहे, केणे
 डुहव्यां तुमने आज हो ॥ न० ॥ बहुमूला तमे बहेरखा, केम कीधा कला
 वती काज हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १२ ॥ में न घडाव्या बहेरखा, तस खबर
 नहिं मुज कांय हो ॥ न० ॥ पूढी निरति करो तुमें, सुणी लीलावती
 तिहां जाय हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १३ ॥ राय ठानो उजो रह्यो, तव पूढे
 लीलावती तेह हो ॥ न० ॥ साचुं कह्यो बाइ कलावती, केणे दीधा बहे
 रखा एह हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १४ ॥ हुं घणुं जेहने वालही, तेणे मोक
 द्या मुऊने एह हो ॥ न० ॥ रात दिवस मुऊ सांजरे, पण जाइ न कह्यो
 तेह हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १५ ॥ राजा क्रोधातुर थयो, सुणी कलाव
 तीनां वचन हो ॥ न० ॥ प्रीति पूरवला पुरुषशुं, मूक्या ए तेणे प्रब्रत्र
 हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १६ ॥ कोल दियो लीलावती जणी, दोय बहेर
 खासेंती बांह हो ॥ न० ॥ ठेदावी तुऊने दीयुं, सुणी पामी परम उंत्सा
 ह हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १७ ॥ इति ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ सुण सुण रे गौतम समय म करीश प्रमाद ॥ ए देशी ॥ राय हुम
 म एहवो कख्यो जी, चंमालने तेणि वार ॥ कलावती कर कापीने जी,
 आणी द्यो एणी वार ॥ १ ॥ सुण सुण रे प्राणी, कर्म तणां फल एह ॥ ए
 आंकणी ॥ जन्मांतर जीवें किया जी, आवे उदय सही तेह ॥ सुण
 सुण रे प्राणी ॥ कर्म० ॥ २ ॥ सांजली अंत्यज थरहख्यो जी, चंमालीने
 कहे तेह ॥ राय हुकम रुडो नहीं जी, मूकीये नगरी एह ॥ सुण० ॥
 कर्म० ॥ ३ ॥ पापणी कहे तुं शुं बीये जी, ए ठे माहरं काम ॥ शिर ना
 मी उज्जी रही जी, राये खज दीयो ताम ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ ४ ॥ रथ
 जोडी रंभा कहे जी, बेसो बाइ इणमांह ॥ पीयर तुमने मोकले जी,
 राय धरी बहु चाह ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ ५ ॥ गलियल माफा केहवा जी,
 रंयाम वृषज वलि केम ॥ पुत्र रहे नहिं रायने जी, काधो कारण एम ॥
 सुण० ॥ कर्म० ॥ ६ ॥ रथ बेसारी रानमां जी, चाली उजड वाट ॥ सूके
 वन रथ ठोडियो जी, राणी पामी उच्चाट ॥ सुण० ॥ कर्म० ॥ ७ ॥ पी
 यर मारग ए नहिं जी, चांमाली कहे ताम ॥ राये मुऊने मोकली जी,
 कर कापणने क ॥ ८ ॥ जमणो पोतें ठेदीयो जी,

कावो चंढालिये लीध ॥ बहेरखा सहित वेहु ग्रहे जी, आणी रायने दी
ध ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ ९ ॥ नारीत्रात नाम निरखतां जी, मूर्खाणो तत
काल ॥ शीतल वाये सज्ज कख्यो जी, रोवे तव महिपाल ॥ सु० ॥ कर्म०
॥ १० ॥ किसी कुमति मुऊ ठपनी जी, कीधो सवल अन्याय ॥ ए जीव्युं
कोण कामनुं जी, राजरमणी न सुहाय ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ ११ ॥ चय
रचावी चंदने जी, बलवाने तिहां जाय ॥ लोक मली वारे घणुं जी, व
चन न माने राय ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ वामाजीनो कुंअर लाकिलो ॥ ए देशी ॥ कलावतीने जे थयो, ते
सुणजो प्रतिकार ॥ जवि प्राणी ॥ करठेदन वेदनथकी, सुत जनम्यो
तेणि वार ॥ जवि० ॥ १ ॥ शीयलनो महिमा जाणीये, शीयले संप
त्ति थाय ॥ ज० ॥ ए आंकणी ॥ विघ्न विषम दूरें टले, सुर नर प्रणमे
पाय ॥ ज० ॥ शी० ॥ २ ॥ पुत्र प्रत्ये कहे पद्मिणी, शुं करुं ताहरी सार
ज० ॥ माहरी कुखें अवतख्यो, तुं निर्जाग्य कुमार ॥ ज० ॥ शी० ॥
॥ ३ ॥ अशुचिपणुं केम टालशुं, पालशुं ए केम वाल ॥ ज० ॥ शौच
करे रोवे वली, वन महोख्यो ततकाल ॥ ज० ॥ शी० ॥ ४ ॥ शिथले सूकी
नदी वही, पाणी आव्युं नजीक ॥ ज० ॥ जाणे के जल लेइ जाय
शे, वचें वेठी निर्जाक ॥ ज० ॥ शी० ॥ ५ ॥ आंटे देइ चिहुं दिशें, नदी
वही दोय धार ॥ ज० ॥ बोले वांह नीची करी, जलमांहे तेणि वार
॥ ज० ॥ शी० ॥ ६ ॥ नवपल्लव नवली अइ, बहेरखासेंती वांह ॥
ज० ॥ बीजी पण तिमहिज अइ, पामी परम उत्साह ॥ ज० ॥ शी० ॥
॥ ७ ॥ अचरिज देखी आवियो, तापस एक तेणि वार ॥ ज० ॥ जन
कनो मित्र जाणी करी, बोलावे सुविचार ॥ ज० ॥ शी० ॥ ८ ॥ रे
पुत्री तापस कहे, एकली अटवी मजार ॥ ज० ॥ केम आवी मुजने
कहे, तव चांख्यो सघलो विचार ॥ ज० ॥ शी० ॥ ९ ॥ कोप्यो तापस
एम कहे, राजाने करुं उत्पात ॥ ज० ॥ कलावती तव विनवे, कोप म
करो मुज तात ॥ ज० ॥ शी० ॥ १० ॥ तापसें तिहां विद्याबले, अ
वल रच्यो आवास ॥ ज० ॥ कलावती सुतशुं तिहां, अहोनिश रहे
उल्लास ॥ ज० ॥ शी० ॥ ११ ॥ काठियारा तेणे अवसरे, देखी एह वि

मां बहु खेद हो ॥ न० ॥ शी० ॥ ११ ॥ राणी प्रत्ये महीपति कहे, केणे
 दुहव्यां तुमने आज हो ॥ न० ॥ बहुमूला तमे बहेरखा, केम कीधा कला
 वती काज हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १२ ॥ में न घडाव्या बहेरखा, तस खवर
 नहिं मुज कांय हो ॥ न० ॥ पूठी निरति करो तुमें, सुणी लीलावती
 तिहां जाय हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १३ ॥ राय ठानो उचो रह्यो, तव पूठे
 लीलावती तेह हो ॥ न० ॥ साचुं कह्यो बाइ कलावती, केणें दीधा बहे
 रखा एह हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १४ ॥ हुं घणुं जेहने वालही, तेणे मोक
 ह्या मुजने एह हो ॥ न० ॥ रात दिवस मुज सांजरे, पण जाइ न कह्यो
 तेह हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १५ ॥ राजा क्रोधातुर थयो, सुणी कलाव
 तीनां वचन हो ॥ न० ॥ प्रीति पूरवला पुरुषशुं, मूक्या ए तेणें प्रच्छन्न
 हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १६ ॥ कोल दियो लीलावती जणी, दोय बहेर
 खासेंती बांह हो ॥ न० ॥ ठेदावी तुजने दीयुं, सुणी पामी परम उंत्ता
 ह हो ॥ न० ॥ शी० ॥ १७ ॥ इति ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ सुण सुण रे गौतम समय म करीश प्रमाद ॥ ए देशी ॥ राय हुम
 म एहवो कस्यो जी, चंफालने तेणि वार ॥ कलावती कर कापीने जी,
 आणी द्यो एणी वार ॥ १ ॥ सुण सुण रे प्राणी, कर्म तणां फल एह ॥ ए
 आंकणी ॥ जन्मांतर जीवें किया जी, आवे उदय सही तेह ॥ सुण
 सुण रे प्राणी ॥ कर्म० ॥ २ ॥ सांजली अंत्यज थरहस्यो जी, चंफालीने
 कहे तेह ॥ राय हुकम रुडो नही जी, मूकीयें नगरी एह ॥ सुण० ॥
 कर्म० ॥ ३ ॥ पापणी कहे तुं शुं बीये जी, ए ठे माहरुं काम ॥ शिर ना
 मी उची रही जी, रायें खज दीयो ताम ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ ४ ॥ रथ
 जोडी रंभा कहे जी, बेलो बाइ इणमांह ॥ पीयर तुमने मोकले जी,
 राय धरी बहु चाह ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ ५ ॥ गलियल माफा केहवा जी,
 श्याम वृषज बलि केम ॥ पुत्र रहे नहिं रायने जी, काधो कारण एम ॥
 सुण० ॥ कर्म० ॥ ६ ॥ रथ वेसारी रानमां जी, चाली उजड वाट ॥ सूके
 वन रथ ठोडियो जी, राणी पामी उच्चाट ॥ सुण० ॥ कर्म० ॥ ७ ॥ पी
 यर मारग ए नहिं जी, चांफाली कहे ताम ॥ राये मुजने मोकली जी,
 कर कापणने काम ॥ सुण० ॥ कर्म० ॥ ८ ॥ जमणो पोतें ठेदीयो जी,

नाबो चंदाखियें लीध ॥ बहेरखा सहित वेहु प्रहे जी, आणी रायनें दी
ध ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ ए ॥ नारीत्रात नाम निरखतां जी, मूर्छाणो तत
काल ॥ शीतल वाये सज्ज कस्यो जी, रोवे तव महिपाल ॥ सु० ॥ कर्म०
॥ १० ॥ किसी कुमति मुऊ तपनी जी, कीधो सबल अन्याय ॥ ए जीव्युं
कोण कामनुं जी, राजरमणी न सुहाय ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ ११ ॥ चय
रचावी चंदनें जी, धलवाने तिहां जाय ॥ लोक मली वारे घणुं जी, व
चन न माने राय ॥ सु० ॥ कर्म० ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ वामाजीनो कुंअर लासिलो ॥ ए देशी ॥ कलावतीने जे थयो, ते
सुणजो प्रतिकार ॥ जवि प्राणी ॥ करबेदन वेदनथकी, सुत जनम्यो
तेणि वार ॥ जवि० ॥ १ ॥ शीयलनो महिमा जाणीये, शीयले संप
त्ति थाय ॥ ज० ॥ ए आंकणी ॥ विघ्न विषम दूरें टले, सुर नर प्रणमे
पाय ॥ ज० ॥ शी० ॥ २ ॥ पुत्र प्रत्ये कहे पझिणी, शुं करुं ताहरी सार
ज० ॥ माहरी कुखें अवतस्यो, तुं निर्जाग्य कुमार ॥ ज० ॥ शी० ॥
॥ ३ ॥ अशुचिपणुं केम टालशुं, पालशुं ए केम बाल ॥ ज० ॥ शौच
करे रोवे वली, वन महोस्यो ततकाल ॥ ज० ॥ शी० ॥ ४ ॥ शिथले सूकी
नदी वही, पाणी आव्युं नजीक ॥ ज० ॥ जाणे के जल खेइ जाय
शे, वखें बेठी निर्जीक ॥ ज० ॥ शी० ॥ ५ ॥ आंटे देइ चिहुं दिशें, नदी
वही दोय धार ॥ ज० ॥ बोले बांहे नीची करी, जलमांहे तेणि वार
॥ ज० ॥ शी० ॥ ६ ॥ नवपल्लव नवली थइ, बहेरखासेंती बांहे ॥
ज० ॥ बीजी पण तिमहिज थइ, पामी परम उत्साह ॥ ज० ॥ शी० ॥
॥ ७ ॥ अचरिज देखी आवियो, तापस एक तेणि वार ॥ ज० ॥ जन
कनो मित्र जाणी करी, बोलावे सुविचार ॥ ज० ॥ शी० ॥ ८ ॥ रे
पुत्री तापस कहे, एकली अटवी मजार ॥ ज० ॥ केम आवी मुऊने
कहे, तव जांख्यो सघलो विचार ॥ ज० ॥ शी० ॥ ९ ॥ कोप्यो तापस
एम कहे, राजाने करुं उत्पात ॥ ज० ॥ कलावती तव विनवे, कोप म
करो मुज तात ॥ ज० ॥ शी० ॥ १० ॥ तापसें तिहां विद्याबले, अ
बल रच्यो आवास ॥ ज० ॥ कलावती सुतशुं तिहां, अहोनिश रहे
उल्लास ॥ ज० ॥ शी० ॥ ११ ॥ काठियारा तेणे अवसरे, देखी एह वि

चार ॥ ज० ॥ दोड्या देवा वधामणी, राजाने तेणि वार ॥ ज० ॥ शी० ॥
 ॥ ११ ॥ मंत्री अरज करे तिसे, सुणो राजन सुकुमाल ॥ ज० ॥ अवधि
 दियो एक माकनी, खबर करुं ततकाल ॥ ज० ॥ शी० ॥ १३ ॥ एम क
 ही शोध करण चले, एहवे आव्या कठियार ॥ ज० ॥ राणीनी विगत
 कही सवे, हरख्यो चित्त मजार ॥ ज० ॥ शी० ॥ १४ ॥ सूकुं वन सवि
 मोरियुं, शूकी नदी वहे पूर ॥ ज० ॥ राणीये सुत तिहां जनमियो,
 कर ऊया ससनूर ॥ ज० ॥ शी० ॥ १५ ॥ राजाने जइ विनव्यो, पा
 म्यो हर्ष विशाल ॥ ज० ॥ राणीने तेडवा मोकव्यो, मंत्रीने ततकाल
 ॥ ज० ॥ शी० ॥ १६ ॥ राय राणी मन रंगशुं, आव्या नगर मजार ॥ ज०
 उत्सवरंग वधामणां, हुवो ते जय जयकार ॥ ज० ॥ शी० ॥ १७ ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ आदर जीव कृमा गुण आदर ॥ ए देशी ॥ एक दिन राय राणी मन
 रंगें, वनमां खेलण जावे जी ॥ तव तिहां साधु धर्मधुरंधर, तेहनां दर्शन
 पावे जी ॥ १ ॥ जवियण धर्म करो मन शुद्धें, धर्में संपत्ति थाय जी ॥ ए
 आंकणी ॥ धर्में सनोवंडित सवि हुवे, धर्में पाप पलाय जी ॥ ज० ॥
 ॥ २ ॥ पाय प्रणमी साधुने पूठे, जगवंत सुकने जांखो जी ॥ राणी कर
 डेद्या किय कारण, तेहनो उत्तर दाखो जी ॥ ज० ॥ ३ ॥ साधु ज्ञानी
 एणी परें बोले, महा विदेहमां रहेतां जी ॥ सर्हीडपुरी नयरी नृप विक्र
 म, लीलावती विद्वसंतां जी ॥ ज० ॥ ४ ॥ पुत्री प्रसवी रूप अनुपम,
 सुलोचना गुणखाणी जी ॥ विद्यावंत विदेशी सूडो, वदतो अमृत वाणी
 जी ॥ ज० ॥ ५ ॥ सुलोचना सोवन पिंजरमां, सूडो घाली राखे जी ॥
 गाहा गूढा नवली गावे, मनोहर मेवा चाखे जी ॥ ज० ॥ ६ ॥ मनमां
 कीर विमासे एहवुं, पिंजर बंधन रहेवुं जी ॥ आश पराइ करवी अहो
 निश, परवश सुख न लेहवुं जी ॥ ज० ॥ ७ ॥ एक दिन पिंजर वार
 उघडियुं, पोपट तव निकलीयो जी ॥ वनमां तरु शाखायें वेठो, मन
 वंडित सवि फलियो जी ॥ ज० ॥ ८ ॥ सुलोचना सूडाने विरहें, तत
 कृण मूर्धित थावे जी ॥ राजा पास नखावी सूडो, बंधावीने लावे जी
 ॥ ज० ॥ ९ ॥ रीषाणी सूडाशुं कुमरी, पांखो वेहु तस ठेदे जी ॥
 सूडो पण तनुमोह तजीने, जूख तपा बहु वेदे जी ॥ ज० ॥ १० ॥

शुभ परिणामें सूडो चवीने, सुर लोके सुर आवे जी ॥ कुंवरी तस विरहें
तनु लज्जिने, देवागना पद पावे जी ॥ ज० ॥ ११ ॥ सुरलोके सुर सुख वि
लसीने, इहांकणे राजा हूँ जी ॥ देवी पण ते त्यांथी चवीने, हुइ क
लावती जूँ जी ॥ ज० ॥ १२ ॥ पूरव वैर इहां तुज प्रगढ्यो, तिण कार
ण कर वेद्या जी ॥ जन्मांतर कीधां जे जीवे, नवि वृटे विण वेद्यां जी ॥
ज० ॥ १३ ॥ राजा राणी सुणीने ततद्गण, जाति समरण ज्ञानें जी ॥ पू
रव जव संपूरण देखे, तहत्ति करीने माने जी ॥ ज० ॥ १४ ॥ करम
तणी गति विरुइ जाणी, वैराग्ये मन चीनो जी ॥ राजा राणी निर्मल
जावें, संयम मारग लीनो जी ॥ ज० ॥ १५ ॥ तप बल ध्यान शुक्ल आरा
धी, जवबंधन सवि ठोड्यां जी ॥ राजा राणी केवल पामी, शिवरमणी
सुख जोड्यां जी ॥ ज० ॥ १६ ॥ कलश ॥ एम डुरित खंरुण शीयल मं
रुण, आराधी शिवपद लह्यो ॥ संवत अठार पांत्रीश श्रावण, शुक्ल पंच
चमी दिन कह्यो ॥ लोकाकृषि श्री करमसी तस, शिष्य रंगे उच्चरे ॥
जुजनगर जावे रही चोमासुं, मानसिंह जय जय वरे ॥ १ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीअर्हन्नकमुनिनो रास प्रारच्यतेः ॥

॥ ढाल पहेली ॥ इमर आंबा आंबली रे ॥ ए देशी ॥ सरसती सामिणी
विनवुं रे, प्रणमुं श्रीकृषिराज ॥ साधु शिरोमणि गुणनिलो रे, अर्हन्नक कृ
षिराज ॥ मुनीसर ॥ गायशुं गुण गंजीर ॥ १ ॥ मेरुतणी परें धीर ॥ मुनीण ॥
॥ गाण ॥ ए आंकणी ॥ तुंगीया नगरी सुंदरू रे, जितशत्रु नामें राय ॥ राज
रीति चाले सदा रे, आण न छोपी जाय ॥ मु० ॥ गा० ॥ १ ॥ तेणे नगरी
व्यवहारियो रे, दत्त वसे शुभ अंग ॥ दत्ता नारी तेहनी रे, पीयुशुं राती रंग
॥ मु० ॥ गा० ॥ ३ ॥ अरहन्नक सुत बालहो रे, चंद्रवदन सुकुमाल ॥ ल
हाण वत्रीशें शोजतो रे, लीला लख जूपाल ॥ मु० ॥ गा० ॥ ४ ॥ इण अव
सर तिहां आविया रे, अरहन्नक मित्र सूरीश ॥ दत्तशेठ वंदन चढ्यो रे,
धर्म सुणे मन हिंस ॥ मु० ॥ गा० ॥ ५ ॥ वैराग्ये मन बालियुं रे, दोहिलो ए
अवतार ॥ आर्यकुल देश मोटके रे, दोहिलो जन्म विचार ॥ मु० ॥ गा० ॥
६ ॥ जैनधर्म ते दोहिलो रे, दोहिलो साधु संयोग ॥ राजकृष्ण पामी घणी
रे, जव जव जामिनीजोग ॥ मु० ॥ गा० ॥ ७ ॥ दत्त सुणी ते देशना रे, मन
जीनो वैराग ॥ घर आवी रहिणी जणी रे, तेह सुणावे लाग ॥ मु० ॥

गा० ॥ ८ ॥ बलती बोली बालही रे, सांजलो जीवन प्राण ॥ पीयु पांखे
कोण माहरे रे, सुख दुःख करो जाण ॥ मु० ॥ गा० ॥ ९ ॥ बालक सुत माथे
करी रे, लीधो संयम जार ॥ पंख विना शी पंखणी रे, कंथ विना शी नार
॥ मु० ॥ गा० ॥ १० ॥ खांकाधार तणी परें रे, संयम सूधो पंथ ॥ आराधे
जिन आणशुं रे, दत्त नामें निर्ग्रथ ॥ मु० ॥ गा० ॥ ११ ॥ कोमल काया न्हान
डो रे, अरहन्नक रुषिराय ॥ प्रेम धरी पाले पिता रे, आप गोचरीयें जाय
॥ मु० ॥ गा० ॥ १२ ॥ बालक सुत बेगो रहे रे, तावड कण न खमाय ॥
वेयावच्च करे तातनुं रे, मोह न जीत्यो जाय ॥ मु० ॥ गा० ॥ १३ ॥ इण
अवसर दत्त साधुजी रे, पाली निरतिचार ॥ परलोकें प्होता थया रे, बा
लक कोण आधार ॥ मु० ॥ गा० ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ अरहन्नक ठानो रडे, हाथथकी मुख जीड ॥ पण जे नयणां नींग
ले, तेह जणावे पीड ॥ १ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ राग काफ़ी ॥ प्रवहण तिहांथी पूरीयुं रे ढाल ॥ ए देशी ॥ अरह
न्नक चित्त चितवे रे ढाल, कोण करशे मुज सार हो तातजी ॥ धणी
टली रणीयो थयो रे ढाल, अवर न कोइ आधार हो तातजी ॥ अर० ॥
१ ॥ पूरव परें सघळुं टव्युं रे ढाल, बेगो रहेतो जेह रे हो तातजी ॥
मुनिवर विहरण पांगश्या रे ढाल, साधुसंघातें तेह रे हो तातजी ॥ अर०
॥ २ ॥ खरे बपोरे गोचरी रे ढाल, नगर तणा पंथ दूर रे हो तातजी ॥
तडतडता तडका पडे रे ढाल, स्वेद तणां वहे पूर रे हो ता० ॥ अर० ॥
॥ ३ ॥ श्वास ज़राणो साधुजी रे ढाल, धगधग धगते पाय रे हो ता० ॥
तडके तन रातुं थयुं रे ढाल, यौवन सोवन काय रे हो ता० ॥ अ० ॥ ४ ॥
पालुं फरी जोवे नहीं रे ढाल, आगलनो अणगार रे हो ता० ॥ आज पिता
होय माहरो रे ढाल, तो पडखे तेणी वार रे हो ता० ॥ अ० ॥ ५ ॥ अरह
न्नक आक्यो घणो रे ढाल, बेगो हेठ आवास रे हो ता० ॥ गोखे धनवंत
सुंदरी रे ढाल, दीगो प्रेम विवास रे हो ता० ॥ अ० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥ तिणि अवसर तले गोखनें, बेगो दीगो नार ॥ तरुणी तन
मन उल्लस्युं, नयणें जलक्युं वारि ॥ १ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ जंबूद्वीपना जरतमां ॥ ए देशी ॥ ते तरुणी चित्त चिंतवे, पीयु चा
द्वयो परदेशें रे ॥ विरहें दहे नव यौवना, प्राणी प्राण शुं लेशे रे ॥ १ ॥
मुनिवर देखी मन चढ्यो ॥ ए आंकणी ॥ रूपें दीठे रूअडो, चढती जो
वन वारो रे ॥ नयण वयणें करी निर्मलो, मयण तणे अनुसारो रे ॥ मुनि०
॥ २ ॥ जर यौवन घर एकली, लाह तणो नहिं पारो रे ॥ चतुर त्रिया
चित्त चिंतवे, रहेवुं स्वेष्टाचारो रे ॥ मुनि० ॥ ३ ॥ आठ गुणो नरथी क
ह्यो, नारी विषयविकारो रे ॥ लाज चउगुणी चित्त धरे, साहसनो जंकां
रो रे ॥ मुनि० ॥ ४ ॥ कांज करे कुंजर समां, कोडी देखी रूपे रे ॥ फूलें
नारी बीही पडे, साप सिराणे ऊडपे रे ॥ मुनि० ॥ ५ ॥ मन मधुकर ज
मतो थको, राखी न शके कोइ रे ॥ पण मालती हण जोगने, वन वन
जमतो जोइ रे ॥ मुनि० ॥ ६ ॥ बाल सहेली मोकली, तेडाव्यो रुषि
रायो रे ॥ ततहण ते उज्जी थइ, प्रमदा लागे पायो रे ॥ मुनि० ॥ ७ ॥
शुं मागो स्वामी तुमें, कवण तुमारो देशो रे ॥ रूपवंत रक्षीयामणा, दी
सो यौवन वेशो रे ॥ मुनि० ॥ ८ ॥ तांत न कीजें साधुनी, अमनें जिह्वा
काजो रे ॥ जमरतणी परें आचरुं, देशविदेशनां राजो रे ॥ मुनि० ॥ ९ ॥
तव घरणी घरमां गइ, हियडे हेज न मावे रे ॥ सिंह केरीसयां साधुनें,
मोदक लेइ वहोरावे रे ॥ मुनि० ॥ १० ॥ नेहदृष्टें सन्मुख जुवे, आलस
मोडे अंगो रे ॥ अबला ते आतुर थइ, प्रगट कीयो मनरंगो रे ॥ मुनि०
॥ ११ ॥ हे गुणवंता साधुजी, जमवुं घर घर वारो रे ॥ दीक्षा छुण्कर पा
खवी, विषमो तुम आचारो रे ॥ मुनि० ॥ १२ ॥ महोटां मंदिर मालीयां,
बूटी मांहे वासो रे ॥ सुखें रहो मेली करी, परघर केरी आशा रे ॥ मुनि०
॥ १३ ॥ किहां हिंकोला सोहामणा, फूलतणा मंहकारो रे ॥ किहां धरणी
तल पोढवुं, कांकराशुं व्यवहारो रे ॥ मुनि० ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुगुण सबूणा साधुजी, जमवुं देश विदेश ॥ रमतो मंदिरमालिये,
जोवन लाहो लेश ॥ १ ॥ बोल सुणी अबला तणा, जिह्या मोर कंगार ॥
नाह्यो पण चूढ्यो घणुं, अरहन्नक अणगार ॥ २ ॥

गा० ॥ ७ ॥ बलती बोलती बालही रे, सांजलो जीवन प्राण ॥ पीयु पांखे
कोण माहरे रे, सुख दुःख करो जाण ॥ मु० ॥ गा० ॥ १ ॥ बालक सुत माथे
करी रे, लीधो संयम जार ॥ पंख विना शी पंखणी रे, कंथ विना शी नार
॥ मु० ॥ गा० ॥ १० ॥ खांकाधार तणी परें रे, संयम सूधो पंथ ॥ आराधे
जिन आणशुं रे, दत्त नामें निर्ग्रथ ॥ मु० ॥ गा० ॥ ११ ॥ कोमल काया न्हान
डो रे, अरहन्नक ऋषिराय ॥ प्रेम धरी पाले पिता रे, आप गोचरीयें जाय
॥ मु० ॥ गा० ॥ १२ ॥ बालक सुत वेगो रहे रे, तांबड कण न खमाय ॥
वेयावच्च कर तातनुं रे, मोह न जीत्यो जाय ॥ मु० ॥ गा० ॥ १३ ॥ इण
अवसर दत्त साधुजी रे, पाली निरतिचार ॥ परलोकें पढोता थया रे, बा
लक कोण आधार ॥ मु० ॥ गा० ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ अरहन्नक ठानो रडे, हाथथकी मुख चीड ॥ पण जे नयणां नींग
ले, तेह जणावे पीड ॥ १ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ राग काफ़ी ॥ प्रवहण तिहांथी पूरीयुं रे ढाल ॥ ए देशी ॥ अरह
न्नक चित्त चितवे रे ढाल, कोण करशे मुज सार हो तातजी ॥ धणी
टली रणीयो थयो रे ढाल, अवर न कोइ आधार हो तातजी ॥ अर० ॥
१ ॥ पूरव परें सघळुं टड्युं रे ढाल, वेगो रहेतो जेह रे हो तातजी ॥
मुनिवर विहरण पांगश्या रे ढाल, साधुसंघातें तेह रे हो तातजी ॥ अर०
॥ २ ॥ खरे वपोरे गोचरी रे ढाल, नगर तणा पंथ दूर रे हो तातजी ॥
तडतडता तडका पडे रे ढाल, स्वेद तणां वहे पूर रे हो ता० ॥ अर० ॥
॥ ३ ॥ श्वास जराणो साधुजी रे ढाल, धगधग धगते पाय रे हो ता० ॥
तडके तन रातुं थयुं रे ढाल, यौवन सोवन काय रे हो ता० ॥ अ० ॥ ४ ॥
पातुं फरी जोवे नहीं रे ढाल, आगलनो अणगार रे हो ता० ॥ आज पिता
होय माहरो रे ढाल, तो पडखे तेणी वार रे हो ता० ॥ अ० ॥ ५ ॥ अरह
न्नक थाक्यो घणो रे ढाल, वेगो हेठ आवास रे हो ता० ॥ गोखे धनवंत
सुंदरी रे ढाल, दीगो प्रेम विवास रे हो ता० ॥ अ० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥ तिणि अवसर तले गोखनें, वेगो दीगो नार ॥ तरुणी तन
मन उल्लस्युं, नयणें जलक्युं वारि ॥ १ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ जंबूछीपना जरतमां ॥ ए देशी ॥ ते तरुणी चित्त चिंतवे, पीयु चा
द्वयो परदेशें रे ॥ विरहें दहे नव यौवना, प्राणी प्राण शुं लेशे रे ॥ १ ॥
मुनिवर देखी मन चढ्यो ॥ ए आंकणी ॥ रूपें दीठे रूअडो, चढती जो
वन वारो रे ॥ नयण वयणें करी निर्मळो, मयण तणे अनुसारो रे ॥ मुनि०
॥ २ ॥ जर यौवन घर एकली, लाछ तणो नहिं पारो रे ॥ चतुर त्रिया
चित्त चिंतवे, रहेवुं स्वेहाचारो रे ॥ मुनि० ॥ ३ ॥ आठ गुणो नरथी क
ह्यो, नारी विषयविकारो रे ॥ लाज चउगुणी चित्त धरे, साहसनो जंमां
रो रे ॥ मुनि० ॥ ४ ॥ कांज करे कुंजर समां, कोडी देखी करपे रे ॥ फूलें
नारी बीही पडे, साप सिराणे ऊडपे रे ॥ मुनि० ॥ ५ ॥ मन मधुकर ज
मतो थको, राखी न शकें कोइ रे ॥ पण मालती हण जोगने, वन वन
जमतो जोइ रे ॥ मुनि० ॥ ६ ॥ बाल सहेली मोकली, तेडाव्यो रुषि
रायो रे ॥ ततहण ते उज्जी थइ, प्रमदा लागे पायो रे ॥ मुनि० ॥ ७ ॥
शुं मागो स्वामी तुमें, कवण तुमारो देशो रे ॥ रूपवंत रलीयामणा, दी
सो यौवन वेशो रे ॥ मुनि० ॥ ८ ॥ तांत न कीजें साधुनी, अमनें जिह्वा
काजो रे ॥ जमरतणी परें आचरुं, देशविदेशनां राजो रे ॥ मुनि० ॥ ९ ॥
तव घरणी घरमां गइ, हियडे हेज न मावे रे ॥ सिंह केरीसयां साधुनें,
मोदक लेइ व्होरावे रे ॥ मुनि० ॥ १० ॥ नेहदृष्टें सन्मुख जुवे, आलस
मोडे अंगो रे ॥ अबला ते आतुर थइ, प्रगट कीयो मनरंगो रे ॥ मुनि०
॥ ११ ॥ हे गुणवंता साधुजी, जमवुं घर घर वारो रे ॥ दीक्षा छुणकर पा
लवी, विषमो तुम आचारो रे ॥ मुनि० ॥ १२ ॥ महोटां मंदिर मालीयां,
बूटी मांहे वासो रे ॥ सुखें रहो मेळी करी, परघर केरी आशा रे ॥ मुनि०
॥ १३ ॥ किहां हिंनोला सोहामणा, फूलतणा महकारो रे ॥ किहां धरणी
तल पोढवुं, कांकराशुं व्यवहारो रे ॥ मुनि० ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुगुण सबूणा साधुजी, जमवुं देश विदेश ॥ रमतो मंदिरमालिये,
जोवन लाहो लेश ॥ १ ॥ बोल सुणी अबला तणा, जिश्या मोर कंगार ॥
नाह्यो पण चूढ्यो घणुं, अरहन्नक अणगार ॥ २ ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ रांग जेतश्री ॥ थांको वीरो चारित्र लीये ॥ ए देशी ॥ महोल पधा रो मन रुली, बलहारी तुम वेश ॥ मुनिवर ॥ गोद बिठाउं पाये पडुं, चलहो तो चलण न देश ॥ मुनि० ॥ महोल० ॥ १ ॥ लाज न कीजें हो लाफिला, सरखो लही संयोग ॥ मुनि० ॥ बाखापण ठे दोहिहुं, केम ठीजे विण जोग ॥ मुनि० ॥ महो० ॥ २ ॥ ए मंदिर ए मालीयां, ए हिंमोला खाट ॥ मु० ॥ ए मोतीनां कुमखां, रयणजड्यां ए खाट ॥ मु० ॥ महो० ॥ ३ ॥ ए सोवननां सांकळां, रूपेरी रंग रोल ॥ मु० ॥ ए चो वारे चिहुं दिशें, हेम जड्या हिंमोल ॥ मु० ॥ महो० ॥ ४ ॥ ए लाखी णा उंरडा, रयण जड्या पटसाव ॥ मु० ॥ ए धन जोवन तुम वसु, आणंद लील जुवाल ॥ मु० ॥ महो० ॥ ५ ॥ मुनिवर चढीया मालीये, चाली गथा अणगार ॥ मु० ॥ जामिनीशुं, जीनो रहे, विरुठ विषय विकार ॥ मु० ॥ महो० ॥ ६ ॥ ऋण चउवारे मालीये, ऋण हिंमोला खाट ॥ मु० ॥ ऋण लाखीणे उंरडे, पूरे मननी आश ॥ मुनि० ॥ महो० ॥ ७ ॥ ऋण चांचडीयें चालतो, ठमके ठवतो पाय ॥ मु० ॥ मुख मरकल डा मेलतो, मानिनी मोह उपाय ॥ मु० ॥ महो० ॥ ८ ॥ अबला आसंगें चढी, ऋण विरहो न खमाय ॥ मु० ॥ जे जेहने मन मानीया, ते तेहने मन राय ॥ मु० ॥ म० ॥ ए ॥ खेले फूख तलाश्यें, मेळी सर्वे रीत ॥ मु० ॥ आसंगा आघा थया, ठांकी गुरुशुं प्रीत ॥ मु० ॥ महो० ॥ १० ॥ गोच रीयें चाट्यो हतो, जे आगल अणगार ॥ मु० ॥ तेणें पाहुं जोयुं जिसें, तिसें न दीठो वार ॥ मु० ॥ महो० ॥ ११ ॥ उंचुं न जोयुं आगलें, पाठल जोयुं ने जोय ॥ मु० ॥ अरहन्नक दीसे किहां, नारी जोलाव्यो सोय ॥ मु० ॥ महो० ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ नारी नयणें जोखव्या, चूला पड्या अठेह ॥ हरि हर ब्रह्मा सारिखा, हजीय न लाधा तेह ॥ १ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ बे बे मुनिवर विहरण पांगस्या जी ॥ ए देशी ॥ तेणे रे अणगारे ऋषि जोयो घणुं रे, नयणें न दीठो क्णही ठाम रे ॥ आचारिज आगल

आवी कहे रे, हुं अपराधी हुं साम रे ॥ महारो अरहन्नक किण दीठो
 नाहिं रे ॥ १ ॥ जगवन् अरहन्नो जूलो पड्यो रे, वात सुणी ते मुनिनी मा
 य रे ॥ दत्ता दुःख जरी ठाती फाडती रे, जीवन सुतने जोवा जाय रे ॥
 महारो ॥ २ ॥ मोहतणी गति दीसे दोहेली रे, रोतीने जोती हींने गा
 म रे ॥ जाड्व लागो नयणां नींगले रे, मुखथी न मूके सुतनुं नाम रे ॥
 म० ॥ ३ ॥ जूख न लागे तृपा जागी गई रे, ऋण ऋण खटक हृदय म
 कार रे ॥ विरह विखुद्धा पीड न को लहे रे, जेहमां दुःख वहे निर्धार रे
 ॥ म० ॥ ४ ॥ घर ते पूठे विखखाणी थइ रे, दीठो कोइ नानडीयो वेश रे
 ॥ खांधे तस लाखेणी खोवडी रे, मुनिवर रूपतणो सन्निवेश रे ॥ म० ॥
 ५ ॥ शेरीयें शेरीयें जोयो साधवी रे, फरि फरि फरीनें सो वार रे ॥ हेरी
 हेरी घर घर मालीये रे, घेरी घेरी पूठे नार रे ॥ म० ॥ ६ ॥ घाल विठो
 ही हरणी जेहवी रे, दुःख जरसेंती घेली थाय रे ॥ मोह विठोह्या एणी
 परें दोहिखा रे, रयणी दिन टखवखतां जाय रे ॥ म० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ अरहन्नक एकण समय, प्रमदा पासें लेश ॥ गोख ऊरूखे माखतो,
 पासा रमण कोइ ॥ १ ॥

॥ ढाल ठठी ॥

॥ राग जेतश्री ॥ देशी पारधीयानी ॥ नाखे दाव सोहामणा रे, पासा
 रणऊणकार रे ॥ रंगरातो ॥ तेहवे तिहां गइ साधवी रे, सुतनी खेती सार
 रे ॥ रंगरातो ॥ १ ॥ कोलाहल सुणी सामटो रे, हेठ निहाले जाम रे ॥
 रं० ॥ रडती पडती साधवी रे, माता दीठी ताम रे ॥ रं० ॥ २ ॥ जोवे रे
 जातां आवतां रे, लोक मट्यां लख कोड रे ॥ रं० ॥ अरहन्नक चित्त चिं
 तवे रे, रामत रमणी ठोड रे ॥ रं० ॥ ३ ॥ हा हा धिगू मुऊने पडो रे,
 में कीधुं कुण काम रे ॥ रं० ॥ गुरु ठंकी गोखे रसुं रे, माता वखवले
 आम रे ॥ रं० ॥ ४ ॥ कहेनां मंदिर मालीयां रे, कहेनां रमणी रंग रे ॥
 रं० ॥ जावुं डूर विदेशडे रे, चार दिवसनो संग रे ॥ रं० ॥ ५ ॥ वालेसर
 पण आपणा रे, जठी आघा जाय रे ॥ रं० ॥ को केहने पडखे नहीं रे,
 शीख न मागे कांय रे ॥ रं० ॥ ६ ॥ ऋण दीसे व्यवहारीयो रे, ते ऋण
 मांहे निराश रे ॥ रं० ॥ ऋण हिंकोले खेखवुं रे, ऋण समशानें वास रे

॥ रं० ॥ ७ ॥ तन धन जोवन कारिमां रे, मूढ करे अहंकार रे ॥ रं० ॥
 आठे मदशुं चालता रे, ते पण गया निरहंकार रे ॥ रं० ॥ ८ ॥ रावण
 सरिखा राजवी रे, लंकां सरिखो कोट रे ॥ रं० ॥ रूठे कर्म रोखव्या रे,
 रामचंद्रकी चोट रे ॥ रं० ॥ ए ॥ जे मूढे वल घालता रे, करता मोडामो
 ड रे ॥ रं० ॥ तेह मसाणे संवस्था रे, मान अधूरां ठोड रे ॥ रं० ॥ १० ॥
 हुं झूलो जल आपथी रे, एह न जाणी रीत रे ॥ रं० ॥ आत्म हित गां
 नी करी रे, परशुं मांकी प्रीत रे ॥ रं० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ अरहृशक ऊठी गयो, खेल अधूरो ठोड ॥ कामिनी टलवलती रहीं,
 साय नसे कर जोड ॥ १ ॥ हुं अपराधी तुमतणो, माय खमावुं तेह ॥
 मोहतणे वश मालीये, जमतो नवले नेह ॥ २ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ कपूर हुवे अति ऊजळो रे ॥ ए देशी ॥ वत्सतणां सुणि वयणदां
 रे, रोमांचित थया देह ॥ विकलपणुं वेगे गयुं रे, दूधे वूठा मेह रे ॥ नं
 दन ॥ शुं कीधुं तें एह ॥ १ ॥ स्वारथ सहुने वाळहो रे, स्वारथ सूधो सं
 ग ॥ सोही स्वारथ अणपूगते रे, सहु आपणडे रंग रे ॥ नं० ॥ शुं० ॥ २
 ॥ निःस्नेहा मुख मीठडा रे, तापे मननुं हेत ॥ काची कळी कणेरतणी
 रे, तन रातो अन श्वेत रे ॥ नं० ॥ शुं० ॥ ३ ॥ काज सख्यां दुःख वीस
 ख्यां रे, ए प्रमदानी प्रीत ॥ जनम जीवित जेहने दहे रे, ते विरलानी
 नीत रे ॥ नं० ॥ शुं० ॥ ४ ॥ प्रेमतणां फल पाडुआ रे, प्रत्यक्ष दीसे दाह ॥
 प्राण तपे निद्रा खपे रे, नित्य नवो उमाह रे ॥ नं० ॥ शुं० ॥ ५ ॥ रूपें न
 राचो रूअडा रे, गुणे राचो गुणवंत ॥ इंद्रवारुणी फल फूटरां रे, जहेर न
 ख्यां एकंत रे ॥ नं० ॥ शुं० ॥ ६ ॥ अंतरजामी आपणा र, जीव समाणा
 जोय ॥ ते पण बोळावी वळे रे, साथ न आवे कोय रे ॥ नं० ॥ शुं० ॥ ७ ॥
 साथ न आवे सुंदरी रे, साथ न आवे आथ ॥ ऊठी जावुं एकवुं रे, ठा
 ला लेश हाथ रे ॥ नं० ॥ शुं० ॥ ८ ॥ करकंभू जे जेहने रे, ब्रह्मदत्त चक्री
 जोय ॥ चित्र वचन मान्युं नहीं रे, सातमी पहतो सोय रे ॥ नं० ॥ शुं०
 ॥ ए ॥ जे आराधे जिनतणो रे, सुरतरु धर्म सुजाण ॥ फल अजरामर ते
 लहे रे, मीगां अमिय समान रे ॥ नं० ॥ शुं० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ संवेगी शिर सेहरो, वैरागे मन वालि ॥ ठोडी मंदिर नवलखां,
उठ चाढ्यो ततकाल ॥ १ ॥ ते तरुणी तरबी रही, मेली गयो मुणिंद ॥
मेह विना जेम बेलडी, जेम चकोरी चंद ॥ २ ॥

॥ ढाल आठमी ॥

॥ वरसाखानी देशी ॥ अरहन्नक उतावलो, जइ जेव्यो गुरुराय विचा
र ॥ दीक्षा शिक्षा फरी प्रही, फरो लीधो रे भारन निरतिचार के ॥ १ ॥
जेव्यो रे गुरुराज, तेणे साख्यां रे आपणडां काज के ॥ जेव्यो ॥ गुरु दी
ये शिक्षा साधुनें रे, पाले निरतिचार ॥ प्रेमबंधन ठे पाडुआं, तेणे कीजे
रे उद्यम विचार के ॥ जे ॥ २ ॥ के गिरि वनखंक साधु जी, साधीये
संयमयोग ॥ गालिये यौवन आपणुं, नवि धरीये चिंता ने शोक के ॥
जे ॥ ३ ॥ जोलपणे जोगीश्वर थयो, आतम वार अनंत ॥ ज्ञासिनीगुं
जीनो रह्यो, नवि आव्यो रे आज लगे अंत के ॥ जेव्यो ॥ ४ ॥ प्रण
मीने प्रचुरुं कहे, स्वामी सुणो अरदास ॥ काया कायर माहरी, मुज
दीजे रे अणसणनी आश के ॥ जेव्यो ॥ ५ ॥ लाख चोराशी खामीनें,
तेणे लीधुं अणसर सार ॥ अनुक्रमे पाली आउखु, अवतरियो रे सुवि
मानमजार के ॥ जेव्यो ॥ ६ ॥ जिनतणी शीख सोहामणी, जे करे
कुल अवतंस ॥ ते लहे लीला आणंदरुं, जेम विलसे रे गंगाजल हंस
के, ॥ जेव्यो ॥ ७ ॥ संवत सत्तर चिडोत्तरे, वड खडतरगह वास ॥ गणि
महिमासागर हित वडे, आणंदे रे कह्यो रास विलास के ॥ जेव्यो ॥ ८ ॥

॥ अथ कामकंदर्पनी सखाय प्रारंभः ॥

॥ करेखडां घड दे रे ॥ ए देशी ॥ कामविकारें मानवी रे, करे कुकर्म
अनेक ॥ काम करेवा कारणे, विरसे आप विवेक ॥ १ ॥ कामी नर
वर्जजो रे ॥ कामह केरा विकार, कामी नर वर्जजो रे ॥ ए आंकणी ॥
कामवशे जे वाहीया रे, पाम्या दुःख अपार ॥ लंपट थयो लंकापति,
अवलेही स्व आचार ॥ कामी ॥ २ ॥ काम थकी सीता हरी रे, लाव्यो
रावण लंक ॥ दशशिर रामे ठेदीयां, काम तणा ए वंक ॥ कामी ॥
३ ॥ पद्मोत्तर झोपदी हरी रे, पांरुव पांचनी नार ॥ कृष्णबलें खेइ आ
वीया, बूढ्यो ते राय थइ नार ॥ कामी ॥ ४ ॥ काम विकल हुइ कामि

नी रे, ते सूरीकंता नार ॥ निजपतिने हाथे हण्यो, पहतो ते स्वर्ग मजार
 ॥ कामी० ॥ ५ ॥ ब्रह्मदत्त निज सुत उपरें रे, कीधो एकत्र प्रपंच ॥ चूकी
 चूळणी मारवा, कामह केरा ए संच ॥ कामी० ॥ ६ ॥ इत्यादिक कामें
 करी रे, पाम्या दुःख अठेह ॥ एणे जव तो खंपटीतणुं, नाम धरावे तेह
 ॥ कामी० ॥ ७ ॥ परजव तो नरकें पचे रे, नाम थकी ए जीव ॥ मुनि नू
 धर कहे प्राणीया, वज्जों काम सदैव ॥ कामी० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ नेमराजुखनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ जोधी ताहारा फतडामां जोय, केटले दाहाडे हे हांजो मारु आ
 वशे जी ॥ ए देशी ॥ गोखमें सखीयो संघात, राजुख निरखे हे पीयुने
 आवतां वेगळो जी ॥ बेनि सुणोने एक वात, सरखीने जोडी हे बाइ रे
 वर शामळो जी ॥ १ ॥ काला हो मेघ मलार, काला कृष्णागरु हे अंजन
 शोहे आंखडी जी ॥ रंगें रमो मलि सखी आज, परणीने काले हे सास
 रीये जाशो वही जी ॥ २ ॥ मुळ फरके दाहिण अंग, लगनमां विघनज
 हे बेनी रे होशे सही जी ॥ राजुख सुण ससनेह, वांठित फलशे हे वा
 इ रे बोळो एम नहिं जी ॥ ३ ॥ तोरण आव्या जव नेम, पशुअ पेखी
 ने हे पूठे रे सारथिप्रत्ये जी ॥ सारथि कहे सुणो स्वामि, लगन प्रजाते
 हे हण्यो रे गोरवप्रत्ये जी ॥ ४ ॥ धिगू होजो एह संसार, मुळने पर
 णंतां हे हिंसा रे होशे घणी जी ॥ पशु ठोडाव्यां प्रभु नेम, रथडो वाळी
 ने हे चाळ्या रे स्वामी घरजणी जी ॥ ५ ॥ प्रभु संवत्तरी देइ दान, स
 हस पुरुषशुं हे संयम लेइ गिरिवर गया जी ॥ चोपन दिन मुनि राय,
 घाती खपावीने हे केवलमय प्रभुजी थया जी ॥ ६ ॥ जूवे ते राजुख
 नार, रथडो वाळंता हे देखीने धरणी ढळी जी ॥ जनके सचेतन कीध,
 परणावुं वेटी हे नेमथी वर जळो वली जी ॥ ७ ॥ सुणी करि चवे निज
 कान, तातजी माहरे हे अवर बांधवने पिता जी ॥ अष्ट जवनी स्वामी
 प्रीत, नवमे ठोडीने हे व्हो रे सुर केम जता जी ॥ ८ ॥ उत्तमनी नहिं
 ए रीत, विण अवगुणे हे ठोडी रे स्वामी तुम गया जी ॥ मुळ त्यजी
 पीयु तमें नार, वीजी वरीने हे त्रीजीने जजता थया जी ॥ ९ ॥ एम क
 हेती सखीयो संघात, मारग जातां हे घणोरी सखीथी जुइ थई जी ॥ एकली
 राजुख नार, गिरनार चढीने हे सुकायां चीर गुफा जइ जी ॥ १० ॥ रह

नेमी धरता ध्यान, राजुख पेखी हे चूको ते संयमथकी जी ॥ हुं उपसे
 ननी कुमारी, नेम विना अवर हे जजती रे नथी मनथकी जी ॥ ११ ॥
 ज्ञात्री म धरशो अंदेश, नेमने स्थानक हे विलसो रे अमशुं सही जी ॥
 ए यौवन जरपूर, लाहो लीजिये हे चालो रे ज्ञात्री घरे जइ जी ॥ १२ ॥
 रहनेमीनां सुणो वयण, राजुल जंपे हे देवर सुणो माहरा जी ॥ एहवो
 शोग अथिर संसार, संयमरहज हे ठोडीने पडो सायरा जी ॥ १३ ॥
 वम्यो न लीजे रे आहार, विषयशुं वंची हे तुम बांधव मूकी गया जी ॥
 एहवी सतीनी सुणी शीख, नेम कने जइने हे फरी रे ते संयती थया जी
 ॥ १४ ॥ दीक्षा लीधी नेमजीने हाथ, संयम लइने हे फरी फरी करी तप
 स्या घणी जी ॥ अंते केवलधारी होय, पीयु पहेली पहोती हे राजुल तो
 मुक्ति जणी जी ॥ १५ ॥ बेहु मढ्या मुक्ति मजार, अविहड प्रीतडी हे
 बांधो रे बेठा सुख ठते जी ॥ एहवा सतीना गुणग्राम, पूज्य नाथाजीना
 हे मढ्या रे वंदे नित्यप्रत्ये जी ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ अथ आत्मशिक्षा सद्याय प्रारंभः ॥

॥ करेलडां घडी दे रे ॥ ए देशी ॥ जविक जन जज ले रे, जज जज
 जज जगवंत ॥ जवि० ॥ तुं तजी दे मोह अज्ञान ॥ जवि० ॥ तुं तो देने
 सुपात्रें दान ॥ जवि० ॥ सुण ले सदगुरु वाण ॥ जवि० ॥ ए आंकणी ॥ जो
 दिन रयणी जात है, सो तो फिर नहिं आय ॥ मूरख चित्त चेतें नहिं,
 अंजली जलके न्याय ॥ जवि० ॥ १ ॥ तेंतो जन्म मरणें करी, फरशयो
 सब संसार ॥ अब मानव जव पायकें, सफल करो अवतार ॥ जवि०
 ॥ २ ॥ तन धन यौवन कारिसुं, कारिमो सब संसार ॥ कारिमो संग
 विचार कें, मानव जन्म म हार ॥ जवि० ॥ ३ ॥ कवहुं सुखी कवहुं
 दुःखी, कबु राजा कबु रंक ॥ कबू न मटे जगतमें, कर्म लख्यो जे अंक ॥
 जवि० ॥ ४ ॥ क्रोध मान माया तजो, वर्जो विषयप्रसंग ॥ पांचे इंद्रिय
 वश करो, जीपो सबल अनंग ॥ जवि० ॥ ५ ॥ पूरव पुण्य विना किये,
 कहो किहां सुख होय ॥ बोवे बीज वढबूलके, अब कहांसें सुख होय ॥
 जवि० ॥ ६ ॥ एह मायाके मामले, मूल रहेहे जूत ॥ दीप करेगो तो
 हिये, मान वचन तुं सूत ॥ जवि० ॥ ७ ॥ मोहवशें सब जीउरे, मिले
 वटाऊ आय ॥ हलि मलि शीख न करि शके, अणबोढ्या उठ जाय ॥

जवि० ॥ ७ ॥ कहा करे ज्ञानी जलो, कहा करे अज्ञान ॥ मोहरायके
 राजमें, कहेनुं न रहुं मान ॥ जवि० ॥ ८ ॥ सबहुं करमसें जिन कहुं,
 मोहकर्म दुःखदंड ॥ दोख्यो जगत इनन जणी, कीनो मारण संच ॥
 ज० ॥ १० ॥ दीर्घराय चूखणी मली, कीनो मारण संच ॥ ब्रह्मदत्त च
 क्री जणी, देखो मोह प्रपंच ॥ जवि० ॥ ११ ॥ कृष्ण कलेवर लइ जम्यो,
 राम ठमासी विदीत ॥ वन गिरि कुंजन कुंजमें, ए ए मोह कुरीत ॥ ज
 वि० ॥ १२ ॥ गर्जवासमांहे हस्यो, खे तव एसो नीम ॥ माता पिता जव
 जीवते, व्रत लेवानी सीम ॥ जवि० ॥ १३ ॥ नमो नमो या मोहकूं, मोह
 सबल क्रम राय ॥ बिनमांहे महावीरके, दीनो जेहने घाय ॥ जवि० ॥
 ॥ १४ ॥ मोह कर्म बत्स तुम तजो, जेम होये अशरीर ॥ इणविध
 बहु परें शीखवी, गौतमने माहावीर ॥ जवि० ॥ १५ ॥ दीक्षा लीधी
 जावहुं, ठोडी सब घरवास ॥ वरस चोवीश घरें रह्यो, सो फरि आर्द्र
 कुमार ॥ जवि० ॥ १६ ॥ शूलिजडकूं देखके, मन्न करो मत कोय ॥
 सिंहगुफावासी मुनि, चूको वेश्या जाय ॥ जवि० ॥ १७ ॥ पुत्र मरण
 मझक समे, सिद्धंजव गणधार ॥ दुःख धरी निज चित्तमें, दुर्जय मोह
 विकार ॥ जवि० ॥ १८ ॥ वात सकल या मोहकी, मुखे कहा नवि जा
 य ॥ प्रश्नचंद्र शुजध्यानरें, देव दुंदुभि गवाय ॥ जवि० ॥ १९ ॥ ऋद्धि
 ठांकी व्रत आदखुं, मन वैराग्य संजाल ॥ सो मोहे वलि जालव्यो, वीर
 जमाइ जमाल ॥ जवि० ॥ २० ॥ अब तो मायामें पड्यो, जाणत नहीं
 लगार ॥ पठतावेगो प्राणीयो, वीठडवानी वार ॥ जवि० ॥ २१ ॥ अरि
 हंत किहां चक्रवर्ति किहां, जामें बल असमान ॥ एसेंत्री स्थिर नां रहे,
 तुं तो केहे ज्ञान ॥ जवि० ॥ २२ ॥ स्वारथको सबको सगो, स्वारथको
 सब नेह ॥ जो स्वारथ पूगे नाहीं, बिनमें देखाडे ठेह ॥ जवि० ॥ २३ ॥
 जैसा चंचल पवन है, तैसी मनकी दोर ॥ गुरुके वयण विचारके, ले रा
 खो एक ठोर ॥ जवि० ॥ २४ ॥ पांचे इंद्रिय वश करो, वारो विषय कषाय
 ॥ आतम जंपो आपणो, इणविध बहु समजाय ॥ जवि० ॥ २५ ॥ ए हि
 तशीख विचार के, ग्रहो सकल नर नार ॥ लावण्यकीर्ति संपदा, जुं
 पामो जव पार ॥ जवि० ॥ २६ ॥ इति आत्मशिक्षा समाप्ता ॥

॥ अथ श्रीजंबुकुमारनुं चोढालीयुं पारंजः

॥ दोहा ॥ सरसति पदपंकज नमी, पामी सुगुरु पसाय ॥ गुण गातां
जंबुस्वामिना, मुज मन हर्ष न माय ॥ १ ॥ यौवनवय व्रत आदरी, पाले
निरतिचार ॥ मन वच काया शुद्धुं, जाउं वस वलिहार ॥ २ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ प्रवहण तिहांथी पूरीयुं रे ढाल ॥ ए देशी ॥ राजगृही नगरी जली
रे ढाल, वार योजन विस्तार रे ॥ जविकजन ॥ श्रेणिकनामें नरेसरू रे
ढाल, मंत्री अजय कुमार रे ॥ ज० ॥ १ ॥ जाव धरी नित्य सांजदो रे
ढाल ॥ ए आंकणी ॥ कृषजदत्त व्यवहारीयो रे ढाल, बसे तिहां धनवंत
रे ॥ ज० ॥ धारणी तेहनी चारया रे ढाल, शीलादिक गुणवंत रे ॥ ज० ॥
॥ जाव० ॥ २ ॥ सुख संसारनां विलसतां रे ढाल, गर्ज रह्यो शुचदिन्न
रे ॥ ज० ॥ सुपन लही जंबुवृक्षनुं रे ढाल, जनम्यो पुत्र रतन्न रे ॥ ज०
॥ जाव० ॥ ३ ॥ जंबुकुमार नाम स्थापीयुं रे ढाल, स्वमतणे अनुसार
रे ॥ ज० ॥ अनुक्रमे यौवन पामीयो रे ढाल, हुड गुणचंकार रे ॥ ज०
॥ जाव० ॥ ४ ॥ ग्रामानुग्रामे विचरता रे ढाल, आवीया सोहमस्वामि रे
॥ ज० ॥ पुरजन वांदवा आवीयां रे ढाल, साथे जंबु गुणधाम रे ॥ ज०
॥ जा० ॥ ५ ॥ जविक जनना हितजणी रे ढाल, दीये देशना गुणधार
रे ॥ ज० ॥ चारित्र चिंतामणि सारिखुं रे ढाल, जवडुःख वारणहार रे
॥ ज० ॥ जा० ॥ ६ ॥ देशना सुणी जंबु रीजीया रे ढाल, कहे गुरुने कर
जोडि रे ॥ ज० ॥ अनुमति लेइ मात तातनी रे ढाल, संयम लीयो मन
कोड रे ॥ जवि० ॥ जाव० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ इमर आंवा आंबली रे ॥ ए देशी ॥ गुरु वांदी घर आवीया रे, पा
मी मन वैराग ॥ मात पिता प्रत्ये वीनवे रे, करशुं संसारनो त्याग ॥ १ ॥
माताजी, अनुमति द्यो मुज आज ॥ जेम सीके वंठित काज ॥ माताजी ॥
॥ अनुमति ॥ ए आंकणी ॥ चारित्र पंथ ठे दोहिलो रे, व्रत ठे खांडा
नी धार ॥ लघु वय ठे वत्स तुम तणुं रे, केम पले पंचाचार ॥ कुमरजी,
व्रतनी म करो वात ॥ तुं मुज एक अंगजात ॥ कु० ॥ व्र० ॥ १ ॥ एक
वलिहारें विचरुं रे, रहेबु वन नयान ॥ जूमिसंथारे पोढुं रे, धरुं

धर्मनुं ध्यान ॥ कुम० ॥ व्रत० ॥ ३ ॥ पाय अणुवाणे चाखवुं रे, फरवुं
 देश विदेश ॥ नीरस आहार लेवो सदा रे, परिसह केम सहीश ॥ कुम०
 ॥ व्रत० ॥ ४ ॥ कुमर कहे माता प्रत्ये रे, ए संसार असार ॥ तन धन यौ
 वन कारिसुं रे, जातां न लागे वार ॥ माता० ॥ अनु० ॥ ५ ॥ माता
 कहे आढेहादथी रे, वत्स पराषो शुच नार ॥ यौवन वय सुख जोगवी रे,
 पठी लेजो संयमजार ॥ कुम० ॥ व्रत० ॥ ६ ॥ मात पिता आग्रह करी
 रे, परणावी आठे नार ॥ जलथी कमल जेम जिन रहे रे, तेम रहे जंबु
 कुमार ॥ कुम० ॥ व्रत० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ ढाल श्रीजी ॥

॥ सखीरी आढ्यो वसंत, अटारडो अटारडो ॥ ए देशी ॥ सनेही
 प्रीतमने कहे कामिनी कामिनी, सुणो स्वामी अरदास ॥ सुगुणजन सां
 जलो ॥ सनेही अमृत स्वाद मूकी करी ॥ मू० ॥ कहो कोण पीवे ठास
 ॥ सु० ॥ १ ॥ सनेही कामकला रस केखवो ॥ के० ॥ मूकोजी व्रतनो
 धंध ॥ सु० ॥ सनेही परणीने शुं परिहरो ॥ परि० ॥ हाथ मेळ्यानो सं
 बंध ॥ सु० ॥ २ ॥ सनेही चारित्र वेदुकवल जिश्युं ॥ कव० ॥ तेमां
 किश्यो सवाद ॥ सु० ॥ सनेही जोग सामग्री पामी करी ॥ पा० ॥ जो
 गवो जोग आह्लाद ॥ सु० ॥ ३ ॥ सनेही जोग ते रोग अनादिनो ॥ अ०
 पीडे आतम अंग ॥ सु० ॥ सनेही ते रोगने शमाववा ॥ श० ॥ चा
 रित्र ठे रे रसांग ॥ सु० ॥ ४ ॥ सनेही किंपाकफल अति फूटरां ॥ फू० ॥
 जखतां लागे मिष्ट ॥ सु० ॥ सनेही विष पसरे जब अंगमां ॥ अं० ॥ त्या
 रे होवे अनिष्ट ॥ सु० ॥ ५ ॥ सनेही दीप ग्रही निज हाथमां ॥ हा० ॥
 कोण जंपावे कूप ॥ सु० ॥ सनेही नारी ते विषवेळडी ॥ वे० ॥ विष फल
 विषय विरूप ॥ सु० ॥ ६ ॥ सनेही एहवुं जाणी परिहरो ॥ प० ॥ संसार
 मायाजाख ॥ सु० ॥ सनेही जो मुजशुं तुम नेह ठे ॥ ने० ॥ तो व्रत छो
 थइ उजमाल ॥ सु० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ नमो नमो मनक महामुनि ॥ ए देशी ॥ एहवे प्रजवो आवीयो,
 पांचशें चोरनी संग रे ॥ विद्याये ताळां उघाडीयां, धन खेवाने उमंग रे
 ॥ १ ॥ नमो नमो श्री जंबुस्वामीने ॥ ए आंकणी ॥ जंबुये नवपद ध्यान

श्री, थंभ्या ते सवि दंज रे ॥ थंजतणी परें स्थिर रखा, प्रजवो पाम्यो अ
 चंज रे ॥ नमो० ॥ १ ॥ प्रजवो कहे जंबुप्रत्ये, थो विद्या मुज एइ रे ॥ जं
 बु कहे ए गुरुकने, ठे विद्यानुं गेइ रे ॥ नमो० ॥ ३ ॥ पणसय चोर ते
 बूजवी, बूजव्यां माय ने ताय रे ॥ सासु ससरा नारी बूजवी, संयम
 खेवा जाय रे ॥ नमो० ॥ ४ ॥ पंचसया सत्तावीशशुं, परवख्यो जंबुकुमार
 रे ॥ सोइम गणधरली कने, छीये चारित्र उदार रे ॥ नमो० ॥ ५ ॥
 वीरथी वीसमे वरसे, थया युग प्रदानो रे ॥ चौद पूर्व अवगार्हीनिं,
 पाम्या केवलज्ञानो रे ॥ नमो० ॥ ६ ॥ वरस चोशठ पदवी जोगवी, स्था
 पी प्रजव स्वामी रे ॥ अष्ट कर्मनो क्य करी, थया शिवगतिगामी रे
 ॥ नमो० ॥ ७ ॥ संवत अठार तेरोत्तरे, रखा पाटण चोमास रे ॥ चाम
 केवलीने गावतां, होये लीखविदास रे ॥ नमो० ॥ ८ ॥ महिमा सागर
 सदगुरु, तास तणे सुपसावे र ॥ जंबुस्वामी गुण गाइया, सौजाग्ये थ
 रिय उत्साह रे ॥ नमो० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री नेमराजुलनो वारमासो प्रारंभः ॥

॥ सरसति सामिणी विनहुं, गोयम लागुं रे पाय ॥ राजुल नारी रे
 वीनवे, वे कर जोडी रे आय ॥ १ ॥ तें मन मोहुं रे नेमजी, बोले राजुल
 नार ॥ कंता कां रथ वालीयो, आव्यो तोरण वार ॥ तें० ॥ २ ॥ वे
 कर जोडी रे वीनहुं, प्रीतम लागुं रे पाय ॥ नारी नरजव केरडी, कां
 मुज मेळीने जाय ॥ तें० ॥ ३ ॥ गज रथ घोडा रे ठे घणा, पायक संख्या
 न पार ॥ जोतां जान तुमारडी, हियडे ह्य अपार ॥ तें० ॥ ४ ॥ कुं
 ख सोवन केरडां, ह्यडे नवसरो हार ॥ चढीने गयवर ऊपरे, सोहे सव
 शणगार ॥ तें० ॥ ५ ॥ मंरुप महोटा रे मांफिया, नाचे नवलां रे पात्र ।
 थानक थानक थोकडे, जोवा सरखी ठे जान ॥ तें० ॥ ६ ॥ माने वलज
 ड कानजी, माने महोटा रे चूप ॥ सुर नर सेवे रे सामटा, ताहरुं थक
 ख स्वरूप ॥ तें० ॥ ७ ॥ साव सुरंगुं रे सासरुं, पीयर पनोती माय ॥ कमें
 खखुं जे तिम करुं, पीयुनुं यौवन जाय ॥ तें० ॥ ८ ॥ यादव कोडीये रे
 परिवखा, साथें दशे दसार ॥ नेमजी गयवर चढीया, आव्या तोरण
 वार ॥ तें० ॥ ९ ॥ स्वामी पूठे रे सारथि, ए श्या जरिया रे वाड ॥ तुम
 प्रजातें रे परगडो, होशे पशुडानो घात ॥ तें० ॥ १० ॥ हरणी बोले रे

धर्मनुं ध्यान ॥ कुम० ॥ व्रत० ॥ ३ ॥ पाय अणुवाणे चाखुं रे, फरुं
देश विदेश ॥ नीरस आहार लेवो सदा रे, परिसह केम सहीश ॥ कुम०
॥ व्रत० ॥ ४ ॥ कुमरं कहे माता प्रत्ये रे, ए संसार असार ॥ तन धन यौ
वन कारिसुं रे, जातां न लागे वार ॥ माता० ॥ अनु० ॥ ५ ॥ माता
कहे आढहादथी रे, वत्स परणो शुज नार ॥ यौवन वय सुख जोगवी रे,
पठी लेजो संयमजार ॥ कुम० ॥ व्रत० ॥ ६ ॥ मात पिता आग्रह करी
रे, परणावी आठे नार ॥ जलथी कमल जेम जिन्न रहे रे, तेम रहे जंबु
कुमार ॥ कुम० ॥ व्रत० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ ढाल व्रीजी ॥

॥ सखीरी आव्यो वसंत, अटारडो अटारडो ॥ ए देशी ॥ सनेही
प्रीतमने कहे कामिनी कामिनी, सुणो स्वामी अरदास ॥ सुगुणजनसां
जलो ॥ सनेही अमृत स्वाद मूकी करी ॥ मू० ॥ कहो कोण पीवे ठास
॥ सु० ॥ १ ॥ सनेही कामकला रस केलवो ॥ के० ॥ मूकोजी व्रतनो
बंध ॥ सु० ॥ सनेही परणीने शुं परिहरो ॥ परि० ॥ हाथ मेळ्यानो सं
बंध ॥ सु० ॥ २ ॥ सनेही चारित्र वेळुकवल जिश्युं ॥ कव० ॥ तेमां
किश्यो सवाद ॥ सु० ॥ सनेही जोग सामग्री पामी करी ॥ पा० ॥ जो
गवो जोग आह्लाद ॥ सु० ॥ ३ ॥ सनेही जोग ते रोग अनादिनो ॥ अ०
पीडे आतम अंग ॥ सु० ॥ सनेही ते रोगने शमाववा ॥ श० ॥ चा
रित्र ठे रे रसांग ॥ सु० ॥ ४ ॥ सनेही किंपाकफल अति फूटरां ॥ फू० ॥
जखतां लागे मिष्ट ॥ सु० ॥ सनेही विष पसरे जब अंगमां ॥ अं० ॥ त्या
रे होवे अनिष्ट ॥ सु० ॥ ५ ॥ सनेही दीप ग्रही निज हाथमां ॥ हा० ॥
कोण जंपावे कूप ॥ सु० ॥ सनेही नारी ते विषवेळडी ॥ वे० ॥ विष फल
विषय विरूप ॥ सु० ॥ ६ ॥ सनेही एहवुं जाणी परिहरो ॥ प० ॥ संसार
मायाजाख ॥ सु० ॥ सनेही जो मुऊशुं तुम नेह ठे ॥ ने० ॥ तो व्रत ल्यो
थइ उजमाख ॥ सु० ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ नमो नमो मनक महामुनि ॥ ए देशी ॥ एहवे प्रजवो आवीयो,
पांचशें चोरनी संग रे ॥ विद्याये ताळां उघाडीयां, धन लेवाने उमंग रे
॥ १ ॥ नमो नमो श्री जंबुस्वामीने ॥ ए आंकणी ॥ जंबुये नवपद ध्यान

धी, थंफ्या ते सवि दंज रे ॥ थंजतणी परें स्थिर रह्या, प्रजवो पाम्यो थ
चंज रे ॥ नमो० ॥ २ ॥ प्रजवो कहे जंजुप्रत्यें, थो विद्या मुज एइ रे ॥ जं
बु कहे ए गुरुकने, ठे विद्यानुं गेह रे ॥ नमो० ॥ ३ ॥ पणसय चोर ते
बूजवी, बूजव्यां माय ने ताय रे ॥ सासु ससरा नारी बूजवी, संयम
लेवा जाय रे ॥ नमो० ॥ ४ ॥ पंचसया सत्तावीशशुं, परवख्यो जंजुकुमार
रे ॥ सोहम गणधरली कने, लीये चारित्र उदार रे ॥ नमो० ॥ ५ ॥
वीरथी वीसमे वरते, थया युग प्रवानो रे ॥ चौद पूर्व अत्रगाहीने,
पाम्या केवलज्ञानो रे ॥ नमो० ॥ ६ ॥ वरस चोशठ पदवी जोगवी, स्या
पी प्रजव स्वामी रे ॥ अष्ट कर्मनो दय करी, थया शिवगतिगामी रे
॥ नमो० ॥ ७ ॥ संवत अठार तेरोत्तरे, रह्या पाटण चोमास रे ॥ चास
केवलीने गावतां, होये लीलविदास रे ॥ नमो० ॥ ८ ॥ महिमा सागर
सद्गुरु, तास तणे सुपसाये र ॥ जंजुस्वाधी गुण गाइया, सोजाग्ये थ
रिय उत्साह रे ॥ नमो० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री नेमराजुलनो वारमासो प्रारंभः ॥

॥ सरसति सामिणी विनवुं, गोयम लागुं रे पाय ॥ राजुल नारी रे
वीनवे, वे कर जोडी रे आय ॥ १ ॥ तें मन मोखुं रे नेमजी, बोले राजुल
नार ॥ कंता कां रथ वालीयो, आव्यो तोरण वार ॥ तें ॥ २ ॥ वे
कर जोडी रे वीनवुं, प्रीतम लागुं रे पाय ॥ नारी नरजव केरडी, कां
मुज मेळीने जाय ॥ तें ॥ ३ ॥ गज रथ घोडा रे ठे घणा, पायक संख्या
न पार ॥ जोतां जान तुमारडी, हियडे हर्ष अपार ॥ तें ॥ ४ ॥ कुं
ल सोवन केरडां, ह्यडे नवसरो हार ॥ चढीने गयवर ऊपरे, सोहे सव
शणगार ॥ तें ॥ ५ ॥ मंरुप महोटा रे मांफिया, नाचे नवलां रे पात्र ।
थानक थानक थोकडे, जोवा सरखी ठे जान ॥ तें ॥ ६ ॥ माने बलज
द्र कानजी, माने महोटा रे भूप ॥ सुर नर सेवे रे सामटा, ताहरुं अक
ल स्वरूप ॥ तें ॥ ७ ॥ साव सुरंगुं रे सासरुं, पीयर पनोती माय ॥ कर्म
लखुं जे तिम करुं, पीयुनुं यौवन जाय ॥ तें ॥ ८ ॥ यादव कोडीयें रे
परिवस्था, साथें दशे दसार ॥ नेमजी गयवर चढीया, आव्या तोरण
वार ॥ तें ॥ ९ ॥ स्वामी पूठे रे सारथि, ए श्या जरिया रे वाड ॥ तुम
प्रजातें रे परगडो, होशे पशुडानो घात ॥ तें ॥ १० ॥ हरणी बोले रे

हरणला, तें कां कीधो रे पौकार ॥ रहे रहे ठानो रे बूटशुं, आव्यो नेम
 कुमार ॥ तें० ॥ ११ ॥ सावर बोले रे सावरी, सांजल सुंदरी वात ॥ जा
 यां जोशुं रे आपणां, आव्यो त्रिभुवन तात ॥ तें० ॥ १२ ॥ रोज ज़णे सुण
 रोजडी, घडि घडि उथल न थाय ॥ आव्यो देव दयाबुज, हैयडे हर्ष न
 माय ॥ तें० ॥ १३ ॥ काळो घोडो रे कांबलो, सामलीयो असवार ॥ नेम
 जी घोडो रे वालीयो, जइ चढ्या गढ गिरनार ॥ तें० ॥ १४ ॥ स्वामी पूठे
 सुण सारथि, आ श्या ज़रिया रे ङाड ॥ सावज मूक्या रे मोकला, वेगें
 वली रथ वाल ॥ तें० ॥ १५ ॥ निज निज ठामे रे ते गया, बोले मधुरी
 रे वाण ॥ कोडी वरसां रे जीवजो, राजुल प्रीति निर्वाण ॥ तें० ॥ १६ ॥
 नेमजिनेसर विनवे, नहिं संसारनुं काम ॥ एक स्त्रीने रे कारणे, एवडो
 पशुआंनो घात ॥ तें० ॥ १७ ॥ वरसी दानज वरसीयो, पृथवी ऊरण की
 ध ॥ चढीयो गिरनारें जइ, तारक चारित्र क्षीध ॥ तें० ॥ १८ ॥ गाजी वा
 जी रे गडगड्यो, वूठो गढ गिरनार ॥ सहसावन सरोवर ज़खुं, तरपी
 राजुल नार ॥ तें० ॥ १९ ॥ हयवर हींसे रे हंसला, गयवर बांध्या रे वार
 ॥ जोग चली पेरे जोगवो, रूडी राजुल नार ॥ तें० ॥ २० ॥ कहो केम
 कीजे रे साजना, कर्मने दीजें रे दोष ॥ कारण विहूणी रे परहरि, एशुं
 एवडो रे रोष ॥ तें० ॥ २१ ॥ आपे कीधो रे ऊरतो, लोपी अविचल वाट
 ॥ पाप तो कीधां रे में घणां, धर्म न वाही रे वात ॥ तें० ॥ २२ ॥ रंजा
 सरखी रे अंगना, ते कां मूकी रे नेम ॥ पंच विषय सुख जोगवो, बोले
 शिवादेवी एम ॥ तें० ॥ २३ ॥ राखी माता रे मानले, राखी नहिं हा रे
 कीध ॥ राखे राजुल केटलां, राखे बलजड ज़ात ॥ तें० ॥ २४ ॥ सुण सुण
 माहारी रे मावडी, एम बोले जिनवर नेम ॥ कारिमो रंग पतंगनो, ते
 रंग धरियें केम ॥ तें० ॥ २५ ॥ राजुल जई नेम मले, वंदे प्रभुना पाय ॥
 स्वामीजी संयम आपीये, जिण वेशे सुख थाय ॥ तें० ॥ २६ ॥ पूठें प
 होती रे षट्मिणी, नयणे निरखंति नार ॥ लावण्यसमय मुनि एम ज़णे,
 जेम तरीयें संसार ॥ तें० ॥ २७ ॥ इति ॥

॥ अथ जीवशीखामणनी सञ्चाय प्रारंजः ॥

॥ सरसति सामिनी वीनवुं ए, मागुं बहुय पसाय तो ॥ धर्मतणी
 वाट जोइशुं ए, आपो एह उपाप तो ॥ १ ॥ अणगल नीर न पीजी

यें ए, गलीयें ज्ञणज वार तो ॥ पाप न लागे एक रति ए, धर्मतणो
 आचार तो ॥ १ ॥ रयणीजो जन म म करो ए, श्रावक एह आचार तो ॥
 रात्रे जे पंखी जलां ए, ते पण न करे चार तो ॥ ३ ॥ केतां माणस
 रात्रे जमे ए, सांजलजो सहि एह तो ॥ ढोरां माणस वापडां ए, विगते
 कहुं हवे तेह तो ॥ ४ ॥ अतिथि नोतर दीजीये ए, आणीजे न अहकार
 तो ॥ अहंकारे घणा गया ए, रात्रण सरिखा सार तो ॥ ५ ॥ कुंजकर्ण
 तिहां गयो ए, वाणासुर बीजी वार तो ॥ अत्रिमाने दुःख उपजे ए,
 पडे नरक मजार तो ॥ ६ ॥ हिरण्यकशिपु गवें गयो ए, सनरी रात्रि न
 दीह तो ॥ अहंकारे एता गया ए, गयो बीजो केगरी सिंह तो ॥ ७ ॥
 चाडी चोरी नत्रि कीजीयें ए, केहने न दीजे गाल तो ॥ बलतो कोऽ
 आपे नहीं ए, साधुतणो ए आचार तो ॥ ८ ॥ सेलव्यो दूध न डोहीये
 ए, कूडो लोच निवार तो ॥ विलोया पटी वापडा ए, साखण म राख
 लगार तो ॥ ९ ॥ ते पण पाप खरुं लगे ए, सुंदर तेणे कपाल तो ॥
 चूले आग संभ्रुकतां ए, नीलां ठाणां म घाल तो ॥ १० ॥ मानव जवे
 आवी करी ए, हिंसा जेह करंत तो ॥ परस्त्रीशुं रंगे रमे ए, नरके तेह
 पडंत तो ॥ ११ ॥ सिद्धांतनी साखे कहाणए, ज्ञानी वोल्या जेह तो ॥
 कागडो कूतरो ते थई ए, कूकडो थाये तेह तो ॥ १२ ॥ लावर तेतर
 ने अहि ए, तोतलो थाये तेह तो ॥ पडीयो तरषे कलकले ए, मोढे
 मागे मेह तो ॥ १३ ॥ एहवुं जाणी वापडा ए, परनारी म करो स्नेह
 तो ॥ जे नरें शीयल पालीयुं ए, सांजलो तस होय जेह तो ॥ १४ ॥
 पद्यंक ऊपर ते सूए ए, चमरे वायु ढोलंत तो ॥ पद्मिणी पग उलांसती
 ए, पायक काम करंत तो ॥ १५ ॥ घर घोडा हाथी घणा ए, शियले
 संपत्ति सार तो ॥ घेर गायो घेर घोडलां ए, बलद अनंत अपार तो ॥
 १६ ॥ प्रत्यक्ष एहिज पारखुं ए, सांजलजो सहु कोय तो ॥ जे नारी पुरु
 ष हेरां करे ए, जूंकी तेहज होय तो ॥ १७ ॥ कुल लजवे मावित्रतणुं
 ए, बीजे जवे गोली होय तो ॥ पाणी जरे पीयारडां ए, अंगे उघाडी
 जोय तो ॥ १८ ॥ पग कांटा लागे घणा ए, माथे चूटे चार तो ॥ एह
 बी वात ठे सोहली ए, सांजलजो नर नार तो ॥ १९ ॥ चोखे चित्ते जे
 चाखशे ए, सांजलजो तस नेह तो ॥ पंचराणीमां पहराणी थाये ए,

राजा तेशुं करे स्नेह तो ॥ १० ॥ बीजी स्त्री खिजमत करे ए, जो जो
 एह महंत तो ॥ धन न हरीयें पीयारहुं ए, चोर न कोइ कहंत तो ॥
 ११ ॥ चोरोनुं जो जखुं हुवे ए, तो साधु चूखें मरंत तो ॥ सोना पीतल
 वापडा ए, विगतें ते सहि लजंत तो ॥ १२ ॥ मीतुं बोले न वापडा ए,
 मुक्तें कोइ न जाय तो ॥ चोखे चित्तें पुण्य करो ए, देवलोकें तेहिज
 थाय तो ॥ १३ ॥ तेह पिता केम दुहवार्यें ए, जेणे कुल तरीयां जाय
 तो ॥ धन्य धन्य माता वखाणीयें ए, जेणे राख्यो उदर मांहे तो ॥
 १४ ॥ जकि जलीपरें कीजीयें ए, माता ने वखी तात तो ॥ प्रत्यह ए
 हिज पारखुं ए, घरे बेठां निज जात्र तो ॥ १५ ॥ बहुअर तेज वखाणी
 यें ए, जे राखें घरमी लाज तो ॥ राजपुत्र तेअ वखाणीयें ए, जे राखे
 रूडुं राज तो ॥ १६ ॥ शिष्य तेहीअ वखाणीयें ए, जे राखे गुरुनो पाट
 तो ॥ धन्य धन्य गुरु वखाणीयें ए, जेणें देखाडी वाट तो ॥ १७ ॥
 एह विनतडी अम तणी ए, अरिहंत तुं अवधार तो ॥ अचरिज एकज
 वातनुं ए, स्वामी तेह देखाड तो ॥ १८ ॥ मानव सघलां ते सारिखां ए,
 एवडो अंतर कांइ हुंत तो ॥ एक सूत्रे चूमि साथरे ए, एक तो सेज सू
 वंत तो ॥ १९ ॥ एक पडे पीयारे, आंगणे ए, एकने हींमोला खाट तो ॥
 एक हींमे जीख मागतो ए, एक तो राज करंत तो ॥ २० ॥ एक घेर
 घोडा हाथीया ए, एक घेर ढोर न एक तो ॥ एक दीसे चूखें मूआ ए,
 एक पामें जसण अनेक तो ॥ २१ ॥ एक नर दीसे सुखिया घणा ए,
 घरे सुकुलिणी नार तो ॥ बीजा दुर्वल दीसता ए, घरणी रांन उतार तो
 ॥ २२ ॥ एक नर दीसे वांजीया ए, एक घरे पुत्र रतन्न तो, एक वेठा
 धन वात्रे ए, पुण्य करे दिन दिन्न तो ॥ २३ ॥ कर्म विहूणां माणसां
 ए, अहोनिश हाथ घसंत तो ॥ एवडो अंतर कांइ कीयो ए, सुणजोश्री
 अरिहंत तो ॥ २४ ॥ एटले अरिहंत बोळिया ए, सांजलजो नर नारि तो ॥
 पुण्यविहूणा प्राणीया ए, धरती त्रौडे नार तो ॥ २५ ॥ जेणें दीधुं तेंणें
 पामीयुं ए, लीला लाड करंत तो ॥ मानव जव ठे दोहिलो ए, फरि
 फरि नवि पामंत तो ॥ २६ ॥ मानवजव पुण्य नवि कियां ए, पठी
 कांइ ढोर करंत तो ॥ चेतणहारा चेतजो ए, आयु जाये घटंत तो ॥
 ॥ २७ ॥ मूआ केडे वापडा ए, कांहीं न रदेशे लगार तो ॥ पुण्य कखुं ते

आवशे ए, वीजुं धन असार तो ॥ ३० ॥ शक्ति सारु दीजीये ए, नित्य गणीये नवकार तो ॥ महोटा माणस एम कहे ए, नमे न होये नीच लगार तो ॥ ३१ ॥ संवत शोल उगणोत्तरे ए, शुदि श्रावण तिथि वीज तो ॥ ए विनति पव्वो जणे ए, श्रीजिनवर अवधार तो ॥ ४० ॥ पाप कर्म जे में कीयां ए, तेह्थी मूकावे नेठ तो ॥ जीव अनेक विराधीया ए, कोवाला हल हेठ तो ॥ ४१ ॥ परनी निंदा में करी ए, जोयुं चून्ही दृष्टि सो ॥ बूडताने वांहे जालीये ए, तारक तुंहीज इष्ट तो ॥ ४२ ॥ मानव जव आवी करी ए, अरिहंत तुं आधार तो ॥ जे सेवे कारज सवि सरे ए, तेह्वा समस्या चार तो ॥ ४३ ॥ शंखेश्वर स्वामी जलो ए, महावीर जिन जाण तो ॥ गौतमस्वामी गुरु जलो ए, जीरावलो जगन्नाण तो ॥ ४४ ॥ जे प्रणमे पात्कर टले ए, सफल थाये अवतार तो ॥ विनतही पव्वो जणे ए, श्रीजिननामें जयकार तो ॥ ४५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीउपशम सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ जगवति जारति मन धरी जी, प्रणमी गौतम पाय ॥ सहगुरु चरण पसानखे जी, कहुं उपशम सञ्चाय रे प्राणी ॥ आणने उपशम सार ॥ जे विण तप जप खप करी जी, चारित्र हूवे ठार रे ॥ प्राणी ॥ आ० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ उपशमथी संकट टले जी, उपशम गुणह जंकार ॥ उपशमथी शिवसुख मखे जी, उपशमथी जवपार रे प्राणी ॥ आ० ॥ २ ॥ उपशम संयम मूल ठे जी, उपशमें संपदकोड ॥ वैरी वैर विना थइ जी, आगल रहे कर जोड रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ ३ ॥ रीप वशे परवश थयो जी, हारे वे घडीसांय ॥ चारित्र पूर्वकोडीनो जी, गणधरनी एम वाय रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ ४ ॥ क्रोधवृद्ध कहुआ तणा जी, विषम फूल फल जाण ॥ फूलथकी मन परजले जी, फलथकी होय धर्महाण रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ ५ ॥ विरुठ वैरी शुं करे जी, मारे एकज वार ॥ क्रोध रूप रिपु जीवने जी, दीये अनंत संसार रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ ६ ॥ जो कोइ वार कोइ दीये जी, आपणपाने गाल ॥ ते उपर उपशम धरी जी, वल्लुं वचन म वाल रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ ७ ॥ मनमांहे मत्सर धरी जी, कीजे क्रियाकक्षाप ॥ ते रज उपर लीपणुं जी, जिम वल्ली राने विक्षाप रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ ८ ॥ राई सरशव

जेवडां जी, परनां जोवे रे बिड्र ॥ बीलां सरिखां आपणां जी, नवि देखे
 एम डाह रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ ए ॥ पर अवगुण मुखें उच्चरी जी, कांइ
 वखाणें र आप ॥ परजवें सहेतां दोहिलां जी, परनिंदानां पाप रे
 ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ १० ॥ एक देव एक गुरुजणी जी, हीले हीना चार
 ॥ केवल ज्ञानीयें एम क गुं जी, तेहने घणो संसार रे ॥ प्रा० ॥ आ०
 ॥ ११ ॥ परनी तांते बापडो जी, मुधा गुंथे रे जाळ ॥ नरय तिरिय
 गति दुःख सहे जी, रुले अनंतो काळ रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ १२ ॥ परा
 यां पातक ते धोवे जी, जे निपजावे तांत ॥ पिशुनपणुं वली परहरि
 जी, परना अवगुण शांत रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ १३ ॥ नरंजव निरर्थक
 नीर्गमे जी, धर्म मर्म नवि जाण ॥ आप पडे पापें जख्यो जी, तस
 जीवित अप्रमाण रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ १४ ॥ मेतारंघ मुनिराजियो जी,
 शमरस तणो रे निधान ॥ परिसह रीष विना सही जी, पामियो मुक्ति
 प्रधान रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ १५ ॥ खंभक सूरि तणा यति जी, क्कमा त
 णा रे जंभार ॥ घाणीयें घाली पीळतां जी, न चड्युं चित्त लगार रे ॥
 प्रा० ॥ आ० ॥ १६ ॥ कूरगडु हुळ केवली जी, कूडी ठांकी रीश ॥ प्रिया
 शूनी मूकी करी जी, पहेळुं नामे शीश रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ १७ ॥ गिरुळ
 गयसुकुमाळुळ जी, न कख्यो कोप लगार ॥ ससरे शिर ऊपर धस्या जी,
 धगधगता अंगार रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ १८ ॥ दुर्मुख वयण सुणी करी
 जी, प्रसन्नचंद्र रुषिराय ॥ कोपे चड्यो कर्मे नड्यो जी, वांध्युं नरकनुं
 आय रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ १९ ॥ मस्तकलोच देखी करी जी, वलीयो मुनि
 मनमांय ॥ क्रोध गयो निर्मल थयो जी, लहि केवल तेणे ठाय रे ॥
 प्रा० ॥ आ० ॥ २० ॥ क्कमा खड्ग नहिं जे कने जी, बे दुःखिया सं
 सार ॥ क्रोधयोधशुं जूळता जी, केम नवि पामे हार रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥
 २१ ॥ तप विणसे रीषें करी जी, स्त्रीथी शियल विनाश ॥ मानें विनय
 विणाशियो जी, गर्वें ज्ञान विनाश रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ २२ ॥ जेहनुं मन
 उपशमें रमे जी, नहिं तस दुःख दंदोल ॥ कहे शिष्य उवघायनो जी,
 मुनि लक्ष्मीकह्लोल रे ॥ प्रा० ॥ आ० ॥ २३ ॥

॥ अथ श्री अर्जुनमालीनी सव्वाय प्रारंभः

॥ किसके चेले किसके पूत, आतमराम एकिले अवधूत ॥ जीउ जा

न वे ॥ ए देशी ॥ सद्गुरु चरणे नमि कहुं सार, अर्जुनमाली मुनि
 अधिकार ॥ जवि सांजलो ॥ रूडी राजगृही पुरि जाण, राज्य करे श्रेणि
 क महिराण ॥ जविण ॥ १ ॥ नगर निकट एक वाडी अनूर, सकल तरु
 जिहां सोहे सरूप ॥ जण ॥ दीपे मोघरयद्द तिहां देव, अर्जुनमाली
 करे तसु सेव ॥ जविण ॥ २ ॥ बंधुमती गृहिणी तसु जाण, रूप यौवने
 करी रंजसमान ॥ जण ॥ एकदा अर्जुन ने त्रिया देवगेह, गया वाडीयें
 विहुं धरि नेह ॥ जण ॥ ३ ॥ गोठिल पद् नर आव्या तिवार, विकड
 थया देखि बंधुमती नार ॥ जण ॥ अर्जुनने वांधी एकांत, जोगवी बंधु
 मती मननी हो खांत ॥ जण ॥ ४ ॥ अर्जुन चिंते मोघरपाणि आज,
 सेवकनी तुं करजे साह्य ॥ जण ॥ एम निसुणी यद्द पेठो हो अंग,
 बंधन त्रोडी चाढ्यो मन रंग ॥ जण ॥ ५ ॥ गोठिल पद् नर सातसो नार,
 मोघरशुं मारीने चाढ्यो तिवार ॥ जण ॥ दिन दिन पद् नर ने एक नार,
 हणया ठ मास लगें एक हजार ॥ जण ॥ ६ ॥ वशें साठ वली ऊपर जाण,
 हणया ते माणस मोघरपाण ॥ जण ॥ विस्तरि नयरीमांहे ते वात, लोक
 विहिनां ते वाहार न जात ॥ जण ॥ ७ ॥ इण अवसर राजगृही उद्यान,
 समोसस्था माहावीर सुजाण ॥ जण ॥ शेष सुदर्शन सुणि ततकाल, बंद
 ननें चाढ्यो सुकुमाल ॥ जविण ॥ ८ ॥ देखि दोड्यो यद्द हणवाने काज,
 शेठे प्रतिज्ञा करी पंथमांज ॥ जण ॥ उपसर्गथी जो उगरुं एणि वार, पा
 लुं तो जावजीव चउविहार ॥ जण ॥ ९ ॥ करी नमोहुणं धरे हवे ध्यान,
 उपाड्यो हणवा मोघर पाण ॥ जण ॥ धर्मप्रजावें हाथ थंजिया आकाश,
 गयो अर्जुनदेहथी यद्द नाशि ॥ जण ॥ १० ॥ धरती उपर पड्यो अर्जुन
 देह, चित्त वड्युं घडि एकने ठेह ॥ जण ॥ शेष प्रतिज्ञा अर्जुन पेखि,
 किहां जाशो पूठे सुविशेष ॥ जण ॥ ११ ॥ वांदवा जाशुं श्रीमहावीर,
 सांजली साथे ते थयो सधीर ॥ जण ॥ वाणी सुणी उपन्यो वैराग, लीधुं
 चारित्र अर्जुन धरि राग ॥ जण ॥ १२ ॥ कीधुं रे कर्म स्वपावाने काज,
 राजगृही पासें रहेवुं कृषिराज ॥ जण ॥ यद्दरूपें हणीया जे जीव,
 तेहनुं वैर लावी मारे सदैव ॥ जण ॥ १३ ॥ थपाट पाट मूठी पेजार,
 गुरंज जोडा ने पत्तर प्रहार ॥ जण ॥ जापट इंठ कोरडा नहिं पार, हणे
 लाठी केइ नर हजार ॥ जण ॥ १४ ॥ शुजपरिणामें साधु सहे सदैव,

तहारां कीधां तुं जोगवे जीव ॥ ज० ॥ अज्यासें आणी शुद्ध ध्यान, केव
ल लहि पाम्यो शिवधान ॥ ज० ॥ १५ ॥ संवत सत्तर सडताले उह्वास,
शहेर राणकपुर कखुं चौमास ॥ ज० ॥ कहे कवियण कर जोडी हेव, मु
क्तितणां फल देजो देव ॥ ज० ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीजिनरख अने जिनपालनुं चोढालीयुं प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥

॥ अनंत सिद्ध आगें हुवा, वली होवंता जेह ॥ अनागते जे होयशे,
हुं प्रणमुं धरि नेह ॥ १ ॥ पाप अढारे जिन कहां, परिग्रह महा विकरा
ल ॥ प्रीति मैत्रीने गणे नहीं, सहु गुणने दिये बालि ॥ ३ ॥ दोष दाता
ठे परिग्रहो, महोटी माया जाल ॥ दोनुं जाश्यें दुःखं सह्यां, जिनरख ने
जिनपाल ॥ ३ ॥ धरमां धन ठे अति घणुं, तोय न पूगी हाम ॥ पची र
ह्या ठे प्राणीया, केम पामे वलि ठामं ॥ ४ ॥ कोण नगरी वसता इता, के
म दुःख सह्यां अपारं ॥ सावधान थइ सांजलो, तेहनो कहुं विस्तार ॥ ५ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ चंपा रे नगरी रलियामणी, दीठे ते हर्षित थाय रे ॥ लोक व्यापा
री अति जला, वली श्रेठ घणा तिणमांय रे ॥ धनना रे लोत्री वाणीया
॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ शेर मुकुंदना दीकरा, दोनुं बडा व्यापारी रे ॥ ना
वने लेश समुद्रमां, उतह्या वार अगीयारी रे ॥ ध० ॥ २ ॥ लाज कमावी
लावीया, सेली माया जारी रे ॥ लोत्र मद्यो नहीं मांहेलो, वारमी वार
हुवा तैयारी रे ॥ ध० ॥ ३ ॥ आवी मा वापने एम कहे, अमें जाशुं समु
द्रव्यापार रे ॥ मा वापे इश्युं कखुं, जली नहीं वारमी वार रे ॥ ध० ॥ ४
॥ धन संच्युं ठे मोकळुं, एक दिन लागे लेखे रे ॥ सात पेढी लगें नहीं
टले, अणघटतां दुःख कोण देखे रे ॥ ॥ ध० ॥ ५ ॥ मा वापें वचन कहां
घणां, पण ते नहीं कांइ पाले रे ॥ सर्व दोखत छइ तिहांथकी, समुद्रमां
हे ते चाले रे ॥ ध० ॥ ६ ॥ अनेक योजन गया पठी, उठीयो उटकापात
रे ॥ देखीने मनमां चमकिया, ए तो वेगली दीसे ठे वात रे ॥ ध० ॥ ७ ॥
आकाशें वीज गाजीयो, नावो कंपवा लागी रे ॥ वायरे चली हेठी पठी,
कांइक नांगर जांगी रे ॥ ध० ॥ ८ ॥ विद्याधरनी दीकरी, विद्या विसरतां,
पठतावे रे ॥ गरुड देखी वासुकी ठिपे, दर वाहिर जेम नावे रे ॥ ध० ॥

॥९॥ जरतारे ठोडी नाहली, कांइ लोल कल्लोल पोकारे रे ॥ नाव समुद्रमां
बूढतां, रोवंतां रिव पाडे रे ॥ धन० ॥ १० ॥ हाहाकार हुउं घणो, तिहां
पाटीयुं हाथज आय रे ॥ बीजा तो धसकी पड्या, वे जाइ तरंता जाय
रे ॥ धन० ॥ ११ ॥ रल्लहीपे ते आवीया, तिहां मन मान्यां फल खाय रे
॥ नाखियर फोडि तेल काढीने ते, चोपडी वेग ठाय रे ॥ धन० ॥ १२ ॥

॥ दोहा ॥

॥ रयणदेवी तिण अवसरे, वसती छीप मजार ॥ पाप करी हर्षित हु
इ, रौद्र द्रौद्र जरतार ॥ १ ॥ ते नव नव सुख जोगवे, रही विषय रम
लाग ॥ मलीया अति रलीयामणा, चारे एकण वांग ॥ २ ॥ वे जाइ चिं
त्या करे, पूरव वात विचार ॥ आर्त्तव्यान करता थकां, देवि आवि तिण
वार ॥ ३ ॥ खज ठे तेहना हाथमां, कीधुं रूप कुरूप ॥ नयणां दोय फा
टी थकी, जूमी दिसे विरूप ॥ ४ ॥ अहो मुकुंडजीना दीकरा, वचन क
ह्यां निर्धार ॥ तमें मुजुं सुख जोगवो, नहिं तो करुं निहार ॥ ५ ॥ मा
न्युं वचन ए वेहु जणें, लइ चाली आवास ॥ अशुच पुजल सहु काढीने,
जोगवो जोग विवास ॥ ६ ॥ नित्य अमृत सुख जोगवे, करि करि नवला
वेश ॥ काल केतो जब निकटयो, आव्यो इंद्र आदेश ॥ ७ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ इण अवसर तिहां कुंवनुं रे ॥ ए देशी ॥ हाथ जोडीने एम कहे
रे, सांजल मोरी वात रे ॥ वालम मोरा ॥ इंद्रे हुकम फरमावियो रे,
समुद्र बलोवा जाय रे ॥ वालम मोरा ॥ मुजु विनतडी अवधारजो रे ला
ल ॥ १ ॥ जो तुम आरति उपजे रे, तो जाजो पूरव वाग रे ॥ वा० ॥
दोय रीतिनां फल खायजो रे, करजो मन मान्या रंग रे ॥ वा० ॥ मुजु
विन० ॥ २ ॥ एक फल खातां थकां रे, जागशे विषयविकार रे ॥ वा० ॥
काम दीपावण एह ठे रे, मनेछा पूरण हार रे ॥ वा० ॥ मु० ॥ ३ ॥
वाव्य घणी ठे ए बागमां रे, सरोवर घणां तिणमांज रे ॥ वा० ॥ ढेल
कचोल कोयल खवे रे, जेहनी मीठी ठे वाच रे ॥ वा० ॥ मु० ॥ ४ ॥
तिहां कदी आरति उपजे रे, तो वाग उत्तरमां जाय रे ॥ वा० ॥ शरद
हिमनां सुख जोगवो रे, दक्षिण बागमें जाय रे, ॥ वा० ॥ मु० ॥ ५ ॥
तिणमें सर्प ठे मोटको रे, चंरौद्र कालिनाग रे ॥ वा० ॥ रखे पीडा

तमने करे रे, मुऊ तुम उपर राग रे ॥ वा० ॥ मु० ॥ ६ ॥ दांत ठे
 खोहज सारिखा रे, जीज नडग्रह जाण रे ॥ वा० ॥ तेणे कारण वरुं
 ठउं रे, रखे लीये ताहारा प्राण रे ॥ वा० ॥ मु० ॥ ७ ॥ एम ए त्रणे
 बागमां रे, सर्व काल गहगाट रे ॥ वा० ॥ सुखशाता घणी पामशो रे,
 जो जो माहारी वाट रे ॥ वा० ॥ मु० ॥ ८ ॥ एम शीखामण देइ करी
 रे, कहीने वारो वार रे ॥ वा० ॥ रयणादेवी वली सही रे, वांसे एकल
 डा निर्धार रे ॥ वा० ॥ मु० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ बेहु ज्ञाइ हवे चितवे, आर्ति मनमां थाय ॥ सुख पामे जेम
 आतमा, पूर्वबागमें जाय ॥ १ ॥ तेम पष्ठिम ते उपजे, पण न पामे
 वैराग ॥ मांहोमांहे ते एम कही, चाळ्या दक्षिण वाग ॥ २ ॥ तेमां
 दुर्गध ठे घणो, हाड पड्यां घणां त्यांय ॥ शूलीये पुरुष देखीने, संधाण
 ठीलां थाय ॥ ३ ॥ कोण नगरी वसता हता, केम दुःख सह्यां अपार ॥
 कोण अन्याय तमे कख्यो, शूलीये दीधा चडाय ॥ ४ ॥ हुं काकंमीनो
 वाणीयो, घोडा वहेचण आय ॥ वाण ज्ञांग्युं आंहीं आवीयो, रयणा
 वश पड्यो आय ॥ ५ ॥ संसारनां सुख जोगव्यां, कालज केतो जाय ॥
 तमो एहने हाथे चड्या, मने शूलीये दीधो चडाय ॥ ६ ॥ जो जाउं
 चंपा जणी, तो पूर्व बागमां ज्ञाइ ॥ शीलंग यक्ष पग जालशे, तो घर
 देशे पहोंचाइ ॥ ७ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ वींनुआनी देशीमां ॥ हांरे लाल दोनुं ज्ञाइ रोवे घणा, ए तो चूंकी
 दीसे ठे नार रे लाल ॥ जो आपणी माता जाणशे, तो देशे आपणने मा
 र रे लाल ॥ नारीशुं नेह न कीजीये ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ हांरे लाल पू
 रव बागमां आवीया, यक्ष आव्यो तेणी वार रे लाल ॥ केहने उतारुं इहां
 थकी, कोणने उतारुं पार रे लाल ॥ नारी० ॥ २ ॥ हां० ॥ हाथ जोडीने
 एम कहे, अमें दुःखीया दोनुं ज्ञाइ रे लाल ॥ कृपा करो अम ऊपरें,
 अवलाथी पार उतार रे लाल ॥ नारी० ॥ ३ ॥ हां० ॥ नारीनो मोह
 मत आणजो, हुं महारे वंगले वेंसाडुं रे लाल ॥ जो मन तमारुं कोलशे,
 तो तुमने तेवार पठाडुं रे लाल ॥ नारी० ॥ ४ ॥ हां० ॥ धीरज दइने

चालीया, देवी आवी तेणी वार रे लाल ॥ हाथमां खज वीहामणुं, मु
खथी बोले मार मार रे लाल ॥ नारी० ॥ ५ ॥ हां० ॥ कडवां वचन
कह्यां घणां, दया नहीय लगार रे लाल ॥ तव शणगार शोले सजी,
घूंघट काढ्यो तेणि वार रे लाल ॥ नारी० ॥ ६ ॥ हां० ॥ मीठां वयण
कह्यां घणां, मुने कांइ मेलो निर्धार रे लाल ॥ अवला साहामुं जोइने,
सुख जोगवो संसार रे लाल ॥ नारी० ॥ ७ ॥ हां० ॥ सुख संपूरण जोग
वो, एम केम दीजे ठेह रे लाल ॥ प्रीत चतुराइ पाठवी, तमे दुःखीणी
देखो देह रे लाल ॥ नारी० ॥ ८ ॥ हां० ॥ अवधिजाने जोइने, जनरखी
यो रुगीयो जाण रे लाल ॥ चाइ जेद गाली करी, किणविध बोले नार
रे लाल ॥ नारी० ॥ ९ ॥ हां० ॥ जनपालीयो कठोर ठे, एहनें दया नहीय
लगार रे लाल ॥ जनरखीया तुं माहरे, प्राण आधारज थाय रे लाल ॥
॥ नारी० ॥ १० ॥ हां० ॥ कमल सुकोमल ठो तुमें, माहारुं हेडु फाटी
जाय रे लाल ॥ तमारुं दरिसण देखीनें, हूंतो पग पूजुं चित्त लाय रे ला
ल ॥ नारी० ॥ ११ ॥ हां० ॥ जरसमुद्रमां कां मूको, मने एकलडी निर्धार
रे लाल ॥ प्राण तजुं तुम उपरें, माहारे वीजो कोण आधार रे लाल ॥
॥ नारी० ॥ १२ ॥ हां० ॥ मुजनें म मेलो एकली, तमें दया करो महारा
ज रे लाल ॥ तुम विण जीवासे नहीं, माहारां सफल करौने काज रे ला
ल ॥ नारी० ॥ १३ ॥ हां० ॥ एम गुणग्राम कीधा घणा, एकवार तुं सा
हामुं जोय रे लाल ॥ अवलाने जीवाडो सही, नजरे निहालो तो सुख
होय रे लाल ॥ नारी० ॥ १४ ॥ हां० ॥ वचन विषयनां सांजली, जन
रखीयानां रुगीयां प्राण रे लाल ॥ वचनरागें रीजावीयो, लखचाणो जोग
कारण रे लाल ॥ नारी० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ यहें रुगीयो जाणीने, ढालि दीयो तेणि वार ॥ देवी आवी उताव
ली, वचन कहे निर्धार ॥ १ ॥ क्रोध करी घणुं मारियो, खंकोखंरु करी
धार ॥ चिहुं दिसे छठाली दीयो, हर्षित हुइ तेणि वार ॥ २ ॥ जनरखि
यो दुःखीयो हुड, जोयानां फल जाण ॥ चंपानयरी पढोतो नहीं, वचमां
गेड्या प्राण ॥ ३ ॥ वैराग्यें घर ढोड्युं नहीं, हुइ शरन नहिं चाल ॥ शि
वनगरी पढोतो नहीं, मरकें गयो तत्काल ॥ ४ ॥ रयणा देवी कामिनी,

शैलंगयद्ग ते साध ॥ चंपानगरी मुक्ति जली, संसार समुद्र अगाध ॥५॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ जनपालें मन धाख्यो, ए तो कपटी दीसे नारो ॥ पूरवलो मोह नवि
आण्यो, ए तो काचो सगपण जाण्यो ॥ १ ॥ यद्ग ऊपर निश्रें धाख्यो,
तेणे चंपा बागें उताख्यो ॥ यद्ग कहे तमें चंपामें जाऊं, सुख हांशे
तुमने सवायो ॥ २ ॥ जनपालीयो निजघरे आवी, सघलाने वात सुणा
वी ॥ जनरखनो शोकज कीधो, केता लोकें काल प्रसिद्धो ॥३॥ एवेवीर
चंपायें आव्या, तेतो सघलाने मनमां जाव्या, जनपाल ते सुणवा लाग्यो,
घरवारथकी मन जाग्यो ॥४॥ मन शिवरमणीथो लाग्यो, संयम लइ थ
यो वैरागो ॥ अंग अगीयारें ते जणीयो, पहेले देवलोकें अवतरीयो ॥ ५
॥ एणें तप करी काया गाळी, माहाविदेहें मनुष्य होशे माली ॥ तिहां
दीक्षा लेइ केवल पामशे, सहु दोष टाळी-मोक्षे जाशे ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ धर्मसिंहकृत श्रीरत्नगुरुनी जोड प्रारंभः ॥

॥ रतनगुरु गुणें मीठडा रे, मीठडा मुखना बोल ॥ सांजलतां सुख उप
जे रे, आपे जेम तंबोल ॥ रत० ॥ १ ॥ सूरशाहनो नंदजी रे, श्रीमाली
कुलचंद्र ॥ नागर ऋषियें बूजव्यो रे, रतनगुरु गुणचंद्र ॥ रत० ॥ २ ॥ सा
सरे जइ प्रिया बूजवी रे, श्रीवाई वर नार ॥ पीयुनो साथ न मेलीयें रे,
राजुल राजकुमार ॥ रत० ॥ ३ ॥ शोले वरसे रतनसी रे, कीधां व्रत उ
च्चार ॥ देवकन्या सरखी तजी रे, श्रीवाई सुखकार ॥ रत० ॥ ४ ॥ श्रीवा
इयें बोलावीया रे, सासरे आवोने श्याम ॥ सासरवासो लइ करी रे, सा
थे मंत्री अजिराम ॥ रत० ॥ ५ ॥ विनय करी सासु वदे रे, तमे केम
पधास्या आज ॥ रतन कहे तव रंगशुं रे, तुम तनयाशुं काज ॥ रत० ॥ ६
॥ तेडो तुमारी बालिका रे, श्रीवाई सुकुमाल ॥ सासरवासो कहुं अमें
रे, संयम लहीशुं विचार ॥ रत० ॥ ७ ॥ पांच सहीयर मांहे बोलती रे,
श्रीवाई परमोद ॥ माता बोलावे मंदिरे रे, सुणी वात विनोद ॥ रत० ॥
॥ ८ ॥ रतन कहे सुणो सुंदरी रे, अमें आदरशुं चारित्र ॥ मानी बहेन
में तुजने रे, ले सासरवासो पवित्र ॥ रत० ॥ ९ ॥ श्रीवाई कहे कंतने
रे, निठुर वचन निवार ॥ जोला ए चित्तथी परिहरो रे, चावो मारग व्य
वहार ॥ रत० ॥ १० ॥ विण अवगुण निज कामिनी रे, केम तजो नि

रधार ॥ उत्तम कुखनी हुं उपनीरे, मुज साख जरे संसार ॥ रत० ॥११॥
हुं दिन दिन सुख माणती रे, मुज रतनसी जरतार ॥ हुं महोटा मन
जाणती रे, तुम उपर निरधार ॥ रत० ॥ १२ ॥ रत्न कहे सुणो सुंदरी रे,
ए संसार असार ॥ साख चोराशी फेरा फख्यो रे, जीव अनंती वार ॥ र
त० ॥ १३ ॥ सगपण सहू आपणे लीयां रे, न रही मणा लगार ॥ धर्म
विहूणो आतमा रे, बश्यो निगोद मजार ॥ रत० ॥ १४ ॥ दशे दृष्टांते
ठे दोहिलो रे, मानवनो अवतार ॥ धर्म सामग्री सरवे खही रे, हवे को
ण फरे संसार ॥ रत० ॥ १५ ॥ कीधुं सद्गुरु सान्निध्ये रे, परणवानुं पच्च
रकाण ॥ ॥ बहेन सरखी तुं ठो हवे रे, सांजख चतुरसुजाण ॥ रत० ॥ १६ ॥
सासरवासो परहरी रे, मुज वंधव कहि थोलाव ॥ दे आशीप सोहामणी
रे, मुज कुंकुम चाखे वधाव ॥ रत० ॥ १७ ॥ गुणवंता सुणो कंतजी रे,
केम रहेसो निरधार ॥ जो वैराग एवडो हतो रे, तो कां प्रथम न कीधो
विचार ॥ रत० ॥ १८ ॥ हवे मन स्थिर करो नाथजी रे, पद्दोंचो तुम
आवास ॥ लगन वेला चोरी वच्चें रे, आणजो मन उद्धास ॥ रत० ॥ १९ ॥
तुम अम तात आशा घणी रे, सफल करो गुणवंत ॥ एम केम दीक्षां
लीजीये रे, कुंआरा सुणोने कंत ॥ रत० ॥ २० ॥ तमे अमे सगपण
जोडीयुं रे, ते जाणो जग विख्यात ॥ एम केम कामिनी ठोडशो रे, तुम
शुं मोही मोरी धात ॥ रत० ॥ २१ ॥ यौवनवये दीक्षा दोहेली रे, दो
हिलो साधु आचार ॥ लघुवेशे कोण आदरे रे, डुकर संयम नार ॥ रत०
॥ २२ ॥ सुदर्शने सुंदरी तजी रे, जेम श्री जंबुकुमार ॥ तेम हुं ठांहुं हुं
तुजने रे, अनुमति थो श्रीकार ॥ रत० ॥ २३ ॥ श्रीबाई कहे जंबूये रे,
परणी आवे नार ॥ त्यार पठी दीक्षा ग्रही रे, तेम करो रतन कुमार ॥
॥ रत० ॥ २४ ॥ तमे तो परण्या विना रे, आदरो साधु आचार ॥ तेशुं
तमें मुजने जाणजे रे, कहे श्रीबाई सुखकार ॥ रत० ॥ २५ ॥ विवाह शा
ख ते में लीयो रे, तस नहिं नारी जंजाळ ॥ हुं पाय छागुं प्रचु तुम तणे
रे, ते जाणे बाळ गोपाल ॥ रत० ॥ २६ ॥ देवकीनंदन सोहामणो रे,
नामे गजसुकुमाळ ॥ कुंआरी कन्या तजी करी रे, लीधो संयम सार
॥ रत० ॥ २७ ॥ तेतो ब्राह्मण केरी बालिका रे, ए ठे यादव राय ॥ जो
डावाडो सारिखो नहिं रे, ते न मळे श्हां न्याय ॥ रत० ॥ २८ ॥ पाखव

लींगीने परहरी रे, जेम नेमे राजुल नार ॥ तेम हुं ठांरुं बुं तुऊने रे, मुऊ
 उत्तर किश्यो विचार ॥ रत० ॥ ३० ॥ हाथ जोडी तव विनवे रे, तमें जीत्या
 माहारा स्वामि ॥ जेहनी रचनामां हुं रहुं रे, ते देखाडो मुऊ ठाम ॥ रत०
 ॥ ३१ ॥ मुऊ जनक घर सुंदरी रे, रहेजो सुखे संसार ॥ श्रीबाई कहे तुम
 विनारे, कोण देखाडे घर बार ॥ रत० ॥ ३२ ॥ तो तमें पीयरें थोजो
 रे, हुं आपुं डव्य अपार ॥ दान पुण्य लखमी तणुं रे, द्यो लाहो संसार
 ॥ रत० ॥ ३३ ॥ पीयर मीठां तिहां लगे रे, ज्यां लगे आणानी वाट ॥
 लोक चडावे दोषडा रे, पाडे मनमां फाल ॥ रत० ॥ ३४ ॥ हुं तो कुंवारी
 कुमारिका रे, श्यो घर श्यो जरतार ॥ आदरजो मन मानीयो रे, जे जा
 णो तुमें हितकार ॥ रत० ॥ ३५ ॥ सुंदरी कहे सुणो वालमा रे, जवोजव
 तुमशुं नेह ॥ हुं तुमने बोडुं नहीं रे, नवि पालुं अवरशुं नेह ॥ रत० ॥
 ३६ ॥ आपे जवसायर तरो रे, मुज राखो संसार ॥ पीयुडा ते प्रेम न जा
 णीयो रे, स्वारथीयो संसार ॥ रत० ॥ ३७ ॥ मानसरोवर हंसलो रे, नगर
 खालें कोण नाय ॥ डाख अखोड मेवा तजी रे, लींवोली कोण खाय ॥
 रत० ॥ ३८ ॥ जो रहेशो संसारमां रे, तो हुं तमारी नार ॥ जो तुमें संय
 म आदरो रे, तो मुऊ साधवी आचार ॥ रत० ॥ ३९ ॥ नेमनी रीत तमें
 करो रे, में करी राजुल रीत ॥ परमेसर साखें करी रे, जवोजव तमशुं
 प्रीत ॥ रत० ॥ ४० ॥ अमृत वचन श्रीबाईनां रे, सांजली रतनकुमार ॥
 दीपतो संयम आदख्यो रे, ते जाणे जग विस्तार ॥ रत० ॥ ४१ ॥ श्रीमा
 ली पाट शोहे सदा रे, जिनशासन शणगार ॥ संयम रस जीले सदा रे,
 निर्मल शीयल आचार ॥ रत० ॥ ४२ ॥ सुरत नगरथी आवीया रे, श्री
 नवानगर मजार ॥ साधु सद्गुनी सेवा करे रे, सफल करे अवतार ॥ रत०
 ॥ ४३ ॥ तिण समयें ठण चातशुं रे, श्रीशिवजी कुमार ॥ चरण कमल
 ऋषि रायनां रे, जेठ्यां प्रेम अपार ॥ रत० ॥ ४४ ॥ रसन गुरु दीये देशना
 रे, जेम पुष्कर जलधार ॥ सांजलतां सुख उपजे रे, दशमो ढाल रसाल ॥
 रत० ॥ ४५ ॥ नाकर रिख सखी देवजी रे, उपकारी गुणवंत ॥ तास
 शिष्य धर्मसी वदे रे, सांजलजो मन खंत ॥ रत० ॥ ४६ ॥ इति ॥

॥ अथ अन्नयरामकृत श्री रत्नचिंतामणिनी सञ्चय प्रारंभः

॥ आ जव रत्नचिंतामणि सरिखो, वारो वार न मलशे जी ॥ चेति

शके तो चेतजे जीवडा, आबो समय नहिं मलशे जी ॥ आ जवण ॥१ ॥
 चार गति चोराशी लख योनि, तेहमां तुं जमी आयो जी ॥ पुण्यसंयोगे
 स्वप्ननी संगते, मानवनो जव पायो जी ॥ आ० ॥ २ ॥ वहेलो था तुं वहे
 लो जीवडा, खे जिनवरनुं नाम जी ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्मने ठंणी, कीजें
 आतम काम जी ॥ आ० ॥ ३ ॥ जेम कठोयारे चिंतामणि लाधो, पुण्य
 तणे संयोग जी ॥ कांकरानी परें नाखी दीधो, फरि नहिं मलवा जोग
 जी ॥ आ० ॥ ४ ॥ एक काले तुं आव्यो जीवडा, एककालें तुं जाशे जी
 तेहनी वच्चें तुं वेगो जीवडा, काल आहेडी निकासे जी ॥ आ० ॥ ५ ॥
 धन्य साधु जे संयम पावे, सूधो मारग दाखे जी ॥ साचुं नाणुं गांठे बांधे,
 खोटे दृष्टि न राखे जी ॥ आ० ॥ ६ ॥ मात पिता दारा सुत बांधव, बहु
 विधमां विरति जोडे जी ॥ तेमांहथी जो काज सरे तो, साधु घर केम
 ठोडे जी ॥ आ० ॥ ७ ॥ माया ममता विषय सहु ठंणी, संवर कृपा एक
 कीजे जी ॥ गुरुउपदेश सदा सुखकारी, सुणी अमृत रस पीजे जी ॥
 आ० ॥ ८ ॥ जेम अंजलीसां नीर जराणुं, कृण कृण उठुं थाय जी ॥
 घडी घडीयें घडीयालां वाजे, कृण लाखीणो जाय जी ॥ आ० ॥ ९ ॥ सा
 मायिक मन शुद्धें कीजें, शिवरमणी फल पासीजें जी ॥ मानवजव मु
 क्तिनो कामी, तेमां जरोसो शानो लीजें जी ॥ आ० ॥ १० ॥ देव गुरु तमें
 दृढ करी धारो, समकित शुद्ध आराधो जी ॥ उक्ताय जीवनी रक्षा करी
 ने, मुक्तिनो पंथज साधो जी ॥ आ० ॥ ११ ॥ हैडा नीतर ममता राखो,
 जनम फरी नवि मलशे जी ॥ कायर तो कादवमां खूता, शूरा पार उतर
 शे जी ॥ आ० ॥ १२ ॥ गुरु कंचन गुरु हीरा सरिखा, गुरु ज्ञानना खडीया जी
 ॥ कहे अजयराम गुरु उपदेशें, जीव अनंता तरीया जी ॥ आ० ॥ १३ ॥

॥ अथ श्री थावच्चाकुमारनुं चोढालीयुं प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ द्वारामति नयरी वसे, थावच्चागवि ङण नाम ॥ थावच्चो
 तस पुत्र ठे, रूप चतुर गुणधाम ॥ १ ॥ वत्रीशें कन्या वस्यो, एक लगन
 सुखकार ॥ सुरनी परें सुख जोगवे, पंच विषय सुख सार ॥ २ ॥ एक
 दिन नेम पधारीया, बाणी सुणि हितकार ॥ दीक्षा लेवा मन थयुं, स्वा
 मी अमने तार ॥ ३ ॥ घरे आवी माता प्रत्ये, कहे थावच्चाकुमार ॥
 आज्ञा थो मुज मातजी, संयम लेशुं सार ॥ ४ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ सासु नणदीने पूठशे रे वाला, तेहनें उत्तर श्यो देश रे ॥ कामण
गारा रे जावा नहिं दउं ॥ ए देशी ॥ माय कहे थावच्चा प्रत्ये रे वाला,
सांजलो माहारी वात रे ॥ आतमना प्यारा, माहारा रे वाला, सोजागी
सुजात रे ॥ १ ॥ पुत्र वाला रे, मीठा बोला रे, मोहनगारा रे, आज्ञा
नही दउं ॥ ए आंकणी ॥ बत्रीशे जली जामिनी रे वाला, जोगवो इणशुं
जोग रे ॥ दिवस नहिं ए योगना रे वाला, घृरूपणे खेजो योग रे ॥ पु०
॥ मी० ॥ मो० ॥ आ० ॥ २ ॥ रयण सोवन मोती घणां रे वाला, धननो
नहिं ठे पार रे ॥ खाउं पीउं सुकृत करो रे वाला, खरचो इण संसार रे ॥
पु० ॥ मी० ॥ मो० ॥ आ० ॥ ३ ॥ सुख आव्यां जे हाथमां रे वाला, परजव
चित्त केम जाय रे ॥ केड न मूकुं पुत्रली रे वाला, स्त्री मन आशा थाय
रे ॥ पु० ॥ मी० ॥ मो० ॥ आ० ॥ ४ ॥ साधु भारग ठे दोहिलो रे वाला,
जेहवी खजनी धार रे ॥ पंचमहाव्रत मोटकां रे वाला, डुकरता आ
चार रे ॥ पु० ॥ मी० ॥ मो० ॥ आ० ॥ ५ ॥ बावीश परिसह जीतवा रे
वाला, लोचेका शिर केश रे ॥ ज्ञात पाणी लेवां सूजतां रे वाला, ब्रह्मदत्त
केम पाक्षे रे ॥ पु० ॥ मी० ॥ मो० ॥ आ० ॥ ६ ॥ मोहतणे वश माय क
हे रे वाला, एणीपरें वचन सुहेत रे ॥ जोगथकी जो उंसत्या रे वाला,
वात न आवे चेत रे ॥ पु० ॥ मी० ॥ मो० ॥ ७ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ आवोने नेमजी नाहला ॥ अथवा बारमासानी देशी ठे ॥ मावडी
रे जे कहो ठो ते साचुं सही, माहरे न आवे दाय ॥ मोरी माता ॥ संयम
खेशुं मातजी ॥ साचा जेम सुख थाय ॥ मोरी माता ॥ १ ॥ थावच्चो
कहे रे माता प्रत्ये ॥ ए आंकणी ॥ मावडी रे, विषयखूता जे मानवी,
तेहने दोहिलो होय ॥ मो० ॥ शूरा नरने सोहिलो, संयम विचारी
जोय ॥ मो० ॥ था० ॥ २ ॥ मा० ॥ ए संसार असार ठे, डुःखमांहे
पूखो ठे लोक ॥ मो० ॥ जनम जरा जय मरणनो, देहमांहे ठे बहु रोग
॥ मो० ॥ था० ॥ ३ ॥ मा० ॥ लखमी चंचल जाणीये, विजली जेम
ऊवकार ॥ मो० ॥ अथिर कुटुंबनी प्रीतडी, आखर धर्म आधार ॥ मो०
॥ था० ॥ ४ ॥ मा० ॥ कामिनी रंग पतंग ठे, साचो न पाखे नेह ॥

मो० ॥ मोक्ष मारगनी द्वेषिणी, तिणशुं किश्यो सनेह ॥ मो० ॥ था० ॥
 ५ ॥ मा० ॥ द्वाख चोराशी फेच्या फस्यो, कर्म तणे परिमाण ॥ मो० ॥ मा
 नवजव पुण्ये पामीयो, हवे केम थाजं अजाण ॥ मो० ॥ था० ॥ ६ ॥
 मा० ॥ दीनमुखे रडती कहे, लीयो दीक्षा कुमार ॥ मो० ॥ धर्मयत्न कर
 जो घणा, जेम जीवने हितकार ॥ मोरा पुत्र ॥ था० ॥ ७ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ जीवडा तुं म करीश निंदा पारकी ॥ ए देशी ॥ यावच्चा गाहावयणी
 रे जेटणुं खेझे, आव्यां श्री कृष्णनी पास ॥ हे स्वामी मुज पुत्र ते एक
 ठे, खेशे संयम जार ॥ था० ॥ १ ॥ तेमाटे स्वामी मुज दीजीये, ठत्र
 चामर वाजिंत्र ॥ दीक्षा महोत्सव करवा कारणे, मन उमाह्यो विचित्र
 ॥ था० ॥ २ ॥ कृष्ण कहे शेठाणी सांजलो, तमे पधारो रे गेह ॥ दीक्षा
 महोत्सव करशुं अमे सही, तमारा कुमरनो रे जेह ॥ था० ॥ ३ ॥ कृष्ण
 आव्या तिहां हर्षे अति घणा, यावच्चा कुमरने रे गेह ॥ दीक्षा द्यो
 ठो रे श्या कारणे, मुजने कहोने रे तेह ॥ ४ ॥ कृष्ण कहे रे यावच्चा
 कुमरने ॥ ए आंकणी ॥ मुज ठत्रगायां रे कुमर तमे वसो, जोगवो सुख
 शिरताज ॥ तुमने पीडाकारी रे जे हुवे, तेहने वारुं रे आज ॥ कृष्ण
 ॥ ५ ॥ दुःखकारी नर मुजने को नही, स्वामी तुम आधार ॥ पण मु
 ज जीवने दुःख दीये अण जणा, मूकुं तेणे संसार ॥ ६ ॥ यावच्चा कहे
 रे श्रीकृष्ण प्रत्ये ॥ ए आंकणी ॥ कृष्ण कहे रे तेह नर कोण ठे, नाम क
 होने कुमार ॥ जन्म जरा ने मरण ए दुःख दीये, काया दुःखनो जंमार
 ॥ था० ॥ ७ ॥ एहने वारो रे जो स्वामी तुमे, तो हुं रहुं संसार ॥ ते
 हने वारी रे हुं पण नवि शकुं, मनुष्यने वारुं कुमार ॥ कृष्ण ॥ ८ ॥ जि
 नवर सुरवर चक्री जे थया, तेणे नवि वाच्या रे एह ॥ कर्म क्ये करी
 बूटे ए सही, द्यो दीक्षा धरि नेह ॥ कृष्ण ॥ ९ ॥ साद पडाव्यो रे
 नगरी छारिकां, राजा अथवा कुमार ॥ शेठ सेनापति दीक्षा जे लीये,
 पाखुं तस परिवार ॥ १० ॥ कृष्णजी कहे रे निजलोको प्रत्ये ॥ ए आं
 कणी ॥ यावच्चा कुमर दीक्षा खे सही, मूकी धन परिवार ॥ तेहना
 रागी रे सहस पुरुष थया, संयम खेवा उदार ॥ कृष्ण ॥ ११ ॥ उत्सव
 महोत्सव कृष्णराजा करे, खरचे बहुला रे दाम ॥ शिविका बेसी रे निज

निज घरथकी, आव्या रेवंतवन ठाम ॥ कृष्ण ॥ १२ ॥ स्वहस्तें दीक्षा
रे दीधी नेमजी, हुआ थावच्चा अणगार ॥ शिष्य पोताना रे करीनें था
पीया, महियल करे रे विहार ॥ १३ ॥ कृष्ण कहे धन्य थावच्चा साधुनें ॥
ए आंकणी ॥ अनुक्रमें आव्या रे सेलंगपुर सही, सेलंगराय थावक
कीध ॥ सौगंधिका नगरी रे थावच्चा आविया, सुदर्शन पण व्रत लीध ॥
कृष्ण ॥ १४ ॥ वात सुणीने रे शुक तिहां आवीयो, सहस संन्यासी
संघात ॥ महारो शिष्य रे एणें ज़ोखव्यो, करे थावच्चाशुं वात ॥ कृष्ण ॥
॥ १५ ॥ प्रश्न पडुत्तर शुक बहु पूठीया, कुटिलपणे रे उल्लास ॥ चढद
पूरवधारी थावच्चा मुनिवरू. पहाँचाये केम तास ॥ कृष्ण ॥ १६ ॥
खोटो धर्म मिथ्यात्वनो मूकीनें, श्रीशुक थयो अणगार ॥ सहस संन्या
सी रे दीक्षा ले तिहां, हुआ चौद पूरवधार ॥ कृष्ण ॥ १७ ॥ मास अण
सण रे सहस साधुशुं, शैत्रुंजे दीध संथार ॥ थावच्चा मुनिवरें केवल पा
मीनें, लीधुं शिवपद सार ॥ कृष्ण ॥ १८ ॥ इति ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ ज़वि तमें जो जो रे संसार नातरां रे ॥ ए देशी ॥ सेलंगपुर आव्या
हो शुक मुनिवरू रे, सहस शिष्य परिवार ॥ सेलंगराजा हो पांचशें मंत्री
शुं रे, वांघ्यां चरण गुणधार ॥ १ ॥ हुं गुण गाडं हो थावच्चा मुनि परि
वारना रे, उत्तम अरथ जंरार, श्रुत केवली अणगार, ज़वि जात्रां सुख
कार ॥ हुं ॥ ए आंकणी ॥ वैराग्य पामी हो सेलंग रायजी रे, मंजुकने
देइ राज ॥ दीक्षा लीधी हो पांचशें मंत्रिशुं रे, करे धर्मनां काज ॥ हुं
॥ २ ॥ शुक आचार्य हो पुंरुरिके चडी रे, पादोपगमन संथार ॥ साधु
सहसना हो परिवारे करी रे, लही मुक्ति सुखकार ॥ हुं ॥ ३ ॥ सेलंग
ऋषि हो विहार करतां थकां रे, अंतप्रांत आहार ॥ रोगे व्यापी हो काया
तेहनी रे, आव्या निजपुर सार ॥ हुं ॥ ४ ॥ तात शरीरें हो रोग देखी
करी रे, मंजुक करे उपचार ॥ विविध प्रकारें हो औषधीयें करी रे, समा
व्यो रोग तेण वार ॥ हुं ॥ ५ ॥ आहार तणे रसें हो ते थया खोखुपी
रे, श्रीसेलंग ऋषिराय ॥ पडिक्रमणादिक किरियाने विपे रे, प्रमादी हूआ
गुरुराय ॥ हुं ॥ ६ ॥ पांचशें साधु हो मनमांहे चिंतवे रे. रहेबुं नहिं
एकण त्राम ॥ पंथक शिष्यने हो पासे थापीने रे, चाट्या मुनिवर सुजाण

॥ हुं० ॥ ७ ॥ कार्तिक चोमासुं हो आहार करी घणो रे, सूता सेलंग
 ऋषिराय ॥ पंथक खमावण हो पडिक्रमणा समे रे, आव्यो ते मुनि चित्त
 लाय ॥ हुं० ॥ ८ ॥ शिष्य संघट्टे हो ततक्षण जागीयो रे, क्रोध चढ्यो
 विकराल ॥ सुखतर सूतां हो मुजने जगाडीयो रे, एहवो कोण रे चंमाल
 ॥ हुं० ॥ ९ ॥ पंथक नामे हो स्वामी हुं शिष्य वुं रे, खनजो मुऊ अप
 राध ॥ आज पठी हुं अविनय नवि करं रे, श्रीजिनवचन आराध ॥ हुं०
 ॥ १० ॥ पंथक वयणें हो मुनि प्रसन्न थयो रे, आव्यो शुद्ध आचार ॥
 हुं अज्ञानी हो पासडो थयो रे, काणुं शुद्धविहार ॥ हुं० ॥ ११ ॥ मंमुक
 रायने हो प्रजातें पूठीने रे, चाढ्यो सेलंग ऋषिराय ॥ पांचशें साधु हो
 आवीने मढ्या रे, वांधा गुरुना रे पाय ॥ हुं० ॥ १२ ॥ कठण तप करी हो
 कर्म खपावीयां रे, शत्रुंजय करी संधार ॥ अढी हजार साधु मुक्तं गया रे,
 थावञ्जादिक परिवार ॥ हुं० ॥ १३ ॥ गुण मे गाया हो उत्तम साधुना रे,
 नामें पाप पढाय ॥ जणे गुणे जे जवियण जावशुं रे, तस घर नव निधि
 थाय ॥ हुं० ॥ १४ ॥ गढनायक हो श्रीजागचदजी रे, उत्तम श्रीपूज्य
 नाम ॥ शासनमांहे हो गोवर्द्धन मुनिवरू रे, साधुगुणें अचिराम ॥ हुं० ॥
 १५ ॥ शिष्य रायचंद हो कहे हर्षे करी रे, गुण गाया अणगार ॥ ज्ञातासूत्र
 अध्ययन पांचमें कह्यो रे, थावञ्जा मुनि अधिकार ॥ हुं० ॥ १६ ॥ संवत
 सत्तरशो सत्ताणवे रे, विजया दशमी सार ॥ चार ढालें थावञ्जा गुण गा
 श्या रे, नवारे नगर मौजार ॥ हुं० ॥ १७ ॥ गुण ग्राहक थावक आग्रहें क
 री रे, रक्षा बीजुं चोमास ॥ श्रीजगवंत तणा प्रसादथी रे, संघनी फल
 जो हो आश ॥ हुं० ॥ १८ ॥ कलस ॥ थावञ्जा गाया सुजस पाया, हर्ष
 मनमें अति घणा ॥ ऋद्धि वृद्धि सुख संपत्तिकारक, श्रीसंघकोडि वधाम
 णां ॥ १९ ॥ इति श्री थावञ्जा कुमारनुं चोढालीयुं संपूर्ण ॥

॥ अथ श्रीधन्नाजीनी सधाय ॥

॥ शीयालामां शीत घणी रे धन्ना, उनाले लूजाल ॥ चोमासें जल
 वादलां रे धन्ना, ए दुःख सखुं न जाय ॥ हुं तो वारी रे धनजी आज
 नहिं सो काल ॥ १ ॥ वनमें तो रहेवुं एकलुं रे धन्ना, कोण करे तारी
 सार ॥ चूख परिसह दोहिलो रे धन्ना, मत कर एसी वात रे हो धनजी ॥
 मत लीयो संयम चार ॥ २ ॥ वनमें तो मृग एकलो रे माता, कोण करे

निज घरथकी, आव्या रेवंतवन ठाम ॥ कृष्ण० ॥ ११ ॥ स्वहस्ते दीक्षा
 रे दीधी नेमजी, हुआ थावच्चा अणगार ॥ शिष्य पोताना रे करीने था
 पीया, महियल करे रे विहार ॥ १३ ॥ कृष्ण कहे धन्य थावच्चा साधुनें ॥
 ए आंकणी ॥ अनुक्रमे आव्या रे सेलंगपुर सही, सेलंगराय थावक
 कीध ॥ सौगंधिका नगरी रे थावच्चा आविया, सुदर्शन पण व्रत लीध ॥
 कृष्ण० ॥ १४ ॥ वात सुणीने रे शुक तिहां आवीयो, सहस संन्यासी
 संघात ॥ महारो शिष्य रे एणें नोलव्यो, करे थावच्चाशुं वात ॥ कृष्ण०
 ॥ १५ ॥ प्रश्न पडुत्तर शुक बहु पूठीया, कुटिलपणे रे उल्लास ॥ चउद
 पूरवधारी थावच्चा मुनिवरू. प्होंचाये केम तास ॥ कृष्ण० ॥ १६ ॥
 खोटो धर्म मिथ्यात्वनो मूकीनें, श्रीशुक थयो अणगार ॥ सहस संन्या
 सी रे दीक्षा ले तिहां, हुआ चौद पूरवधार ॥ कृष्ण० ॥ १७ ॥ मास अण
 सण रे सहस साधुशुं, शेत्रुंजे दीध संथार ॥ थावच्चा मुनिवरें केवल पा
 मीनें, लीधुं शिवपद सार ॥ कृष्ण० ॥ १८ ॥ इति ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ जवि तमें जो जो रे संसार नातरां रे ॥ ए देशी ॥ सेलंगपुर आव्या
 हो शुक मुनिवरू रे, सहस शिष्य परिवार ॥ सेलंगराजा हो पांचशें मंत्री
 शुं रे, वांवां चरण गुणधार ॥ १ ॥ हुं गुण गाउं हो थावच्चा मुनि परि
 वारना रे, उत्तम अरथ जंमार, श्रुत केवली अणगार, जवि जावां सुख
 कार ॥ हुं ॥ ए आंकणी ॥ वैराग्य पामी हो सेलंग रायजी रे, मंमुकने
 देइ राज ॥ दीक्षा लीधी हो पांचशें मंत्रिशुं रे, करे धर्मनां काज ॥ हुं
 ॥ २ ॥ शुक आचार्य हो पुंमरिके चडी रे, पादोपगमन संथार ॥ साधु
 सहसना हो परिवारे करी रे, लही मुक्ति सुखकार ॥ हुं ॥ ३ ॥ सेलंग
 ऋषि हो विहार करतां थकां रे, अंतप्रांत आहार ॥ रोगे व्यापी हो काया
 तेहनी रे, आव्या निजपुर सार ॥ हुं ॥ ४ ॥ तात शरीरें हो रोग देखी
 करी रे, मंमुक करे उपचार ॥ विविध प्रकारें हो औषधीयें करी रे, समा
 व्यो रोग तेणि वार ॥ हुं ॥ ५ ॥ आहार तणे रसें हो ते थया दोदुपी
 रे, श्रीसेलंग ऋषिराय ॥ पडिक्रमणादिक किरियाने विषे रे, प्रमादी हूआ
 गुरुराय ॥ हुं ॥ ६ ॥ पांचशें साधु हो मनमांहे चिंतवे रे. रहेवुं नहिं
 एकण ठाम ॥ पंथक शिष्यने हो पासें थापीने रे, चाट्या मुनिवर सुजाण

॥ हुं० ॥ ७ ॥ कार्तिक चोमासुं हो आहार करी घणो रे, सूता सेलंग
 ऋषिराय ॥ पंथक खमावण हो पडिक्रमणा समे रे, आव्यो ते मुनि चित्त
 लाय ॥ हुं० ॥ ८ ॥ शिष्य संघट्टे हो ततक्षण जागीयो रे, क्रोध चड्यो
 विकराल ॥ सुखतर सूतां हो मुजने जगाडीयो रे, एहवो कोण रे चंमाल
 ॥ हुं० ॥ ९ ॥ पंथक नामे हो स्वामी हुं शिष्य तुं रे, खनजो मुऊ अप
 राध ॥ आज पठी हुं अविनय नवि करुं रे, श्रीजिनवचन आराध ॥ हुं०
 ॥ १० ॥ पंथक वयणें हो मुनि प्रसन्न थयो रे, आव्यो गुरु आचार ॥
 हुं अज्ञानी हो पासवो थयो रे, कणुं गुरुविहार ॥ हुं० ॥ ११ ॥ मंमुक
 रायने हो प्रजातें पूठीने रे, चाट्यो सेलंग ऋषिराय ॥ पांचशे साधु हो
 आवीने मढ्या रे, बांधा गुरुना रे पाय ॥ हुं० ॥ १२ ॥ कठण तप करी हो
 कर्म खपावीयां रे, शत्रुंजय करी संथार ॥ अढी हजार साधु मुक्ते गया रे,
 थावञ्जादिक परिवार ॥ हुं० ॥ १३ ॥ गुण मे गाया हो उत्तम साधुना रे,
 नामें पाप पलाय ॥ जणें गुणें जे जवियण जावशु रे, तस घर नव निधि
 थाय ॥ हुं० ॥ १४ ॥ गहनायक हो श्रीजागचंदजी रे, उत्तम श्रीपूज्य
 नाम ॥ शासनमांहे हो गोवर्द्धन मुनिवरू रे, साधुगुणें अजिराम ॥ हुं० ॥
 १५ ॥ शिष्य रायचंद हो कहे हर्षे करी रे, गुण गाया अणगार ॥ ज्ञातासूत्र
 अध्ययन पांचमें कह्यो रे, थावञ्जा मुनि अधिकार ॥ हुं० ॥ १६ ॥ संवत
 सत्तरशो सत्ताणवे रे, विजया दशमी सार ॥ चार ढालें थावञ्जा गुण गा
 ष्या रे, नवारे नगर मोजार ॥ हुं० ॥ १७ ॥ गुण ग्राहक थावक आग्रहें क
 री रे, रक्षा बीजुं चोमास ॥ श्रीजगवंत तणा प्रसादथी रे, संघनी फल
 जो हो आश ॥ हुं० ॥ १८ ॥ कलस ॥ थावञ्जा गाया सुजस पाया, हर्ष
 मनमें अनि घणा ॥ ऋद्धि वृद्धि सुख संपत्तिकारक, श्रीसंघकोडि वधाम
 णां ॥ १९ ॥ इति श्री थावञ्जा कुमरनुं चोढालीयुं संपूर्ण ॥

॥ अथ श्रीधन्नाजीनी सधाय ॥

॥ शीयात्सामां शीत घणी रे धन्ना, उनाले लूजाल ॥ चोमासैं जल
 वादलां रे धन्ना, ए दुःख सखुं न जाय ॥ हुं तो वारी रे धनजी आज
 नहिं सो काल ॥ १ ॥ वनमें तो रहेवुं एकलुं रे धन्ना, कोण करे तारी
 सार ॥ जूख परिसह दोहिलो रे धन्ना, मत कर एसी वात रे हो धनजी ॥
 मत लीयो संयम जार ॥ २ ॥ वनमें तो मृग एकलो रे माता, कोण करे

उनकी सार ॥ करणी तो जैसी आपकी रे माता, कोण बेटो कुण बाप
 रे हो जननी ॥ हुं लेहुं संयम जार ॥ ३ ॥ पंच माहाव्रतको पाखवो रे
 धन्ना, पांच मेरु समान ॥ बावीस परिसह जीतवा रे धन्ना, संयम खांजा
 की धार रे हो धनजी ॥ मत० ॥ ४ ॥ नीरविनानी नदी कोसी रे धन्ना, चंद
 विना केसी रात ॥ पियु विमा केसी कामिनी रे धन्ना, वदन कमल विस
 खाय रे हो धनजी ॥ मत० ॥ ५ ॥ दीपक विना मंदिर किस्यां रे धन्ना,
 कान विना केसो राम ॥ नयण विना किस्युं निरखवुं रे धन्ना, पुत्र विना
 परिवार रे हो धनजी ॥ मत० ॥ ६ ॥ तुं मुऊ अंधालाकडी रे धन्ना, सो कोइ
 टेको रे होय ॥ जो कोइ लाकडी तोडशे रे धन्ना, अंधो होशे खुवार रे हो
 धनजी ॥ म० ॥ ७ ॥ रत्न जडितको पिंजरो रे माता, ते सूडो जाणे बंध ॥ काम
 जोग संसारना रे माता, ज्ञानीने मन फंद रे जननी ॥ हुं लेहुं संयम जार
 ॥ ८ ॥ आयु तो कंचन जखो रे धन्ना, राह परवत जेम सार ॥ मगर
 पच्चीशी असतरी रे धन्ना, नहिं संयमकी बात रे हो धनजी ॥ म० ॥ ९ ॥
 नित्य उठी घोडले फीरतो रे धन्ना, नित्य उठी बागमें जाय ॥ एसी खुत्री
 परमाणें रे धन्ना, चमर दुलायां जाय रे हो धनजी ॥ म० ॥ १० ॥ चोडी
 पाखखीयें पोढतो रे धन्ना, नित्य नइ खुबी माण ॥ ए तो वत्रीश कामिनी
 रे धन्ना, उची करे अरदास रे हो धनजी ॥ म० ॥ ११ ॥ नाख्य सकारा हुं
 गयो रे माता, कानें आयो राग ॥ मुनीश्वरनी वाणी सुणी रे माता, आ
 संसार असार रे हो जननि ॥ हुं लेहुं ॥ १२ ॥ हाथमें लेनो पातरो रे
 धन्ना, घेर घेर मागवी चीख ॥ कोइ गालज देइ काढशे रे धन्ना, कोइ
 देवेंगे शीख रे हो धनजी ॥ मत० ॥ १३ ॥ तज दियां मंदिर मालीयां रे
 माता, तज दियो सब संसार ॥ तज दीनी घरकी नारीयो रे माता,
 गेड चढ्यो परिवार रे हो जननि ॥ हुं ले० ॥ १४ ॥ जूठां तो मंदिर
 मालियां रे माता, जूठो तें सब संसार ॥ जीवतां चूटे कालजूं रे माता,
 मुवां नरक लेइ जाय रे हो जननि ॥ हुं ले० ॥ १५ ॥ रात्रिजोजन गेड
 दे हो धन्ना, परनारी पञ्चकाण ॥ परधनशुं घूरा रहो रे धन्ना, एहज
 संयमजार रे हो धनजी ॥ मत० ॥ १६ ॥ मात पिता वरजो नहिं रे
 धन्ना, मत कर एसी बात ॥ एह वत्रीशे कामिनी रे धन्ना, एसा देगी
 शाप रे हो धनजी ॥ म० ॥ १७ ॥ कर्मतणां दुःख में सद्यां रे माता, कोइ

न जाणे जेद ॥ राम छेपके पूंठडे रे माता, वाघ्यां वैर विराध रे हो ज
ननि ॥ हुं० ॥ १७ ॥ साधुपणामें सुख घणां रे माता, नहिं दुःखरो ल
ववेश ॥ मलशे सोइ खावशुं रे माता, सोइ साधु उवेश रे हो जननि
॥ हुं० ॥ १८ ॥ एकलो उठी जायशे रे माता, कोइ न राखणहार ॥ एक
जीवके कारणे रे माता, क्युं करे एतो विदाप रे हो जननि ॥ हुं० ॥ १९
॥ न कोइ धनो मर गयो रे माता, न फोइ गयो परदेश ॥ उग्या सोइ
आथमे रे माता, फूट्या सो करमाय रे हो जननि ॥ हुं० ॥ २० ॥ का
ख उचिंतो मारशे रे माता, कोण ठोडावण हार ॥ कर्म काट मुक्तें गया
रे माता, देवलोक संसार रे हो जननि ॥ हुं० ॥ २१ ॥ जे जेसो करणी
करे रे माता, तिन तेसां फल होय ॥ दया धरम संयम विना रे माता,
शिवसुख पामे न कोय रे हो जननि ॥ लेशुं० ॥ २२ ॥ इति ॥

॥ अथ मकनकविकृत श्री गजसुकुमारनी सञ्चाय ॥

॥ एक घ घोडा हाथीया जी रे, पायक संख्य अपार ॥ ए देशी ॥ जी
रे सरस्वती समरुं शारदा, जी रे पद्मं सुगुरु पसाय ॥ जी रे गजसुकुमार
गुणें ज्ञाया, जी रे उलट अंग सघाय ॥ मोरा जीवन, धर्म हैयामां धार ॥
१ ॥ ए आंकणी ॥ जी रे दीपे नगरी द्वारिका, जी रे वासुदेव नरपति
नंद ॥ श्रीकृष्ण राज करे तिहां, जी रे प्रगढ्यो पूनम चंद ॥ मोरा ॥ १ ॥
जी रे न्यायवंत नगरी घणी, जी रे बलिपो वलज्ज वीर ॥ जी रे कोइ
कला गुणें करी, जी रे आपे अति मन धीर ॥ मो० ॥ ३ ॥ स्वामी नेम स
मोसख्या, जी रे सहसावन्न सकार ॥ जी रे बहु परिवारे परवख्या, जी रे
गुण मणिना जंकार ॥ मो० ॥ ४ ॥ जी रे बंदण आव्या विवेकथी, जी रे कृ
ष्णादिक नर नार ॥ जी रे वाणी सुणावे नेमजी, जी रे वेठी पर्षदा वार
॥ मो० ॥ ५ ॥ जी रे गजसुकुमार गुणें ज्ञाया, जी रे आव्या बंदण एह ॥ जी
रे विनय करीने बांदिया, जी रे त्रिकरण करीने तेह ॥ मो० ॥ ६ ॥ जी रे
दिये देशना प्रभु नेमजी, जी रे आठे अशिर संसार ॥ जी रे एक घडि मांहे
उठी चले, जी रे कोइ नहिं राखणहार ॥ मो० ॥ ७ ॥ जी रे विधिविधि करी
ने विनबुं, जी रे सांजलो सहू नर नार ॥ जी रे अंते कोइ केनुं नथी, जी रे
आखर धर्म आधार ॥ मो० ॥ ८ ॥ जी रे स्वामीनी वाणी सांजली, जी रे गजसु
कुमार गुणवंत ॥ जी रे वैराग्ये मन वालीयुं, जी रे आणवा जवनो अंत ॥ मो०

॥ ए ॥ जी रे आख्या घेर उतावला, जी रे न कस्यो विलंब लगार ॥ जी रे
माता मुक्त अनुमति दियो, जी रे लेशुं संयम जार ॥ मो० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ कहे माता कुमारे रे, सांजलो गजसुकुमार रे ॥ प्रवीणपुत्रा ॥ दीक्षा
डुकर पालवी हो लाल ॥ तुं ठो नानो बाल रे ॥ प्रवी० ॥ अनुमति हुं
आपुं नहिं रे लाल ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ सांजलो सुत सुख जोगवो रे,
मणि माणक जंमार रे ॥ प्र० ॥ सुख आहिंयां ठे सुणो हाथमां रे लाल,
तुमे परहरो कोण प्रकार रे ॥ प्र० ॥ अनु० ॥ २ ॥ पंचव्रत आप्यां नेमजी
रे, मोंघा मूढ्य जेवां होय रे हो ॥ मोरी मात ॥ नाणां दीयेते नहिं मले
रे लाल, आप्यां अबल मुक्त एह रे हो मोरी माता ॥ दियो अनुमति
दीक्षा लहुं रे लाल ॥ ३ ॥ सांजलो सुत संयम जणी रे, पंच पाराधि
जेह रे ॥ प्र० ॥ आउ करम आवी मडे रे लाल, तेहने तुं केम जीतीश
रे ॥ प्र० ॥ अ० ॥ ४ ॥ मन निर्मल नाले करुं रे, ज्ञानना गोला जेह रे
हो ॥ मो० ॥ उपसर्ग अग्नि दारु दीयुं रे लाल, उमाडी आपुं एह रे
हो० ॥ मो० ॥ दियो० ॥ ५ ॥ चार चोर अति आकरा रे, लोंमा लूटी जाय
रे ॥ प्र० ॥ दश दुशमन वली ताहरा रे लाल, आना आपे घाय र ॥ प्र०
॥ अनु० ॥ ६ ॥ खेमखजानो माहेरो रे, लूंढ्यो केणे न लूंढाय रे हो ॥
मो० ॥ शिखलसेना सूधी करुं रे लाल, मारा दुशमन छूरे जाय रे हो
॥ मो० ॥ दी० ॥ ७ ॥ मोहमहिपति जे मोटको रे, धीरज केम धरीश
रे ॥ प्र० ॥ जालम ए जुगने नडे हो लाल, तेहने तुं केम जीतीश रे
॥ प्र० ॥ अनु० ॥ ८ ॥ कोमल मन कवानथी रे, जाव जाथो जरपूर रे
॥ हो० ॥ त्रिकरण मन तीरज करुं हो लाल, मोहमहिपति करुं छूर रे
हो ॥ मो० ॥ दीयो० ॥ ९ ॥ जोजन जलि जलि जातनां रे, सुखडी साते
जात रे ॥ प्रवी० ॥ सरस नीरस आहार आवशे रे लाल, ते खाशो
केम करि खांत रे ॥ प्र० ॥ अनु० ॥ १० ॥ समकित साते सुखडी रे,
मनथिर मोतीचूर रे हो ॥ मो० ॥ गगण गांठीया ज्ञानना र लाल,
जाव जलो जरपूर रे हो ॥ मो० ॥ दीयो० ॥ ११ ॥ सोवनथाल सोहा
मणो रे, शाल दाल घृन गोद रे ॥ प्र० ॥ सरस जोजन मन मानतां रे
लाल, उपर मुख तंवाल रे ॥ प्र० ॥ अनु० ॥ १२ ॥ कंचन थाली काच

ली रे, समता शाख दाल घृत गोल रे हो ॥ मो० ॥ सरस्त जोजन सतो
 षनां रे लाल, स्थिर मन मुख तंबोल रे हो ॥ मो० ॥ दीयो० ॥ १३ ॥
 उपसर्ग तुजने अतिघणो रे, वली परिसह वावीश रे ॥ प्र० ॥ पामी न
 शके तुं खरो रे लाल, पढी पस्तावो करीश रे ॥ प्र० ॥ अ० ॥ १४ ॥ उप
 सर्ग जे मुज उपजे रे, तेह क्कमायें करीने खमाय रे हो ॥ मो० ॥ प्रीते
 करी परिसह सहं रे लाल, वलीया जे कोइ वावीश रे हो ॥ मो० ॥ दीयो०
 ॥ १५ ॥ वचन सुणी वैराग्यनां रे, मूर्छाणी तव मात रे ॥ प्र० ॥ नयणें
 ते आंसुं नीतस्यां रे लाल, सांजल्य सुत सुजात रे ॥ प्र० ॥ अनु० ॥
 ॥ १६ ॥ मान्य वचन माता तणां रे लाल, तुजने कहुं तुंहुं एह रे ॥
 सोजागी सुंदर ॥ सुगुण सुता सोमलतणी रे लाल, परणो पनोता एह
 रे ॥ सो० ॥ धर्म हैयामां शुं धरो रे लाल ॥ ए आंकणी ॥ १७ ॥
 मात मनोरथ पूरवा रे, न करजो मुख नाकार रे ॥ सो० ॥ उत्सव महो
 त्सव करि घणा रे लाल, परणाहुं पुत्र कुमार रे ॥ सो० ॥ धर्म० ॥
 ॥ १८ ॥ कहे कुंवर माता जणी रे, सांजलो मोरी माय रे हो ॥ मोरी० ॥
 मन मारुं वैराग्यमां रे लाल, एक क्कण लाखेणो जाय रे हो ॥ मो० ॥ दीयो०
 ॥ १९ ॥ माता विचारे चित्तमां रे, राख्यो न रहे एह रे ॥ प्र० ॥ आशि
 प आपी अति घणी रे लाल, लीयो दीक्षा धरि नेह रे ॥ प्र० ॥ धर्म०
 ॥ २० ॥ वेसास्या सेवक सुत जणी रे, उत्सव कीधो अपार रे ॥ सो० ॥
 आव्या नेमजी आगले रे लाल, जावें ले संयमजार रे ॥ सो० ॥ ध० ॥
 ॥ २१ ॥ माता कहे निज पुत्रने रे, सांजल सुत सुजाण रे ॥ सो० ॥ सं
 यम सूधो पालजो रे लाल, पामजो पद निर्वाण रे ॥ सो० ॥ ध० ॥ २२ ॥
 एम आशीष माता दीये रे, आव्यां सह घेर एह रे ॥ सो० ॥ आव्या नेम
 ली आगलें रे लाल, गजसुकुमार गुणगेह रे ॥ सो० ॥ धर्म० ॥ २३ ॥
 आझा आपो जो नेमजी रे, काउस्सग कंरु समशान रे ॥ सो० ॥ मन स्थिर
 राखिश माहंरुं रे लाल, पामुं पद निर्वाण रे ॥ सोजागीस्वामी ॥ धर्म० ॥ २४ ॥
 आझा आपी नेमजी रे, आव्या जिहां समशान रे ॥ सो० ॥ मन स्थिर रा
 खी आपणुं रे लाल, धरवा लाग्या ध्यान रे ॥ सो० ॥ धर्म० ॥ २५ ॥ सोमल ससरे
 देखीया रे, उपनुं मनमां पूरव वैर रे ॥ सो० ॥ कुमति सोमल क्रोधें चड्यो
 रे लख, मनमां ते नाणी मर रे ॥ सो० ॥ धर्म० ॥ २६ ॥ शिरउपर वांधी

सुणो रे, मुखें माटीनी पाल रे ॥ सो० ॥ खेर अंगारा खरा कख्या रे लाल,
 ते मूक्या ततकाल रे ॥ सो० ॥ धर्म० ॥ १७ ॥ फट् फट् फूटे हाडकां रे,
 त्रट् त्रट् त्रूटे चाम रे ॥ सो० ॥ संतोषी ससरो मद्यो रे लाल, तुरत साखुं
 तेनुं काम रे ॥ सो० ॥ ध० ॥ १७ ॥ सोजागी शुक्लध्याने चढ्यो रे, उप
 न्युं केवलज्ञान रे ॥ सो० ॥ कृष्णमां कर्म खपावीयां रे, मुनि मुक्ते गया
 एह रे ॥ सो० ॥ ध० ॥ १८ ॥ गजसुकुमार मुक्ते गया रे, वंडुं वारंवार रे
 ॥ सो० ॥ मनं स्थिर राख्युं आपणुं रे लाल, पाम्या जवनो पार रे ॥ सो०
 ॥ ध० ॥ ३० ॥ श्रीविजयधर्म सूरितणो रे, राजविजय उवधाय रे ॥ सो०
 ॥ तस शिष्य लक्षण गुणे करी रे लाल, पजणुं ते सुगुरु पसाय रे ॥ सो०
 ध० ॥ ३१ ॥ शोलशें वासठ समे रे, सांगानेर मजार रे ॥ सो० ॥ गुण गा
 या मास फागुणे रे लाल, शुक्ल ठठ सोमवार रे ॥ सो० ॥ ध० ॥ ३२ ॥ क
 हे मकन मोहनतणो रे, साधुतणी सद्याय रे ॥ सो० ॥ जणजो गुणजो ज
 लि ज्ञातशुं रे लाल, पामजो जवनो पार रे ॥ सो० ॥ ३३ ॥

॥ अथ श्री पर्युषणपर्वनी सद्याय प्रारंजः ॥

॥ पर्व पजूसण आवीयां रे लाल, कीजें घणां धर्मध्यान रे ॥ जविक
 जन् ॥ आरंज सकल निवारीयें रे लाल, जीवोने दीजें अजयदान रे ॥
 ज० ॥ पर्व० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ सघला मासमांहे शिरें रे लाल, जाडव
 मास सुमास रे ॥ ज० ॥ लिणमांहे आठ दिन रूअडा रे लाल, कीजें सु
 कृत उद्वास रे ॥ ज० ॥ प० ॥ २ ॥ खांण पीसण गारनां रे लाल, न्हा
 वण धोवण जेह रे ॥ ज० ॥ एहवा आरंज टालवा रे लाल, उत्सव करीयें
 अनेक रे ॥ ज० ॥ प० ॥ ३ ॥ पुस्तक वासी न राखीये रे लाल, उत्सव
 करीयें अनेक रे ॥ ज० ॥ धर्म सारु वित्त वावरो रे लाल, हैये आणो वि
 वेक रे ॥ ज० ॥ प० ॥ ४ ॥ पूजी अर्ची आणीये रे लाल, श्रीसजुरुनी
 पास रे ॥ ज० ॥ ढोल ददामां फेरीयां रे लाल, मांगलिक गावो गीत रे
 ॥ ज० ॥ प० ॥ ५ ॥ श्रीफल सिखर सोपारियां रे लाल, दीजें सहामीने
 हाथ रे ॥ ज० ॥ खाज अनंता वधावतां रे लाल, श्रीमुख त्रिजुवन नाथ
 रे ॥ ज० ॥ प० ॥ ६ ॥ नव वांचन कढपसूत्रनुं रे लाल, सांजलो सूधो
 जाव रे ॥ ज० ॥ साहामीवत्सल कीजीये रे लाल, जवजल तरवा ना
 व रे ॥ ज० ॥ प० ॥ ७ ॥ चित्त करि चैत्य जुहारीयें रे लाल, पूजा स

त्तर प्रकार रे ॥ ज० ॥ अंगपूजा सज्जुस्तणी रे लाल, कीजे हर्ष अपार रे ॥
 ज० ॥ प० ॥ जीव अमारी पलावीये रे लाल, तिणथी शिवसुख होय
 रे ॥ ज० ॥ दान संवत्सरी ढीजिये रे लाल, इण सम पर्व न कोय रे ॥ ज०
 ॥ प० ॥ काउस्सग करीने सांचलो रे लाल, आगम आपणे कान रे ॥
 ज० ॥ ठठ अटम तप आकरां रे लाल, कीजिये उज्ज्वल ध्यान रे ॥ ज०
 प० ॥ १० ॥ इणविधे जे आराधशे रे लाल, ते लहेशे सुख कोडि रे ॥ ज० ॥
 मुक्तिमंदिरमें मालशे रे लाल, मतिहंस नमे कर जोडि रे ॥ ज० ॥ प० ॥ ११ ॥

॥ अथ श्री जिनवर्द्धन कृत उपदेशकारक कक्कानी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ सोरठा ॥ कक्का करमनी वात, करी कमाइ जोगवो ॥ शुच अशुच
 जे होय, जोगेव्या विण नहिं बूटको ॥ १ ॥ खण खण आयु जाय, चे
 तवुं होय तो चेतजे ॥ वाजनी पेठे ग्रहे जीव, जिहां मूक्युं ते तिहां रहे
 ॥ २ ॥ गुरुनां वचन मन आण, गुरु विण ज्ञान न पामीये ॥ गुरुथी उत
 रिश पाग, सज्जुरु वचन हियडे धरे ॥ ३ ॥ घर कुटुंब परिवार, स्वारथीयो
 सहु को सगो ॥ ताहारो न दीसे कोय, जोगवीश प्राणी एकलो ॥ ४ ॥
 नत्रा न करीश नेह, परनारीशुं प्रीतडी ॥ मन चित्त राखी ठाम, परनिंदा
 तुं परहरे ॥ ५ ॥ चच्चा तुं चार निवार, क्रोध लोभ मद मोहने ॥ चार
 दावानल जाण, करी कमाई हारीये ॥ ६ ॥ ठोड तुं सकल संसार, ए संसार
 असार. ठे ॥ तुं जाणे मन सार, जगमां कोइ कहेनुं नथी ॥ ७ ॥ जन्मयो
 वार अनंत, अनंता जव तें कस्या ॥ ठेदन जेदन अपार, पार न पाम्यो ते
 हनो ॥ ८ ॥ फुख्यो सयल संसार, जागीने जोयुं नहिं ॥ खूतो मोहनी
 जाल, जन्म मरण नवि उलख्यो ॥ ९ ॥ निखवट लखिया लेख, कोणे म
 टाया नहिं मटे ॥ जो जाठ देश विदेश, हाण वृद्धि साथे चले ॥ १० ॥ टा
 ल तुं कुगुरु कुदेव, सज्जुरु साचो जाणीने ॥ दे जो धर्म उपदेश, तो मुक्ति
 तणां फल पामशे ॥ ११ ॥ ठाले हाथ जे जाय, पामी धन नवि जे दिये ॥
 मरीने विषधर थाय, धन ऊपर परठी रहे ॥ १२ ॥ कंश हिये मत राख, कं

द्वेष, शमताशुं मन लावजे ॥ कर तुं व्रत पञ्चकाण, सामायिक पोसा
 साचवे ॥ १६ ॥ थर थर कंफे काय, मुखथी लाल चूवे घणी ॥ पंचे पर
 वश थाय, धर्म उदय आवे नहिं ॥ १७ ॥ देने सुपात्रे दान, ज्ञज जगवंत
 विसार मां ॥ जीवदया प्रतिपाल, रात्रिजोजन परिहरे ॥ १८ ॥ धन जे
 होय ते खाय, धर्मनो जेद जाणे नहिं ॥ हाय हाय करे दिन रात, सम
 ता न आणे प्राणीये ॥ १९ ॥ नारी विष सम जाण, निषनी बेल तुं काप
 जे ॥ शीयल अमृत बेल, शियले सवि.संकट टले ॥ २० ॥ परपीडा तुं
 जाण, जीव लघलानी रक्षा करे ॥ आपण जीव समान, परना एवा जा
 णीये ॥ २१ ॥ फरीये अनंती वार, लीन लोकमांहे बली ॥ तोहि न पा
 म्यो पार, समय जोइ जाग्यो नहिं ॥ २२ ॥ बब्बा बे कर जोड, सकल सा
 धुने बंदीये ॥ न करीश कोइनी बात, निंदा करजे आपणी ॥ २३ ॥ ज
 ण्यो ते चारे वेद, आप प्रतीति आवे नहिं ॥ परने दे ठे शीख, आप कशुं
 समजे नहिं ॥ २४ ॥ मनुष्य जन्मने पामी, त्रण दहा तुं लावजे ॥ दया
 दीनपर लाव, दान देजे तुं मन दमे ॥ २५ ॥ आव्यो योनि मजार, जंभे
 शिर दुःख जोगव्यां ॥ संकट उदर मजार, साठे नरकथी आकरां ॥ २६
 ॥ रत्नचिंतामणि हाथ, काच खेइ मत राचजे ॥ जीते सकल संसार, पांच
 इंद्रिय जो वश करे ॥ २७ ॥ छे जगवंतजी नाम, नामे नरजव पामीये ॥
 नामे निर्मल काय, आबागमण निवारीये ॥ २८ ॥ व्रत मांहे मन आण,
 व्रतथी बिलसे सुख घणां ॥ व्रतथी पामीश पार, व्रत ठे जीवने मोटकुं ॥
 २९ ॥ सत्य वचन तुं बोख, सत्यवचन शिल निर्मलां ॥ सत्यथी शीतल
 आग, सत्यथी विषहर वेगला ॥ ३० ॥ खोजने तुं घटमांहि, धर्म अधर्म
 घटमां वसे ॥ धर्मे होये सिद्धि, अधर्मे होये दुःख घणां ॥ ३१ ॥ सात
 व्यसन तुं ठोड, व्यसनें बाहालां वेगलां ॥ व्यसनें जीवनी हाण, पर्यानुं
 पाणी ऊतरे ॥ ३२ ॥ ह्ये ह्ये न माय, ह्ये ह्ये जोडिया ॥ कढ्याणधर
 पंन्यास, शिष्य जिनवर्द्धन इम जणे ॥ ३३ ॥ इति ॥

॥ अथ ज्ञांग्यवारकनी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ ज्ञोखा जोगीयडा, रखे थाल ज्ञांग्यना जोगी ॥ ज्ञांग्यना जोगी ते जा
 णे जाण, के जाणे कोइ रोगी ॥ ज्ञोखा ॥ ए आंकणी ॥ जंगुर कही सहुं
 ज्ञांके, कार न माने कोइ ॥ जे बोखे ते बंध न बेसे, वैरी मेहखे वगोइ ॥

जो० ॥ १ ॥ लोचम लाकी लहे जेमांहि, कीर्त्ति थाये काकी ॥ जांग्य तमा
 कूनो पीनारो, गुण मेहले सहु गाकी ॥ जो० ॥ २ ॥ मात पिता गुरुने
 नवि माने, साते व्यसनें शूरा ॥ धारे तेहना वैरी थाये, पापी ते वली
 पूरा ॥ जो० ॥ ३ ॥ वनवासी संन्यासी वावे, जंदा तकीये जाजी ॥ जे
 व्यसनी ते जात विटाले, लोकनी मांहे लाजी ॥ जो० ॥ ४ ॥ साकर डा
 खनां सरवत पीयो, पीयो झूधना प्याला ॥ देह तपे ने रूडा दीसो, कोइ
 न कहे मतवाला ॥ जो० ॥ ५ ॥ जांग तमाकू मदिरा पाइ, माजमना
 वली भोजी ॥ धर्मतणी ते वात न धारे, खोटी वातना खोजी ॥ जो० ॥
 ६ ॥ नीली बूटी पीये घूटी, खूणे वेसी खांते ॥ चूलवतां पण थाये
 जाहेर, वाहेर वेसतां खांते ॥ जो० ॥ ७ ॥ जांग पाइने जिलडी रूपें,
 नगन अइ नचाव्यो ॥ पारवतीयें प्रेम धरीने, शंभुने समजाव्यो ॥ जो० ॥
 ८ ॥ जांग्य नीली पण नरने पूणे, सबजीवें सूकाइ ॥ व्यसन तणी वाडी
 सिंचावी, सहुरु वांहे न साही ॥ जो० ॥ ९ ॥ वणिक वाडवनी जात
 विटाले, जांग्य तमाकू वाला ॥ नीच उंच वेरो नवि जाणे, कुल लजवे
 कुमताला ॥ जो० ॥ १० ॥ जांगडलीयें जे चोलवीया, उलवीया ते उंधा
 ॥ फूलविया धमें नवि फूले, रोलविया जड मूधा ॥ जो० ॥ ११ ॥ एक हो
 ये तिहां साते आवे, एक एकना अनुबंधी ॥ बांध्या जिम जलमां वंधायें,
 समजावी संबंधी ॥ जो० ॥ १२ ॥ अमल तणी जे अवला तेमां, जव
 अटवीमां शूला ॥ व्यसन विद्रुजा न रहे सूधा, तत्व न पामे मूला ॥ जो०
 ॥ १३ ॥ मदिरा तणी जांग्य ते जगिनी, जुड जनक गति गांजो ॥ पूर्ण
 व्यसननां अंग ए परखी, मुनि वचनें ते मांजो ॥ जो० ॥ १४ ॥ कुलवोडू
 नर कहीयें केता, कोइकुलें अवतंसा ॥ वोडू ते बीजाने वोडे, पुण्ये होय
 प्रशंता ॥ जो० ॥ १५ ॥ पुढवी तेड वाड वनस्मति, त्रस पामे बहु त्रासा
 ॥ व्यसनी नरनुं कांय विणासे, वलि लहे दुर्गति वासा ॥ जो० ॥ १६ ॥
 जिनवयणें नयणे जोइने, व्यसन ते दूर निवारो ॥ व्रत आराधो सं
 यम साधी, निज आत्मने तारो ॥ जो० ॥ १७ ॥ सत्तरशें पंचाणुआ
 वरपें, शुदि बीज ए बोली ॥ फाद्युनमासे जांग्य फजेती, जेहवी गणिका
 गोली ॥ जो० ॥ १८ ॥ उदयरतन वाचक उपदेशे, समज्या जेह सुजाण ॥
 अपलक्षणथी अलग रहेशे, लेहशे परम कल्याण ॥ जो० ॥ १९ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीविष्णुकुमार मुनिनी सद्याय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥ श्रीमुनिसुव्रत स्वामीजी, त्रिभुवन तारण देव ॥ तीर्थकर
प्रभु वीशमो, सुर नर सारे सेव ॥ १ ॥ चरणकमल तेहनां नमी, कहेशुं
कथा अजिराम ॥ सुणतां सवि सुख ऊपजे, घटे मोह वित्राम ॥ २ ॥
विष्णुकुमारमुनींद्रनुं, नाम महा सुखदाय ॥ सज्जनको सुख उपजे, दुर्जन
महादुःख पाय ॥ ३ ॥ जिनशासन अजुवालयो, कियो धर्म सुखका
ल ॥ बलिराजाने चांपियो, सप्तम भूमि विशाल ॥ ४ ॥ पर्व बलेव तिहां
थकी, प्रगटयुं जगके मांहि ॥ सब दर्शनवाले सही, जाणे मननी मांहि
॥ ५ ॥ सांजलजो श्रोता सहू, कुमति कदाग्रह ठांदि ॥ धर्मचिंतामणि
जैनको, तेहथकी चित्त मांदि ॥ ६ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ कपूर होवे अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ जंबूद्वीपना चरतमां रे, नय
री उज्जयणी सार ॥ धन धान्ये करि दीपती रे, गढ मढ पोली प्राकार रे
प्राणी ॥ जोजो धर्म विचार ॥ जिनधर्मे शिव सार रे प्राणी, देखी धरे सु
विचार रे प्राणी ॥ जो जो ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ तल नबरे नृप शोचतो
रे, धर्मराय सुखकार ॥ न्यायें नित्य पाळे प्रजा रे, श्रीजिनधर्म गळे हार
रे प्राणी ॥ जो ॥ २ ॥ शिवमत धर्मनो रागियो रे, रूपने एक प्रधान ॥ न
मुची नाम मिथ्यामति रे, द्वेषी जिनधर्मनो जाण रे प्राणी ॥ जो ॥ ३ ॥
ते अवसर तिण नयरमें रे, श्री मुनिसुव्रत जिन शिष्य ॥ आढ्या घणा
परिवारशुं रे, सुव्रत नाम तितिष्य रे प्राणी ॥ जो ॥ ४ ॥ धर्मराय वंदन
तदा रे, आवे सहू परिवार ॥ नमनादिक विधिशुं करे रे, जाव जक्ति
उर धार रे प्राणी ॥ जो ॥ ५ ॥ तव मुनीश्वर दिये देशना रे, जविक
जीव उपकार ॥ दश दृष्टांते दोहिलो रे, उत्तम नर अवतार रे प्राणी
॥ जो ॥ ६ ॥ श्रद्धा संयम पराक्रम विना रे, पामवुं महादुःख चूर ॥
लाज्जिने हारो मती रे, जिम संग्राममां शूर रे प्राणी ॥ जो ॥ ७ ॥ चार
अंग दुर्ह्वच लही रे, करजो धर्म प्रयत्न ॥ नरेंद्र सुर शिवगति साधशो
रे, धर्म चिंतामणी रत्न रे प्राणी ॥ जो ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ देशानंतर मुनिसंगे, विप्र नमूचि जाय ॥ जैन वचन नवि सईतो,

वाद करे तस ठाय ॥१॥ व्याकरणादिक ठंद सत्र, काव्य कोष अलंकार
॥ न्याय तर्क साहित्य जे, निरुक्तादिक सुविचार ॥ ७ ॥ वेद वेदांत पुराण
पण, नास्तिक मत पण जोय ॥ पूज्या लघुशिष्ये तत्र, टीधा उत्तर साय
॥३॥ कृष्णकामांदि दुहक मुनि, जीत्यो वादमें क्षिप्र ॥ मानजंग पाम्यो
अमित ते, गयो गेह निज विप्र ॥ ४ ॥ दुष्ट जाव मनमें जड्यो, मारुं मु
निकूं आज ॥ सचामांदि हलवो कियो, सर्व गमावी लाज ॥ ५ ॥

॥ ढाल वीजी ॥

॥ त्रमर जूधरने कहेजो ॥ ए देशी ॥ क्रोध करी ब्राह्मण जातें, गुरु मार
ण आव्यो रातें, निर्दय खड्ग ग्रह्युं हाथे रे ॥ जैनधर्म सुरतरु फलियो ॥ के
दुःख दोहग दूरें टलियो रे ॥ जैनधर्म ॥ ए आंकणी ॥ थिविर निकर आ
व्यो ज्यारे, मारण खड्ग धखुं त्यारे, श्रीजिन वचन हैये धारे रे ॥ जैन ॥ १ ॥
एहनो कांहीं नहिं दोष, अनुभव रस आत्त पोष, पण नहिं विप्र उपर रोष
रे ॥ जैन ॥ ३ ॥ कंचन कामिनी नहिं राता, ते गुरु खट जीवना त्राता ॥
जगत गुरु वत्सल ने त्राता, ॥ जैन ॥ ४ ॥ शत्रु मित्र सम नहिं रीष, धर्म
पाले विश्वा वीश, ते गुरु जगतना ईश रे ॥ जैन ॥ ५ ॥ आश मरण
नहिं होय तेने, सुख दुःख लाज न कहे कहेने, सुर सात्रिध्य रहे नित्य
तेने ॥ जैन ॥ ६ ॥ जिनशासन सुर रखवाल, ज्ञानदेह आव्यो ततका
ल, नमे मुनि चरण धरी जाल रे ॥ जैन ॥ ७ ॥ सुर कोप्यो छिज पर
जाडो, मारग वच्चें कख्यो ठाडो, थंज्यो स्थंजपरें गाडो रे ॥ जैन ॥ ८ ॥
मारग रह्यो सहजुन देखे, सूर्य उदयें गुरु मुख पेखे, जन्मकृतार्थ गणे लेखे
रे ॥ जैन ॥ ९ ॥ धर्मराय वंदन आवे, प्रजालोक सहु सुख पावे, कृषि
वंदी पावन आवे रे ॥ जैन ॥ १० ॥ नरेंडें स्वरूप जाण्यो सबहीं, प्रधान
उपर कोप्यो तवहीं, काढ्यो नगरथकी अवहीं रे ॥ जैन ॥ ११ ॥

॥ दोहा ॥

॥ सेवकजन बोलायकें, कहे इस्यो नृप धर्म ॥ शणे दुष्ट माहापापीयें,
कखुं निबिड महा कर्म ॥१॥ एहनु मुख जोखुं नहीं, नहीं नगरमें काम ॥
काढो श्हांथी तेहने, नहिं विलवनुं ठाम ॥ २ ॥ उखंठ पाप एहनें सही,
करो नगरनी बाहार ॥ आणा सीम रहेवे नहिं; करो देशनी पार ॥ ३ ॥
फट फट लोक करे सहु, रे पापी निर्लज्ज ॥ गुरु महोटा संतापिया,

किस्युं कस्युं तें कळा ॥ ४ ॥ कपिफाखे तस काढियो, लुंटी घर ने वार ॥
मानजंग जमतो फरे, कोइ न पूठे सार ॥ ५ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ सांजलजो मुनि संयम रागे, उपशमश्रेणिय चढियो रे ॥ ए देशी ॥
इण श्रवसर एक सुरपुर सरिखुं, हस्तिनागपुर न वाजारे ॥ रुद्रिसमृद्धि
अकंटक जनने, श्री पद्मोत्तर राजा रे ॥ इण ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ रा
जा हुवे जिनधर्मनो संगी, रंगी संत पिठानो रे ॥ तस पत्नी ज्वाला पट
राणी, सतियां मुकुट समानो रे ॥ इण ॥ २ ॥ समकित शील रत्न गुण
साची, राची जगतविख्याती रे ॥ राजी नही विषया रस तो पण, जाची
पियुगुण माती रे ॥ इण ॥ ३ ॥ राणीने नंदन जुगल अनुपम, उपमा न
हिं कोइ जेहने रे ॥ दिनकर तेज दीपे निशिपति ज्युं, न्यून जाणो तेहने
रे ॥ इण ॥ ४ ॥ विष्णुकुमार अने महापद्मज, नाम त्रिजगत विदित्ता रे ॥
कटप दोयना सुरपति मानुं, आवी खलकने जीता रे ॥ इण ॥ ५ ॥ रहे
संसारमाहि पक्ष अलगा, विलगा नहिं ज्युं रागी रे ॥ विलसे जोग रोग
सम जाणे, विष्णुकुमार वडजागी रे ॥ इण ॥ ६ ॥ युवराजपद नृप कुम
रकुं, पण नवि लेवे निरोगी रे ॥ अथिरराजशुं श्रीति न मंकुं, वंकुं रुद्रि
सुख जोगी रे ॥ इण ॥ ७ ॥ दानादिक कटपडुस सरिखो, परखो कहुं गुण
केता रे ॥ जनक पास संयमनी अनुमति, आगे पण नवि देता रे ॥ इण
॥ ८ ॥ जाव चारित्र धरे मन इष्टा, मिथ्या सब सुख जाणे रे ॥ महापद्म
ने अणुनृप पदवी, नरेंद्र देइ सुख माने रे ॥ इण ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ देश नगर जमतो थको, विप्र नमूची नाम ॥ हस्तिनागपुर आवियो,
खेइ रख्यो विश्राम ॥ १ ॥ एक दिवस माहापद्मने, जेट दइ विप्रेस ॥
राजसजामां आवियो, अंग धरी शुभ वेश ॥ २ ॥ ज्ञान कला करि रं
जियो, महापद्म नृप जाण ॥ मान सन्मान पूरव परे, देई करे प्रधान
॥ ३ ॥ सीमाडानो राजियो, हेमरथ नाम जूपाळ ॥ आण न माने प
द्मनी, लुंटे देश विशाल ॥ ४ ॥ तेह नमूचि एकदा, सैन्य खेइ चतुरंग ॥
हेम संघातें युद्ध घन, मांक्युं धरी उबरंग ॥ ५ ॥ सिंहरथ राजा जणी,
जीत्यो तेह प्रधान ॥ साथ तेह नृप तेडीने, आव्यो निज पुरथान ॥ ६ ॥

॥ ढाख चौथी ॥

॥ महावीर प्रभु घेर आवे ॥ ए देशी ॥ महापद्मराय सुख पावे, हर्षे
 करी विप्र बोलावे ॥ माग माग जे ताहरी इष्टा, शा पुरुष वचन नव मिथ्या
 रे ॥ १ ॥ द्विज धैर्य धरीने मागो, बलिराजा कहि बोलाव्यो रे ॥ द्विज ॥
 ए आंकणो ॥ तव विप्र विमासी बोले, तुमे ठो प्रभु सुरतरु तोले ॥ ए
 वचन जंकार राखीजें, अवसरें मासुं तो दीजें रे ॥ द्विज ॥ २ ॥ इण
 अवसर ज्वाला देवी, जिन वचन हियामां धरेवी ॥ आयु दण दण वी
 ती जाय, पण धर्म वात न सुहाय रे ॥ द्विज ॥ ३ ॥ रथयात्रा मनोरथ
 आवे, पीयु आगल सर्व जणावे ॥ नृप कहे ए धर्मनुं काम, लहियें सुर
 शिव सुख ठार रे ॥ द्विज ॥ ४ ॥ सुरपतिमा विमाननी जेहवा, पावक
 जिम सूत्रमें तेहवा ॥ कलधौत मणिना निपावे, रथ देखीने हर्ष जरावे रे
 ॥ द्विज ॥ ५ ॥ मणिरत्न जडितनी प्रतिमा, आदीश्वर जिनको कर्त्रिमा ॥
 रथमांदि प्रभु जले जावें, शुभ मुहूरत लेइ पधरावे रे ॥ द्विज ॥ ६ ॥ रथ
 यात्रा तणुं मंजाण, ग्रंथें बहु जेद वखाण ॥ तिम ज्वाला ते राणी सार,
 लेइ हर्ष घणो परिवार रे ॥ द्विज ॥ ७ ॥ इण अवसर लक्ष्मी राणी, ज्वा
 ला लघु शोक्य वखाणी ॥ मिथ्यामत सोहमें माची, शिव ब्रह्मामतें रति
 साची रे ॥ द्विज ॥ ८ ॥ तिणें वादें पण रथ एहवो, ब्रह्मानो कराव्यो तेह
 वो, हठवादें घणुं अकुलाइ, रथ लेइने साह्यामी आइ रे ॥ द्विज ॥ ९ ॥
 हवे मांहीमांहे रथ वेहुना, जखिया खलु सामा तेहुना ॥ कोइ काढे न
 आगो जेहमां, विखवाद लाग्यो घन तेहमां रे ॥ द्विज ॥ १० ॥ तस कलह
 नरेंद्र पीठान्यो, वेहु राणीनो मन सन्मान्यो ॥ रथ वेहुना पाठा वलावे,
 सहु विप्र महा सुख पावे रे ॥ द्विज ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ पण पद्मज निजमातनुं, निम देखी अपमान ॥ दिगुयात्रा जणि चा
 खियो, रीष करी अपमान ॥ १ ॥ उगेतो दिनकर जिस्यो, वधतो जाये
 तेज ॥ तिम अरिणिण कृत्री मरुतें, जीत्यो सवख सहेज ॥ २ ॥ ठये खंरु
 मांहे सही, वर्त्तावी निज आण ॥ कुमर खेचर नूपति, करे मान सन्मान
 ॥ ३ ॥ जंबूद्वीपे जाणियें, जिम जरतेसर राय ॥ साधि नूमि तिम आण

जो, महीराणा सब पाय ॥ ४ ॥ अनुक्रमें साधन करी, आवे निज पुर
थान ॥ घणी विभूति साथें जीके, कहेतां नावे मानं ॥ ५ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ कोश्या वेश्या कहे रागी जी, मनोहर मन गमता ॥ ए देशी ॥
निज नगरमां पद्मज आया जी ॥ मनोहर मन वसिया ॥ राय राणी घ
णुं सुख पायाजी ॥ मनो० ॥ साथें बहु रुद्रि वखाणी जी ॥ मनो० ॥ इण
पण संकेपें आणी जी ॥ मनो० ॥ १ ॥ नव अखूट निधान ठे जेहने ॥ मनो०
॥ दश चार रत्न कहां तेहने जी ॥ मनो० ॥ देश आर्य अनार्य मलि जा
णो जी ॥ मनो० ॥ बत्तीस हजार प्रमाणो जी ॥ मनो० ॥ २ ॥ अंते
उर चोशठ हजार जी ॥ मनो० ॥ सहस्र बत्तीस नाटकनो विचार जी ॥
मनो० ॥ बत्तीस सहस्र पुर महोटां जी ॥ मनो० ॥ बहोतेर सहस्र ते ठो
टां जी ॥ मनो० ॥ ३ ॥ खेट कोडि मंरुपनुं मान जी ॥ मनो० ॥ सह
स शोल चोवीस जाण जी ॥ मनो० ॥ अडतालीश हजार ने धार जी
॥ मनो० ॥ वाटीनी संख्या सार जी ॥ मनो० ॥ ४ ॥ सहस्र वीश आकर
नां मान जी ॥ मनो० ॥ ठंहुं कोडि ते गाम वखाण जी ॥ मनो० ॥ गज
अश्व रथनो धमकार जी ॥ मनो० ॥ लाख लाख चोराशी उदार जी ॥
मनो० ॥ ५ ॥ पायक ठे ठंहुं कोड जी ॥ मनो० ॥ अनुमतिया कोडि तीन
जोड जी ॥ मनो० ॥ सुत्तार ठे तीनशें ने साठ जी ॥ मनो० ॥ श्रेणी
पर श्रेणीना ठाठ जी ॥ मनो० ॥ ६ ॥ एक लाख अठावीश हजार जी ॥
मनो० ॥ वारांगना रूपनी सार जी ॥ मनो० ॥ ते रूपनी आगार सोहे
जी ॥ मनो० ॥ नवाणुं सहस्र स्त्रीमन मोहे जी ॥ मनो० ॥ ७ ॥ हवे रत्न
ना आगार वखाण्या जी ॥ मनो० ॥ सोल सहस्र प्रमाण ते आण्या जी
॥ मनो० ॥ आयुद्धर त्रीश हजार जी ॥ मनो० ॥ सेलाधर ठत्रीश वि
चार जी ॥ मनो० ॥ ८ ॥ पांच लाख दिवटीया चाले जी ॥ मनो० ॥ निज्ञान चो
राशी लाख चाले जी ॥ मनो० ॥ दलनी संख्या तीन कोटि जी ॥ मनो० ॥
कौटंबी सिन्नेर लाख जोडि जी ॥ मनो० ॥ ९ ॥ हार मोतीना चोसठ हजार
जी ॥ मनो० ॥ चूपणधर ठत्रीश विचार जी ॥ मनो० ॥ सेवा करे नरें
दनी सार जी ॥ मनो० ॥ स्वधराय गुन शाठ हजार जी ॥ मनो० ॥ १० ॥

॥ सोरठा ॥

॥ संवाह वस्तीप्रमाण, चौद सहस्र सत्र मिल गएयुं ॥ अन्नरक्षणनां
स्थान, सहस्र नवाणुं प्रमुख कक्षां ॥ १ ॥ वेलाउल सहस्र ठत्तीस, संख्या
कहुं सूत्रधारनी ॥ चौसठ लाख सुजगीश, वेठी सामान्य साठ कोडि ठे ॥
२ ॥ जोजनस्थानक मान, तीन लाख सुंटर कक्षां ॥ उद्यानजूमि ते जाण,
पचिश सहस्र निर्मल कही ॥ ३ ॥ नृपसेनापति सोय, चौवीस सहस्र सत्र
मलि हवा ॥ सामान्यमंत्रो होय, कोटि तीन कमें जुवा ॥ ४ ॥

॥ ढाल ठठी ॥

॥ जीरे महारे लोच ते दोष अथोच, पापस्थानक नवमुं कहुं ॥ जीरे जी
॥ ए देशी ॥ जीरे महारे ॥ महापद्म नृप संग, चाले गोकुल मलयतां ॥ जीरे
जी ॥ जीरे महारे ॥ एक कोटिशुं प्रमाण, सुरधेनुं परे झुजती ॥ जी० ॥ १ ॥
जी० ॥ पुपद चउपद हजार, गाळां व्होतेर कोडि ठे ॥ जी० ॥ जी० ॥ मं
दिर नवाणुं हजार, वैद्य क्रोड तीन जोडें ठे ॥ जी० ॥ २ ॥ जी० ॥ व्होतेर
योजन मान, वाण चाले जस नित्यप्रत्ये ॥ जी० ॥ जी० ॥ सत्रा क्रोड
सुत जाण, सेवा सारे दिनप्रत्ये ॥ जी० ॥ ३ ॥ जी० ॥ सारथवाह सुजा
ण, क्रोड तीन नृप मानिया ॥ जी० ॥ जी० ॥ अंगमर्दन राजान, सहस्र
ठत्तीस सह जाणिया ॥ जी० ॥ ४ ॥ जी० ॥ नृपमन रंजनहार, चौद
हजार कक्षा वली ॥ जी० ॥ जी० ॥ नगरशेठ पद धार, लक्षा
तीन कोडि मली ॥ जी० ॥ ५ ॥ जी० ॥ जलपंथ मार्ग विज्ञानि, चौद
हजार प्रमाणिये ॥ जी० ॥ जी० ॥ अग्यार सहस्र सन्निवेश, ठप्पन्न
अंतरद्वीप आणिये ॥ जी० ॥ ६ ॥ जी० ॥ राजधानीनां मान, हजार
ठत्तीस कक्षां सहू ॥ जी० ॥ जी० ॥ पंरुत्र अछावीश लाख, लाख कोट
वाल श्रुतथी कक्षा ॥ जी० ॥ ७ ॥ जी० ॥ उर देश राजान, गुण पंचास
सार्थे रहे ॥ जी० ॥ जी० ॥ सहस्र पचवीस यक्ष देव, सेवा करे जिनवर
कहे ॥ जी० ॥ ८ ॥ जी० ॥ सहस्र बत्तीश महाचूप, करजोडी आगल रहे
॥ जी० ॥ जी० ॥ महामंत्रीश्वर चूप, चौद सहस्र राज निर्वहे ॥ जी०
॥ ९ ॥ जी० ॥ सूडा चोराशी लाख, पाळता आगल वहे ॥ जी० ॥ जी०
श्वान रहे आठ क्रोड, सिंहज पण शंका लहे ॥ जी० ॥ १० ॥ जी० ॥
माहाव्यापारी साथ, कोटि सत्त श्री अनुसरें ॥ जी० ॥ जी० ॥ एक रसो

इनी मांहि, दश लाख मण लोट नित्य वरे ॥ जी० ॥ ११ ॥ जी० ॥ इण
परें ऋद्धि समेत, निजपुर निकट आवी वसे ॥ जी० ॥ जी० ॥ निज सुत
महापद्म जाण, राणी नरेंद्र मन उद्धसे ॥ जी० ॥ १२ ॥ जी० ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ उत्सव महोटे मंराणशुं, खावे जनक पुरमांह ॥ पेसारो विधिंशुं क
स्यो, चूप नयर उत्साहिं ॥ १ ॥ महापद्म चक्रीशकुं, चरतराज पद सार ॥
पद्म आदि चूपति मली, करे अजिषेक उदार ॥ २ ॥ इण समे सुवत मुनी
श्वरा, घणा मुनि परिवार ॥ हस्तिनागपुर आविया, नृपवन चैत्य मजार
॥ ३ ॥ पद्मराय आदें बहू, नयरी पर्षदा संग ॥ विष्णुकुमार पण वांदवा,
आवे धरि उबरंग ॥ ४ ॥ वंदी गुरु देशना सुणी, हुवो परम वैराग ॥ पद्म
विष्णु दीक्षा ग्रही, ठंसी ऋद्धि महाजाग ॥ ५ ॥ घणा चूप परिवारशुं, श्री
शुच विष्णुकुमार ॥ पंच महाव्रत थिवरपें, लिये घणे मनोहार ॥ ६ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ जिम जिम ए गीरि चेटिये रे ॥ ए देशी ॥ पद्मराय ऋषि रंगमां रे,
पाले संयम शिवदाय ॥ लक्ष्मणा ॥ अतिचार नवि आचरे रे, टाले असं
यम ठाय ॥ स० ॥ १ ॥ जिम जिम ए ऋषि चेटिये रे, तिम तिम पाप
पलाय ॥ स० ॥ पंच सद्धिति त्रए गुक्तिमें रे, निवसे प्रवचनमांहि ॥ स०
॥ जिम० ॥ २ ॥ शोपादिक अरिखण प्रत्ये रे, जीत्यो पद्म मुनींद्र ॥ स० ॥
अप्रतिबंध वायुपरे रे, विचरे धरा योगींद्र ॥ स० ॥ जिम० ॥ ३ ॥ करि
अणसण आराधनां रे, पहोतो अमर विद्यान ॥ स० ॥ पद्म देव सुख
जोगवी रे, चवि जाशे निर्वाण ॥ स० ॥ जिम० ॥ ४ ॥ बहुलता महा
पद्मजी रे, निज जननीकी आश ॥ स० ॥ पूरे मनोरथ जावशुं रे, जि
नरथयान्ना तास ॥ स० ॥ जिम० ॥ ५ ॥ जिनमंमि पृथिवी करी रे, चै
त्य घणां मनोहार ॥ स० ॥ संख यात्रा विधिंशुं घणी रे, लेई कीध जुहार
॥ स० ॥ जिम० ॥ ६ ॥ शिवमतनी लघुमातनुं रे, राखुं वली पण मान
॥ स० ॥ जैन्यधर्म शिव आंतरो रे, गो थोयर पय जाण ॥ स० ॥ जिम०
॥ ७ ॥ चक्रवर्ति पद जोगवे रे, पूरण षट खंरु राज ॥ स० ॥ धर्माचरण
वंढक प्रत्ये रे, करे नरेंद्रज साज ॥ स० ॥ जिम० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ दोहा ॥

॥ अथ श्रीविष्णुकुमार मुनि, तप तपता महाराण ॥ पद् सहस वर्ष
तप तपी, हुआ लब्धिना ठाण ॥ १ ॥ आमोसहि विष्पोसहि, खेलोसहि
सुप्रमाण ॥ पुलाक ने वैक्रिय प्रमुख, कहेतां नावे ज्ञान ॥ २ ॥ मेरु सुर्शन
चूळिका, विष्णुकुमार ऋषिराय ॥ गुरु अनुमत लेई करी, ध्यान करे
तस ठाय ॥ ३ ॥ इण अवसरें सुव्रत सूरि, विचरत देश विदेश ॥ हस्ति
नागपुरें आवीया, साथें मुनि सुविशेष ॥ ४ ॥ महापद्म नृप आदि दे,
मली समस्त राजान ॥ चातुरमासनी वोनति, करि राख्या धरी मान ॥
५ ॥ इत्यनंतर नमुचिजे, वली नाम जस दीध ॥ ते नृपपासे वर प्रलें,
मागे जेतस दीध ॥ ६ ॥

॥ ढाल आठमी ॥

॥ दान कहे जग हूं वडुं ॥ ए देशी ॥ सात दिवस मुजने सही, यह
कारण दियो राज ॥ ललना ॥ प्रभु तुम सुर चितामणि, वंठापूरण हार
॥ ललना ॥ १ ॥ दान उलट चर दीजियें, ज्युं कीजियें वंठित काज ॥
ल० ॥ सुरधेनु पारश मणि, प्रगढ्यो पुख हम आज ॥ ल० ॥ दान० ॥ २ ॥
वचन राय बंध्यो जिके, दीधुं छिज जणि राज ॥ ल० ॥ अंतःपुर रहिता
हुवा, वचन प्रतिज्ञा लाज ॥ ल० ॥ दान० ॥ ३ ॥ अतिथि संन्याशी का
धडी, मठवासी जोगेश ॥ ल० ॥ जरडादिक लइ जेटाणुं, आवी नमे सह
देश ॥ ल० ॥ दान० ॥ ४ ॥ जैनगुरु नव आविया, तव धर्यो पूर्वजो छेप
॥ ल० ॥ तेडी थिविरनें इम कहे, नम्या तुम दिना सह शेष ॥ ल० ॥
॥ दान० ॥ ५ ॥ तुम्ह नम्या नहिं किण कारणें, शुं एह तुम्हने गुमान
॥ ल० ॥ रहो ठो अम पृथ्वीविषे, कर नवि आपो मान ॥ ल० ॥ दान०
॥ ६ ॥ तव ऋषि नृप जणी इम वदे, लिंग परें हम एहि ॥ ल० ॥ नहिं
नमे रहस्थने मुनिवरा, परिग्रह नहिं हम पाहि ॥ ल० ॥ दान० ॥ ७ ॥
कोप्यो छिज बलि राजियो, ज्ञांखे गुरुप्रतें आम ॥ ल० ॥ सात दिव ननी
अंदरे, तजवुं षट खंरु ठाम ॥ ल० ॥ दान० ॥ ८ ॥ लोकें कहु माने
नहि, न धरे नरेंद्रतुं कान ॥ ल० ॥ तव वलीनुं आवी चढ्युं, पोहोतो
ऋषि निजथान ॥ ल० ॥ दान० ॥ ९ ॥

॥ दोहा ॥

॥ संघ मळी सूरि निकट, आवे खलु धरि प्रेम ॥ विष्णुमुनिने तेडियें,
सवि वन आवे क्षेम ॥१॥ एम विचार करी सहू, जेजे एक मुनि ताम ॥
लेख वांचि वहेला तुमो, आवजोही शण ठाम ॥ २ ॥ कारण अत्र गुरु व
न्यो, जाणशो ऋषिने वेण ॥ तुम्ह आवे इहां संघने, ऊपजशे सुख चेन ॥
३ ॥ तव अंबरचारी मुनि, हुवा शीघ्र ततखेव ॥ मेरु सुदर्शन चूलिका, प
होता सतक्षणमेव ॥४॥ विष्णुकुमार मुनींद्रने, वंदी त्रिविधे सोय ॥ विप्र
नमुचि कारणे, मोकलियो गुरु मोय ॥ ५ ॥ शिष्य पास व्यतिकर सुणि,
संघपत्र लियो हाथ ॥ वांची शीघ्र उतावला, आव्या लेइ मुनि साथ ॥६॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ जत्तीनी देशी ॥ श्री विष्णुकुमार मुनींद्र, आव्या धारी परमानंद ॥
गुरु वंदीने पावन थाय, सहू संघने हर्ष जराय ॥ १ ॥ सुणि बलिराजा
वृत्तंत, पढोता ते सजायें संत ॥ देखी सघली सत्ता हरखाणी, नम्या
विष्णु गुरुने जाणी ॥२॥ पण न नम्यो ते बलिराज, पूरवली धरी नहिं मा
ज ॥ अहंकार धरीने बेगो, नहिं बोड्यो ऋषि संग ढीगो ॥ ३ ॥ तव कहे
ऋषीश्वर वाणी, निर्लज बलि तुं अन्नाणी ॥ शुं रे राज लेइने राच्यो,
काकिडा पेरे शठ माच्यो ॥ ४ ॥ चउमासे यति किहां जाय, अजिग्रहो
केम निष्फल थाय ॥ तेहथी अम रहेवा काज, जूमि दे कितनी आज ॥
५ ॥ सुणि वचन करे नृप हांसी, मही आपे त्रिपद विमासी ॥ स्वामीजा
इ जाणी दिधुं दान, एम बोड्यो ते बलिराजान ॥ ६ ॥ कोपे चढ्या वि
ष्णुकुमार, कखुं वैक्रियरूप अपार ॥ लक्ष योजननो देह करियो, दोय प
दमें जंबूद्वीप धरियो ॥ ७ ॥ एक चरण पृथ्वीपर जोइयें, वाकी ते रही न
हि कोइयें ॥ एहवुं कही वलीने माथे, पद देइ महीतल चांपे ॥८॥ काल
करीने ते वलीरूप, गयो सातमी जूमि अनूप ॥ तव विश्व जयंकर कांपे,
रखे अमने वली परें चांपे ॥९॥ अचला जू चलाचल होती. झुनियां सव
मिलकर रोती ॥ मुख ढांकी मांढोमांढे रहियां, नाशीने किहां जाय त
हियां ॥ १० ॥ गिरिवर पण कंपित जये हे, शिखरादिक सव टूट गये हे
॥ उदधिनो पाणी उठलियो, शेषनाग महा सलसलियो ॥ ११ ॥ नव प्र
हादिक सुर जय आणे, नवो इंद्र जयो इहां टाणे ॥ तव शक्र अवयें करी

देखे, जाणे वलीनुं कार्य विशेषे ॥ ११ ॥ गांधर्व देव तिहां तिण वेला, इं
द्र वचने आवी हुवा जेला ॥ विष्णुरुपि पासें ते आवे, नाटक करीने क्रो
ध शमावे ॥ १२ ॥ कृष्णमांहे मुनि क्रोध शमियो, कृपावंत दयालू बनियो
॥ महाऋषि करुणानिधि कहीये, मुनि नरेंद्र देवसुख लहियें ॥ १४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ स्वभाव रूपे आवी रक्षा, मुनि श्री विष्णुकुमार ॥ तो पण करता ना
रहे, विप्र लोक निरधार ॥ १ ॥ महापद्म चक्रो हवे, आवि नमे धरि
जाव ॥ में अपराध घणो कियो, तेह करो सुपसाय ॥ २ ॥ गुरु कहे इम
तुम नवि घटे, समकितवंत कहाय ॥ तुम ठते इम शासनतणी, लघुता
केम लहाय ॥ ३ ॥ इत्यादिक शिक्षा दर्श, महापद्म जणि सोय ॥ गुरु पा
से आन्या चली, ऋषि साथे बहु सोय ॥ ४ ॥ पण धृजंतां नवि रहे, लोक
सहु मिथ्यात्व ॥ ताव तैजस अद्दि दइ, प्रगट्या जगत विख्यात ॥ ५ ॥
तव सुर नरपति इम कहे, सुणो विप्र धरी प्रेम ॥ राखडी ए ऋषि नाम
नी, वांधो थाशो तुम केम ॥ ६ ॥ कहुं तेम करियुं सवि, जई जगत सु
खशांति ॥ पर्व वलेव इहांथकी, जगतमांहि विख्यात ॥ ७ ॥

॥ ढाल दशमी ॥

॥ एक समे शामलियाजी ॥ वृंदावनमां ॥ ए देशी ॥ रंग रसिया रंग
रस बन्यो ॥ मन मोहनजी ॥ श्रीजैनधर्मपसाय ॥ मनहुं मोहुं रे ॥ मनण ॥
सत्य असत्य पटंतरो ॥ म० ॥ न्याय अन्याय दिखाय ॥ म० ॥ १ ॥
मिथ्यात्वधांत दूरे गयुं ॥ म० ॥ केइ जिन व्रत धरे मुनि पास ॥ म० ॥
केशक देश व्रत उच्चरी ॥ म० ॥ केइ जद्रक जया सुखि खास ॥ म० ॥
१ ॥ जवस्थिति पाव्या विना ॥ म० ॥ नवि जाणे धर्मनो मर्म ॥ म०
॥ कारणे कार्यहू नीपजे ॥ म० ॥ पंच मले शिवशर्म ॥ म० ॥ ३ ॥ गु
रु मुख आलोयणे ग्रही ॥ म० ॥ श्री विष्णुरुषीश्वर संत ॥ म० ॥ धरा
पीठ विचरे सुखें ॥ म० ॥ शोभा ऋषि अधिक लहंत ॥ म० ॥ ४ ॥ पर
शासनमां दीपतो ॥ म० ॥ विष्णु वामन अवतार ॥ म० ॥ बलिराजा
ने चांपीयो ॥ म० ॥ धर्म कारण सुविचार ॥ म० ॥ ५ ॥ तप तपता
रहि रानमां ॥ म० ॥ बहु वरस सहस सुख प्रेम ॥ म० ॥ केवल ज्ञान
दिवाकर ॥ म० ॥ विष्णु ऋषि पाम्या केम ॥ म० ॥ ६ ॥ कमलासन

पर बेसिने ॥ म० ॥ कहे धर्म परम सुखकार ॥ म० ॥ डुविध धर्म मुक्ति
 तणा ॥ म० ॥ आगार ने अणगार ॥ म० ॥ ७ ॥ इम उपदेश देतां रखा
 ॥ म० ॥ नर नारी केरां वृंद ॥ म० ॥ जूमंमल पावन करी ॥ म० ॥ सेवे
 मुनि नर इंद्र ॥ म० ॥ ८ ॥ अंतसमे अणसण करी ॥ म० ॥ सुख संलेष
 णा तप सार ॥ म० ॥ काल करी सुक्के गया ॥ म० ॥ मुनि नरेंद्र पाम्या
 जव पार ॥ म० ॥ ए ॥ विष्णुकुमार मुनींद्रनी ॥ म० ॥ कहि सद्वाय रसा
 ल ॥ म० ॥ जणे गुणे जे सांजले ॥ म० ॥ ते देहशे मंगलमाल ॥ म० ॥
 ॥ १० ॥ इति श्री विष्णुकुमारमुनि सद्वायः संपूर्णः ॥

॥ अथ श्री हीरविजयसूरि सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ बे कर जोडी विनवुं जी, शारदा लागुं जी पाय ॥ वाणी अणो निर्म
 ली जी, गाशुं तपगहराय ॥ तें मन ओछुं रे हीरजी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
 अकबर कागल मोकले, हीरजी वांचे ने जोय ॥ तुऊ मलवा अलजो घ
 णो, विरबल करनो जी जोय ॥ तें ॥ २ ॥ अकबर करे जी विनति, टो
 करमल लागे जी पाय ॥ पूज्य चोमासुं इहां करो, दोशे धर्म सवाय ॥ तें ॥
 ॥ ३ ॥ तेजी घोडाजी आते घणा, पायक संख्या नहिं पार ॥ माहांजन
 आवे जी अति घणा, थानसिंह शाह उदार ॥ तें ॥ ४ ॥ पहेलुं चो
 मासुंजी आगरे, बीजुं लाहोरमांहि ॥ त्रीजुं चोमासुं फत्तेपुरे, अकबर
 करे रे उत्साहिं ॥ तें ॥ ५ ॥ कामर सरोवर ठोडियां, ठोड्यां वंदीनां
 वान ॥ ठोड्यां पंखीने झृगलां, अकबर दे बहुमान ॥ तें ॥ ६ ॥ तप
 गहनायक राजीयो, श्री विजयसेन सूरिदि ॥ तास शिष्य जक्ति जणे,
 होजो मुऊ आनंद ॥ तें ॥ ७ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री ऋतुवंती सद्वाय प्रारंभ्यते ॥

॥ हो वांसलडी वेरण थइ लागी रे ब्रजनी नारने ॥ ए देशी ॥ सुण सो
 जागी सुखकारी जिनवाणी मनमां आणी ॥ शिवसाधक जिनवरनी वाणी,
 केइ तरिया तरसे जवि प्राणी, पीस्तालीश आगम शुभ जाणी ॥ सु० ॥
 १ ॥ जे पवित्र थइने सांजलीये, अपवित्राई दूरें करिये, समवसरणमां
 जिम संचरिये ॥ सु० ॥ २ ॥ अपवित्राइ अलगी करजो, ऋतुवंती संग
 ति परहरजो, असजाइथी दूरें संचरजो ॥ सु० ॥ ३ ॥ दर्शन देहरे क
 रो चोथे दिवसे, पडिकमणुं पोला परिहरजे, सामायिक जणवुं नवि कर

शे ॥ सु० ॥ ४ ॥ बोधबीज ते कीधे जासे, ज्ञानावरणीय कर्म बंधाशे,
समकित तेतुं मूखथी नासे ॥ सु० ॥ ५ ॥ दिन साते जिनवर पूजीजे,
नात जात विषे जमवा ना जश्ये, वली हाथें दान नहिं दीजे, ॥ सु० ॥ ६ ॥
ऋतुवंती तुमें अलगी राखो, घरकारज कांही मत चांखो, अन्न पाणी
शक्या दूर राखो ॥ सु० ॥ ७ ॥ ऋतुवंती साधुने वहोरावे, तस पातकथी
नरके जावे, पांचे महाव्रत अलगां थावे ॥ सु० ॥ ८ ॥ ऋतुवंती जो वहा
णमां बेसे, ते प्रवहण समुद्रमां पेसे, तांफान घणेरं ते लहेशे ॥ सु० ॥ ९ ॥
मजीठ हिंगलो थाये काळो, एकेंद्रियदलने दुःख चाळो, तो पंचेंद्रिय
विशेषे टाळो ॥ सु० ॥ १० ॥ सेवादिक शास्त्रें एम वाणी, ऋतुवंती राखो
दूर जाणी, वली असुरकुराणें इम वाणी ॥ सु० ॥ ११ ॥ पहेंले दिन चां
नादणी सरखी, बीजे दिन ब्रह्मघातणी निरखी, त्रीजे दिन घोवणडी
परखी ॥ सु० ॥ १२ ॥ खांरुण पीसण रांधण पाणी, तस फरसे दुःख लहे
खाणी, ज्ञानीने होय ज्ञाननी हाणी ॥ सु० ॥ १३ ॥ सूत्रसिद्धांत मंत्रज
नाहिं फले, असञ्चार्यें आशातना सबले, पहोर चोवीस पठी ना एहवी
मले ॥ सु० ॥ १४ ॥ आशातना असञ्चार्यनी राखी, जिनमुनिरत्नविजय
गुरु साखी, ए धर्मकरणी साची चांखी ॥ सु० ॥ १५ ॥

॥ अथ पर्युषणपर्वना नव व्याख्याननी अथवा कल्पसूत्रनी सधाय ॥

॥ तत्र प्रथम व्याख्यानस प्रथम सधाय प्रारच्यते ॥

॥ ढाल पहेंली ॥ पर्व पजूवण आवियां, आनंद अंगे न माय रे ॥ घर
घर उत्सव अति घणा, श्री संघ आचीने जाय रे ॥ १ ॥ पर्व पजूवण आवि
यां ॥ ए आंकणी ॥ जीव अमारी पदावियें, कीजियें व्रत पचस्काण रे ॥
जाव धरि गुरु वंदियें, सुणियें सूत्र दखाण रे ॥ २ ॥ आठ दिवस एम
पाळियें, आरंजनो परिहारो रे ॥ नादण धोवण खंरुण, लेण पीसण वारो
रे ॥ पर्व ० ॥ ३ ॥ शक्ति होय तो पचस्कीयें, अठार्यें अति सारो रे ॥ परम
शक्ति प्रीति लावियें, साधुने चार आहारो रे ॥ पर्व ० ॥ ४ ॥ गाय सोहा
गण सवि मली, धवल मंगल गीत रे ॥ एकाळें करि पोषियें, पारण
साहमि मन प्रीत रे ॥ पर्व ० ॥ ५ ॥ सत्तरजेदि पूजा रची, पूजियें श्री
जिनराय रे ॥ आगल जावना जावियें, पातक मल धोवाय रे ॥ पर्व ० ॥
६ ॥ लोच करावे रे साधुजी, बेसे बेसणां मांडी रे ॥ शीर त्रिलेपन

कीजिये, आलस अंगथी ठंभी रे ॥ पर्वण ॥ ७ ॥ गजगति चाले चालती,
सोहागण नारी ते आवे रे ॥ कुंकुम चंदन गहूंअली, मोतिये चोक पूरावे
रे ॥ पर्वण ॥ ८ ॥ रूपा मोहरे प्रजावना, करिये ते सुखकारी रे ॥ श्री क
माविजय कवि रायनो, बुध माणकविजय जयकारी रे ॥ पर्वण ॥ ९ ॥

॥ अथ प्रथम व्याख्यान द्वितीय सद्यय प्रारंभः ॥

॥ ढाल बीजी ॥ ए ठीकी किहां राखी ॥ ए देशी ॥ पहिले दिन बहु
आदर आणी, कटपसूत्र घर शाहो ॥ कुंकुम वस्त्र केसरशुं पूजी, रातिज
गे लिये लाहो रे ॥ प्राण ॥ १ ॥ कटपसूत्र आराधो, आराधी शिवसुख
साधो रे नविजन ॥ कटपसूत्र आराधो ॥ ए आंकणी ॥ प्रह उठीने उपा
श्रये आवी, पूजी गुरु नव अर्गे ॥ वाजित्र वाजतां मंगल गावतां, गहूंली
दिये मन रंगे रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ २ ॥ मन वच. काय ए त्रिकरण शुद्धे, श्री
जिनशासनमाहे ॥ सुविहित साधुतणे सुख सुणिये, उत्तम सूत्र उमाही
रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ ३ ॥ गिरिमाहे जिम मेरु वडो गिरि, मंत्रमाहे नवकार
॥ वृद्धमाहे कटपवृद्ध अनुपम, शास्त्रमाहे कटप सार रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ ४
॥ नवमा पूर्वनुं दशा श्रुत, अध्ययन आठमुं जेह ॥ चौद पूर्वधर श्रीनड
बाहू, उरुखुं श्री कटप एह रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ ५ ॥ पहिला मुनि दश क
टप वखाणो, क्षेत्रगुण कव्या तेर ॥ तृतीय रसायन सरिखुं ए सूत्र, पूरव
मां नहिं फेर रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ ६ ॥ नवशें त्राणुं वरसैं वीरथी, सदा कटप
वखाण ॥ ध्रुवसेन राजा पुत्रनी आरती, आनंद पुर मंराण रे ॥ प्राण ॥
कण ॥ ७ ॥ अष्टम तप महिमा उपर, नागकेतु दृष्टंत ॥ एतो पीठिका हवे
सूत्रवांचना, वीरचरित्र सुणो संत रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ ८ ॥ जंबूद्वीपमां द
क्षिण नरतें, माहणकुंरु सुगम ॥ आपाढशुदि ठठें चविया, सुरलोकथी
अजिराम रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ ९ ॥ रूपनदत्त घरे देवानंदा, कुखें अवत
रिया स्वामि ॥ चौद सुपन देखी मन हरखी, पियु आगल कही ताम रे
॥ प्राण ॥ कण ॥ १० ॥ सुपन अर्थ कव्यो सुत होशे, एइवे इंद्र आलोचे ॥
ब्राह्मण घर अवतरिया देखी, वेगो सुरलोक शोचे रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ ११ ॥
इंद्रे स्तवि ऊलट आणी, पूरण प्रथम वखाण ॥ मेघकुमार कथाथी सांजे,
कहे बुध माणक जाण रे ॥ प्राण ॥ कण ॥ १२ ॥

॥ अथ द्वितीय व्याख्यान सहाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥ प्रथम गोवालातणे जवे जी ॥ ए देशी ॥ इंद्र विचारे चित्तमां जी, ए तो अचरीज वात ॥ नीचकुले नाव्या कटा जी, उत्तम पुरुष अवदात ॥ १ ॥ सुगुण नर, जुळ जुळ कर्म प्रधान ॥ कर्म सबल बल वान ॥ सु० ॥ जु० ॥ ए आंकणी ॥ आवे तो जन्मे नही जी, जिन चक्री हरि राम ॥ उग्र जोग राजनकुले जी, आवे उत्तम ठाम ॥ सु० ॥ २ ॥ का ल अनंते ऊपनां जी, दश अठेरां रे होय ॥ तिणे अठेरुं ए थयुं जी. गर्ज हरण दशमांहे ॥ सु० ॥ ३ ॥ अथवा प्रभु सत्यावीशमा जी, जवमां त्री जे जन्म ॥ मरीचिजव कुलमद कियो जी, तेशी वांध्युं नीच कर्म ॥ सु० ॥ ४ ॥ गोत्रकर्म उदये करी जी, माहणकुले उबवाय ॥ उत्तमकुले जे अ वतरे जी, इंद्रिजीत ते थाय ॥ सु० ॥ ५ ॥ हरिणगमेपी तेडीने जी, हरि कहे एह विचार ॥ विप्रकुलथी लेइ प्रभुजी, द्वित्रिय कुले अवतार ॥ सु० ॥ ६ ॥ राय सिद्धारथ घर जली जी, राणी त्रिशला देवि ॥ तास कुखे अवतारिया जी, हरिसेवक ततखेव ॥ सु० ॥ ७ ॥ गज वृषजाटिक मुंदरु जी, चौद सुपन निणि वार ॥ देखी राणी जेहवां जी, वर्णव्यां सूत्रे सार ॥ सु० ॥ ८ ॥ वर्णन करी सुपनतणुं जी, मूकी वीजुं वखाण ॥ श्री द्दामा विजय गुरुतणो जी, कहे माणक गुणखाण ॥ सु० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ अथ तृतीय व्याख्यान सहाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल चोथी ॥ महारी सही रे समाणी ॥ ए देशी ॥ देखी सुपन तव जागी राणी, ए तो हियडे हेतज आणी रे ॥ प्रभु अर्थ प्रकासे ॥ ए आंक णी ॥ उठीने पियु पासे ते आवे, कोमलवचने जगावे रे ॥ प्र० ॥ १ ॥ कर जो डीने सुपन सुणावे, रूपतिने मन जावे रे ॥ प्र० ॥ कहे राजा सुण प्राण पिया री, तुम पुत्र होशे सुखकारी रे ॥ प्र० ॥ २ ॥ जाळ सुजगे सुखसजाये, शयन करोने सजाये रे ॥ प्र० ॥ निज घर आवी रात्रि विहाइ, धर्मकथा कहे बाई रे ॥ प्र० ॥ ३ ॥ प्रात समय थयो सूरज उदयो, उठ्यो राय उमायो रे ॥ प्र० ॥ कौटुंबिक नर वेगे बोलावे, सुपानपाठक तेडावे रे ॥ प्र० ॥ ४ ॥ आ व्या पाठक आदर पावे, सुपन अर्थ समजावे रे ॥ द्विज अर्थ प्रकासे ॥ ॥ ए आंकणी ॥ जिनवर चक्री जननी पेखे, चौद सुपन सुविशेषे ॥ द्वि० ॥ ५ ॥ वासुदेवनी माता सात, चार बलदेवनी मात रे ॥ द्वि० ॥ ते माटे ए

जिन चक्री सारो, होशे पुत्र तुमारो रे ॥ द्वि० ॥ ६ ॥ सुपन विचार
सुणी पाठकने, संतोषे नृप बहु दाने रे ॥ द्वि० ॥ सुपनपाठक घरे
बोलावी, नृपराणी पासें आवी रे ॥ द्वि० ॥ ७ ॥ सुपन कहां ते संखेने,
सुख पामी प्रिया ततखेवेंरे ॥ द्वि० ॥ गर्जपोषण करे हवे हर्षे, राणी
अंग आनंद वरषे रे ॥ द्वि० ॥ ८ ॥ पंच विषय सुख रंगें विलसे, अत्र
पुण्यमनोरथ फलशे रे ॥ द्वि० ॥ एटले पूरुं व्रीजुं वखाण, करे माणक
जिनगुण ज्ञान रे ॥ द्वि० ॥ ९ ॥

॥ अथ चतुर्थ व्याख्यान सद्भाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ मन मोहनां रे लाल ॥ ए देशी ॥ धनद तणे आदेशथी रे ॥ मन
मोहनां रे लाल ॥ तिर्यगुजुंजक देव रे ॥ जग सोहनां रे लाल ॥ राय सिद्धा
रथने घरे रे ॥ म० ॥ वृष्टि करे नित्यमेव रे ॥ ज० ॥ १ ॥ कनक रयण मणि
रौप्यनी रे ॥ म० ॥ धण कण जूषण पान रे ॥ ज० ॥ वरसावे फल फूलनी रे
॥ म० ॥ नूतन वस्त्र निधान रे ॥ ज० ॥ ११ ॥ वाधे दोळत दिन प्रत्ये रे ॥ म० ॥
तेणें वर्द्धमान हेत रे ॥ ज० ॥ देशुं नामज तेहनुं रे ॥ म० ॥ मात पिता
संकेत रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ मातानी जक्ति करी रे ॥ म० ॥ निश्चल प्रभु
रह्या ताम रे ॥ ज० ॥ माता आरति ऊपनी रे ॥ म० ॥ शुं थयुं गर्जनें
आम रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ चिंतातुर सहु देखीनें रे ॥ म० ॥ प्रभु हादया तेणि
वार रे ॥ ज० ॥ हर्ष थयो सहु लोकनें रे ॥ म० ॥ आनंदमय अपार रे
ज० ॥ ५ ॥ उत्तम मोहला उपजे रे ॥ म० ॥ देवपूजादिक जाव रे ॥ ज०
॥ पूरण थाये ते सहु रे ॥ म० ॥ पूरव पुण्य प्रजाव रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ नव
मास पूरा ऊपरें रे ॥ म० ॥ दिवस साहाडा सात रे ॥ ज० ॥ उच्च स्थानें
ग्रह आवतां रे ॥ म० ॥ वाये अनुकुल वात रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ वसंत ऋतु
वन मोरियां रे ॥ म० ॥ जन मन हर्ष न माय रे ॥ ज० ॥ चैत्र मास
शुदि तेरशे रे ॥ म० ॥ जिन जन्म्या आधी रात रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ अजु
वाळुं त्रिहुं जग थयुं रे ॥ म० ॥ वरत्यो जय जयकार रे ॥ ज० ॥ चोथुं व
खाण पूरण इहां रे ॥ म० ॥ बुध माणक विजय हितकार रे ॥ ज० ॥ ९ ॥

॥ अथ पंचम व्याख्यान सद्भाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल षष्ठी ॥ सुणो मोरी सजनी रजनी न जावे रे ॥ ए देशी ॥ जिननो

जन्म महोत्सव पहेलो रे, ठप्पन दिशि कुमरी वहेलो रे ॥ चोशठ इद्र
मली पठे ज्ञावे रे, जिनने मेरुशिखर लइ जावे रे ॥ १ ॥ क्षीरसमुद्रनां
नीर अणावी रे, कनक रजत मणि कुंज रचावी रे ॥ एक कोटि साठ ला
ख ज्ञावे रे, एहवे इंद्रने सदेह आवे रे ॥ २ ॥ जलधारा केन खमशे वा
ल रे, तव प्रभु हरिनो शंसय टाल रे, अंगुठे करी भेरु हलावे रे, हरि खा
सीने जिन न्हवरावे रे ॥ ३ ॥ वावनाचंदन अंगे लगावे रे, पूजी प्रणमी
घरे पधरावे रे ॥ सबलविधानी सिद्धारथ राजा रे, दश जिन उत्सव
करी ताजा रे ॥ ४ ॥ कुंकुम हाथा दिये घरवारे रे, वाजां वागे त्रिविध
प्रकारे रे ॥ धवल मंगल गोरी गावे रे, खजन कुटुंब ते आनंद पावे रे ॥
५ ॥ पकानशुं पोपी नात रे, नाम धखुं वर्द्धमान विख्यात रे ॥ चद्रक
ला जिम वाधे वीर रे, आठ वरसना थया वड वीर रे ॥ ६ ॥ देव सत्ता
मां इंद्र वखाणे रे, मिथ्यादृष्टि सुर नवि माने रे ॥ सापनुं रूप करि विक
राल रे, आव्यो देव विवरात्रवा वाल रे ॥ ७ ॥ नाख्यो वीरे हाथे साही
रे, बालक रूप करी सुर त्याही रे ॥ वीरनी साथे आव्यो रमत्रा रे, जाणी
हाख्यो सुर ते बलमां रे ॥ ८ ॥ निज खंधोले वीरने चढावे रे, सान ताड
प्रमाण ते आवे रे ॥ वीरे माख्यो मुष्टिप्रहार रे, वीनो सुर ते कख्यो पोकार
रे ॥ ९ ॥ देव खमावी कहे सुण धीर रे, जगमां महोटो तुं महावीर रे
॥ मात पिता हवे मुहूरत वारू रे, सुतने मेहले जणवा सारू रे ॥ १० ॥
आवी इंद्र ते पूठवा लाग्यो रे, वीरे संशय सघलो चांग्यो रे ॥ जैन व्याक
रण तिहां होवे रे, पंरुयो ऊजो आगल जोवे रे ॥ ११ ॥ सति श्रुत अ
वधिज्ञाने पूरा रे, संखेमातपे शूरा रे ॥ अति आग्रहथी परण्या नारी
रे, सुख जोगवे तेहशुं संसारी रे ॥ १२ ॥ नंदिवर्द्धन वडेरो ज्ञाइ रे, ब
हेनी सुदंसणा बहु सुखदायी रे ॥ सुरलोके पहातां माय ने ताय रे, पू
र्ण अजिग्रह वीरना थाय रे ॥ १३ ॥ देव लोकांतिक समय जणावे रे,
दान संवत्सरी देवा मंजावे रे ॥ मागशिर वदि दशमी व्रत लीनो रे, ती
व्र ज्ञावथी खोच तव कीनो रे ॥ १४ ॥ देश विदेशे करे विहार रे, सहे उ
पसर्ग जे सबल उदार रे ॥ पूरुं पांचमुं वखाण ते आंहीं रे, पत्रणे माणक
त्रिबुध जमाही रे ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ षष्ठ व्याख्यान सद्यय प्रारज्यते ॥

॥ ढाल सातमी ॥ थोयनी देशी ॥ चारित्र लेतां खंधे मूक्युं, देवदुष्य सुरनाथे जी ॥ अर्द्ध तेहनं आप्युं प्रचु जी, ब्राह्मणने निज हाथे जी ॥१॥ विहार करतां कांटे वलग्युं, वीजुं अर्द्ध ते चैल जी ॥ तेर मास सचैलक रहिया, पढे कहिये अचैल जी ॥ २ ॥ पन्नर दिवस रही तापस आश्रमे, स्वामी प्रथम चोमासे जी ॥ अस्थिग्रामे पहोता जगगुरु, शूलपाणिनी पा से जी ॥३॥ कष्ट लज्जाव व्यंतर तेणे कीधा, उपसर्ग अति घोर जी ॥ सही परिसह ते प्रतिबोधी, मारी निवारी जोर जी ॥४॥ जोराक गामे काउस्स ग्ग प्रचुजी, तापस तिहां करयेदी जी ॥ अहहं दकनुं मान उताखुं, इंडे आंगुली ठेदी जी ॥ ५ ॥ कनकवले कोशिक विषधर, परमेश्वरे पडिवोह्यो जी ॥ धवल रुधिर देखी जिन देहे, जातिसमरण सोह्यो जी ॥६॥ सिंह दे व जीवे कियो परिसह, गंगानदी उतारे जी ॥ नावनेम ज्ञान करतो देखी, कंवल संवल निवारे जी ॥ ७ ॥ धर्माचार्य नामे मंखली, पुत्रे परिघल ज्वा ला जी ॥ तेजोलेश्या मूकी प्रचुने, तेहने जीवितदान आढ्यां जी ॥८॥ वा सुदेव ज्ञवे पूतना राणी, व्यंतरी तापस रूपे जी ॥ जटा जरी जल ठांटे प्रचुने, तोपण ध्यानस्वरूपे जी ॥ ९ ॥ इंद्र प्रशंसा अणमानने संगमे, सुरे बहु दुःख दीधां जी ॥ एक रात्रिमां वीश उपसर्ग, कठोर निठोर तेणे की धा जी ॥ १० ॥ ठमासवाडा पूठे पडियो, आहार असूजतो करतो जी ॥ निश्चल ध्यान निहाली प्रचुनुं, नाठो कर्मथी करतो जी ॥११॥ हजी कर्म ते अघोर जाणी, मनं अजिग्रह धारे जी ॥ चंदनवाला अडदने वाकुले, पटमासी तप पारे जी ॥१२॥ पूरव जव वैरी गोवाले, काने खीला ठोक्या जी ॥ खरक वैथे खेंची काढ्या, झणपेरे सहु कर्म रोक्यां जी ॥ १३ ॥ वार वर्ष सहेतां इम परिसह, वैशाख शुदि दिन दशमी जी ॥ केवलज्ञान उप न्युं प्रचुने, वारी चिहुंगति विषमी जी ॥१४॥ समोसरण तिहां देवे रचि युं, वेठा त्रिचुवन ईश जी ॥ शोजिता अतिशय चोत्रीशे, वाणी गुण पांत्रीश जी ॥१५॥ गौतम प्रमुख एकादश गणधर, चौद सहस मुनिराय जी ॥ साध वी ठत्रीस सहस अनोपम, दीठे छुर्गति जाय जी ॥१६॥ एक लाख ने सह स उंगणसाठ, श्रावक समकित्तधारी जी ॥ त्रण लाख ने सहस अढारसें, श्रा विका सोहे सारी जी ॥१७॥ स्वामी चउविह संघ अनुकमे, पावापुरी पाय

धारे जी ॥ कार्तिक वदि अमावास्या दिवसे, पहोता मुक्ति मऊरें जी ॥
 १७ ॥ पर्व दीवाली तिहांथी प्रगटयुं, कीधो दीप उद्योत जी ॥ राय मली
 ने तिणे प्रजातें, गौतम केवल होत जी ॥ १८ ॥ ते श्रीगौतम नाम जपं
 तां, होत्रे मंगलमाल जी ॥ वीरमुक्ते गयाथी नवशें, एंशी वरसें सिद्धांत
 जी ॥ १९ ॥ श्री द्दामाविजय शिष्य बुध माणक कहे, सांजलो श्रोता सु
 जाण जी ॥ (कल्पसूत्रनी पुस्तक रचना देवादिगणे कीधो जी) चरम
 जिणेंसर तव ए चरित्रे, मूक्युं ठहुं वखाण जी ॥ २० ॥

॥ अथ षष्ठ व्याख्यान द्वितीय सधाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल आठमी ॥ देशी जमरानी ॥ काशी देश वनारसी ॥ सुखकारी
 रे ॥ अश्वत्थेन राजान ॥ प्रभु उपकारी रे ॥ पट्टराणी वामा सती ॥ सु० ॥
 रूपें रंज समान ॥ प्र० ॥ १ ॥ चौद स्वपन सूचित जलां ॥ सु० ॥ जन्म्या
 पास कुमार ॥ प्र० ॥ पोष वदि दशमी दिने ॥ सु० ॥ सुर करे उत्सव
 सार ॥ प्र० ॥ २ ॥ देहमान नव हाथनुं ॥ सु० ॥ नील वरण मनोहार
 ॥ प्र० ॥ अनुक्रमें जोवन पामिया ॥ सु० ॥ परणी प्रजावती नार ॥
 प्र० ॥ ३ ॥ कमठ तणो मद गालीयो ॥ सु० ॥ काढ्यो जलतो नाग ॥
 ॥ प्र० ॥ नवकार सुणावी ते कियो ॥ सु० ॥ धरणराय महाजाग ॥ प्र०
 ॥ ४ ॥ पोष वदि एकादशी ॥ सु० ॥ ब्रल लेइ विचरे स्वाम ॥ प्र० ॥
 वडतलें काउस्सगो रखा ॥ सु० ॥ मेघमाली सुर ताम ॥ प्र० ॥ ५ ॥ करे
 उपसर्ग जलवृष्टिनो ॥ सु० ॥ आव्युं नासका नीर ॥ प्र० ॥ चूक्या नहिं
 प्रभु ध्यानशी ॥ सु० ॥ समरथ साहस धीर ॥ प्र० ॥ ६ ॥ चैत्र वदि
 चोथनें दिने ॥ सु० ॥ पास्या केवल नाण ॥ प्र० ॥ चउविह संघ थापी
 करी ॥ सु० ॥ आव्या समेतगिरि ठाण ॥ प्र० ॥ ७ ॥ पाली आयु शो
 वर्षतुं ॥ सु० ॥ पहोता मुक्ति महंत ॥ प्र० ॥ श्रावण शुदि दिन अष्टमी
 सु० ॥ कीधो कर्मनो अंत ॥ प्र० ॥ ८ ॥ पास वीरनें आंतहं ॥ सु० ॥ वर्ष
 अढीशें जाण ॥ प्र० ॥ कहे माणक जिन दासने ॥ सु० ॥
 कव्याण ॥ प्र० ॥ ९ ॥

॥ अथ षष्ठ व्याख्यान सद्याय प्रारभ्यते ॥

॥ ढाल सातमी ॥ थोयनी देशी ॥ चारित्र लेतां खंधे मूक्युं, देवदुष्य सुरनाथे जी ॥ अर्द्ध तेहनुं आप्युं प्रचु जी, ब्राह्मणने निज हाथे जी ॥१॥ विहार करतां कांटे वलग्युं, बीजुं अर्द्ध ते चैल जी ॥ तेर मास सचैलक रहिया, पठे कहिये अचैल जी ॥ २ ॥ पन्नर दिवस रही तापस आश्रमे, स्वामी प्रथम चोमासे जी ॥ अस्थिग्रामे पहोता जगगुरु, शूलपाणिनी पा से जी ॥३॥ कष्ट खजाव व्यंतर तेणे कीधा, उपसर्ग अति घोर जी ॥ सही परिसह ते प्रतिबोधी, मारी निवारी जोर जी ॥४॥ भोराक गामे काउस्स ग प्रचुजी, तापस तिहां करजेदी जी ॥ अहहृंदकनुं मान उताखुं, इंद्र आंगुली ठेदी जी ॥ ५ ॥ कनकबले कोशिक विषधर, परमेश्वरे पडिबोह्यो जी ॥ धवल रुधिर देखी जिन देहे, जातिसमरण सोह्यो जी ॥६॥ सिंह दे व जीवे कियो परिसह, गंगानदी उतारे जी ॥ नावनेम ज्ञान करतो देखी, कंबल संबल निवारे जी ॥ ७ ॥ धर्माचार्य नामे मंखली, पुत्रे परिघल ज्वा ला जी ॥ तेजोलेख्या मूकी प्रचुने, तेहने जीवितदान आख्यां जी ॥८॥ वा सुदेव जेवे पूतना राणी, व्यंतरी तापस रूपे जी ॥ जटा चरी जल ठांटे प्रचुने, तोपण ध्यानस्वरूपे जी ॥ ९ ॥ इंद्र प्रशंसा अणमानते संगमे, सुरे बहु दुःख दीधां जी ॥ एक रात्रिमां वीश उपसर्ग, कठोर निठोर तेणे की धा जी ॥ १० ॥ ठमासवाडा पूठे पडियो, आहार असूजतो करतो जी ॥ निश्चल ध्यान निहाली प्रचुनुं, नाठो कर्मथी करतो जी ॥११॥ हजी कर्म ते अघोर जाणी, मनें अजिग्रह धारे जी ॥ चंदनवाला अडदने वाकुले, षटमासी तप पारे जी ॥१२॥ पूरव जव वैरी गोवाले, काने खीला ठोक्या जी ॥ खरक वैद्ये खेंची काढ्या, झणपेरे सहु कर्म रोक्यां जी ॥ १३ ॥ चार वर्ष सहेतां श्म परिसह, वैशाख शुदि दिन दशमी जी ॥ केवलज्ञान ऊप न्युं प्रचुने, वारी चिहुंगति विषमी जी ॥१४॥ समोसरण तिहां देवे रचि युं, वेठा त्रिचुवन ईश जी ॥ शोजिता अतिशय चोत्रीशे, वाणी गुण पांत्रीश जी ॥१५॥ गौतम प्रमुख एकादश गणधर, चौद सहस मुनिराय जी ॥ साध वी ठत्रीस सहस अनोपम, दीठे छुर्गति जाय जी ॥१६॥ एक लाख ने सह स उगणसाठ, श्रावक समकित्तधारी जी ॥ त्रण लाख ने सहस अठारसें, श्रा विका सोहे सारी जी ॥१७॥ स्वामी चउविह संघ अनुक्रमे, पात्रापुरी पाय

धारे जी ॥ कार्तिक वदि अमावास्या दिवसे, पहोता मुक्ति मजारें जी ॥
 १७ ॥ पर्व दीवाली तिहांथी प्रगट्युं, कीधो दीप उद्योत जी ॥ राय मली
 ने तिणे प्रजातें, गौतम केवल होत जी ॥ १८ ॥ ते श्रीगौतम नाम जपं
 तां, होत्रे मंगलमाल जी ॥ वीरमुक्ते गयाथी नवशें, एंशी वरसैं सिद्धांत
 जी ॥ १९ ॥ श्री ह्यमाविजय शिष्य बुध माणक कहे, सांजलो श्रोता सु
 जाण जी ॥ (कल्पसूत्रनी पुस्तक रचना देवादिगणे कीधो जा) चरम
 जिणेंसर तव ए चरित्रे, मूक्युं ठहुं वखाण जी ॥ २० ॥

॥ अथ षष्ठ व्याख्यान द्वितीय सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल आठमी ॥ देशी जमरानी ॥ काशी देश बनारसी ॥ सुखकारी
 रे ॥ अश्वत्तेन राजान ॥ प्रभु उपकारी रे ॥ पट्टराणी वामा सती ॥ सु० ॥
 रूपें रंज समान ॥ प्र० ॥ १ ॥ चौद स्वपन सूचित जलां ॥ सु० ॥ जन्म्या
 पास कुमार ॥ प्र० ॥ पोष वदि दशमी दिने ॥ सु० ॥ सुर करे उत्सव
 सार ॥ प्र० ॥ २ ॥ देहमान नव हाथनुं ॥ सु० ॥ नील वरण मनोहार
 ॥ प्र० ॥ अनुक्रमें जोवन पामिया ॥ सु० ॥ परणी प्रजावती नार ॥
 प्र० ॥ ३ ॥ कमठ तणो मद गालीयो ॥ सु० ॥ काढ्यो जलतो नाग ॥
 ॥ प्र० ॥ नवकार सुणावी ते कियो ॥ सु० ॥ धरणराय महाजाग ॥ प्र०
 ॥ ४ ॥ पोष वदि एकादशी ॥ सु० ॥ ब्रल लेइ विचरे स्वाम ॥ प्र० ॥
 वडतलें काउस्सग्गे रह्या ॥ सु० ॥ मेघमाली सुर ताम ॥ प्र० ॥ ५ ॥ करे
 उपसर्ग जलवृष्टिनो ॥ सु० ॥ आव्युं नासका नीर ॥ प्र० ॥ चूक्या नहिं
 प्रभु ध्यानथी ॥ सु० ॥ समरथ साहस धीर ॥ प्र० ॥ ६ ॥ चैत्र वदि
 चोथनें दिने ॥ सु० ॥ पाम्या केवल नाण ॥ प्र० ॥ चउविह संघ थापी
 करी ॥ सु० ॥ आव्या समेतगिरि ठाण ॥ प्र० ॥ ७ ॥ पाली आयु शो
 वर्षनुं ॥ सु० ॥ पहोता मुक्ति महुंत ॥ प्र० ॥ श्रावण शुदि दिन अष्टमी
 सु० ॥ कीधो कर्मनो अंत ॥ प्र० ॥ ८ ॥ पास वीरनें आंतरुं ॥ सु० ॥ वर्ष
 अढीशें जाण ॥ प्र० ॥ कहे माणक जिन दासने ॥ सु० ॥ कीजें कोटि
 कल्याण ॥ प्र० ॥ ९ ॥

॥ अथ सप्तम व्याख्यान सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल नवमी ॥ हो मतवाले साजनां ॥ ए देशी ॥ सोरि पुर समुद्र
 विजय घरे, शिवादेवी कुलें सारो रे ॥ कार्तिक वदि वारश दिने, अवतस्था

नेम कुमारो रे ॥ १ ॥ जयो जयो जिन बावीशमो ॥ ए आंकणी ॥ चौद
 स्वपन राणियें पेखियां, करवो स्वप्न तणो विचार रे ॥ श्रावण शुदि दिन
 पंचमी, प्रभु जन्म हुठं जयकार रे ॥ जय० ॥ १ ॥ सुरगिरि उत्सव सुर
 करे, जिनचंद्र कला जिम वाधे रे ॥ एक दिन रमतां रंगमां, हरि आयुध
 सघलां साधे रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ खबर सुणी हरि शंकिया, प्रभु लघुवयथ
 की ब्रह्मचारी रे ॥ बलवंत जाणी जिननें, विवाह मनावे मुरारी रे ॥ ज०
 ॥४॥ जन लेइ जादव आग्रहें, जिन आव्या तोरण बार रे ॥ उग्रसेन घर
 आंगणे, तव सुणीयो पशुपोकार रे ॥ ज० ॥५॥ करुणानिधि रथ फेरव्यो,
 नवि मान्यो कहेण केहनो रे ॥ राजुलनें खटके घणुं, नव जवनो स्नेह ठे
 जेहनो रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ दान देइ संयम लियो, श्रावण ठठ अजुआलो रे
 ॥ चोपन दिन ठद्वस्थ रही, रहुं केवल कर्मने गाली रे ॥ ज० ॥७॥ आशो
 वदि अमावासें, दे देशना प्रभुजो सारी रे ॥ प्रतिबोध पामी व्रन लियो,
 रहे नेम राजुल नारी रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ आषाढ शुदि दिन अष्टमी, प्रभु
 पाम्या पद निर्वाणो रे ॥ रैवतगिरिवर उपरें, मध्यरात्रियें ते मन आणो रे
 ॥ ज० ॥ ९ ॥ श्री पार्श्वनाथ थया पहेलां, क्यारे, नेम थया निरधारो रे ॥
 साडा सातसैं त्याशी हजार वर्षें, चित्तमांहे चतुर विचारो रे ॥ ज० ॥१०॥
 सहुको जिननां आंतरां, मन देइ मुनिवर वांचे रे ॥ इहां पूरण व्याख्यान
 सातमुं, सुणी पुण्यजंकारने सांचे रे ॥ ज० ॥ ११ ॥

॥ अथाष्टम व्याख्यान सव्वाय प्रारंभः ॥

॥ ढाल दशमी ॥ बे बे मुनिवर विहरण पांगख्या जी ॥ ए देशी ॥ इका
 कुजूमें नाजि कुलघर घरे जी, सोहे मरुदेवी तस नार रे ॥ अषाढ वदि
 सुरलोकथी चवी रे, अवतशिया जग सुखकार रे ॥१॥ प्रणमो जविजन आदि
 जिणेसरु रे ॥ ए आंकणी ॥ गज वृषजादिक चौद सुहणे जी, दाठां माडि
 ये माऊम रात रे ॥ सुपन अर्थ कहे नाजि कुलघरुजी, होशे नंदन वीर
 विख्यात रे ॥ प्र० ॥ १ ॥ चैत्र अंधारी आठमें जनमिया जी, सुर मली उ
 त्सव सुरगिरि कीधरे ॥ दीठो वृषज तेपेले सुपनें जी, तेणें करी नाम रूपन
 ते दीधरे ॥ प्र० ॥ ३ ॥ वाधे रूपजजी कल्प वेलि ज्युं रे, दर्शन दीठे सकल स
 मृद्धि रे ॥ बालक रूप करीने देवता जी, खेले जिन साथें हित वृद्धि रे ॥ प्र०
 ॥४॥ कुमरी सुनंदा वीजी सुमंगला जी, जिनने परणावी हरि आय रे ॥

श्रीपर्यषणपर्वना नव व्याख्याननी सद्याय. (३५९)

थापी अयोध्या नगरी वसावीने रे, थापी राजनीति तिण ठाय रे ॥ प्र० ॥
 ५॥ रीति प्रकाशी सधली विश्वनी रे, कियो असी मपी कशी व्यवहार
 रे ॥ एकसो वीश अने नर नारी कला रे, प्रभुजी युगलाधर्म निवार रे ॥ प्र०
 ॥ ६ ॥ जरतादिक शत पुत्र सोहामणा रे, बेटी ब्राह्मो सुंदरी सार रे ॥ लाख
 त्राशी पूरव गृहिपणे जी, जोगवी जोग जला मनोहार रे ॥ प्र० ॥ ७ ॥
 देव लोकांतिक समय जणावियो रे, जिनने दीक्षानो व्यवहार रे ॥ एक
 कोटि आठ लाख सोवन दिन प्रत्ये रे, देइ वरपीदान उदार रे ॥ प्र० ॥
 ८ ॥ चैत्र अंधारी आठम आदस्यो रे, संयम मुष्टिये करि लोच रे ॥ श्रेयांस
 कुमर धरे वरषीपारणुं जी, कीधुं इक्षुरसें चित्त साच रे ॥ प्र० ॥ ९ ॥
 सहस्र वर्ष लगें ठन्नस्थपणे रखा जी, पठी पाम्या केवल ज्ञान रे ॥ फा
 गुण अधारी अग्यारस दिनें जी, सुर करे समवसरण मंदाण रे ॥ प्र० ॥
 १० ॥ त्यां वेशी प्रभु धर्मदेशनारे, साहसी ने सुणे पर्यदा वार रे ॥
 प्रतिबोधाणां केई व्रत ग्रहे जी, केइ श्रावकनां व्रत वार रे ॥ प्र० ॥ ११ ॥
 थाप्या चोराशी गणधर गुणनिला जी, मुनिवर मान चोराशी हजार रे ॥
 साधवी त्रण लाख श्रावक एटला जी, उपर पांच सहस्र अवधार रे ॥
 प्र० ॥ १२ ॥ पांच लाख चोपन सहस्र श्राविका जी, थापी चउविह संघ
 सुजाण रे ॥ महावदि तेरशें मुक्तें पधारिया जी, बुध माणक नमे सुवि
 हाण रे ॥ प्र० ॥ १३ ॥ बांचे विस्तारे मुनिवरा वली जी, मूक्युं आठमुं
 वखाण इण ठाम रे ॥ बुधश्री क्षमाविजयजी गुरु तणो जी, करे माणक
 मुनि गुणग्राम रे ॥ प्र० ॥ १४ ॥

॥ अथ नवम व्याख्यान सद्याय प्रारभ्यते ॥

॥ ढाख अगारमी ॥ जरत नृप जावशुं ए ॥ ए देशी ॥ संवत्सरी दिन
 सांजलो ए, वारसी सूत्र सुजाण ॥ सफलदिन आजुनो ए ॥ ए आंकणी ॥
 श्रीफलनी प्रजावना ए, रूपा नाणुं जाण ॥ स० ॥ १ ॥ सामाचारी चित्र धरो
 ए, साधु तणो आचार ॥ स० ॥ बडलहुडाइ खामणां ए, खामो सहु
 नर नार ॥ स० ॥ २ ॥ रीष वशें मन रूपणां ए, राखीने खमावे जेह ॥
 स० ॥ कोयुं पान जिम काढुं ए, संघ बाहेर सहि तेह ॥ स० ॥ ३ ॥
 गलित वृषज वधकारकु ए, निर्दय जाणी विप्र ॥ स० ॥ पंक्ति बाहिर
 ते कस्यो ए, जिम महास्थानें क्षिप्र ॥ स० ॥ ४ ॥ चंदनवाला मृगावती

ए, जेम खमाव्युं तेम ॥ स० ॥ चंद्रप्रद्योतनरायने ए, उदायन खमाव्युं जेम ॥ स० ॥ ५ ॥ कुंजकार शिष्यनी परे ए, तिम न खमावो जेम ॥ स० ॥ वार बोले पट्टावली ए, सुणतां वाधे प्रेम ॥ स० ॥ ६ ॥ पडिक्कमणुं संवत्सरी ए, करिये स्थिर करी चित्त ॥ स० ॥ दान संवत्सरी देइने ए, लीजे लाहो नित्त ॥ स० ॥ ७ ॥ चञ्जविह संघ संतोषिये ए, जक्ति करी जलि जाति ॥ स० ॥ इणिपरे पर्व पजूषण ए, खरचो लक्ष्मी अन्नंत ॥ स० ॥ ८ ॥ जिनवर पूजा रचाविये ए, जक्ति मुक्ति सुखदाय ॥ स० ॥ क्कमाविजय पंफिततणो ए, बुध माणक मन जाय ॥ स० ॥ ए ॥ इति ॥

॥ अथ श्री नरेंद्रकृत मृगापुत्र सव्धाय प्रारब्धते ॥

॥ नाटक जस्तादिक तिहां रे लाल ॥ ए देशी ॥ सुग्रीव नयर सुहाम णुं रे लाल, शोचातणो नहिं अंत रे ॥ जविक जन ॥ बलजद्र नामे नरे श्वरु रे लाल, हरि सम ऋद्धि महंत रे ॥ ज० ॥ १ ॥ मृगापुत्र मुनि गुणवंत रे हो लाल, केम पास्यो उपशांत रे ॥ ज० ॥ सुधी० ॥ ए आंकणी ॥ मृगावती नृपगेहिनी रे लाल, सुंदर सरखी जोड रे ॥ ज० ॥ पतिचक्का गुण रागिणी रे लाल, शीलवंती शिर मोड रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ २ ॥ तास नंदन दिनकर समो रे लाल, मृगापुत्र अचिराम रे ॥ ज० ॥ मात पिता दीधुं सही रे लाल, बीजुं बलश्री नाम रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ३ ॥ अलंजोग समरथ बडो रे लाल, कलाविचक्षण ताम रे ॥ ज० ॥ कुलवालिका सरखी जली रे लाल, परणावे बहु मास रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ४ ॥ युवराज पद तस आपियुं रे लाल, जनक साथ बहु प्रेम रे ॥ ज० ॥ श्वेतजुवन हरि सारि खुं रे लाल, कुमरन आप्युं केम रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ५ ॥ रघण जडित कुट्टि म तला रे लाल, नाटक त्रिविध वत्तीस रे ॥ ज० ॥ दोयुंदक सुरनी परे रे लाल, जोगवे जोग वत्तीस रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ६ ॥ सानंदन आनंदमे रे लाल, जातो जाणे न दीह रे ॥ ज० ॥ गोखे रह्यो पुरवर जुवे रे लाल, जि म कंदर वनसिंह रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ७ ॥ एहवे इंद्र मुनि गुणनीलो रे लाल, जिद्धा काज महंत रे ॥ ज० ॥ त्रीजा प्रहरना तापमां रे लाल, रवि तणुं दुःख सहंत रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ८ ॥ तप करी काया शोषवे रे लाल, सर स नीरस आहार रे ॥ ज० ॥ वाविश परिसह जीपतो रे लाल, पामवा जवतणो पार रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ए ॥ त्रिक चट्टे मुनिवरप्रते रे लाल,

देखे कुंवर अनिमेष रे ॥ ज० ॥ पूरव में सहि एहवुं रे लाल, दीतुं रूप
 कृषीश रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ १० ॥ एम चिंतवतां उपन्युं रे लाल, जातीसमर
 ण ज्ञान रे ॥ ज० ॥ पूरव जवमें णलियो रे लाल, संयम श्रुत शुच ध्यान
 रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ११ ॥ जोगथकी मन ऊजग्यो रे लाल, योग ते टिलमें
 वसंत रे ॥ ज० ॥ इतरा दिन मुऊ आंतिमें रे लाल, टिवम गया विलसंत
 रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ १२ ॥ वैरागी जिरं सेहरो रे लाल, मृगापुत्र गुणवंत रे ॥
 ज० ॥ नाटक तजीने ऊगियो रे लाल, मुनि नरेंद्र उलसंत रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ १३

॥ ढाल बीजी ॥

॥ कारतक महिने कृष्णजी आव्या ॥ रमवा आवोने रे ॥ ए देगी ॥
 संयमकी मनसा चित्त जागे, आवी माय जनक पाय लागे, उजा टोय
 कर जोडीने मागे, अनुमति द्यो माय ताय रे ॥ १ ॥ मोक्षु मन माहरुं ॥
 अवर नहि कोइ गाय रे ॥ मो० ॥ ए आंकणी ॥ ए संसार हाडको मैलो,
 राचि रहे ज्रममें मतिधेलो, चूलि रह्यो निज जाव सहेलो, फिर मनमें प
 ढताय रे ॥ मो० ॥ २ ॥ सुण्यां पंच महाव्रत गतजव, नरक तिरियंचतणां
 दुःख अनुजव, पाम्यो नरजव पुण्यवले हव, मागुं अनुमति सार रे ॥
 मो० ॥ ३ ॥ ज्ञांठां सुख मुऊ क्कण नहिं राचे, जिहां किंपाकतणां फल जाचे.
 रोम रोम विष तसतणुं माचे, प्राण तजे तत्काल रे ॥ मो० ॥ ४ ॥ क्कण
 एक सुख बहु काल दुःख, जोगव्यां कर्म विना नहिं मुख, ए संसारे नहिं
 क्कण सुख, राचे कोण मोरी माय रे ॥ मो० ॥ ५ ॥ तन धन जोवन कारि
 मा नहिं स्थिर, मूरख राचि रह्यो ए अम घर, संचे जाडां पाप मुधा नर,
 समजे नहिं लगार रे ॥ मो० ॥ ६ ॥ व्याधिअनेक लागिया तनमें, रूप रंग
 विणसे क्कण क्कणमें, तोहू समज न आणे दिलमें, अहो अहो मोह वि
 कार रे ॥ मो० ॥ ७ ॥ आ देह अनित्य अशाश्वत कह्यो जिन, विणसे स
 ध्याराग परें ढिन, माज अणी परें उस विंडु क्कण, इण परे लागे न वार
 रे ॥ मो० ॥ ८ ॥ बली जन्मदुःख जरातणुं दुःख, अशुचि रोग मरण जय
 प्रमुख, इण संसारे न होये क्कण सुख, लहुं न रति लगार रे ॥ मो० ॥ ९ ॥
 यथा नर कोइ चाट्यो परदेशे, साथे संबल नहिं शुजवेशे, चूख तृषा
 व्यापी अति जेसें, पामे दुःख तिवार रे ॥ मो० ॥ १० ॥ एवं धर्म अकृत
 मनुष्य जिम, आधि रोग थाये अंते तिम, शोचंतो जाये परजव इम, राखे

नहिं कोइ साहि रे ॥ मो० ॥ ११ ॥ लीजो व्रतसंबल धरी कोइ, चालंतां
पंथें सुख होइ, व्यापे झूख तृषा नहिं सोइ, पामो सुख तिवार रे ॥ मो० ॥
१२ ॥ इम मुनि धर्म कह्यो जगदीश, पाले जे कोइ विश्वा वीश, शिव पा
मे त्रिजुवन थाय ईश, नरेंद्र ते केवलश्री पाय रे ॥ मो० ॥ १३ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ दक्षिण दोहिलो हो राज, दक्षिण दोहिलो रे हांजा पाणी लाग
णो ॥ ए देशी ॥ मृगातनु जात हो राज, जनविख्यात हो राज, उन्नयनी
पासैं रे मागे अनुमति व्रत तणी ॥ जे घडी जावे हो राज, ते फरि नावे
हो राज, विलंब न कीजें रे, जननी माहाव्रत आदरुं ॥ १ ॥ काच ज्युं
काया हो राज, बादल ज्युं ढाया हो राज, उदक परपोटां रे, विणसतां
वार लागे नहीं ॥ जिम नन्न दीसे हो राज, धनुष अतीशें हो राज, मनो
हर दीसे रे, पण क्खण एक विलये सही ॥ २ ॥ जिम तरु सोहे हो राज,
पंखी मन मोहे हो राज, पण सब ठंके रे, नग लक्ष्मी विणशे थके ॥
इम सहु जाणो हो राज, जगत पीठाणो हो राज, स्वारथ न पूगे रे, तो
ठंके सहु मिल करी ॥ ३ ॥ रयणादिक माया हो राज ॥ अधिक उपाया
हो राज, पुत्रादिक दारा रे, जावुं इण सब तजि करी ॥ जे जिन राया
हो राज, जगत निपाया हो राज, अनित्य उवेखी रे, त्यागि क्खि शिवपढ
गया ॥ ४ ॥ आइ जग व्यापी हो राज, त्रिजग समापी हो राज, अग्नि
प्रजागी रे, अहो ते विश्वजयंकरु ॥ दिहुं दिशि देखे हो राज, ते जो न
पेखे हो राज, माय तव चांखे रे, वत्स विना दीसे नहीं ॥ ५ ॥ मृगा
सुत चांखे हो राज, नहिं कोइ राखे हो राज, जगत विख्याती रे, अग्नि
जन्म मरण तणी ॥ माटे तुम पासे हो राज, अधिक उद्धासैं हो राज.
अनुमति मागुं रे, जननी आतम तारशुं ॥ ६ ॥ राणी चित्त तोले हो
राज, सुत शुं ए बोले हो राज, अचरिज पामी रे, चांखे राय राणी सुत
नणी ॥ सुणो तुम पूत हो राज, दीसो सपूत हो राज, गिरि सम लागे रे,
वयण एसां नवि बोलियें ॥ ७ ॥ तनु सुकुमार हो राज, जिम पुष्प
माल हो राज, तुमथी जाया रे, संयमपथ किम पळी शके ॥ जोगवो
जोग हो राज, तजि मन सोग हो राज, रोग न करिये रे, वत्स उदर म
सली करी ॥ ८ ॥ चारित्र दोहिलुं हो राज, नहिंय ए सहेलुं हो राज. वन

तप करवुं रे, महाव्रत डुकर पालवां ॥ प्राणांत पात हो राज, सांजल जा
त हो राज, जावजीव सुधी रे, जीवदया व्रत पालवां ॥ ए ॥ नित्यज बोले
हो राज, सत्य अमोले हो राज, नंद तुजथी रे डुप्कर व्रत किम पली
शके ॥ सदैव अयाची हो राज, व्रत गुण राची हो राज, अदत्त न लेवे रे,
दंतसोहन अपि विण कहां ॥ १० ॥ ब्रह्मव्रत राचे हो राज, त्रिक्रण मा
चे हो राज, नववाड जांखी रे, ए व्रतना जगदीश्वरु ॥ तिल तुम आगे
हो राज, परिग्रह न रागें हो राज, डु.खनो दाता रे, बाह्य अर्च्यंनर व्र
जवो ॥ ११ ॥ चउद्वियाहार हो राज, निगापरिहार हो राज, सान्निध्य न
राखे रे, संचय वत्स मुनीश्वरु ॥ शत्रु ने मित्र हो राज, उनय एकर हो
राज, समजाव करवो रे, राणी नरेडू कहे पुत्रने ॥ १२ ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ कुकड देखी कुंरुने ॥ मन मान्यो लाल ॥ ए देशी ॥ मृगाराणी कहे
पुत्रने ॥ मन मान्यो लाल ॥ संयम विपम अपार ॥ अति मन मान्यो लाल
॥ बावीस परिसह नित्यप्रत्ये ॥ मन० ॥ सहेवा डुकरकार ॥ अति० ॥ १ ॥
दारुण लोच करावणो ॥ म० ॥ केम खमगो सुकुमार ॥ अ० ॥ लानाटि
क पण वरजवां ॥ म० ॥ तुम तनु कोमल लाल ॥ अ० ॥ २ ॥ चारित्र तु
जथी न पली शके ॥ म० ॥ हजी लघुबुद्धि कुमार ॥ अ० ॥ लोह चार
मस्तक विषे ॥ म० ॥ धरवो तिम व्रत चार ॥ अ० ॥ ३ ॥ सामे पुर केम
तरी शके ॥ म० ॥ आकाश पडती जे गंग ॥ अ० ॥ श्यामा नहिं जीवि
त लगे ॥ म० ॥ करो ठो अति उठरंग ॥ अ० ॥ ४ ॥ बेलूकवलतणी
परे ॥ म० ॥ आस्वाद ठे सम तेह ॥ अ० ॥ तीक्ष्ण असिधारा परे ॥ म०
॥ खालवुं डुकर एह ॥ अ० ॥ ५ ॥ अहि साथे रहेवुं जिस्थुं ॥ म० ॥
चारित्र ठे डुःखकार ॥ अ० ॥ लोहमय जत्र चाववा ॥ म० ॥ अशक्य
चारित्र विचार ॥ अ० ॥ ६ ॥ यथा वैश्वानरनी शिखा ॥ म० ॥ ते कहो
केम पिवाय ॥ अ० ॥ संयम पण वत्स न पले ॥ म० ॥ तमथी डुकर था
य ॥ अ० ॥ ७ ॥ वली नर कोइ कोथले ॥ म० ॥ वायु चरे कहो केम ॥
अ० ॥ तिम ए डुकर ठे सही ॥ म० ॥ ए मन ठे वत्स तेम ॥ अ० ॥ ८ ॥
मेरु महीधर त्राजुवे ॥ म० ॥ किम तोलायो जाय ॥ अ० ॥ सुरिचिचार
सहेवो यथा ॥ म० ॥ तिम चारित्र डुकर थाय ॥ अ० ॥ ९ ॥ रत्ना

कर जिम जुजबलें ॥ म० ॥ तरवो डुकरकार ॥ अ० ॥ अनुपशांत क्रियो
 दधि ॥ म० ॥ विषम ते तरवो पार ॥ अ० ॥ १० ॥ मानुष जोग ते
 जोगवो ॥ म० ॥ उत्तम लक्षण पंच ॥ अ० ॥ जुक्तजोग थया पठी ॥ म०
 पश्चात् धर्म समंच ॥ अ० ॥ ११ ॥ तव ते कुमर माय तायने ॥ म०
 ॥ जांखे वचन रसाल ॥ अ० ॥ इह लोक पिपासा रहिनने ॥ म० ॥
 डुकर नहिय विशाल ॥ अ० ॥ १२ ॥ कायरने डुकर सही ॥ म० ॥ शू
 राने नहिं कांय ॥ अ० ॥ नरेंद्र ते सुखनो निधान ॥ म० ॥ संयम
 सुत कहे माय ॥ अ० ॥ १३ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ उंधवजी संदेशो कहेजो श्यामनें ॥ एदेशी ॥ मृगापुत्र वैरागी दमी
 श्वर सेहरो, सात पिताने जांखे वचन मनोहार जो ॥ शरीरवेदना मान
 सी में पूरव सही, कहेतां न आवे वचनथकी तस पार जो ॥ १ ॥ मृगा
 पुत्र वैरागी दमीश्वर सेहरो ॥ ए आंकणी ॥ साचो ए संवेगी अबनीपति
 खरो, मुनिजनमां ते शोने सबल महंत जो ॥ नाम जपंतां तम जाये ना
 शी परं, जन्म मरण कांतार तणो लह्यो अंत जो ॥ मृगा० ॥ १२ ॥ जरा मर
 ण कांतार चतुर्गति जय महा, अनुभवियो में वार अनंती माय जो ॥ क
 र्म वशें ते जाइ नरकमें ऊपज्यो, जाव कहुं ते सुणजो चित्त लगाय जो
 ॥ मृ० ॥ ३ ॥ अग्नि उक्षता षणुं लोकमें तेहथी, अनंत गुणुं तिहां नरक
 मांहि दुःख वार जो ॥ लोह अग्नि गोलानी परें तिहां धग धगे, एहवी
 वेदन सही अनंती वार जो ॥ मृ० ॥ ४ ॥ सात वेदना ते तिहां तमने
 दाखवुं, मनुलोकमें शीत पडे असराल जो ॥ इहांथी अनंत गुणी जे नर
 कमें वेदना, वार अनंती जोगवी ते सुविशाल जो ॥ मृ० ॥ ५ ॥ कुंजी
 पाक विपाक कर्म वश ऊपन्यो, नीचुं मस्तक ऊर्ध्व कस्या मुज पाय जो ॥
 वन्हि सरखी रीते वरणे ऊलहले, पाचवियो तस वार अनंती माय जो
 ॥ मृ० ॥ ६ ॥ कलवनदनी वेवु समूह तणे विषे, मेरु मंदर वेवूनी
 समान जो ॥ माहा अग्नि दावानल सदृश्य तापमें, जलावियो मुज
 देह अनंती ताम जो ॥ मृ० ॥ ७ ॥ परमाधामी देव ग्रही मुने वांधियो,
 कर्षतशुं करी ठेद कियो मुज देह जो ॥ वीजा पण शस्त्रादि करीने विडं
 वियो, दुःख जोगवियां वार अनंती तेह जो ॥ मृ० ॥ कूट शामली

बृह्म निघट्ट मुऊ बांधियो, धनुष बाणे करी जेदी तव मुऊ काय जो ॥ खं
चाताण करीने घणी वेदन करी, असिधारे करी खंरु किया अहो माय
जो ॥ मृ० ॥ ९ ॥ महोटा यंत्रमांहि ते ग्रहीने नाखियो, इहुपरे मुऊ पी
दयो घाणीमांहि जो ॥ पापकर्म वश रुदन बलि आक्रंद करुं, जोगवी वे
दना वार अनंती त्यांहि जो ॥ मृ० ॥ १० ॥ नरकमांहि जे कोरे ठे गाढी वे
दना, जांखी न शके केवली ते दुःखलेश जो ॥ पर्यदामांहि कोड वरस
अहोनिश दिने, अंश मात्र जिहां सुखनो नहिं श्क रेश जो ॥ मृ० ॥ ११
॥ क्षेत्र वेदना सांहोमांहे पण हुवे, श्वान रूप करी परमाधामी धाय जो
॥ कवहुंक जीरण वस्त्र परे मुऊ ठेदीयो, एहवा दुःखनी धरी अनंतीकाय
जो ॥ मृ० ॥ १२ ॥ अग्नि सरिसी लायमां रथे जोतख्यो, चलावियो ते व
लती वेदुमजार जो ॥ जंगली रोज पशुनी परे मुऊ पीडियो, असिधारे
करी खंरु किया निर्धार जो ॥ मृ० ॥ १३ ॥ महिष परे वैश्वानरमें मुऊ वा
लियो, गिरु पंखी ढंकादिक रूप बनाय जो ॥ लोह सरीखी चांचे करी
तनु ठेदियुं, वार अनंती नरेंद्र कहे सुण माय जो ॥ मृ० ॥ १४ ॥

॥ ढात्र ठठी ॥

॥ तिष्ठ तिष्ठ किहां गयो रे, मेरां चाइ मारे रे ॥ ए देशी ॥ मृगापुत्र
निज मायने रे. उपदेशे तिणवार रे ॥ अनंतानंत दुःख अनुभव्यां रे, क
हेतां नावे पार ॥ १ ॥ जननी विसार रे अनुमति दीजिये उह्वास रे ॥ ए
आंकणी ॥ जिन धर्म करणी विना रे, लह्यो नरक निवास रे ॥ परमाधा
मी वश पड्यो रे, सुख नहि एक सास ॥ ज० ॥ २ ॥ तृपावश पीड्यो थ
को रे, वैतरणी नदी आय रे ॥ छुरधार कल्लोल जेहना रे, हणयो जेहमें
तणाय ॥ ज० ॥ ३ ॥ पापे करी पीड्यो तवे रे, ढाया ठंडी देख रे ॥ वन
खंरु जाणी आवियो तिहां, आशा धरी विशेष ॥ ज० ॥ ४ ॥ असि धार
तीक्षण जिस्यां रे, पत्र तरुनां जेह रे ॥ तेणे करी तनु ठेदियुं, जाणे मां
ड्यो वरसवा मेह ॥ ज० ॥ ५ ॥ मुऊने पीनज ताडियो रे, परमाधामी
देव रे ॥ कातरे करी कापियो मुऊ, खंरु खंरु विजेव ॥ ज० ॥ ६ ॥ मृग
परे तिम जाळमां रे, नाखियो मुऊ माय रे ॥ मुख बांधी रूंथी करी रे,
मारियो तस साय ॥ ज० ॥ ७ ॥ मीन सम मुऊने ग्रही रे जाळमांहि
ताणी रे ॥ मवर जिम काया करी रे, लियो सुखमें आणी ॥ ज० ॥ ८ ॥

सिंचाणा पंखी परें रे, बतकने ज्युं धरे साय रे ॥ त्युं रूपधारी मुऊ प्रत्ये
 रे, ऊपट पकडे धाय ॥ ज० ॥ ए ॥ वार्धिक जिम वृद्धने रे, ठेद करे वसु
 धार रे ॥ ठेदियो तिम अंग जननी, देव अनंती वार ॥ ज० ॥ १० ॥
 थाप मूटी लातसें रे, मारियो अविमासि रे ॥ लोह जिम मुऊ चूर्ण की
 धुं, जाउं किहां तिहां नाशि ॥ ज० ॥ ११ ॥ लोहकार जिम लोहने रे,
 जाळे अग्निमजार रे ॥ जालियो तिम अंग सघलो, कूटियो घनसार ॥
 ज० ॥ १२ ॥ कल कलतो तरुवो सही रे, पावे महोदुं फार रे ॥ मांस का
 पी दिये मुऊने, एम अनंती वार ॥ ज० ॥ १३ ॥ पूर्वे में सुरापान कीधुं,
 महाकर्म अघोर रे ॥ संजारीने मुऊ रुधिर काढी, पावे महोदु फोर ॥
 ज० ॥ १४ ॥ हसि राची जे कर्म बांध्यां, तेणें ए दुःखपाय रे ॥ हवे न रा
 चूं माय मोरी, नरेंद्र श्रुत चित्त लाय ॥ ज० ॥ १५ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ जवि जीवो, करणी तो कीजें चित्त निर्मली ॥ ए देशी ॥ माजी
 मोरी करणी तो करशुं चित्त निर्मली ॥ ए आंकणी ॥ माजी मोरी मोह
 मिथ्यातकी निंदमें, सूतो काल अनंत ॥ मा० ॥ परमाधामी वश पड्यो,
 कहेतां न आवे अंत ॥ माजी मोरी० ॥ क० ॥ १ ॥ मा० ॥ राग तणा
 रलिया हता, सुन सुन करता तान ॥ मा० ॥ धर्म कथा नव सांजली,
 तेहना कापे कान ॥ मा० ॥ क० ॥ २ ॥ मा० ॥ परनारीना रूपनो,
 विषय वखाण्यो जोय ॥ मा० ॥ देवगुरु निरख्या नहिं, तेहनी आं
 ख्यो काढे डोय ॥ मा० ॥ क० ॥ ३ ॥ मा० ॥ सूरजीगंध सूंध्या घ
 णा, गुढा फूल फराक ॥ मा० ॥ अत्तर फूलेल पडावियां, ठेदे तेहनां
 नाक ॥ मा० ॥ क० ॥ ४ ॥ मा० ॥ गाढा रथमें वेसिने, वेळ दोडाया
 वाट ॥ मा० ॥ अग्नि तपावी धोंसरुं, देइ दोडावे गाढ ॥ मा० ॥ क० ॥
 ५ ॥ मा० ॥ रस्ते लुंध्या कडकने, करि करि क्रोध अन्याय ॥ मा० ॥ मांक
 ड माख्या तेहने, पीले घाणीमांय ॥ मा० ॥ क० ॥ ६ ॥ मा० ॥ काचा
 कुंवल फल जडियां, गाजल मूला कंद ॥ मा० ॥ उंधे मस्तक ऊपना,
 पीड्या करे आक्रंद ॥ मा० ॥ क० ॥ ७ ॥ मा० ॥ जूठ वचन बोड्या घणां.
 कूड कपटनी खाण ॥ मा० ॥ परमाधामी तेहनी, जीच काढे जड ताण
 ॥ मा० ॥ क० ॥ ८ ॥ मा० ॥ वनस्पति ठेदन करी, काप्यां तरु वना

य ॥ मा० ॥ घणां मूलां काढियां, कापे तेहनी काय ॥ मा० ॥ क० ॥ १६ ॥
 मा० ॥ फूल जुवारा चूटता, फूलां सेज विठाय ॥ मा० ॥ सुख चोगत्रियां
 तेहने, कांटा चांपे काय ॥ मा० ॥ क० ॥ १७ ॥ मा० ॥ कोमल कलियां
 फूलनी, तोडी गूंथ्या हार ॥ मा० ॥ शामलीवृक्षे बांधीने, दे चावुकना
 मार ॥ मा० ॥ क० ॥ १८ ॥ मा० ॥ वचनचूक नर जे हता, माया कप
 टी जेह ॥ मा० ॥ पकडी पठाडे पर्वते, खंरु खंरु करे तस देह ॥ मा०
 ॥ क० ॥ १९ ॥ मा० ॥ घरमें कलह करावती, काथा कवली नार ॥ मा०
 ॥ परमाधामी तेहना, मुखमें जरे अंगार ॥ मा० ॥ क० ॥ २० ॥ मा० ॥
 कूहाडे करि कापियां, लीलां महोटां जाड ॥ मा० ॥ परमाधामी तेहनुं,
 मुस्तक ठेदे फाड ॥ मा० ॥ क० ॥ २१ ॥ मा० ॥ कोश कोढाली पावडा,
 चूमि विदारण जेह ॥ मा० ॥ माग्यां जे कहि आपियां, पामे कष्टज ए
 ह ॥ मा० ॥ क० ॥ २२ ॥ मा० ॥ पूज्य कहीने पूजावता, करता अनरथ
 मूल ॥ मा० ॥ कामिनी गर्ज गलावता, परोवी दिये त्रिशूल ॥ मा० ॥
 क० ॥ २३ ॥ मा० ॥ पापप्रज्ञावथी उपन्यो, कुंजीपाकनी मांय ॥ मा० ॥
 उपर चूटे कागडा, मांही कीडा खाय ॥ मा० ॥ क० ॥ २४ ॥ मा० ॥ ह
 णिया हुक्का पीवतां, जलादिकथी जीव ॥ मा० ॥ तातो लोह तपार्वी
 ने, मुख चांप्या करे रीव ॥ मा० ॥ क० ॥ २५ ॥ मा० ॥ मानवनो जव
 पामिने, अब जाठं नहिं हार ॥ मा० ॥ नरेंद्रतणी अनुमति लही, पा
 मुं जवनो पार ॥ मा० ॥ क० ॥ २६ ॥

॥ ढाल आठमी ॥

॥ मान न कीजे रे मानवी ॥ ए देशी ॥ पापकरमथी रे प्राणिया, उप
 न्या नरक मजार ॥ परमाधामी रे तेहने, हणतां करे रे होकार ॥ १ ॥ कीधां
 कर्म न बूटियें, किहां राणा किहां राव ॥ हरिहर ब्रह्म पुरंदरा, ते पण हु
 आ खराब ॥ कीधां कर्म न बूटियें ॥ २ ॥ किया निर्लठन ढोरने, मांज्या
 तेणे रे बांध ॥ गगडावे गिरि उपरे, काढे तेहनी रे सांध ॥ कीधां ॥ ३ ॥
 किनी आंगीठी रे अग्निनी, चलम जरी चकरोल ॥ गांजा तमाकु रे पीव
 ता, पाम्या नरकनी पोल ॥ कीधां ॥ ४ ॥ साधुजनने संतापिया, निंदा
 कीधी अपार ॥ ताते थंजे तस बांधिने, दे मुजरकी रे मार ॥ की० ॥
 ॥ ५ ॥ विष देइ माणस मारियां, करि करि क्रोध प्रचंरु ॥ परमाधामी रे

तेहनुं, शरीर करे शतखंरु ॥ की० ॥ ६ ॥ धीठो छेषी रे धर्मनो, करतो कर्म कुलंठ ॥ ताणी बांधे रे तेहने, उजो राखे रे ठंठ ॥ की० ॥ ७ ॥ न्हावण धोवण बहु कियां, ढोट्यां अणगल नीर ॥ रुबकी मारीने कोलियां, नदी सरोवर नीर ॥ की० ॥ ८ ॥ कूड कपट करी उलवी, परथापण धनराशि ॥ दइ विश्वासने वंचिया, सहे नरकमां रे त्रास ॥ की० ॥ ९ ॥ नदी वैतरणी रे नीरना, देखो दुष्ट स्वरूप ॥ रसी रुधिर ने रे पासनो, कलकलतो डहकूप ॥ की० ॥ १० ॥ बहु दुर्गंधि रे देखिने, आवे कांठे रे धाय ॥ नाखे पाठो रे साहिने, परमाधामी रे पाय ॥ की० ॥ ११ ॥ ताकी तीर कटारियां, आहमा साहमी रे खाय ॥ पाप कियां जव पाठवे, कोण ढोडावे रे आय ॥ की० ॥ १२ ॥ पूरववैर संबंधथी, करे परस्पर घात ॥ शस्त्र ऊडो ऊड मारता, रूपे जेसा किरात ॥ की० ॥ १३ ॥ परमाधामी रे बांधता, रूप करे विकराल ॥ रुसता रुचां रे फाडीने, संकट सबल विशाल ॥ की० ॥ १४ ॥ ठारे रमता रे हो लीणा, हसता पाणी रे ढोल ॥ परमाधामी रे तेहने, घणी उकावे रे रोल ॥ की० ॥ १५ ॥ तरुवा तेल उकाडीने, आणी कोप अपार ॥ पिचकारी जरिने रे ठांटवे, उपर नाखे रे खार ॥ की० ॥ १६ ॥ होली क्लेशनुं मूल ठे, लाजहीणा नर थाय ॥ बालक तो बोले खरा, पण मति बूढानी र जाय ॥ की० ॥ १७ ॥ मन मेलो रे मीठो मुखे, कूड कपटनो रे कोष ॥ पापकर्म पोते करे, करतां काढे न दोष ॥ की० ॥ १८ ॥ पाप कर्म विण जोगवे, बूटकवारो न थाय ॥ नर तुं शरण जिनधर्मनुं, लहे तो शिवसुख थाय ॥ की० ॥ १९ ॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ मोह्या मोह्या रे त्रिभुवन लोक, गुरुने बोलडिये ॥ ए देशी ॥ मोह्या मोह्या रे माय ने बाप ॥ कुमरने बोलडिये ॥ मोह्या मोह्या रे राणीने राय, सुतने बोलडिये ॥ ए आंकणी ॥ मृगापुत्र गुण आगरु रे, धर्म धुरंधर धीर रे ॥ चूप राणी प्रत्ये दाखवे रे, ज्ञान बली बड वीर ॥ कुं० ॥ १ ॥ नरकमांहि में जोगवी रे, घोर प्रचंरु प्रगाढ रे ॥ मनुष्यलोक तेहथी तिहां रे, अनंती वेदना जान ॥ कुं० ॥ २ ॥ रत्नचिंतामणि सारि खो रे, आदरशुं अम जोग रे ॥ जोग रोग सम उलख्या रे, दुर्लज्ज धर्म संयोग ॥ कुं० ॥ ३ ॥ मात पिता इम कुंवरने रे, चांखे वचन अनुकूल ॥

रे ॥ अनुमति ठे वत्स तुजने रे, पण संयम प्रतिकूल ॥ कु० ॥ ४ ॥ रोग
 दुःख पीडे तदा रे, कुण करशे तुज सार रे ॥ मुनिमारग घणो दोहिलो
 रे, जेसी खांमाधार ॥ कु० ॥ ५ ॥ वचन सुणी निज मातनां रे, मृगा
 पुत्र अजिराम रे ॥ तुम जेहवुं मुज ढाखियुं रे, तेहवुं संयम काम ॥
 कु० ॥ ६ ॥ मृग वनखंरु रहे सदा रे, कुण करे तेहनी सार रे ॥ तिम
 संयममारग विषे रे, विचरगुं अमें मनोहार ॥ कु० ॥ ७ ॥ रोग यदा
 मृगने हुवे रे, वसे तरुतल ठायं रे ॥ सुख हुवे विचरे सदा रे, कोण
 पूठे सुख त्यांय ॥ कु० ॥ ८ ॥ मृगचर्या तेहनी परे रे, चरगुं संयम
 मांय रे ॥ सुख दुःख आवे सम सहू रे, धर्म तरुनी ठायं ॥ कु० ॥ ९ ॥
 वचन सुणी निज जातनां रे, राय राणी तिण वार रे ॥ जाण्युं पुत्रनु दृढ
 पणुं रे, अनुमति दीधी सार ॥ कु० ॥ १० ॥ जिम थाये तिम सुख करो
 रे, सारो आतमकाज रे ॥ मूकी ममत्व संसारनुं रे, मांड्यो उत्सव
 साज ॥ कु० ॥ ११ ॥ जिम विषधर कंचुक तजे रे, तिम तजियो सव
 राग रे ॥ रेणु परें ऋद्धि तजीने, निकलीयो माहाजाग ॥ कु० ॥ १२ ॥
 मात पिता उत्सव करे रे, ऋद्धि महा विस्तार रे ॥ जय जय नटाढिक क
 हे रे, आतमने निस्तार ॥ कु० ॥ १३ ॥ स्तवीजतो जन मुखथकी रे, आ
 वयो नगर उद्यान रे ॥ लोच कस्यो निज करथकी रे, परम लीन शिवध्यान
 ॥ कु० ॥ १४ ॥ पंच महावत आदस्यां रे, मृगापुत्र अणगार रे ॥ पंच
 समिति त्रण गुप्तिमें रे, वसे निरंतर चार ॥ कु० ॥ १५ ॥ चरणकमल
 मुनिराजनां रे, नमि सहू सुख पावंत रे ॥ निज नगरी आव्या वली रे,
 नरेंद्र महिपति संत ॥ कु० ॥ १६ ॥

॥ ढाल दशमी ॥

॥ हारिे महारे जोवनियांनो लटको दाहाडा चार जो, नाणुं रे मलशे पण
 टाणुं नहिं मले रे लो ॥ ए देशी ॥ हारिे महारे मृगापुत्र ते मुनिगणसां
 शिरदार जो, विचरे रे महिमंरुल मुनिवर दीपतो रे लो ॥ हारिे महारे
 निर्मल ने निरहंकारी निःसंग जो, त्यक्तगारव सवि जीव उपर सम जात्र
 में रे लो ॥ १ ॥ हां० ॥ सुख दुःख ने लाज अलाज एकत्र जो, जीवि
 ताश मरणांत तणो जय नवि गणे रे लो ॥ हां० ॥ निंदा अने प्रशं
 सा मानापमान जो, सरखुं रे समजाव मुनि मन जावतो रे लो ॥ २ ॥

हां० ॥ मन दंरुादि विषय मिथ्यात्व निःशब्द जो, हास्य निदान अकिं
 चन बंधन शोचना रे लो ॥ हां० ॥ द्रव्य क्षेत्र समयादिक ज्ञाव विचार
 जो, नहिं प्रतिबंध अबंध किहांये मानसा रे लो ॥ ३ ॥ हां० ॥ इह लोका
 दिक सुख तणी नहिं आश जो, परलोकादिक ऋद्धि तणी बांठा नहीं रे
 लो ॥ हां० ॥ कल्प ते मुनिनो चंदनवासी समान जो, लाधे अशन
 अलाधे समजावे गिणे रे लो ॥ ४ ॥ हां० ॥ आश्रव मनथी दूर गयो
 अपसन्न जो, प्रशस्त ध्यान चढवे मन संवर स्थिर करे रे लो ॥ हां० ॥
 मेरु महीधर अचल महामुनि ध्यान जो, कायानी शुश्रूषा सहु ते पर
 हरी रे लो ॥ ५ ॥ हां० ॥ देव मनुष तिर्यचना परिसह जेह जो, अनुलोम
 अने पडिलोम उपने सम रहे रे लो ॥ हां० ॥ कांस्यपात्र द्रव्य द्रव्य
 ज्ञाव निर्लेप जो, शंख निरंजन जेम रागादिक नहिं लगे रे लो ॥ ६ ॥
 हां० ॥ गगनपरें आलंबन रहित मुनीश जो, वायुपरें प्रतिबंध नहिं कोइ
 देशमां रे लो ॥ हां० ॥ सायर सलिल समान हृदय अकलुष जो, कम
 लपत्र निर्लेप सजल ते नवि धरे रे लो ॥ ७ ॥ हां० ॥ कूर्मपरें गुप्तेन्द्रिय
 रहे निशि दीप्त जो, ज्ञारंरु जिम अप्रमत्त कुंजरसम शूर ठे रे लो
 ॥ हां० ॥ वृषज परें व्रतजार वहे बलवंत जो, सिंहपरें महा धीर वीर
 परिसह सहे रे लो ॥ ८ ॥ हां० ॥ मेरु जेम अकंप उदधि गंजीर जो,
 चंद्रलेश्या तेजोलेश्या सूर्य परें तपे रे लो ॥ हां० ॥ वसुंधरा द्रव्य
 फरस सहे वड धीर जो, हूताशन जेम दीप्त तपे करी दीपतो रे लो
 ॥ ९ ॥ हां० ॥ अनुत्तर दर्शन ज्ञान चारित्र जेह जो, चढियो रे परिणा
 में कृपक श्रेणिये रे लो ॥ हां० ॥ घाती कर्मनां तोड्यां ठे आवरण जो,
 उपन्यो रे ते केवलज्ञान दिवाकरू रे लो ॥ १० ॥ हां० ॥ देव मलीने
 रचना कमल तणी कीध जो, मृगाकृषि कमलासन वेशी उपदिसे रे
 लो ॥ हां० ॥ धर्मदेशना जविककमल मनोहार जो, तारे रे जव
 पुष्करिणीथी बूडता रे लो ॥ ११ ॥ हां० ॥ देखे केवल दर्शन
 लोक स्वरूप जो, तेम प्ररूपे जविक मैत्रिजावे करी रे लो ॥ हां० ॥
 बहु वरप लगे महियल कीध पावन जो, अंतसमे गुणी संलेपणा विधि
 जुं करी रे लो ॥ १२ ॥ हां० ॥ एक मासनुं अणसण कीधुं महंत जो,
 पूरण आयु करीने शिवसुंदरी वख्यो रे लो ॥ हां० ॥ जन्म मरणनां

वेद्यां दुःख अनंत जो, नमो नमो मृगापुत्र मुनिश्वर सिद्धने रे लो ॥
 १३ ॥ हां० ॥ देश गुर्जरमें महुधा नगरसुवास जो, श्रावक लोक वसे ति
 हां सुंदर दीपता रे लो ॥ हां० ॥ प्रथम जिनेश्वर दर्शन अति मनोहार
 जो, शाल उगणीशनी एकवीशें जिन जेटिया रे लोल ॥ १४ ॥ हां० ॥
 मृगापुत्र मुनिराज तणी सद्याय जो, पूरण कीधी चोमासैं उद्धासशु रे
 लो ॥ हां० ॥ उत्तराध्यायने उगणीशमे विस्तार जो, सक्षेपे गुण स्तविया
 मुनि नरेंद्रना रे लो ॥ १५ ॥ इति मृगापुत्र सद्याय संपूर्णः ॥

॥ अथ सपरिकर श्रीखंधकरूपिनी सद्याय प्रारम्भः ॥

॥ दोहा ॥

॥ श्री सुव्रत जिनवर नमुं, चरणयुगल कर जोडि ॥ सावन्नीपुर शो
 जतुं, अरि सत्रवा बल तोड ॥ १ ॥ जितशत्रु महिपति तिहां, धारणी
 नामे नार ॥ गौरी ईश्वर सूनु सम, खंधक नामे कुमार ॥ २ ॥ स्वसा पुरंद
 रा मनहरू, रूपें जीत्यो अनंग ॥ दिनकर इंद्रु जतरी, वसिया अंगोपांग
 ॥ ३ ॥ कुंजकार नयरी जली, दंरुक राय वरिठ ॥ जीव अन्नव्यनो दुष्टधि,
 पालक मात्य कुदिष्ठ ॥ ४ ॥ मात पिता सवि मलि करी. पुरंदर कन्या जेह
 ॥ आपी दंरुकरायने, पामी रूपनो वेह ॥ ५ ॥ एक दिन विहरंतां प्रचु,
 सावन्नी उद्यान ॥ विशमा जवि पडिवोहता, समोसस्या जिनजाण ॥ ६ ॥
 सुणि आगम खंधक विचु, नमे जगवंतने आय ॥ सुणी देशना दर्शन ल
 ही, निज निज स्थानक जाय ॥ ७ ॥ कुंजकार नयराथकी, कोष्क रायने
 काज ॥ पालक सावन्नी जणी, आव्यो सजाथें राज ॥ ८ ॥ पालक बोले सा
 धुना, अबगुणनो जंमार ॥ निसुणी खंधक तेहने, शिक्षा दीधी लगार ॥
 ९ ॥ पालक खंधक उपरें, थयो ते क्रोधातूर ॥ पढी ते निजस्थानक गयो,
 दंरुकरायने पूर ॥ १० ॥ एहवे मुनि सुव्रत कने, नमि खंधक लिये व्रत ॥
 पंचशत नरनी संगतें, बहुल कखुं सुकृत ॥ ११ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ विचरता गामो गाम ॥ ए देशी ॥ खंधक साधु विचार, आपे वांचना
 सार ॥ आज हो एक दिन पूठे सुव्रतनें जी ॥ १ ॥ स्वामी साधु सवेष,
 जाड बहेनने देश ॥ आण ॥ जो प्रचुजी आज्ञा हुवे ही ॥ २ ॥ कहे
 जन साधु सर्व, मरणांत होशे उपसर्ग ॥ आण ॥ निसुणी खंधक वीनवे

जी ॥ ३ ॥ न जीवित अम दुःख, सहेशुं मोक्षनां सुख ॥ आ० ॥ लोक
 लायक अमे पामशुं जी ॥ ४ ॥ स्वामी कहे तेवार, तुज विना सब परिवार
 ॥ आ० ॥ दुःखित ते बहु थायशे जी ॥ ५ ॥ ते सुणी मुनि पंचशत, सह
 चाट्यो नूरे आदित्त ॥ आ० ॥ अनुक्रमे नयरी पामियो जी ॥ ६ ॥ पूरव
 वैर संजार, गोपव्या सहस हथियार ॥ आ० ॥ पालके ते ऊट गहनमां
 जी ॥ ७ ॥ उठ तुं वांदवा काज, जांखे अमात्य माहाराज ॥ आ० ॥ कां तुज
 धारणा किहां गई जी ॥ ८ ॥ पांचशें सुजटने साज, लेवा आव्यो ते राज
 ॥ आ० ॥ वेष धरी साधुतणा जी ॥ ९ ॥ अतिक्रूर ते सशस्त्र, वांदवा जाइ
 श तत्र ॥ आ० ॥ हणी लुज लेशे राजने जी ॥ १० ॥ जोवा आवे राय,
 शस्त्रनी धोरणी वताय ॥ आ० ॥ घालके कपट केलव्यां जी ॥ ११ ॥

॥ दोहा ॥

॥ देखी चिंते राजियो, ऋधे दीसे तप्त ॥ सर्व यति घन बांधीने, सों
 प्या पालक गुप्त ॥ १ ॥ कहे राजा मंत्रीवरू, जे रूचे ते धार ॥ हरख्यो
 पालक पामीने, उंदर जिम मांजार ॥ २ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ कूकड देखी कुंरुने ॥ मन मान्यो लाल ॥ ए देशी ॥ तव पालक सु
 ख पामतो ॥ प्रचु ध्यात्रो लाल ॥ लावे घाणी समीप रे ॥ प्र० ॥ कुवचनने
 ते बोलतो ॥ प्र० ॥ पीलिश यंत्र तनुदीप रे ॥ प्र० ॥ १ ॥ कहे ठे ते मंत्री
 श्वरु ॥ प्र० ॥ एकेक श्रमणने यंत्र रे ॥ प्र० ॥ घाली घाली पीलतो ॥ प्र०
 ॥ माठी बुद्धि अच्यंत्र रे ॥ प्र० ॥ २ ॥ खंधक शिष्यने पीलतां ॥ प्र०
 ॥ देखी दाजे देह ॥ प्र० ॥ पालके खंधक निर्विहृथी ॥ प्र० ॥ बांध्यो
 घाणिये तेह रे ॥ प्र० ॥ ३ ॥ ते साधुना उठवे ॥ प्र० ॥ रुधिर केरा विं
 डु रे ॥ प्र० ॥ पापने देखी अंबरे ॥ प्र० ॥ कंपे सूरज चंद्र रे ॥ प्र० ॥ ४ ॥
 खंधक तो मन लेखवे ॥ प्र० ॥ ते अमृतरस विंडु रे ॥ प्र० ॥ दुःकृत दे
 खी सुरनरा ॥ प्र० ॥ थर थर कंपे इंद्र रे ॥ प्र० ॥ ५ ॥ शातावचने शि
 ष्यने ॥ प्र० ॥ निर्यामे शमतावंत रे ॥ प्र० ॥ जीव ते शरीरथी जिन
 ठे ॥ प्र० ॥ धरशो नहिं दुःख संतर रे ॥ प्र० ॥ ६ ॥ ए उपसर्गने पा
 मिया ॥ प्र० ॥ ते कृत पूरव कर्म ॥ प्र० ॥ सुख कारण ए जोगवो ॥
 प्र० ॥ कोइ न करशो गर्व रे ॥ प्र० ॥ ७ ॥ निर्ममत्व मन जेहनां ॥

प्र० ॥ निर्यामें सद्गवंत रे ॥ प्र० ॥ जिम जिम पीले पापियो ॥ प्र० ॥
 तिम तिम शमतावंत रे ॥ प्र० ॥ ७ ॥ उज्ज्वल ध्यानने ध्यावतां ॥ प्र० ॥
 पामे केवल तुर्त्त रे ॥ प्र० ॥ एम ते मंत्रीये हण्या ॥ प्र० ॥ मुनि द्विजन
 पंचशत्त रे ॥ प्र० ॥ ए ॥ खंधक बोले बाल ए ॥ प्र० ॥ देखी दुःख न ख
 माय रे ॥ प्र० ॥ ते कारण मुक्त प्रथम तुं ॥ प्र० ॥ हृष्य पठी एहनी काय
 रे ॥ प्र० ॥ १० ॥ पापी पालक सांचली ॥ प्र० ॥ देवाने घणुं दुःख रे ॥
 प्र० ॥ गुरु देखतां शीघ्रपणे ॥ प्र० ॥ पीले पालक मन सुख रे ॥ प्र० ॥
 ११ ॥ केवल पामी सोदने ॥ प्र० ॥ वरियो बालक शिष्य रे ॥ प्र० ॥ दे
 खी खंधक सूरिवरा ॥ प्र० ॥ करे न कटपांत मुनिश रे ॥ प्र० ॥ १२ ॥

॥ दोहा ॥

॥ लिखित ज्ञाव टले नहिं, चले यदी जो ध्रुव ॥ कर्मरेखा अपि नवि
 टले, कहे वितराग ए ध्रुव ॥ १ ॥

॥ बाल त्रीजी ॥

॥ बालक महारे वचनेन रे, न राख्यो क्लृणमात्र ॥ कर्मनी जुवो गतिरे ॥
 विपरित ठे किरतार ॥ क० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ सपरिकर मुक्त शिष्यनेरे, मा
 ह्या एणें दुष्ट ॥ क० ॥ राजा हणवो मत्रिने रे, चरियो कोपे कष्ट ॥ क० ॥ १॥
 जो ते फल मुजने दुवे रे, तो दाहक करणार ॥ क० ॥ आज्यो जव मुक्त
 आवते रे, नीयाणुं करुं रे प्यार ॥ क० ॥ ३ ॥ तव श्रुत खंधक मुनिवरा रे,
 हुआ अग्निकुमार ॥ क० ॥ वात सुणी इम चितवे रे, पुरंदरयशा नार ॥ क०
 ॥ ४ ॥ उधो खरळ्यो रक्तथी रे, जाणी जहने हेत ॥ क० ॥ अंबर चडिय
 गृध्र चंचथी रे, पडियो स्वसा ठे जेत ॥ क० ॥ ५ ॥ रजोहरण ते उल
 खी रे, निज ज्ञाननो ते जाण ॥ क० ॥ ए शुं कीधुं कारिमुं रे, राजा पापी
 अजाण ॥ क० ॥ ६ ॥ व्रत ग्रही परलोक साधियो रे, पुरंदरयशा देवि
 ॥ क० ॥ अवधियें जाणी करी, अग्रिममृत्यु सचिव ॥ क० ॥ ७ ॥ दंभक रा
 यनो देश जे, कहे प्रचंन गणधार ॥ क० ॥ (उतराध्ययने द्वितीयमें रे)
 एके ऊणा पांचशें रे, परिसह सहे तिहां सार ॥ क० ॥ ८ ॥

॥ कलस ॥

॥ वध परिसह रुषियें खम्या, गुरु खंधक जेम ए ॥ शिव सुख चाहो
 जो जंतुआ तव, करशो कोप न एम ए ॥ संवत सप्त मुनीश्वरे, वसु चद्र

(११७७) वर्षे पोष ए॥मास षष्ठी प्रेमरामे, ऋषभविजय जग ज्ञांख ए ॥१॥

॥ अथ वैराग्यसञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ एक घरे घोडा हाथिया जी, पायक संख्या न पार ॥ महोटां मंदिर
मालियां जी, विश्वतणो आधार रे ॥१॥ जीवडा दीधानां फल होय ॥ ए
आंकणी ॥ विण दीधे केम पामिये जी, हियडे विमासी जोय रे ॥जी०॥
दी० ॥१॥ ज्ञरियाने सहुको जरे जी, बूठा वरसे रे मेह ॥ सुखियानां सहु
को सगां जी, दुःखियाशुं नहिं नेह रे ॥ जी० ॥ दी० ॥ ३ ॥ वे नर साथे
जनमिया जी, एवडो अंतर कांय ॥ एक माथे मूली वहे जी, एकतणे घेर
राज रे ॥ जी० ॥ दी० ॥४॥ एक सुखिया दीसे सदा जी, दुःखिया दीसे
एक ॥ सुखदुःख वेहु आंतरुं जी, पुण्यतणे प्रमाण रे ॥ जी० ॥ दी० ॥५॥
सेव सुंहाली सालणां जी, जोजन कूर कपूर ॥ कुकस वाकस ढोकलां जी,
ते नहिं पेटह पूर रे ॥ जी० ॥ दी० ॥ ६ ॥ आंगण आगल मलपती जी,
मीठा बोली रे नार ॥ एक घरे काली कावली जी, को न चढे घरवार रे
॥ जी० ॥ दी० ॥७॥ एक घरे वेटा सुंदरु जी, राखे घरनां सूत्र ॥ एक नर
दीसे वांजिया जी, एक कुल खंपण पुत्र रे ॥ जी० ॥ दी० ॥८॥ एक चढे
घोडे हांसले जी, आगल एक उजाय ॥ एक नर पोढे पालखी जी, एक
उंलांसे पाय रे ॥ जी० ॥ दी० ॥ ९ ॥ पाय पटोलां चांपता जी, पहेरण
जाक जमाल ॥ एकतणे नहिं उंढणुं जी, पहेरवा तो नहिं पोत रे ॥ जी०
॥ दी० ॥१०॥ एक बहुमांहि बोलाविये जी, चोमांहे चोसाल ॥ एक नाम
नव जाणिये जी, जो जायो जगपाल रे ॥ जी० ॥ दी० ॥११॥ पात्र कुपात्रे
आंतरो जी, जुठ करीय विचार ॥ शालीज्जद्र सुख जोगवे जी, पात्रतणे
अनुसार रे ॥ जी० ॥ दी० ॥ १२ ॥ दत्त विण गर्वीं ते घेहलो जी, नव त
रीये परलोक ॥ जेम दीठो जल पोपियो जी, घडिमां थाये फोक रे ॥
जी० ॥ दी० ॥ १३ ॥ राग न कीजे रोप न कीजे, वली नवि दीजे टोप ॥
जो करे वाव्या कोदस्या जी, तो केम लणिये शाल रे ॥ जी० ॥ दी० ॥
१४ ॥ आण न खंके जिनतणी जी, ढमके ढोल निशान ॥ मुनि लावण्य
समय जणे जी, प्रत्यक्ष पुण्य प्रमाण रे ॥ जी० ॥ दी० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ पांच पांशुवनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ हस्तीनागपुर वर ज्ञुं, तिहां राजा पाशुं सार रे ॥ तस गृहिणी कुंती

सती, वली माझी वीजी नारी रे ॥ वली माझी वीजी नारी रे ॥१॥ पांमव
 पांचे वांदतां मन मोहे रे, मन मोहे मोहनबेलि ॥ त्रिजगमांहे दीपता
 अति सोहे ॥ ए आंकणी ॥ त्रण पांमव जया कुंतिना, माझिना पांमव
 दोय रे ॥ पंच सहोदर सारिखा, नलकूवर सारिखा होय रे ॥ नलकू० ॥
 पां० ॥१॥ एक दिन थित्रिर पधारिया, पांच बांधव वांदवा जाय रे ॥ टे
 शना सुणि मन गहगह्या, जाइ समय जाय ठे आय रे ॥ जाइ० ॥ पां० ॥
 ३ ॥ जिनवर चक्रवर्ती जे हुआ, स्थिर न रह्या कोइ देव चूप रे ॥ तन धन
 सहु सुहणां समां, संसारनुं विषमुं स्वरूप रे ॥ संसा० ॥ पां० ॥४॥ संसार
 मांहे पलेवडु, लागुं ते केम उलाय रे ॥ जिनवर वाणी सिचतां, आपणां
 जव जवनां दुःख जाय रे ॥ आ० ॥ पां० ॥ ५ ॥ पांमव पांचे विचारियुं,
 आपण लेशुं संयम जार रे ॥ पुत्रने राज आपी करी, झोपदीशुं करे रे
 विचार रे ॥ झोपदी० ॥ पां० ॥ ६ ॥ झोपदी वलतुं एम कहे, अमें मेलशुं
 संसारनो पास रे ॥ कंत विना शी कामिनी, मुऊ जलो नहिं घरवास रे ॥
 मुऊ० ॥ पां० ॥ ७ ॥ पांचे आवी गुरुने कहे, अमें लेहशुं संयम जार रे ॥
 मानव जव अति दोहिलो, वलि पाळवो समय सार रे ॥ व० ॥ पां० ॥ ८
 ॥ गुरु कहे पांमव सुणो, तमे राजपुत्र सुकुमार रे ॥ चारित्र पंथ अति दो
 हिलो, तमे केम सहेशो चूपाल रे ॥ तमे० ॥ पां० ॥ ९ ॥ घर घर जिद्दा
 मागवी, वली हींरुवुं घर घर बार रे ॥ पाय अणुवाणे चाळवुं, वलि चाळ
 वुं खांकाधार रे ॥ वलि० ॥ पां० ॥ १० ॥ संयस मारग आदरे, ऋषि पाळे
 निरतिचार रे ॥ दोष बेहेंतालीश टालता, साधु ले ठे शुऊ आहार रे ॥
 साधु० ॥ पां० ॥ ११ ॥ तप तपे अति आकरां, मासखमण मन रंग रे ॥
 जिण लगि नेमि वांदियें, अजिग्रह कख्यो मन चंग रे ॥ अजि० ॥ पां०
 ॥ १२ ॥ हस्तिनागपुर पधारिया, पारणानो दिवस ते जाण रे ॥ नगर क
 रतां गोचरी, सुण्युं नेमितणुं निर्वाण रे ॥ सुण्युं० ॥ पां० ॥ १३ ॥ आ
 हार वोहख्यो ते लेइ वढ्या, आव्या निज गुरुनी पास रे ॥ गुरुने कहे
 अमें सांचदयुं, नेमिजी प्होता शिवपुरवास रे ॥ नेमि० ॥ पां० ॥ १४ ॥
 अम मनोरथ मनमां रह्या, नवि प्होता गढ गिरनार रे ॥ आहार लेवो
 जुगतो नहिं, अमोने अणसण सार रे ॥ अ० ॥ पां० ॥ १५ ॥ मास
 खमणनुं पारणुं, नवि कीधुं मुनिवर कोय रे ॥ आहार परठव्यो कुंज

शालें, पांचे चढ्या विमलगिरि सोय रे ॥ पांचे० ॥ पां० ॥ १६ ॥ तिहां ज
इ अणसण अनुसुखुं, पादोपगमन सार रे ॥ शिला उपर संघारडो, ऋषि
पोढ्या जिम वृद्धमाल रे ॥ ऋषि० ॥ पां० ॥ १७ ॥ दोय मासनी संलेपणा,
अंते पाभ्या केवल सार रे ॥ पांरुव पांच मुक्तें गया, तव हुवो जय जय
कार रे ॥ त० ॥ पां० ॥ १८ ॥ श्री हीरविजय सूरि राजियो, तपगह उ
द्योतकार रे ॥ कर जोडी कवि नाको ज्ञणे, मुऊ आवागमण निवार रे ॥
मुऊ० ॥ पां० ॥ १९ ॥ इति ॥

॥ अथ रूपविजयजी कृत श्री शूलिचद्र प्रथम सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ आवो मोख्यो हे आंगणे, परिसल पुहवी न माय ॥ पासे फूली हे के
तकी, त्रमर रह्यो हे बुजाय ॥ आं० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ आवो शूली
जडवालहा, लाठलदेना हो नंद ॥ तुमशुं मुऊ मन मोहियुं, जिम सायर
ने चंद ॥ आं० ॥ २ ॥ सुगुणासाथे हो प्रीतडी, दिन दिन अधिकी हो
थाय ॥ वेठो रंग मजीठनो, कदीये चटक न जाय ॥ आं० ॥ ३ ॥ नेह
विहूणा के माणसा, जेहवां आवल फूल ॥ दीसंतां रलीयामणां, पण न
वि पासे हे मूढ्य ॥ आं० ॥ ४ ॥ कोयलडी टहुका करे, आंचे लेके रे लुंव
॥ शूलिचद्र सुरतरु सरिखो, कोश्या कणयर कंव ॥ आं० ॥ ५ ॥ शूलिच
डे कोश्याने बूजवी, दीधो समकित सार ॥ रूपविजय कहे शीलथी, ल
हिये सुख अपार ॥ आं० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री रूपविजयजी कृत श्रीशूलिचद्र द्वितीय सञ्चय प्रारंभः ॥

॥ श्री शूलिचद्र मुनिगणमां शिरदार जो, चोमासे आव्या कोश्या आ
गार जो ॥ चित्रासण शालीये तप जप आदस्यां जो ॥ १ ॥ आटरियां
व्रत आव्या ठे अम गेह जो, सुंदरी सुंदर चंपकवरणी देह जो ॥ हम तु
म सरिखो मेलो आ संसारमां जो ॥ २ ॥ संसारे में जोयुं सकल स्वरूप
जो, दर्पणनी ठायामां जेवुं रूप जो ॥ स्वभानी सुखडली चूख जांगे नहीं
जो ॥ ३ ॥ ना कहेशो तो नाटक करशुं आज जो, वार वरसनी माया ठे
मुनिराज जो ॥ ते ठोडी हुं जाठं केम आगा जरी जो ॥ ४ ॥ आशा न
रियो चेतन काळ अनादि जो, जसियो धर्मने हीण थयो परवादी जो ॥
न जाणी में सुखनी करणी योगनी जो ॥ ५ ॥ जोगी तो जंगलमां वासो
वसिया जो, वेश्याने मंदिरीये नोजन रसिया जो ॥ तुमने दीठा एवा संयम

साधता जो ॥ ६ ॥ साधुशुं संयम इहारोध विचारी जो, कुरमापुत्र यया
 नाणी घरवारी जो, पाणीमाहे कोरुं पंकज जाणीये जो ॥ ७ ॥ जाणीये
 तो सधली तुमारी वात जो, मेवा मीठा रसवंता बहु जान जो, अमर
 शूपण नव नवली जातें लावता जो ॥ ८ ॥ लावता तो तुं देती आठर
 मान जो, काया जाणुं पतंगरंग समान जो, ठालीने शी करवी एवी प्रीत
 डी जो ॥ ९ ॥ प्रीतलडी करता ते रंगजर सेज जो, रमता ने देखाडंता वणु
 हेत जो, रीषाणी मनावी मुजने सांजरे जो ॥ १० ॥ सांजरे तो मुनिवर
 मनडुं वाळे जो, ढांको अग्नि उघाळ्यो परजाले जो, संयममांहे ए ठे दूपण
 मोटकुं जो ॥ ११ ॥ मोटकुं आव्युं तुं नंदनुं तेडुं जो, जातां न वहे कांड
 तुमारुं मनडु जो, में तुमने तिहां कोल करीने मोकळ्या जो ॥ १२ ॥
 मोकळ्या तो मारगमांहे मलिया जो, संभूति आचारिज ज्ञानें वडीयाजो,
 संयम दीधुं समकित तेणे शीखव्युं जो ॥ १३ ॥ शीखव्युं तो कहि देखाडो
 अमने जो, धर्म करंतां पुण्य वडेरुं तुमने जो ॥ समताने घेर आवी
 वेश्या एम वदे जो ॥ १४ ॥ वदे मुनीश्वर शंकाने परिहार जो, समकित
 मूले श्रावकनां व्रत वार जो ॥ प्राणातिपातादिक स्थूलथी उच्चरे जो
 ॥ १५ ॥ उच्चरे तो वीत्युं ठे चोमासु जो, आणा लइन आव्या गुरुनी
 पासे जो ॥ श्रुतनाणी कहेवाणा चउदे पूरवी जो ॥ १६ ॥ पूरवी थडने
 ताच्या प्राणी थोक जो, उज्ज्वल ध्यानें ते गयां देवलोक जो, ऋपच कहे
 नित्य तेने करीये वंदना जो ॥ १७ ॥ इति ॥

॥ श्रीहामाकल्याणजीकृत श्रीशूलिचक्र तृतीय सहाय प्रारभ्यते ॥

॥ तीरथ ते नमुं रे ॥ ए देशी ॥ श्री महावीर जिनेसरु ॥ त्रिचुवन
 गुरुजी ॥ तसु अछम पटधर ॥ श्री शूलिचक्र नमो ॥ १ ॥ पाऊलीपुर सो
 हामणुं, महिमंरुणुं जी ॥ तिहां पायो अवतार ॥ श्री ० ॥ २ ॥ नंद नरिं
 द मंत्रीश्वरु, गुण आगरु जी ॥ श्री सकराल सुपुत्र ॥ श्री ० ॥ ३ ॥ लाठ
 लदे नंदन जलो, मुनि गुणनिखो जी ॥ नागरछिज कुलदीप ॥ श्री ० ॥
 ४ ॥ श्री संभूतिविजय गुरु, पूरव धरु जी ॥ व्रत लीधां तसु पास ॥ श्री ०
 ॥ ५ ॥ कोश्या वेश्या प्रतिबोधवे, सजुरु तवे जी ॥ डुकर डुकरकार ॥ श्री ०
 ॥ ६ ॥ चौद पूरव शिष्यो मली, श्रुत केवली जी ॥ श्री चक्रबाहुसमीपा ॥ श्री ०
 ॥ ७ ॥ संयम पाढ्यो निर्मलो, त्रिविधें जलो जी ॥ जंगम युग प्रधान ॥ श्री ० ॥

॥ ७ ॥ पंच मास पंच दिन सही, ऊपर कही जी ॥ वरस नवाणुं आप ॥
श्री० ॥ ए ॥ करि अणसण आराधना, शुभवासना जी ॥ पहोता स्वर्ग म
जार ॥ श्री० ॥ १० ॥ चुलसी चोवीशी लगें, जस जगमगो जी ॥ रहेशे
जेनुं नाम ॥ श्री० ॥ ११ ॥ वसु युग वसु चंद्र, वत्सरे (१७१७) पारुलीपुरे
जी ॥ जसु पद थापना कीध ॥ श्री० ॥ १२ ॥ वाचक अमृत धर्मनो, शु
णे शुभमनो जी ॥ शिष्य कृमाकट्याण ॥ श्री० ॥ १३ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री देवचंद्रजी कृत अष्ट प्रवचनमातानी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुकृत कटपतरुश्रेणिनी, वर उत्तर कुरु ज्ञोमि ॥ अध्यात्म रस श
शिकला, श्रीजिनवाणी नौमि ॥ १ ॥ दीपचंद्र पाठक सुगुरु, पय वंदी अ
वदात ॥ सार श्रमणगुणज्ञावना, गाशुं प्रवचनमात ॥ २ ॥ जननी पुत्र जिम
शुभकरी, तिम ए पवयणमाय ॥ चारित्र गुणगणवर्द्धिनी, निर्मल शिवसुख
दाय ॥ ३ ॥ ज्ञाव अयोगी करण रुचि, मुनिवर गुप्ति धरंत ॥ यदि गुप्ति जो
न रहि शके, तो समिति विचरंत ॥ ४ ॥ गुप्ति एक संवरमयी, औठरंगिक परि
णाम ॥ संवर निर्जरसमितिथी, अपवादे गुणधाम ॥ ५ ॥ द्रव्ये द्रव्यत चर
णता, ज्ञावे ज्ञावचरित ॥ ज्ञावदृष्टि द्रव्यत क्रिया, करतां शिवसंपत्ता ॥ ६ ॥
आत्मगुण प्राग्ज्ञावथी, जे साधक परिणाम ॥ समिति गुप्ति ते जिन कहे,
साध्य सिद्धि शिवठाम ॥ ७ ॥ निश्चय करण रुचि यद्, समिति गुप्ति धर साधि
॥ परम अहिंसकज्ञावथी, आराधे निरुपाधि ॥ ८ ॥ परम महोदय साधवा,
जेह थया उजमाल ॥ श्रमण जिह्नु माहण यति, गांभ तस गुणमाल ॥ ९ ॥

॥ अथ प्रथम ईर्यासमिति सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ प्रथम गोवालातणे जवें जी ॥ ए देशी ॥ प्रथम अहिंसक व्रततणी
जी, उत्तम ज्ञावना एह ॥ संवर कारण उपदिशी जी, समतारसगुण गेह
॥ मुनीश्वर, ईर्यासमिति संज्ञार ॥ आश्रव कर तनुयोगथी जी, दुष्टचपल
तावार ॥ मु० ॥ ई० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ कायगुप्ति उत्सर्गनो जी, प्रथम समिति
अपवाद ॥ ईर्या ते जे चालवुं जी, धरि आगमविधि वाद ॥ मु० ॥ ई० ॥ २ ॥ ज्ञा
न ध्यान सञ्चायमें जी, स्थिर वेठा मुनिराज ॥ शाने चपलपणुं करे जी, अ
नुभव रस सुखराज ॥ मु० ॥ ई० ॥ ३ ॥ मुनि उठे वसहीथकी जी, पामी कार
ण चार ॥ जिनवंदन ग्रामांतरे जी, के आहार निहार ॥ मु० ॥ ई० ॥ ४ ॥

परम चरण संवरधरु जी, सर्वजाण जिन दिठ ॥ शुचिसमता रुचि ऊप
जे जी, तिणे मुनिने ए इठ ॥ मु० ॥ ई० ॥ ५ ॥ राग वधे स्थिरज्ञावधी जी,
ज्ञान विना परमाद ॥ वीतरागता ईहता जी, विचरे मुनि साब्हाद ॥
मु० ॥ ई० ॥ ६ ॥ ए शरीर जवमूल ठे जी, तसु पोषक आहार ॥ जाव योगी
नवि हुवे जी, तां अनादि आचार ॥ मु० ॥ ई० ॥ ७ ॥ कवलाहारें निहार ठे
जी, एह अंगव्यवहार ॥ धन्य अतनुपरमातमा जी, जिहां निश्चलता सार
॥ मु० ॥ ई० ॥ ८ ॥ परपरिणति कृत चपलता जी, केम मूकशे एह ॥ एम वि
चारी कारणें जी, करे गोचरी तेह ॥ मु० ॥ ई० ॥ ९ ॥ कामावंत दयालुआ जी,
निःस्पृह तनुनीराग ॥ नीरविषे गजगति परें जी, विचरे मुनि महाजाग
मु० ॥ ई० ॥ १० ॥ परमानंदरस अनुभव्या जी, निजगुणरमता धीर ॥ देव
चंद्र मुनि वंदतां जी, लहीयें जवजल तीर ॥ मु० ॥ ई० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ द्वितीय जाषासमिति सव्वाय प्रारंभः ॥

॥ ज्ञावनामावती चूशीयें ॥ ए देशी ॥ साधुजी समिति वीजी आदरो,
वचन निर्दोष परकाश रे ॥ गुप्ति उत्सर्गनो समिति ते, मार्ग अपवाद सु
विलास रे ॥ सा० ॥ ए आंकणी ॥ ज्ञावना वीजी महावत तणी, जिन
जणी सत्यता मूल रे ॥ जाव अहिंसकता वधे, सर्वसंवर अनुकूल रे ॥ सा०
॥ १ ॥ मौनधारी मुनि नवि वहे, वचन जे आश्रव गेह रे ॥ आचरण
ज्ञानने ध्याननो, साधक उपदिसे तेह रे ॥ सा० ॥ ३ ॥ उदित पर्याप्ति
जे वचननी, ते करि श्रुत अनुसार रे ॥ बोध प्राग्ज्ञाव सव्वायधी, वलि
करे जगत उपकार रे ॥ सा० ॥ ४ ॥ साधुनिजवीर्यधी परतणो, नवि करे अ
हण ने त्याग रे ॥ ते जणी वचन गुप्ति रहे, एह उत्सर्ग मुनिमार्ग रे ॥
सा० ॥ ५ ॥ योग जे आश्रवपद हतो, ते कस्यो निर्जरारूप रे ॥ खोहधी
कंचन मुनि करे, साधता साध्य चिद्रूप रे ॥ सा० ॥ ६ ॥ आत्महित पर
हितकारणें, आदरे पांच सव्वाय रे ॥ ते जणी अशन वसनादिका, आ
श्रय सर्व अववाय रे ॥ सा० ॥ ७ ॥ जिनगुणस्तवन निज तत्त्वने, जोड्वा

ए ॥ सूत्र ने अर्थ अनुयोग ए, बीय नियुक्ति संजुत्त रे ॥ तीय ज्ञाप्ये नयें
 ज्ञावियो, मुनि वदे वचन एम तंत रे ॥ सा० ॥ १० ॥ ज्ञानसमुद्र समता
 ज्ञाया, संवरी दयाजंकार रे ॥ तत्त्व आनंद आस्वादता, वंदियें चरणगुण
 धार रे ॥ सा० ॥ ११ ॥ मोह उदयें अमोही जेहवा, शुद्ध निज साध्य
 लय लीन रे ॥ देवचंद तेह मुनि वंदियें, ज्ञान अमृतरस पीन रे ॥ सा० ॥

॥ अथ तृतीय एषणासमिति सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ जांजरीया मुनिवर ॥ धन्य० ॥ ए देशी ॥ समिति तीसरी एषणा
 जी, पांच माहाव्रत मूल ॥ अनाहारी उत्सर्गनो जी, ए अपवादी अमूल
 ॥१॥ मनमोहन मुनिवर, समिति सदा चित्त धार ॥ ए आंकणी ॥ चेतन
 ता चेतन तणा जी, नवि परसंगी तेह ॥ तिण परसन मुख नवि करे
 जी, आतमरति वती जेह ॥ म० ॥ स० ॥ १ ॥ काययोग पुज्जले ग्रहे
 जी, एह न आतम धर्म ॥ जाणंग करता जोगता जी, हुं माहरो ए मर्भ
 ॥ म० ॥ स० ॥ ३॥ अनजिसंधि चलवीर्यनो जी, सेधकशक्ति अज्ञाव ॥ पण
 अजिसंधी जे वीर्यथी जी, केम ग्रहे परज्ञाव ॥ म० ॥ स० ॥ ४ ॥ इम परत्या
 गी संवरी जी, न ग्रहे पुज्जल खंध ॥ साधक कारण राखवा जी, अशना
 दिक संबंध ॥ म० ॥ स० ॥ ५ ॥ आतमतत्त्व अनंतता जी, ज्ञानविना न जणा
 य ॥ तेह प्रगट करवा ज्ञणी जी, श्रुत सञ्चाय उपाय ॥ म० ॥ स० ॥ ६ ॥ तेह
 देहथी देहराह जी, आहारें बलवान ॥ साध्य अधूरे हेतुनें जी, केम तजे
 गुणवान ॥ म० ॥ स० ॥ ७ ॥ तनुअनुयायी वीर्यनो जी, वर्तन अशन संजोग ॥
 वृद्ध यष्टि सम जाणिने जी, अशनादिक उपजोग ॥ म० ॥ स० ॥ ८ ॥ ज्यां
 साधकता नवि अडे जी, तो न ग्रहे आहार ॥ बाधक परिणति वारवा
 जी, अशनादिक उपचार ॥ म० ॥ स० ॥ ९ ॥ सुडतालीशे डव्यना जी, दोष
 तजी नीराग ॥ असंत्रांत मूर्खा विना जी, ज्रम परें वड जाग ॥ म० ॥ म० ॥
 ॥ १० ॥ तत्त्वरुचि तत्त्वाश्रयी जी, तत्त्वरसीव निर्ग्रथ ॥ कर्म उदयें आहार
 ता जी, मुनि माने पली पंथ ॥ म० ॥ स० ॥ ११ ॥ लाजथकी पण घन छहे
 जी, अतिनिर्जरा करंत ॥ पाम्ये अणव्यापकपणे जी, निर्मल संत महंत
 ॥ म० ॥ स० ॥ १२ ॥ अणाहारता साधता जी, समता अमृतकंद ॥ जिहु अम
 ण वाचंयमी जी, ते वंदे देवचंद ॥ म० ॥ स० ॥ १३ ॥ इति ॥

॥ अथ चतुर्थ आदाननिषेवणसमिति सद्याय प्रारंभः ॥

॥ जोखिडा हंसा रे विषय न राचीये ॥ ए देशी ॥ समिति चोथी
रे, चउगति वारणी, चांखी श्रीजिनराज ॥ राखी परम अहिंसक मुनि
वरे, चाखी ज्ञानसमान ॥ १ ॥ सहज संवेगी रे समिति परिणमे ॥ ए आंक
णी ॥ साधन आतमकाज ॥ आराधन ए संवर जावनो, जवजल तारण
ऊहाज ॥ स० ॥ २ ॥ अजिलाषीनिज आतमतत्त्वना, साखी करि सिद्धां
न ॥ नाखी सर्व परिग्रह संगने, ध्यानाकाशी रे संत ॥ स० ॥ ३ ॥ संवर
पंच तणी ए जावना, निरुपाधिक अप्रमाद ॥ सर्व परिग्रह त्याग असंग
ता, तेहनो ए अपवाद ॥ स० ॥ ४ ॥ शाने मुनिवर उपकरण संग्रहे, जे
परजाव विरक्त ॥ देह अमोही नवि दोही कदा, रत्नत्रयी संपत्त ॥ स०
॥ ५ ॥ जाव अहिंसकता कारणजणी, अव्य अहिंसक साधि ॥ रजो
हरण मुखवस्त्रादिक धरे, वरवा योग समाधि ॥ स० ॥ ६ ॥ शिव सा
धननुं रे मूल ते ज्ञान ठे, तेहनो हेतु सद्याय ॥ ते आहारें ते वलि पात्र
थी, जयणायें ग्रहेवाय ॥ स० ॥ ७ ॥ वाल तरुण नर नारी जंतुने, नभ
डुगंठा हेतु ॥ तिण चोलपट ग्रही मुनि उपदिसे, शुद्धधर्मसंकेत ॥ स०
॥ ८ ॥ कंश मशक शीतादि परिग्रह सहे, न रहे ध्यान समाधि ॥ क
ल्पक आदिक निर्मोहिपणे, धारे मुनि निर्वाध ॥ स० ॥ ९ ॥ लेप अले
पनदीना ज्ञाननो, कारण दंरु ग्रहंत ॥ दशवैकालिक जगवइ साखथी,
तनुस्थिरताने तंत ॥ स० ॥ १० ॥ लघु सजीव सिचत्त रजादिनो, वारण
डुःखसंग्रह ॥ देखी पुंजे रे मुनिवर तेहथी, ए पूरव मुनि वट ॥ स० ॥
॥ ११ ॥ पुजल खंध ग्रहण निषेवणा, अव्यें जयणा तास ॥ जावे आत्म
परिणति नव नवी, ग्रहतां समिति प्रकाश ॥ स० ॥ १२ ॥ बाधकजाव
अद्वेषपणे तजे, साधक ले गतराग ॥ पूरव गुणरक्षक पोषकपणे, निपज
ते शिवमार्ग ॥ स० ॥ १३ ॥ संयमश्रेणें रे संचरता मुनि, हरे कर्म कलंक
॥ धरता समता रस एकत्वता, तत्स्वरमणि निःशंक ॥ स० ॥ १४ ॥ जग
उपगारी रे तारक अव्यना, लायक पूर्णानंद ॥ देवचंद्र एहवा ते मुनिरा
जना, वंदे पय अरविंद ॥ स० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ पंचम पारिठावणीया समिति सद्याय प्रारंभः ॥

॥ चेतन चेतजो रे ॥ ए देशी ॥ पंचमी समिति कहि अति सुंदरु

रे, पारिष्ठावणीया नाम ॥ परम अहिंसक धर्म वधारणी, मृडु करुणा परि
 णाम ॥ मुनिवर सेवजो रे ॥ समिति सदा सुखदाय, थिरताजावे संयम सो
 हाय, धरे निर्मल संवर थाय ॥ मु० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ देहनेहथी चं
 चलता वधे रे, विकसे दुष्ट कषाय ॥ तिण तनुरागध्याने रमे जी, ज्ञानच
 रण सुपसाय ॥ मु० ॥ २ ॥ जिहां शरीर तिहां मल ऊपजे रे, तेहतणो प
 रिहार ॥ करे जंतु चर स्थिर अणपूहव्या रे, सकल दुगंठा वार ॥ मु० ॥
 ३ ॥ संयम बाधक आत्मविराधना रे, आणा घातक जाणि ॥ ऊपाधि अ
 शन शिष्यादिक परठवे रे, आयति लाज पिठाण ॥ मु० ॥ ४ ॥ वध्या आ
 हारे तपीया परठवे रे, निज कोठे अप्रमाद ॥ देह अरागी जात अव्या
 पता रे, धीरनो एह अपवाद ॥ मु० ॥ ५ ॥ संलोकादिक दूषण परहरी
 रे, वर्जी राग ने द्वेष ॥ आगमरीते परठवणी करे, लाघवहेतु विशेष ॥ मु०
 ॥ ६ ॥ कट्पातीत आहाळंदी क्षमी रे, जिनकट्पादि मुनीश ॥ तेहने
 परठवणा एक मलतणी रे, तेह अल्प वलि दीस ॥ मु० ॥ ७ ॥ रात्रे प्रश्र
 वणादिक परठवे रे, विधिकृत मंरुल ठाम ॥ थिविरकट्पनो प्रति अपवा
 द ठे रे, ग्लानादिक नहिं काम ॥ मु० ॥ ८ ॥ वलि एह ड्रव्यथी जावे रे,
 बाधक जे परिणाम ॥ द्वेष निवारी मादकताविनी रे, सर्वविज्ञाव विराम
 ॥ मु० ॥ ९ ॥ अंतःपरिणति तत्त्वमयी करे रे, परिहरिता परजाव ॥ ड्रव्य स
 मिति परंगजाव ज्ञणी धरे रे, मुनिनो एह स्वजाव ॥ मु० ॥ १० ॥ पंच स
 मिति समता परिणामथी रे, क्षमाकोष गतरोष ॥ जावन पावन संयम
 साधता रे, करता गुणगण पोष ॥ मु० ॥ ११ ॥ साध्य रसी निजतत्त्वे तन्मया
 रे, उठरंगी निर्माय ॥ योगक्रिया फल जाव अवंचता रे, शुचि अनुजव
 सुखदस्य ॥ मु० ॥ १२ ॥ आणाजितयुं आनाणी रसी रे, निश्चय निग्रह युक्त
 ॥ देवचंद्र एहवा नर्ग्रथ जे रे, ते माहरुं गुरुतत्त्व ॥ मु० ॥ १३ ॥ इति ॥

॥ अथ षष्ठ मनोगुप्ति सद्वाय प्रारज्यते ॥

॥ वैरागी थयो रे ॥ ए देशी ॥ मुनि मन वश करो रे ॥ मन ए आश्रव
 गेहो ॥ ममताने तो ऋषि मन्नथी रे, टाळो यतिवर तेहो रे ॥ मु० ॥ १ ॥
 पुष्ट तुरगचित्त ते कळुं रे, सो मोहनृपति प्रधान ॥ आरतिरुद्धनुं क्षेत्र ए
 रे, रोक तुं ज्ञान निधानो रे ॥ मु० ॥ २ ॥ गुप्ति प्रथम ए साधुने रे, धर्म शु
 क्तनो कंद ॥ वस्तु धर्मचिंतन रम्या रे, साध्ये पूर्णानंदो रे ॥ मु० ॥ ३ ॥ यो

ग ते पुञ्जल जोग ठे रे, पांचे अजिनव कर्म ॥ योगवरणा ने कंपना रे, नवि
 ए आतम धर्म ॥ सु० ॥ ४ ॥ वीर्य चपल परसंगमी रे, एह न साधक पद्द ॥
 ज्ञान चरण सहकारना रे, वरतावे मनदक्ष रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ सविकल्पक
 गुण साधुना रे, ध्यानीने न सुहाय ॥ निर्विकल्प अनुज्ञव रसी रे, आत्मा
 नंदी आयो रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ रत्नत्रयनी जेदता रे, एह समल व्यवहार ॥
 त्रिगुण वीर्य एकत्वता रे, निर्मल आत्माचारो रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ शुक्लध्यान
 श्रुतलंबनी रे, ए पण साधन दाव ॥ वस्तु धर्म उठरंगमें रे, गुणगुणी एक
 सुजावो रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ परसहाय गुणवर्तना रे, वस्तु धर्म न कहाय ॥
 साध्यरसी तो किम ग्रहे रे, साधु चित्त सहायो रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ आत्मरु
 चि आत्मालयी रे, ध्याता तत्त्व अनंत ॥ स्याद्वादज्ञानी मुनि रे, तत्त्वरम
 ण उपशांतो रे ॥ सु० ॥ १० ॥ नवि अपवादरुचि कदा रे, शिव रसिया
 अणगार ॥ शक्ति यथागम सेवतां रे, निंदे कर्म प्रचारो रे ॥ सु० ॥ ११ ॥
 शुद्धसिद्ध निज तत्त्वता रे, पूर्णानंद समाज ॥ देवचंद्र पर साधता रे, न
 मिये ते मुनिराजो रे ॥ सु० ॥ १२ ॥ इति ॥

॥ अथ सप्तमवचनगुप्ति सहाय प्रारंभः ॥

॥ समिति सदा ए दीलमें धरो ॥ ए देशी ॥ अथवा हमीरियानी देशी
 ॥ वचनगुप्ति सूधी धरो, वचन ते कर्म सहाय ॥ सद्धूणे ॥ उदयाश्रित जे
 चेतना, निश्चे तेह अपाय ॥ स० ॥ वचनगुप्ति सूधी धरो ॥ १ ॥ ए आंक
 णी ॥ वचन अगोचर आतमा, सिद्ध ते वचनातीत ॥ स० ॥ सत्ता अ
 स्तिस्वजावमें, जाषक जाव अनीत ॥ ॥ स० ॥ व० ॥ २ ॥ अनुज्ञव रस आ
 स्वादता, करता आतम ध्यान ॥ स० ॥ वचन ते बाधकजाव ठे, न वदे मु
 नि अज्ञान ॥ स० ॥ व० ॥ ३ ॥ वचनाश्रव पलटायवा, मुनि साधे स्वाध्याय
 ॥ स० ॥ तेह सर्वथा गोपवो, परममहारस थाय ॥ स० ॥ व० ॥ ४ ॥ जाषा
 पुञ्जल वर्गणा, ग्रहणा निसर्ग उपाधि ॥ स० ॥ करवा आतम वीर्यने, शाने
 प्रेरे साधि ॥ स० ॥ व० ॥ ५ ॥ यावत् वीरज चेतना, आतमगुण संपत्त ॥
 ॥ स० ॥ तावत सरवे निर्जरो, आश्रव पर आयात ॥ स० ॥ व० ॥ ६ ॥
 इम जाणी स्थिरसंयमी, न करे चपळीमंथ ॥ स० ॥ आत्मानंद आरा
 धतां, आइळी निर्यथ ॥ स० ॥ व० ॥ ७ ॥ साध्य शुद्ध परमातमा, तसु
 साधन उत्सर्ग ॥ स० ॥ बार जेदे तप द्विविधे, सकल श्रेष्ठ व्युत्सर्ग ॥

स० ॥ व० ॥ ७ ॥ समकितगुणगणे कस्यो, साध्य अयोगी ज्ञाव ॥ स० ॥
 उपादानता तेहनी, गुप्तिरूप स्थिरज्ञाव ॥ स० ॥ व० ॥ ए ॥ गुप्ति रुचि
 गुप्ते रम्यां, कारण समिति प्रपंच ॥ स० ॥ करता स्थिरता ईहता, ग्रहे त
 त्व गुणसंच ॥ स० ॥ व० ॥ १० ॥ अपवादे उत्सर्गनी, दृष्टि न चूके जेह ॥
 स० ॥ प्रणमे नित्यप्रत्ये ज्ञावशुं, देवचंद्र मुनि तेह ॥ स० ॥ व० ॥ ११ ॥

॥ अथाष्टम कायगुप्ति सञ्चाय प्रारंजः ॥

॥ फुलना चोसर प्रचुजीनें शिर चढे ॥ ए देशी ॥ गुप्ति संजारो रे त्री
 जी मुनिवरु, जेहृथी परम आनंदो जी ॥ मोह टले घन घाति परगळे,
 प्रगटे ज्ञान अमंदो जी ॥ गु० ॥ १ ॥ करीय शुज अशुज जवजे जे ठे,
 तिण तजि तन व्यापारो जी ॥ चंचलज्ञाव ते आश्रव मूल ठे, जीव अच
 ल अत्रिकारो जी ॥ गु० ॥ २ ॥ इंद्रिय विषय सकलनुं द्वार ए, बंधदेतु
 दृढ एहो जी ॥ अजिनव कर्म ग्रहे तनुयोगथी, तिण थिर करीये देहो
 जी ॥ गु० ॥ ३ ॥ आतमवीर्य फुरे परसंग जे, ते कहीये तनुयोगो जी ॥
 चेतन सत्ता रे परम अयोगी ठे, निर्मल स्थिर उपयोगो जी ॥ गु० ॥ ४ ॥
 जावत कंपन तावत बंध ठे, जांख्युं जगवइ अंगे जी ॥ ते माटे ध्रुव तत्वर
 सें रमे, माहण ध्यान प्रसंगे जी ॥ गु० ॥ ५ ॥ वीर्य सहायी रे आतम ध
 र्मनो, अचल सहज अप्रयासो जी ॥ ते परज्ञाव सहाया किम करे, मुनि
 वर गुण आवासो जी ॥ गु० ॥ ६ ॥ खंति मुक्ति युक्ति अकिंचनी, शौच
 ब्रह्म धर धीरो जी ॥ विषय परिसह सैन्य विदारवा, वीर परम शौकीरो
 जी ॥ गु० ॥ ७ ॥ कर्म परल दलक्य करवा रसी, आतमकृद्धि समृद्धो
 जी ॥ देवचंद्र जिन आणा पाळतां, वंडूं गुरु गुणवृद्धो जी ॥ गु० ॥ ८ ॥

॥ अथ नवम साधुस्वरूपवर्णन सञ्चाय प्रारंजः ॥

॥ रसीयानी देशी ॥ धर्म धुरंधर मुनिवर सुलही, नाण चरण
 संपन्न ॥ सुगुण नर ॥ इंद्रिय जोग तजी निज सुख जजी, जवचारक
 उद्विन्न ॥ सु० ॥ १ ॥ इव्य ज्ञाव साची सरधा धरी, परिहरी शंका
 दि दोष ॥ सु० ॥ कारण कारज साधन आदरी, धरी ध्यान संतोष ॥
 सु० ॥ ध० ॥ २ ॥ गुणपर्याये वस्तु पारिखतां, शीख उजय जंकार ॥
 सु० ॥ परिणति शक्ति स्वरूपमें परिणमी, करता तसु व्यवहार ॥ सु० ॥
 ध० ॥ ३ ॥ लोक सन्नवितिगिष्ठा वारता, करता संयमवृद्धि ॥ सु० ॥

मूल उत्तरगुण सर्व संचारता, धरता आतमशुद्धि ॥ सु० ॥ ध० ॥ ४ ॥
 श्रुतधारी श्रुतधर निश्रारसी, वश कस्या त्रिकजोग ॥ सु० ॥ अन्यासी
 अजिनव श्रुतसारना, अविनाशी उपयोग ॥ सु० ॥ ध० ॥ ५ ॥ ड्रव्य
 ज्ञाव आश्रव मल टालता, पालता संयम सार ॥ सु० ॥ साची जैन
 क्रिया संचालता, गालता कर्मविकार ॥ सु० ॥ ध० ॥ ६ ॥ सामायिक आ
 दिक गुणश्रेणिमे, रमता चढते रे ज्ञाव ॥ सु० ॥ तीन लोकथी जिन्न त्रि
 लोकमें, पूजनीय जसु पाव ॥ सु० ॥ ध० ॥ ७ ॥ अधिकगुणी निज
 तुद्व्य गुणीथकी, मलता ते सुनिराज ॥ सु० ॥ परम समाधिनिधि ज
 वजलधिना, तारण तरण ऊहाज ॥ सु० ॥ ध० ॥ ८ ॥ समकितवंत स
 यम गुण ईहता, ते धरवा समरथ ॥ सु० ॥ संवेग पद्दीजावे शोचता, क
 हेता साचो र अर्थ ॥ सु० ॥ ध० ॥ ९ ॥ आप पशंसार्ये नवि साचता,
 राचता मुनि गुणरंग ॥ सु० ॥ अप्रमत्त मुनि श्रुततत्त्व पूठवा, सेवे जासु
 अत्रंग ॥ सु० ॥ ध० ॥ १० ॥ सदहणा आगम अनुमोदता, गुणकर
 संयमचाल ॥ सु० ॥ विवहारें साची ते साचवे, आयति लाज संचाल ॥
 सु० ॥ ध० ॥ ११ ॥ पुकरकारीथी अधिका कहे, वृहत्कल्प व्यवहार ॥
 सु० ॥ उपदेशमाळा जगवड् अंगने, गीतारथ अधिकार ॥ सु० ॥ ध० ॥
 १२ ॥ ज्ञाव चरण स्थानक फरस्या विना, न हुवे संयमधर्म ॥ सु० ॥ ते
 शाने जूठ ते उच्चरे, जे जाणे प्रवचनमर्म ॥ सु० ॥ ध० ॥ १३ ॥ जस
 लाजें निजसंस्मृत थायवा, परजनरंजन काज ॥ सु० ॥ ज्ञानक्रिया ड्रव्य
 त विधि साचवे, तेह नही सुनिराज ॥ सु० ॥ ध० ॥ १४ ॥ बाह्य दया
 एकांतें उपदिसे, श्रुत आम्नाय विहीन ॥ सु० ॥ बगपरें उगता भूरख
 लोकने, बहु जमशे तेह दीन ॥ सु० ॥ ध० ॥ १५ ॥ अध्यातम परिणति
 साधन ग्रही, उचित वहे आचार ॥ सु० ॥ जिन आणा अविराधक पुरुष
 जे, धन्य तेहनो अवतार ॥ सु० ॥ ध० ॥ १६ ॥ ड्रव्यक्रिया नैमित्तिक
 हेतु ठे, ज्ञावधर्म लयलीन ॥ सु० ॥ नैरुपाधिक तो जे निज अंशनी, माने
 लाज नवीन ॥ सु० ॥ ध० ॥ १७ ॥ परिणति दोष ज्ञणी जे निंदता, क
 हेता परिणति धर्म ॥ सु० ॥ योगग्रंथना ज्ञाव प्रकाशता, तेह विदारे हो
 कर्म ॥ सु० ॥ ध० ॥ १८ ॥ अल्पक्रिया पण उपकारीपणे, ज्ञानी साधे हो
 सिद्ध ॥ सु० ॥ देवचंद्र सुविहित मुनिवृंदने, प्रणम्यां सयल समृद्धि ॥ १९ ॥

॥ कलश ॥

॥ राग धन्याश्री ॥ ते तरिया रे जाइ ते तरिया जे, जिनशासन अनुस
रिया जी ॥ जेह करे सुविहित मुनि किरिया, ज्ञानामृत रस दरिया जी
॥ ते० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ विषय कषाय सहू परहरिया, उत्तमसमता व
रिया जी ॥ शीलसन्नाहथकी पाखरिया, जवसमुद्र जल तरिया जी ॥ ते०
॥२॥ समिति गुप्तिशुं जे परवरिया, आत्मानंदे तरिया जी ॥ आश्रवद्वार
सकल आवरियां, वर संवर संवरिया जी ॥ ते० ॥३॥ खरतर मुनि आचर
णा चरिया, राज सार गुणगरिया जी ॥ ज्ञान धर्म तप ध्याने वसिया, श्रु
त रहस्यना रसिया जी ॥ ते० ॥४॥ दीपचंद्र पाठक पद धरिया, विनयर
यणसागरिया जी ॥ देवचंद्र मुनि गण उच्चरिया, कर्म अरि निर्झरिया
जी ॥ ते० ॥५॥ सुरगिरि सुंदर जिनवर मंदिर, शोजित नगर सवाई जी
॥ नवानगर चोमासुं करीने, मुनिवर गुणश्रुति गाई जी ॥ ते० ॥६॥ अरि
हंतनो यश जगमें विचख्यो, विस्तरी जस संपदा ॥ निर्यथ वंदन स्तवन
करतां, परम मंगल सुख सदा ॥१॥ इत्यष्टप्रवचनमाता सञ्चाय समाप्त ॥

॥ अथ श्रीजीवविजयजीकृत पृथ्वीचंद्र अने गुणसागरनी सञ्चाय ॥

॥ दोहा ॥ शासननायक सुखकरु, वंदी वीर जिणंद ॥ पृथ्वीचंद्र मुनि
गायशुं, गुणसागर सुखकंद ॥ १ ॥ उत्तमना गुण गावतां, गुण आवे निज
अंग ॥ वात घणी वैराग्यनी, सांजलजो मनरंग ॥ २ ॥ शंख कलावती
जवथकी, जव एकवीश संबंध ॥ उत्तरोत्तर सुख जोगवी, एकविशमे जवें
सिद्ध ॥ ३ ॥ पण एकवीशमा जवतणो, अटप कहुं अधिकार ॥ सांजल
जो सन्मुख थई, आत्मने हितकार ॥ ४ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ कंथ तमाकू परिहरो ॥ ए देशी ॥ नयरी अयोध्या अति जली, राज
करे हरिसिंह ॥ मेरे लाल ॥ प्रिया पद्मावती नेहने, सुख विलसे गुणगेह
॥ मे० ॥१॥ चतुर सनेही सांजलो ॥ ए आंकणी ॥ सर्वारथथी सुर चवी,
तस कूखे अवतार ॥ मे० ॥ रूप कला गुण आगलो, पृथ्वीचंद्रकुमार ॥
मे० ॥ च० ॥ २ ॥ समपरिणामी मुनि समो, नीरागी निर्धार ॥ मे० ॥ पि
ता परणावे आग्रहे, कन्या आठ उदार ॥ मे० ॥ च० ॥ ३ ॥ गीत विलाप
नी सम गणे, नाटक काय किलेश ॥ मे० ॥ आचूषण तनुजार ठे, जोगने

रोग गणेश ॥ मे० ॥ च० ॥ ४ ॥ हुं निजतातने आग्रहें, संकट पडियो
 जेम ॥ मे० ॥ पण प्रतिवोधूं ए प्रिया, माता पिता पण तेम ॥ मे० ॥
 च० ॥ ५ ॥ जो सवि संयम संग्रहे, तो थाये उपकार ॥ मे० ॥ एम शुभ
 ध्यानें गुणनिळो ॥ पहोतो जवन मजार ॥ मे० ॥ च० ॥ ६ ॥ नारी
 आठने एम कहे, सांजलो गुणनी खाण ॥ मे० ॥ जोगवतां सुख जोग ठे,
 विपाक कडुवा जाण ॥ मे० ॥ च० ॥ ७ ॥ किंपाकफल अति मधुर ठे,
 खाधे ठंके प्राण ॥ मे० ॥ तिम विषयसुख जाणजो, एवी जिननी वाण
 ॥ मे० ॥ च० ॥ ८ ॥ अग्निनी जो तृप्ति इंधनें, नदीयें जलधि पूराय ॥
 मे० ॥ ॥ तो विषयसुख जोगथी, जीव ए तृप्तो थाय ॥ मे० ॥ च० ॥ ९ ॥
 जव जव जमतां जीवडे, जेह आरोग्यां धान्य ॥ मे० ॥ ते सवि एकठां जो
 करे, तो सवि गिरिवरमान ॥ मे० ॥ च० ॥ १० ॥ विषयसुख सुरलोक
 में, जोगवियां इण जीव ॥ मे० ॥ तो पण तृप्तज नवि थयो, काल अ
 संख्य अतीव ॥ मे० ॥ च० ॥ ११ ॥ चतुरा समजो सुंदरी, मूंजो मत
 विषयने काज ॥ मे० ॥ संसार अटवी ऊतरी, लहियें शिवपुरराज ॥ मे०
 ॥ च० ॥ १२ ॥ कुमरनी वाणी सांजली, बूजी चतुर सुजाण ॥ मे० ॥
 लघुकर्मा कहे साहेवा, उपाय कहो गुणखाण ॥ मे० ॥ च० ॥ १३ ॥ कुमर
 कहे संयम ग्रहो, अद्भुत एह उपाय ॥ मे० ॥ नारी कहे अम विसर्जो,
 संयमें वार न थाय ॥ मे० ॥ ॥ च० ॥ १४ ॥ कुमर कहे पडखो तुमें, ह
 मणां नहिं गुरुजोग ॥ मे० ॥ सद्गुरु जोगें साधशुं, संयम ठांकी जोग ॥
 मे० ॥ च० ॥ १५ ॥ मात पिता मन चितवे, नारीनें वश नवि थाय ॥ मे० ॥
 उलटी नारी वश करी, कुमरनुं गायुं गाय ॥ मे० ॥ च० ॥ १६ ॥ जो हवे राजा
 कीजियें, तो जलशे राजनें काज ॥ मे० ॥ नरपति एम मन चितवी, थापे
 कुमरने राज्य ॥ मे० ॥ च० ॥ १७ ॥ पिता उपरोधें आदरे, चिते मो
 हना घाट ॥ मे० ॥ पाळे राज्य वैरागियो, जोतो गुरुनी वाट ॥ मे० ॥
 च० ॥ १८ ॥ राज्यसत्तायें अन्यदा, पृथ्वीचंद्र सोहंत ॥ मे० ॥ इण अव
 सर व्यवहारियो, सुधन नाम आवंत ॥ मे० ॥ च० ॥ १९ ॥ राजा पूठे
 तेहनें, कोण कोण जोया देश ॥ मे० ॥ आश्चर्य दीतुं जे तुमें, जांखो
 तेह विशेष ॥ मे० ॥ च० ॥ २० ॥ शेठ कहे सुएय साहिवा, एकविनोदनी
 वात ॥ मे० ॥ सांजलतां सुख उपजे, जांखुं ते अवदात ॥ मे० ॥ च० ॥ २१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कौतुक जोतां बहु गयो, काल अनादि अनंत ॥ पण ते कौतुक जग
वडुं, सुणतां आतम शांत ॥ १ ॥ कौतुक सुणतां जे हुवे, आतमनो उप
कार ॥ वक्ता श्रोता मन गहगहे, कौतुक तेह उदार ॥ २ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ गिरि वैताढ्यनी उपरे ॥ ए देशी ॥ आढ्या गजपुर नयरथी, तिहां व
से व्यवहारी रे लो ॥ अहो, तिहां वसे व्यवहारी रे लो ॥ रत्नसंचय तस
नाम ठे, सुमंगला तस नारी रे लो ॥ अहो, सुमंगला तस नारी रे लो ॥
१ ॥ गुणसागर तस नंदनो, विद्यागुणनो दरियो रे लो ॥ अ० ॥ त्रि० ॥ गो
खे बेठो अन्यदा, जुवे ते सुख जरियो रे लो ॥ अ० ॥ जु० ॥ २ ॥ राजपंथे
मुनि मलपतो, दीगोनें सांजरीयो रे लो ॥ अ० ॥ दी० ॥ ते देखी शुज
चितने, पूरव चरण सांजरियो रे लो ॥ अ० ॥ पू० ॥ ३ ॥ मात पिताने एम
कहे, सुखीयो मुऊ कीजे रे लो ॥ अ० ॥ सु० ॥ संयम लेशुं हुं सही, आ
झा मुऊ दीजे रे लो ॥ अ० ॥ आ० ॥ ४ ॥ मात पिता कहे नानडा, संयमें
उमायो रे लो ॥ अ० ॥ सं० ॥ तो पण परणो पदमिणी, अम मन हर
खावो रे लो ॥ अ० ॥ अ० ॥ ५ ॥ संयम लेजो ते पठी, अंतराय न कर
शुं रे लो ॥ अ० ॥ अं० ॥ विनयी वात अंगीकरी, पठे संयम वरशुं रे
लो ॥ अ० ॥ प० ॥ ६ ॥ आठ कन्याना बापने, इम जांखे व्यवहारी रे
लो ॥ अ० ॥ इ० ॥ अम सुत परणवा मात्रथी, आशे संयमधारी रे लो
॥ अ० ॥ आ० ॥ ७ ॥ इज्य सुणी मन चमकिया, वर बीजो करशुं रे लो
॥ अ० ॥ व० ॥ कन्या कहे निज तातने, आ जव अवर न वरशुं रे लो
॥ अ० ॥ आ० ॥ ८ ॥ जे करशे ए गुणनिधि, अमो तेह आदरशुं रे
लो ॥ अ० ॥ अ० ॥ राग वैरागी दोयमें, तस आणा शिर धरशुं रे
लो ॥ अ० ॥ त० ॥ ए ॥ कन्या आठनां वचनथी, हरख्या ते व्यवहारी रे
लो ॥ अ० ॥ ह० ॥ विवाह महोत्सव मांकीया, धवलमंगल बहु नारी
रे लो ॥ अ० ॥ ध० ॥ १० ॥ गुणसागर गिरुज हवे, वरघोडे वर सोहे रे
लो ॥ अ० ॥ व० ॥ चोरीमांहे आवीया, कन्यानां मन मोहे रे लो ॥
अ० ॥ क० ॥ ११ ॥ हाथ मेलावो हर्षशुं, साजन जन सहु मलिया रे
लो ॥ अ० ॥ सा० ॥ हवे कुमर शुज चित्तमें, धर्मध्यान सांजरियां रे

लो ॥ अ० ॥ ध० ॥ ११ ॥ संयम लइ सुगुरुकने, श्रुत जणशुं सुखका
 री रे लो ॥ अ० ॥ श्रु० ॥ समतारसमां जीलशुं, काम कषायने वारी
 रे लो ॥ अ० ॥ का० ॥ १३ ॥ गुरुविनय नित्य सेवशुं, तप तपशुं मनो
 हारी रे लो ॥ अ० ॥ त० ॥ दोष वहेतालीश टालशुं, माया लोच निवा
 री रे लो ॥ अ० ॥ मा० ॥ १४ ॥ जीवितमरणें समपणुं, सम तृण मणि
 गणशुं रे लो ॥ अ० ॥ स० ॥ संयम योगें थिर थइ, मोहरिपुनें हृणशुं
 रे लो ॥ अ० ॥ मो० ॥ १५ ॥ गुणसागर गुणश्रेणीयें, थया केवल
 नाणी रे लो ॥ अ० ॥ थ० ॥ नारी पण मन चिंतवें, वरीयें अमें गुण
 खाणी रे लो ॥ अ० ॥ व० ॥ १६ ॥ अमो पण संयम साधशुं, नाथ
 नंगीना साथें रे लो ॥ अ० ॥ ना० ॥ एम थइ आठे केवली, ते सवि पियु
 डा हाथे रे लो ॥ अ० ॥ ते० ॥ १७ ॥ अंबर गाजे डुंडुजि, जय जय रव कर
 ता रे लो ॥ अ० ॥ ज० ॥ साधुवेश ते सुरवरा, सेवाने अनुसरता रे लो ॥
 अ० ॥ से० ॥ १८ ॥ गुणसागर मुनिराजनां, मात पिता ते देखी रे लो
 ॥ अ० ॥ मा० ॥ शुजसंवेगें केवली, घाती चार उवेखी रे लो ॥ अ० ॥
 घा० ॥ १९ ॥ नरपति आवे वांदवा, मन आश्चर्य आणी रे लो ॥ अ० ॥
 म० ॥ शंख कलावती जवथकी, निजचरित्र वखाणी रे लो ॥ अ० ॥
 नि० ॥ २० ॥ जव एकवीश ते सांजली, बूज्या केई प्राणी रे लो ॥ अ०
 बू० ॥ सुधन कहे सुणो साहेवा, अत्र आव्यो उमाइ रे लो ॥ अ० ॥
 अ० ॥ २१ ॥ पण ते कौतुक देखवा, मनडो मुऊ हरखायो रे लो ॥ अ०
 ॥ म० ॥ केवलज्ञानी मुऊ कहे, शुं कौतुक उह्वासे रे लो ॥ अ० ॥ शुं० ॥
 २२ ॥ एहथी अधिकूं देखशो, अयोध्या नामा ग्रामे रे लो ॥ अ० ॥ अ० ॥ ते
 निसुणी मुनिपद नमी, आव्यो इण ठामें रे लो ॥ अ० ॥ आ० ॥ २३ ॥
 कौतुक तुम प्रसादथी, जोशुं सुख कामी रे लो ॥ अ० ॥ जो० ॥ एम क
 हीने सुधन तिहां, उचो शिर नामो रे लो ॥ अ० ॥ ऊ० ॥ २४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ पृथ्वीचंद्र ते सांजली, वाध्यो मन वैराग ॥ धन धन ते गुणसागर,
 पाम्यो जवजल ताग ॥ १ ॥ हुं निज तातने दाक्षिणें, पडियो राज्यमकार
 पण हवे नीसरशुं कदा, थाशुं कव अणगार ॥ २ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ रसियानी देशी ॥ धन धन जे मुनिवर ध्याने रमे, करता आतम शु
 ॐ ॥ मुनीश्वर ॥ राजा चिंते सङ्गु सेवना, करशुं निर्मल बुद्धि ॥ मु० ॥
 धन० ॥१॥ कवहुं शम दम सुमति सेवशुं, धरशुं आतमध्यान ॥ मु० ॥ इम
 चिंतवतां अपूरव गुण चढे, श्रेणीयें शुक्लध्यान ॥ मु० ॥ ध० ॥ १॥ ध्यानव
 लें सवि आवरण क्षय करी, पाम्या केवलज्ञान ॥ मु० ॥ हर्ष धरि सोहम
 पति आवीया, वेश वंदे बहुमान ॥ मु० ॥ ध० ॥ ३॥ सांजली मात पिता
 मन संत्रमे, आव्यां पुत्रनी पास ॥ मु० ॥ ए शुं ए शुं एणि परे बोलतां,
 हरिसिंह हर्ष उह्वास ॥ मु० ॥ ध० ॥ ४॥ दयिता आठ सुणी मन हर्षथी, उ
 लट अंग न माय ॥ मु० ॥ संवेग रंग तरंगमें जीलती, आठे केवली थाय
 ॥ मु० ॥ ध० ॥ ५॥ सारथ सुधन पण मन चिंतवे, कौतुक अद्भुत दीठ ॥ मु० ॥
 नरपति पूठे मुनिचरणे नमी, स्नेहनुं कारण जिठ ॥ मु० ॥ ध० ॥ ६॥ केव
 ली कहे पूरव जव सांजलो, नयरी चंपा जय राय ॥ मु० ॥ सुंदरी प्रियम
 ती नामें तेहने, कुसुमायुध सुत थाय ॥ मु० ॥ ध० ॥ ७॥ दंपती संयम
 पाली शुचमना, विजयविमाने ते जाय ॥ मु० ॥ अनुत्तर सुख विदसी सु
 र ते चव्यां, थयां तुमें राणी ने राय ॥ मु० ॥ ध० ॥ ८॥ कुसुमायुध पण
 संयम सुर चवो, थयो तुम सुततणे नेह ॥ मु० ॥ मात पिता पण पृथ्वीचं
 डनां, सुणी थयां केवली तेह ॥ मु० ॥ ध० ॥ ९॥ सार्थ पूठे पृथ्वीचंडने,
 गुणसागर तुम केम ॥ मु० ॥ मुनि कहे पूरव जव अम नंदनो, कुसुमकेतु
 तस नाम ॥ मु० ॥ ध० ॥ १०॥ एहिज दयिता दोयने ते जवें, संयम पा
 ली ते सार ॥ मु० ॥ समधमें सवि अनुत्तर ऊपन्यां, आ जव पण थइ
 नार ॥ मु० ॥ ध० ॥ ११॥ सांजली सुधन श्रावकव्रत लहे, बीजां पण बहु
 बोध ॥ मु० ॥ पृथिवी विचरे पृथ्वीचंडजी, सादि अनंत थया सिद्ध ॥
 मु० ॥ ध० ॥ १२॥ नित नित ऊठी हुं तस वंदन करूं, जेणें जग जीवो
 रे मोह ॥ मु० ॥ चढते रंगे हो सम सुख सागरु, करतो श्रेणि आरोह ॥
 मु० ॥ ध० ॥ १३॥ जग उपकारी हो जगहेतु वत्सलू, दीठे परम कठ्याण
 ॥ मु० ॥ विरह म पडशो हो एहवा मुनितणो, जाव लहुं निर्वाण ॥ मु० ॥
 ध० ॥ १४॥ मुनिवर ध्याने हो जन उत्तम पद वरे, रूपकला गुणज्ञान ॥
 मु० ॥ कीर्तिकमला हो विमला विस्तरे, जीवविजय धरे ध्यान ॥ मु० ॥

ध० ॥ १५ ॥ इति पृथ्वीचंद्र अने गुणसागरनी सद्याय संपूर्णः ॥

अथसीतानुंहरणकरीआवेलारावणनेमंदोदरीयेआपेलाउपदेशनीसद्याय.

॥ सिद्धचक्रपद वंदो ॥ ए देशी ॥ सीता हरि रावण घर आणी, बोले मंदोदरी राणी ॥ अवर सती जग एह समाणी, नव दीठी नव जाणी रे राजा, रामगृहिणी कां आणी ॥ एम तुजमति कां मूंजाणी रे रावण, सीता कां घर आणी ॥ सीता आणे थाशे फजेती, रहेशे जुग जुग वाणी रे ॥ रा० ॥ रामगृहिणी कां आणी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ समकित शुद्ध शियल गुणखाणी, सिद्धसमा मुखवाणी ॥ सकलसती शिरमुकुट कहाणी, दोहिली ए दुहवाणी रे ॥ रा० ॥ सीता ॥ २ ॥ दशरथनंदननी एह पहराणी, माने इंद्र इंद्राणी ॥ लंकापति मूको जतावल, एहशुं करो महेखानी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ ३ ॥ परदाराशुं प्रीति पुराणी, करतां न रहे पाणी ॥ दुर्गति आपे एह कमाणी, बोदया केवलनाणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ ४ ॥ शियलगुणें सुर लोक गवाणी, समरे ठे सुर विमानी ॥ एह तणा गुण सूत्र सिद्धांतें, कहो किम एह हराणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ ५ ॥ पाप परंपर पियु शील खाणी, राधावेध वराणी ॥ पतिव्रता प्रतरंग रंगाणी, केम तरियें नाव कहाणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ ६ ॥ तुं ठे पूरण पुरुषप्रमाणी, हुं तुठ मति तोलाणी ॥ पररमणी लंपट न निर्वाणी, कीर्तिकमला हराणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ ७ ॥ कंथ कहो कुण कुमति उपाइ, सती सीता न पीठाणी ॥ अथवा जे विधि लखिय लखाणी, तेह कुण टाले प्राणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ ८ ॥ अठोत्तर सो शोक्यो वराणी, एह कोइ नवि सम जाणी ॥ एम आवे दुर्गति उजाणी, एह कोइ नवि पीठाणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ ९ ॥ शियल सबल गुण ग्रंथ कहेवाणी, एह वर उत्तर वाणी ॥ जाउं निज ठामें मेलाणी, मीठी साकर खाणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ १० ॥ तुं ठे न्यायी वि जिषण जाइ, जलनिधि खाइ चराणी ॥ धर्म सखाइ या ठकुराई, कां हारे अजिमानी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ ११ ॥ ठार चराइ ज्योति न थाइ, शुं फूके उलवाणी ॥ अंग सकोमल रामवियोगें, पोयण जिम करमाणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ १२ ॥ आराधो परमारथ साधो, एह कमला ब्रह्माणी ॥ वि नयें करीने विघ्न उलावो, जिम होय कुशल कल्याणी रे ॥ रा० ॥ सी० ॥ १३ ॥ रावण कंथ कहे सुण कामिनी, मुज मन एह न सुहाणी रे ॥ कहे

केम हारुं वल ठे माहारुं, परदल देखि मराणी रे राणी, तुं केम मनमें मुजाणी ॥ ए आंकणी ॥ १४ ॥ सतिय सीतानी निरत न जाणी, किम खा जे सुपराणी ॥ राम लक्ष्मण ठे माहाबलिथा, सबली गोत गोताणी रे ॥ रा० ॥ तुं ॥ १५ ॥ रावण जीती जगत्र वदीती, सागर सहस्र बंधाणी ॥ रामे घेर आणी धणियाणी, विद्याचंद्र वखाणी रे ॥ रा० ॥ तुं ॥ १६ ॥

॥ अथ तपनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ इमर आंबा आंबली रे ॥ ए देशी ॥ कीधां कर्म निकंदवा रे, लेवा मुक्तिनुं दान ॥ हत्या पातक बूटवा रे, नहिं कोइ तप समान ॥ जविक जनं, तप करजो मन शुद्ध ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ उत्तम तपना योगथी रे, सेवे सुर नर पाय ॥ लब्धि अष्टावीश ऊपजे रे, मनोबंधित फल थाय ॥ ज० ॥ त० ॥ ३ ॥ तीर्थकर पद पासियें रे, नासे सघला रोग ॥ रूपलीला सुख साहिबी रे, लहियें तप संयोग ॥ ज० ॥ त० ॥ ३ ॥ ते शुं ठे संसारमां रे, तपथी न होवे जेह ॥ जे जे मनमां कामियें रे, सफल फले सहि तेह ॥ ज० ॥ त० ॥ ४ ॥ अष्ट कर्मना उधने रे, तप टाले ततकाल ॥ अवसर लहीने तेहनो रे, खप करजो उजमाल ॥ ज० ॥ त० ॥ ५ ॥ बाह्य अच्यंतर जे कछा रे, तपना वार प्रकार ॥ होजो तेहनी चालमां रे, जेम धनो अणगार ॥ ज० ॥ त० ॥ ६ ॥ उदयरल कहे तपथकी रे, बाधे सुजस स नूर ॥ स्वर्ग हुवे घरआंगणे रे, दुर्गति जावे दूर ॥ ज० ॥ त० ॥ ७ ॥

॥ अथ श्री ज्ञानविमलकृत श्री सुंदरीनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ पुत्र तुमारो देवकी ॥ ए देशी ॥ रूडे रूपे रे शील सोहागण सुंदरी ॥ सुंदरी सुललित वयण रूडे, पंकजदलसम नयन रूडे ॥ ए आंकणी ॥ साठ सहस्र सम दिग्जय करीनें, नरत अयोध्यायें आव्या ॥ वार वरस जि हां चक्रिपदनें, अत्रिषेकें न्हवराव्या ॥ रूडे ॥ १ ॥ एक दिन चक्री सुंदरी दे खे, बाहुवलीनी वहेन ॥ दिनकर तेजें चंद्रकला जिम, रूपे कांति अइ खीण ॥ रूडे ॥ २ ॥ वैद्य प्रमुखा सवि तेडी कहो, किस्युं ऊणुं तात वंश ॥ घर तेडीने तमें दाखो जोश्यें, ते हुं पुरुं सदंश ॥ रूडे ॥ ३ ॥ ए बाहली सुंदरी किम कृशतनु, तेह निदान कहीजें ॥ साठ हजार अयां एहने, आंवलिनं तप कीजें ॥ रूडे ॥ ४ ॥ दीक्षा लेतां तुमहि जिवारी, स्त्रीरयणनी ईहा ॥ तस नयथी दुर्जर तप कीधां, धन धन एहना दीहा ॥ रूडे ॥ ५ ॥ एम निसु

णी कहे तात अपत्यमां, तूहिज मुकुट समाणी ॥ विषयदशार्थी एणिपरें
 विरमी, मात सुनंदा जाणी ॥ रू० ॥ ७ ॥ अमें तो विषयप्रमादे नडियां,
 पडियां तुं संसार ॥ नरपति उत्सव साथे ते प्रभु, हाथे लीये व्रतजार ॥
 रू० ॥ ८ ॥ युद्धे चक्री हारी मनावि, बाहुवली लिये दीख ॥ वरस ममे
 ब्राह्मी सुंदरीपें, कहेवरावे प्रभु शीख ॥ रू० ॥ ९ ॥ गज चढ्यां केवल न
 होये वीरा, एम सुणी मान उतारे ॥ पय उपाडी केवल पाम्या, ए सहो
 टा अणगार ॥ (प्रभु पासें पाउ धार) ॥ रू० ॥ १० ॥ अनुक्रमे केवल सा
 धी साधवी, ब्राह्मी सुंदरी जोडि ॥ ज्ञानविमल प्रभु रूपननी वेटी, प्रण
 सुं हुं कर जोडि ॥ रू० ॥ ११ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीज्ञानविमलजीकृत श्रीनंदासतीनी सञ्चाय प्रारंभ ॥

॥ राणी चेलणा लावे गहूंली ॥ ए देशी ॥ वेनातटनयरे वसे, व्यवहा
 री वड माम रे ॥ शेठ धनावाह नंदिनी, नंदा गुणमणिधाम रे ॥ १ ॥ स
 मकित शील चूषण धरो, जिम लहो अविचल लील रे ॥ सहज मले शि
 व सुंदरी, करिय कटाक्षकद्वोल रे ॥ स० ॥ ए आंकणी ॥ प्रत्नेनजित नर
 पतितणो, नंदन श्रेणिक नाम रे ॥ कुमर पणे तिहां आवियो, ते परणी
 जले माम रे ॥ स० ॥ २ ॥ पंच विषय सुख जोगवे, श्रेणिकशुं ते नार रे ॥
 अंगज तास सोहाभणो, नामें अजयकुमार रे ॥ स० ॥ ३ ॥ अनुक्रमे श्रे
 णिक नृप थया, राजगृही पुरी केरा रे ॥ अजयकुमार आवी मळ्या, ते संवं
 ध घणेर रे ॥ स० ॥ ४ ॥ चउविह बुद्धितणा धणी, राज्य धुरंधर जाणी
 रे ॥ पण तेणे राज्य न संग्रह्युं, निसुणी वीरनी वाणी रे ॥ स० ॥ ५ ॥ बु
 ढ्ढिवले आज्ञा ग्रही, चेलणाने अवदात रे ॥ कहे श्रेणिक जा इहांथकी,
 एहनी ठे घणी वात रे ॥ स० ॥ ६ ॥ नंदा माता साथशुं, लीधो संयम
 चार रे ॥ विजयविमानें उपन्यां, करशे एक अवतार रे ॥ स० ॥ ७ ॥ श्रे
 णिक कोणिकने थया, वैरतणा अनुबंध रे ॥ ते सवि अजय संयम पठी,
 ते सवि कर्मबंध रे ॥ स० ॥ ८ ॥ ज्ञानविमल प्रभु वीरजी, आण धरे जे
 शिष्य रे ॥ ते नित्यनित्य लीला लहे, जागती जास जगीश रे ॥ स० ॥ ९ ॥

॥ अथ श्रीजिनहर्षजिकृत राजीमतीनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ केसर वरणो हो, काढ कसुंबो ॥ माहारा लाल ॥ ए देशी ॥ कांइ
 रीसाणा हो, नेम नगीना ॥ माहारा लाल ॥ तुं परवारी हो, बुद्धे लीना

॥ माहारा लाल ॥ विरह विठोही हो, ऊनी ठोडी ॥ मा० ॥ प्रीति पुराणी हो, के तें तो तोडी ॥ मा० ॥ १ ॥ सयण सनेही हो, के कखुं पण राखो ॥ मा० ॥ जे सुख लीणा हो, के ठेह न दाखो ॥ मा० ॥ नेम नहेजो हो, के निपट नीरागी ॥ मा० ॥ कये अयगुणे हो, के मुऊने त्यागी ॥ मा० ॥ २ ॥ सासूजाया हो, के मंदिर आवो ॥ मा० ॥ विरह बुजावो हो, के प्रेम बनावो ॥ मा० ॥ कांश वनवासी हो, के कांश उदासी ॥ मा० ॥ जोवन जासी हो, के फेर न आसी ॥ मा० ॥ ३ ॥ जोवन लाहो हो, के बाधम लीजें ॥ मा० ॥ अंग उमाहो हो, के सफल करीजें ॥ मा० ॥ हुं तो दासी हो, के आठ ज्वारी ॥ मा० ॥ नवमे जव पण हो, के कामणगारी ॥ मा० ॥ ४ ॥ राजुल दीक्षा हो, के लहि दुःख वारे ॥ मा० ॥ दियर रहनेमी हो, के तेहने तारे ॥ मा० ॥ नेम ते पहेलां हो, के केवल पामी ॥ मा० ॥ कहे जिनहर्षे हो, के मुक्तिगामी ॥ मा० ॥ ५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीसमयसुंदरजीकृत चेलणासतीनी सञ्चाय प्रारंजः ॥

॥ वीरे वखाणी राणी चेलणा जी, सतीय शिरोमणी जाण ॥ चेडा नृप नी साते सुता जी, श्रेणिक शियल प्रमाण ॥ वी० ॥ १ ॥ वीर वांदीने वलतां थकां जी, चेलणायें दीगो रे निर्ग्रथ ॥ एकलडो वनसां रह्यो जी, साधे ते मुक्तिनो पंथ ॥ वी० ॥ २ ॥ शीत ठरे रे सबली पडे जी, चेलणा प्रीतम साथ ॥ चारित्रीयो रे चित्तमां वस्यो जी, सोड बाहिर रह्यो हाथ ॥ वी० ॥ ३ ॥ ऊवक जागी रे कहे चेलणा जी, केम करतो हशे तेह ॥ कुसतीने मन शुं वस्युं जी, श्रेणिक पड्यो रे संदेह ॥ वी० ॥ ४ ॥ अंते उर परजावजो जी, श्रेणिक दियो रे आदेश ॥ जगवंते सदेह जांगियो जी, चमकियो चित्त नरेश ॥ वी० ॥ ५ ॥ तातनुं वचन पाड्युं तिहां जी, व्रत लियो अन्नयकुमार ॥ समयसुंदर कहे चेलणा जी, पामी ते जवतणो पार ॥ वी० ॥ ६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्री मोहनविजयजीकृत रुक्मणिजीनी सञ्चाय प्रारंजः ॥

॥ आठे लालनी देशी ॥ कहे सीमंधर स्वामि, नारदप्रत्ये तिए ठाम ॥ आठे लाल ॥ सांजलजे तुऊनें कहुं ॥ १ ॥ पूरवजव हरिनार, ब्राह्मणी घर अवतार ॥ आ० ॥ रूपकला गुणउरडी ॥ २ ॥ अमरीने अनुहार, अजिनव रति अवतार ॥ आ० ॥ हतां सुंदर सुंदरी ॥ ३ ॥ चाले पति

आजाय, गृहिणी ते कहेवाय ॥ आ० ॥ पियुमन ग्रहियुं पाणिमां ॥ ४ ॥
 जोली टोली संग, गत वन धरिय उमंग ॥ आ० ॥ कोऽ कामिनी जखी
 मली ॥ ५ ॥ रमे रामा करि होड, लेवे फुदरडी टोड ॥ आ० ॥ केई घुमरी
 घालती ॥ ६ ॥ गावे मधुरां गीत, सुणतां उपजे प्रीत ॥ आ० ॥ नारी
 नीकाचित नाचती ॥ ७ ॥ न धरे कुणनी वीक, पियु पण नहीं नजीक
 ॥ आ० ॥ मयगल ज्युं मद्य पीधलो ॥ ८ ॥ थाकी सघली नार, ब्राह्मणी
 पण तिण वार ॥ आ० ॥ जइ वेठी तरु हेठले ॥ ९ ॥ मोरडीचे तिण
 ठाह, मूक्यां धरीने उमाह ॥ आ० ॥ इंसां सुंदर तरुहेठले ॥ १० ॥ मा
 एस सण सण जाण, मूकण लागी ठाण ॥ आ० ॥ जय धरी ऊकी मोग
 डी ॥ ११ ॥ कौतुक देखण काज, ब्राह्मणी सुणीने श्राऊ ॥ आ० ॥ इंसां
 दीठां जाइने ॥ १२ ॥ कुकरम खरडे हाथ, इंसां लीधां साथ ॥ आ० ॥ अरुण
 वरण इंसां थयां ॥ १३ ॥ मूक्यां तिणहिज ठाव, मनमें धरी उमाह ॥
 ॥ आ० ॥ फरी पाठी आवी ग्रहे ॥ १४ ॥ मोरडी इंसां पास, आवी थइ
 उदास ॥ आ० ॥ अरुण निरखी नवि संग्रहां ॥ १५ ॥ देखि करेय पो
 कार, नयणें आंसु धार ॥ आ० ॥ दुःख धरती वनमोरडी ॥ १६ ॥ सोल
 घडी पर्यंत, आकली हुइ अत्यंत ॥ आ० ॥ पंखीनो शो आशरो ॥ १७ ॥
 तिण अवसर घनघाट, गाजे करी गडेडाट ॥ आ० ॥ काजल सरली क
 उला ॥ १८ ॥ वरसे जलधर जोर, जरीयां सरनदी ठोर ॥ आ० ॥ ऊंमे
 ऊवकती वीजली ॥ १९ ॥ जल वहे ठामो ठाम, मोरडी इंसां ताम ॥ आ० ॥
 जलथी धोवाइ नज्ज्वल हुवां ॥ २० ॥ नज्ज्वल देखीने तेह, हियडे हर्ष
 समेत ॥ आ० ॥ इंसां पाठां आदस्यां ॥ २१ ॥ ब्राह्मण नारी जेह, हरिगृ
 हिणी हुइ तेह ॥ आ० ॥ पूरव कर्मवशें करी ॥ २२ ॥ पामी पुत्र विठोह,
 उपन्यो चित्त अंदोह ॥ आ० ॥ शोल घरस लगें एहने ॥ २३ ॥ घडी एक
 वरस विचार, जाणी विरहनी ठार ॥ आ० ॥ वियोगपणे दुःख होये घ
 णुं ॥ २४ ॥ जली जिननी वाणी, संयम लेइ केइ जाणि ॥ आ० ॥ सन
 कितधारी केई थया ॥ २५ ॥ निसुणी नारद ताम, जिनने करिय प्रणाम
 ॥ आ० ॥ मोहनवचनें संथुणयो ॥ २६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीलक्ष्मीसूरिकृत रोहिणीजीनी सव्वाय प्रारंभः ॥

॥ नरतनूप जावशुं ए ॥ ए देशी ॥ श्री वासुपूज्य जिणंदना ए, मघ

वा सुत मनोहार ॥ जयो तप रोहिणी ए ॥ रोहिणी नामें तस सुता ए,
 श्रीदेवी मात मलार ॥ ज० ॥ करे तस धन अवतार ॥ ज० ॥ १ ॥ पद्म
 प्रभुना वयणथी ए, दुर्गधा राजकुमार ॥ ज० ॥ रोहिणी तप याते ज्ञवे ए,
 सुजस सुगंधी विस्तार ॥ ज० ॥ क० ॥ २ ॥ नरदेव सुरपद जोगवी ए,
 ते थयो अशोक नरिंद ॥ ज० ॥ रोहिणी राणी तेहनी ए, दोयने तप सुख
 कंद ॥ ज० ॥ क० ॥ ३ ॥ डुरजिगंधा कामिनी ए, गुरुउपदेश सुणंत ॥ ज० ॥
 रोहिणीतप करि दुःख हरी ए, रोहिणी जव सुखवंत ॥ ज० ॥ क० ॥ ४ ॥ प्र
 थम पारणदिन रुषजनो ए, रोहिणी नक्षत्र वास ॥ ज० ॥ डुविधें करि तप
 उच्चरो ए, सात वरस सात मास ॥ ज० ॥ क० ॥ ५ ॥ करो उजमणुं पूरण
 तपे ए, अशोक तरु तल ठाय ॥ ज० ॥ विंव रयण वासुपूज्यनुं ए, अ
 शोक रोहिणि समुदाय ॥ ज० ॥ क० ॥ ६ ॥ एकसोएक मोदक जला ए,
 रूपा नाणां समेत ॥ ज० ॥ सात सत्याविश कीजिये ए, वेश संघ जक्ति
 हेत ॥ ज० ॥ क० ॥ ७ ॥ आठ पुत्र चारे सुता ए, रोग सोग नवि दीठ ॥ ज० ॥
 प्रभु हाथे संयम लक्षुं ए, दंपती केवल दीठ ॥ ज० ॥ क० ॥ ८ ॥ कांति रोहि
 णीपति जिस्ती ए, रोहिणीसुत सम रूप ॥ ज० ॥ ए तप सुख संपद दिये
 ए, विजयलक्ष्मी सूरी जूप ॥ ज० ॥ क० ॥ ९ ॥ इति रोहिणी सञ्चाय ॥

॥ अथ श्रीज्ञानविमलजीकृत कौशल्याजीनी सञ्चाय प्रारंभः ॥

॥ जामिनीने जतरार मनावे ॥ ए देशी ॥ दशरथ नृप कौशल्याने कहे,
 तुं जामिनी किम डुहवाणी ॥ के आ जोने रे ॥ तुं जा० ॥ प्राणथकी अ
 धिकी ठो वाहाली, राममाता गुण खाणी ॥ के आ० ॥ राम० ॥ के ना
 जो के नहिं जो के, शानें के शा माटे ॥ नारे वाहाला नहिं वोळुं तुम्ह
 साथें रे, तुमजुं अवोळडा लीधा ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ गलापासो रे, णी
 ना गलाथी, ठोडवे आपणे हाथे ॥ के आ० ॥ साहामुं जोई डु ख कहे
 मुऊने, एम कहे ग्रहि वार्थे ॥ के आ० ॥ के ना जो० ॥ २ ॥ अठ.त्तर विध
 स्नात्र कराव्यां, मंत्र न्हवणनां पाणी ॥ के आ० ॥ अम्ह विण ते रुघले मो
 कलाव्यां, स्वारे प्रीति तुह्यारी जाणी ॥ के आ० ॥ के ना० ॥ ३ ॥ पति
 सुतवंती जे कुलवंती, ते सवि सरखे दावें ॥ के आ० ॥ शोक्यवेध होय
 शूलि समाना, ते किम खमीया जावे ॥ के आ० ॥ के ना० ॥ ४ ॥ कहे
 दशरथ नृप स्नात्र तणुं जल, मोकलीयुं ठे पहेलां ॥ के आ० ॥ करकंक

एने शो आरीसो, स्या वोलो ठो घहेलां ॥ के आ० ॥ के ना० ॥ ५ ॥
 प्रेमकलह करतां एक आवी, जल लेइ दासी जरती ॥ के आ० ॥ तुरत
 आगमन नवि थयुं जरथी, एम अवस्था करती ॥ के आ० ॥ के ना०
 ॥ ६ ॥ इण निमित्तें जवसंवेग आव्यो, देह अधिरता जाणी ॥ के आ० ॥
 दपती दोय मढ्यां रसरंगें, लिये संयम नृपने राणी ॥ के आ० ॥ ७ ॥
 के होवे जिहां रे वाहला, हवे वोळुं तुम्ह साथ रे ॥ ए आंकणी ॥ इम
 संबंध ठे पद्मचरित्रे, रामनें राजनी वेदी ॥ के आ० ॥ ज्ञानविमल गुरुथी
 ते लह्यो, कस्यो जक्तिनें मेली ॥ के आ० ॥ के होवे० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीसकलचंद्रजी कृत देवानंदाजीनी सद्याय ॥

॥ राग काफ़ी ॥ जिनवररूप देखी मन हरखी, स्तनमें दूध ऊराया ॥
 तव गौतमकूं जया अचंजा, प्रश्न करनकूं आया ॥ १ ॥ गौतम एतो
 मेरी अम्मा ॥ तस कूखें तुम काहुं न वसिया, कवण कियां इण कम्मा
 ॥ गौ० ॥ २ ॥ तिसलादे देराणी हूती, देवानंदा जेठाणी ॥ विषयलो
 ज करी कांइ न जाणो, कपटवात मन आणी ॥ गौ० ॥ ३ ॥ एसा शाप
 दिया देरानी, तुम संतान न होजो ॥ कर्म आगल कोयनुं नवि चाले,
 इंद्र चक्रवर्ती जोजो ॥ गौ० ॥ ४ ॥ देराणीकी रत्नमावली, बहुलां रत्न
 चुरायां ॥ जगडो करतां न्याय तव हूळ, तव कडु नाणां पायां ॥ गौ० ॥
 ५ ॥ चरतराय जब ऋषजने पूढे, एहमां कोइ जिणंदा ॥ मरिची पुत्र
 त्रिदंकी तेरो, चोवीसमो जिणंदा ॥ गौ० ॥ ६ ॥ कुलनो गर्व कियो में
 गौतम, चरतराय जब बंध्या ॥ मन वचन कायार्ये करीने, हरख्यो अति
 आणंदा ॥ गौ० ॥ ७ ॥ कर्मसंयोगे जिहुककुल पाय्या, जन मन होवे
 कथहु ॥ इंद्रअवधें जोतां अपहस्यो, देव जुजंगम बांहे ॥ गौ० ॥ ८ ॥
 त्रासी दिन तिहांकणे वसिया, हरणगमेषी जब आया ॥ सिद्धारथ त्रिश
 लादे राणी, तस कूखें ठटकाया ॥ गौ० ॥ ९ ॥ शषजदत्त ने देवानंदा,
 लेशे संयम जारा ॥ तव गौतम ए मुक्तें जाशे, जगवती सूत्र विचारा ॥

॥ अथ श्रीश्रविचलकीकृत नागेश्वरी ब्राह्मणीनी सद्याय ॥

॥ ढाल पहेली ॥ चंपानगरी वखाणिये रे लाल, ज़रतक्षेत्र मजार हो ॥
 ज़ावकजन ॥ सोमल ब्राह्मण तिहां वसे रे लाल, नागेश्वरी घरनास्य हो
 ॥ ज़विण ॥ १ ॥ साधुने वहोराव्युं कडवुं तुंबडुं रे लाल, कीधो न मन्न वि
 चार हो ॥ ज़ण ॥ तिणकाले ने तिण अक्सरे र लाल, धर्मघोष अणगार
 हो ॥ ज़ण ॥ साण ॥ २ ॥ तेहनो शिष्य अति दीपतो रे लाल, धर्मरुचि मु
 निराय हो ॥ ज़ण ॥ मास मास तप आदरे रे लाल, रहे गुरांकी वार हो
 ॥ ज़ण ॥ साण ॥ ३ ॥ मासखमणके पारणे रे लाल, लेश गुरुनी आण हो ॥
 ज़ण ॥ नागेश्वरी घर आविया रे लाल, दीयो घणो सन्मान हो ॥ ज़ण ॥
 साण ॥ ४ ॥ तेतो घरमांहि जाइने रे लाल, हरषशुं लाये उठाय हो ॥ ज़ण ॥
 कडुवा तूंवारो साखणो र लाल, सब दीधो वहोराय हो ॥ ज़ण ॥ साण ॥
 ५ ॥ आहार पूरो जाणी करी रे लाल, आव्या गुरांजी रे पास हो ॥ ज़ण ॥
 एहवो आहार वत्स मत करो रे लाल, होशे जीवविनाश हो ॥ ज़ण ॥
 साण ॥ ६ ॥ आहार लेश मुनि चालिया रे लाल, गया वनह मजार हो
 ॥ ज़ण ॥ एक बुंद तिहां परठव्यो रे लाल, हुवो जीव संहार हो ॥ ज़ण ॥
 साण ॥ ७ ॥ एकबिंडुने नाखवे रे लाल, हुवो जीवनो विनाश हो ॥ ज़ण ॥
 जीवदया मन चिंतवी रे लाल, कियो सघलो आहार रे ॥ ज़ण ॥ साण ॥
 ८ ॥ एक मुहूरतके आंतरे रे लाल, परिणम्यो आहार असार हो ॥ ज़ण
 ॥ अतुल वेदना ऊपनी रे लाल, तुंबा तणे प्रसाद हो ॥ ज़ण ॥ साण
 ॥ ९ ॥ संथारा गाथा पढि करी रे लाल, त्याग्यो सकल आहार हो ॥
 ज़ण ॥ पाप अठार पञ्चस्की करी रे लाल, काल कियो तिण वार हो ॥
 ज़ण ॥ साण ॥ १० ॥ साधु आणी मन जावना रे लाल, गया अनुत्तर
 विमान हो ॥ ज़ण ॥ माहाविदेहमांहे जनमशे रे लाल, पामशे केवल
 ज्ञान हो ॥ ज़ण ॥ साण ॥ ११ ॥ ब्राह्मण सुणि करी कोपियो रे लाल,
 नागेश्वरीने दीधी काढ हो ॥ ज़ण ॥ सोख जातिना रोग उपन्या रे लाल,
 वेदना पीडी अपार हो ॥ ज़ण ॥ साण ॥ १२ ॥ साते नरकमें जाइ क
 री रे लाल, रुखी असंख्यातो काल हो ॥ ज़ण ॥ दुःख अनंतां पामियां रे
 लाल, कर्मतणां फल जाण हो ॥ ज़ण ॥ साण ॥ १३ ॥ शेठतणे घरे अ
 वतरी रे लाल, चंपानगरी मजार हो ॥ ज़ण ॥ सुखमालिका नामें ज़खी

रे लाल, रूपें रंजा अवतार हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ १४ ॥ शैठकुंवरी परणा
 वियां रे लाल, कुंवर अति सुकुमार रे ॥ ज० ॥ ततकालें ठोडी गयो रे
 लाल, लागी अग्निनी जाल हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ १५ ॥ शैठजी शैठघर
 आकिया रे लाल, उलंजो दियो तिण वार हो ॥ ज० ॥ विण अवगुण
 कांइ परहरी रे लाल, तुम मन कोण विचार हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ १६ ॥
 शैठ पुत्रने एम कहे रे लाल, नें कीधुं कांइक पुत्त हो ॥ ज० ॥ पाठा जा
 वो रे इणरे घरे रे लाल, राखो शैठ घर सुत्त हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ १७ ॥
 पुत्र कहे पिता सुणो रे लाल, कहो तो वूहुं जलमांय हो ॥ ज० ॥ कहो
 तो अग्निमां बली मरुं रे लाल, कहो तो पंहुं रूख चाढ हो ॥ ज० ॥ सा०
 ॥ १८ ॥ कहो तो कुंगरशुं पडी मरुं रे लाल, कहो तो हुं विप खाउं हो ॥
 ज० ॥ कहो तो फांसी लेई मरुं रे लाल, कहो तो परदेशे जाउं हो ॥
 ज० ॥ सा० ॥ १९ ॥ कहो तो शस्त्र पहेरी मरुं रे लाल, कहो तो लहुं
 संयमजार ॥ हो ॥ ज० ॥ तातवचन लोपुं नहिं रे लाल, पण नहिं वहुं
 ए नार हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २० ॥ शैठ सुणी घरे आकिया रे लाल,
 कुंवरी पर बहु कोड हो ॥ ज० ॥ डुमक पुरुष अणाकियो रे लाल, सो
 बि गयो तेने ठोड हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २१ ॥ कुमरी मन चिंता थइ रे लाल,
 कां सरजाई किरतार हो ॥ ज० ॥ कीधां पाप में अति घणां रे लाल,
 उदे हुवां इण वार हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २२ ॥ दान देवा तिहां मांकियां
 रे लाल, दिन दिन पर ते प्रजात हो ॥ ज० ॥ गोवालिका साधवी पधा
 रियां रे लाल, पूठे ठे मननी वात हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २३ ॥ कर जोडी
 विनति करे रे लाल, मुऊशुं करो उपकार हो ॥ ज० ॥ मुऊ जरतार वांठे
 नहिं रे लाल, कोइ करो उपगार हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २४ ॥ एह वचन ति
 हां सांजली रे लाल, सा कहे धर्म उपदेश हो ॥ ज० ॥ धर्म सुणाव्यो मोट
 को रे लाल, जेथी पावे सुख अनंत हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २५ ॥ धर्मकथा हे
 तशुं सांजली रे लाल, श्रावकनां व्रत वार हो ॥ ज० ॥ ए धर्म मुऊ ता
 रशे रे लाल, ए संसार असार हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २६ ॥ आजा छेइ
 पिता तणी रे लाल, लीधो संयमजार हो ॥ ज० ॥ चार माहाव्रत उच्च
 ह्यां रे लाल, रहे गुरुणीकी क्षार हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २७ ॥ कर जोडी
 विनति करे रे लाल, थो मुऊने आदेश हो ॥ ज० ॥ वनमांही काउस्त

ग करुं रे लाल, लेशुं आतापना तेथ हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २७ ॥ गुरुणी
 वचन लोपी करी रे लाल, गई वाग मजार हो ॥ ज० ॥ ठठ ठठ तप का
 उस्सग करे रे लाल, दीठी ठे गणिका लार हो ॥ ज० ॥ सा० ॥ २८ ॥
 गणिका देखी नीयाणुं करी रे लाल, पांचे पुरुषनी नास्य हो ॥ ज० ॥
 अधमासनी संक्षेपना करी रे लाल, डुजे सरग अवतार हो ॥ ज० ॥ सा०
 ॥ २९ ॥ नव पल आउखुं जोगवी रे लाल, देवा गणिका नार हो ॥ ज०
 ॥ डुपदराजा घरे अवतरी रे लाल, चूलणी कूखे डौपदी नार हो ॥
 ज० ॥ सा० ॥ ३० ॥ पांच पांरुव घरे जारया रे लाल, हुई अति सुजाण
 हो ॥ ज० ॥ संयम लेइ स्वर्गे गई रे लाल, पठे जाशे निर्वाण हो ॥ ज०
 ॥ सा० ॥ ३१ ॥ माहाविदेहमांहे सिद्धशे रे लाल, पामशे केवलज्ञान
 हो ॥ ज० ॥ पांचे पांरुव मुक्तें गया रे लाल, पहोता अविचल ताम हो
 ॥ ज० ॥ सा० ॥ ३२ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीहंसखुवनजीकृत निश्चयव्यवहारनी सद्यय प्रारंभः ॥

॥ देशी एकवीशानी ॥ ढाल ॥ श्री जिनवर रे, देशना दिये सोडाम
 णी ॥ नवियणने रे, नवसायर ऊतारणी ॥ तेह जिनवर रे, विनयजावे
 हित धरी ॥ निश्चय नय रे, व्यवहारथी अधिको गणी ॥ नुटक ॥ व्यवहा
 रथी नय अधिको जाणो, हवे आणो मन वली ॥ रहिवेष हूंते कोय न
 वंदे, जो थयो होय केवली ॥ व्यवहार अधिको वीर जांखे, धर्म दाखे जी
 वने ॥ अन्याय करतां जगतिनेता, वारे पुर्जय लोकने ॥ १ ॥ ढाल ॥ जुठ
 मुनिवर रे, खप करतो नवि जाणीयो ॥ आधाकर्मी रे, आहार असूजतो
 आणीयो ॥ तेह केवली रे, आहार आण्यो ते जमे ॥ मुनि आगल रे, दो
 ष प्रकाशे नवि किमे ॥ नुण ॥ नवि दोष जांखे साधु आगल, सूत्र ऊपर
 मति टले ॥ व्यवहार राखे आगम पांखे, साधु मारगथी चले ॥ खटमा
 स कूर्मापुत्र रहिया, गृहस्थवेषे केवली ॥ यतिवेष पामी अरुनीमांहे, नमे
 सुरराजा वली ॥ २ ॥ ढाल ॥ जरतेसर रे, आरीसामांहे जोवतां ॥ निज
 काया रे, अनियत जावना जावतां ॥ रूपकश्रेणें रे, चार कर्म चूरण करी
 ॥ शुद्ध्याने रे, केवललढी तव वरी ॥ नुण ॥ तव वरी केवललढी राजा,
 इंद्र चोसठ आव ए ॥ मनमां आणंदे कोय न वंदे, जामे वेष न पाव ए ॥
 मुनिवेष पहरी जाम विचरे, ताम वंदे सुरवरा ॥ उपदेशमाला वृत्तिमांहे

एसा दीसे अक्षरा ॥ ३ ॥ ढाल ॥ तप करतो रे, प्रसनचंद्र ऋषिराज रे ॥
 वेष देखी रे, साध्यां उत्तमकाज रे ॥ सोनी घर रे, मेतारज वहोरण
 गयो ॥ ऋषि देखीरे, सोनार मन आनंद जयो ॥ ३० ॥ सोनार मन
 आनंद जइला, सार आहार वहोराव ए ॥ तव जव न पासें मन विमासे,
 साधुने परिताप ए ॥ परलोक पहुतो साधु देखी, ताम वेष अंगी करे ॥
 ऋषि घातकारी अनाचारी, वेषथी जीवित धरे ॥ ४ ॥ ढाल ॥ वेष बंदो रे,
 निंदो मां मूरखपणे ॥ वेष राखे रे, धर्मयतिनो जिन जणे ॥ गृहीतूं तो
 रे, साधु समान क्रिया करे ॥ व्यवहारें रे, साधुपणुं को नवि कहे ॥ ३०
 ॥ नवि कहे साधुपणुं गृहीने, प्रवचननी साखे करी ॥ राजर्षि सेलंग थयो
 उसन्नो, शिष्य गया सवि परहरी ॥ साधुपंथग करे वेयावच, चोमासी
 खामण करे ॥ शिष्यवचने सेलंग वलियो, शत्रुजे अणसण उच्चरे ॥ ५ ॥
 ढाल ॥ प्रतिमामांहे रे, तीर्थकरना गुण नथी ॥ जिनप्रतिमा रे, सहहिये
 धर्म सारथी ॥ तेम मुनिना रे, पूरा गुण नवि पामियें ॥ प्रतिमापरे रे, वे
 ष देखी शिर नामियें ॥ ३० ॥ प्रतिमा पेरे वेष देखी, हिये हरखी वांदवा
 ॥ श्रावक समकित स्थिरीकारण, गुण साधु तिहां जाववा ॥ साधुसेव क
 रतो राग धरतो, कर्मनी करे निर्झरा ॥ श्री जडवाहु गुरु पयंपे, आवश्य
 कमांहे अक्षरा ॥ ६ ॥ ढाल ॥ गुरु पाखें रे दीक्षा दीधी नवि हुवे ॥ गुरु
 सेवा रे, करतां सूत्र पूरो लहे ॥ मुनि आगल रे, वीर प्रकासे मन रुलि ॥
 सुणि गौतम रे, संबंध असुच्चा केवली ॥ ३० ॥ संबंध असुच्चा केवलीनो,
 वीर जांखे एणी परें ॥ अणसांचली जे केवल पाम्यो, तेणें देशन नवि
 करे ॥ शिष्यने ते दीक्ष न दिये, कमल न रुचे सुरवरा ॥ व्यवहारे तेहनें
 कांइ न हुवे, जगवतीमांहे अक्षरा ॥ ७ ॥ ढाल ॥ मुक्ताफल रे, गुणें करी
 शोचा लहे ॥ संयमस्थानक रे, संख्यातीता जिन कहे ॥ ज्ञानें पूरो रे,
 आचारे पूरो नहिं ॥ एवा मुनिने रे, पंक्ति को निंदे नहिं ॥ ३० ॥ निंदे
 नहिं ऋषिवेष देखी, मुनिविना शासन नथी ॥ एकवीश सहस्र वर्ष सी
 मा, चाढ्यो धर्म बकूशथी ॥ सिद्धांतना ए जाव दोहिला, केवली विण न
 वि लहे ॥ श्रीहंसजुवन सूरिंद बोले, वीतराग एणिपरें कहे ॥ ८ ॥ इति ॥
 ॥ अथ श्री श्रीसारजीकृत स्याद्वादनी सद्याय प्रारंभः ॥
 ॥ आराधो अरनाथ अहोनिश ॥ ए देशी ॥ स्याद्वादमत श्री जिनवर

नो, ते केम कहियें एकांत जी ॥ मत एकांत कहे मिथ्यात्वी, साखी स
 कल सिद्धांत जी ॥ स्या० ॥ १ ॥ त्रियारूप तिहां न रहे मुनिवर, शोलमे
 उत्तराध्ययने विचार जी ॥ साधु साधवी वसे एकठां, श्रीठाणंगें पांच प्र
 कार जी ॥ स्या० ॥ २ ॥ जीव असंख्य कहा जल टबके, पन्नवणासूत्र जि
 नराज जी ॥ कदपसूत्रमांहे नित्य नदीने, लंगे मुनिवर वहोरण काज जी
 ॥ स्या० ॥ ३ ॥ श्रीठाणंगे चोथे ठाणे, मांस आहारी नरकें जाय जी ॥
 मद्य मांस मधु पण आचरणो, आचारांगे कह्यो जिनराय जी ॥ स्या० ॥
 ४ ॥ पंचम अंगे न करे श्रावक, त्रिविध पन्नरह कर्मादान जी ॥ हल नि
 वाहतणा पण दीसे, सप्तम अंगें कियां परमाण जी ॥ स्या० ॥ ५ ॥ हिंसा
 न करे त्रिविधें मुनिवर, पंचमे अंगें जुवो धीर जी ॥ जिनवर तेजोलेश्या
 उपरि, शीतलेश्या मूकी वीर जी ॥ स्या० ॥ ६ ॥ महावेदना हाथ लगा
 यां, वनस्पतिने थाये अंग जी ॥ पडतो मुनिवर तेहज पकडे, एह अर्थ
 ठे आचारांग जी ॥ स्या० ॥ ७ ॥ उत्तराध्ययने जांख्यो मुनिवर, समय मा
 त्र न करे प्रमाद जी ॥ दशवैकालिक त्रीजी पोरिसी, निंदतणी कीधी म
 रजाद जी ॥ स्या० ॥ ८ ॥ अंधजणी पण अंध न कहेवो, दशवैकालिक ए
 विधिवाद जी ॥ ज्ञाताअंगें जतिय जांख्या, नागश्रीना अवरणवाद जी
 ॥ स्या० ॥ ९ ॥ सूत्रें देव अविरति बोळ्या, हवे पांचम ठाणे मनरंग जी ॥
 ब्रह्मचरिज तप अति उत्कृष्टो, देवजणी बोळ्यो ठाणांग जी ॥ स्या० ॥ १० ॥
 सूत्र नवि घटे प्रकरण विघटे, प्रश्न पूढीजें तेहने एह जी ॥ ऋषज बाहुबल
 शिवपुर पढोता, एकण दिन जांज्यो संदेह जी ॥ स्या० ॥ ११ ॥ सात ज
 णाशुं मल्ली दीक्षा, सातम ठाणे श्रीठाणांग जी ॥ ठठे अंगें सात सयाशुं,
 कोण खोटो कोण साचो अंग जी ॥ स्या० ॥ १२ ॥ नारी सहस बत्तीसैं
 ज्ञाता, सुगडांग सोल हजार जी ॥ किसनतणी अंतेउर जांखी, किम मेळी
 जें एह प्रकार जी ॥ स्या० ॥ १३ ॥ कुलघर पनरे जंबुपन्नत्ति, समवायांगे
 कुलघर सात जी ॥ हरि वारमा जिन आठमे अंगें, तेरमे चोथे अंग क
 हात जी ॥ स्या० ॥ १४ ॥ चारित्र विराधी ज्युं पांचमें अंगें, जवनपतिमांहे
 सुर थाय जी ॥ तो सुखमादिका ठठे अंगें, किम दूजे देवलोक कहाय जी
 ॥ स्या० ॥ १५ ॥ सूत्र टीका निर्युक्ति वखाणो, चूर्णि जाण्य ए मेलो पंच
 जी ॥ पंच कहे तो ते मत साचो, तिण अर्थे म-करो खल खंच जी ॥ स्या०

॥१६॥ जीवाजिगमें असंधयणी, ज्ञाख्या नारकी श्रीजगवंत जी॥उगणीश
मे श्रीउत्तराध्ययनें, मांसपिण बोल्या सिद्धांत जी ॥स्या०॥१७॥ विण व्याकर
णें अर्थ करे जे, अर्थ नहिं पण अनरथ जाण जी ॥ ज्ञांजे नावें नदी केम तरि
यें, दशमे अंगे कद्यो जिनजाण जी॥स्या०॥१७॥श्री जिनप्रतिमानुं वयाव घ,
करे कर्म निर्जरा काजें जी॥दशमे अंगें साधु जणी ए, अर्थ विचार कद्या जिन
राजें जी ॥स्या०॥ १९ ॥ हेय गेय उपादेय वखाण्यो, तिम उत्सर्ग अने अय
वाद जी॥ विधिचरितानुवादनयसंस्थित, निश्चयनय व्यवहार मर्जाद जी
॥स्या०॥१७॥अनेकांत नयवादी जिनवर, आगममांहि वद्या दश बोल जी
कहे श्रीसार समेजि के परिखो, श्री सिद्धांत रतन बहु मोल जी॥स्या०॥११॥

॥ अथ श्रीशांतिकुशलजीकृत सनत्कुमारनी सद्याय ॥

॥सरस्वति सरस वचन रस मागुं, तोरे पाये लागुं ॥ सनतकुमार
चक्री गुण गाळं, जिम हुं निर्मल थाळं ॥ १ ॥ रंगीदा राणा रहो, जीवन
रहो रहो, मेरे सनतकुमार, विनवे सवि परिवार ॥ ए आंकणी ॥ रूप
अनोपम इंद्रे वखाण्युं, सुर जाणे ए माया ॥ ब्राह्मण रूप करी दाय
आया; फरि फरि निरखत काया ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ १ ॥ शुं निर
खो तुमें लाळ रंगीले, खेळ जरी मोरी काया ॥ नाइ धोइ जव ठत्र
धेराव्युं, तव फरि ब्राह्मण आया ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ ३ ॥ देखी जोतां
रूप पळटाणुं, सुण हो चक्री राया ॥ शोल रोग तेरे देहमें उपना, गर्व म कर
कूडिं काया ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ ४ ॥ कळमळियो घणुं चक्री मनमां,
अंमर तणी सुणि वाणी ॥ तुरंत तंबोल नाखीने जोवे, रंग जरी काया पळ
टाणी ॥ रं०॥जी०॥मे०॥५॥ गढे मढे मंदिर पोल मालियां, ठंकी सवि ठकु
राई॥ नवनिधि चउद रतन सवि ठंकी, ठंकी सयल सजाइ ॥ रं०॥ जी० ॥
मे०॥६॥ धनपुर नयर अंतेजरी महेली; महेली समता माया ॥ संयम लेइ
फरे एकीलां, केंड न मूके राणा राया ॥ रं० ॥ जी०॥ मे० ॥ ७ ॥ तुम पाखें
मोरुं तन मन ठीजे, दिन केही परे लीजे ॥ एक लस्कने सहस बाणुं, नयन
जरी जरी ठीजे ॥ रं०॥ जी०॥ मे०॥ ८ ॥ पाय घूघरी घम घम वाजे, ठम ठम क
रती आवे ॥ दश आंगुली मुखे देइने, विनति घणी कराये ॥ रं०॥ जी०॥ मे०
॥ ९ ॥ पुरोहित महेता परजां फूरे, अंतेजरी सवि रोवे ॥ एक वार तुमें सामुं
जोवो; सनतकुमार नवि जोवे ॥ रं०॥ जी० ॥ मे० ॥ १० ॥ ठत्र धरे शिर चा

नो, ते केम कहियें एकांत जी ॥ मत एकांत कहे मिथ्यात्वी, साखी स
 कल सिद्धांत जी ॥ स्या० ॥ १ ॥ त्रियारूप तिहां न रहे मुनिवर, शोलमे
 उत्तराध्ययने विचार जी ॥ साधु साधवी वसे एकठां, श्रीठाणंगें पांच प्र
 कार जी ॥ स्या० ॥ २ ॥ जीव असंख्य कहा जल टबके, पन्नवणासूत्र जि
 नराज जी ॥ कदपसूत्रमांहे नित्य नदीने, लंगे मुनिवर वहोरण काज जी
 ॥ स्या० ॥ ३ ॥ श्रीठाणंगे चोथे ठाणे, मांस आहारी नरकें जाय जी ॥
 मद्य मांस मधु पण आचरणो, आचारांगे कह्यो जिनराय जी ॥ स्या० ॥
 ४ ॥ पंचम अंगे न करे श्रावक, त्रिविध पन्नरह कर्मादान जी ॥ हल नि
 वाहतणा पण दीसे, सप्तम अंगें कियां परमाण जी ॥ स्या० ॥ ५ ॥ हिंसा
 न करे त्रिविधें मुनिवर, पंचमे अंगें जुवो धीर जी ॥ जिनवर तेजोलेश्या
 उपरि, शीतलेश्या मूकी वीर जी ॥ स्या० ॥ ६ ॥ महावेदना हाथ लगा
 यां, वनस्पतिने थाये अंग जी ॥ पडतो मुनिवर तेहज पकडे, एह अर्थ
 ठे आचारांग जी ॥ स्या० ॥ ७ ॥ उत्तराध्ययने जांख्यो मुनिवर, समय मा
 त्र न करे प्रमाद जी ॥ दशवैकालिक त्रीजी पोरिसी, निंदतणी कीधी म
 रजाद जी ॥ स्या० ॥ ८ ॥ अंधजणी पण अंध न कहेवो, दशवैकालिक ए
 विधिवाद जी ॥ ज्ञाताअंगें जतिय जांख्या, नागश्रीना अवरणवाद जी
 ॥ स्या० ॥ ९ ॥ सूत्रें देव अविरति बोल्या, हवे पांचम ठाणे मनरंग जी ॥
 ब्रह्मचरिज तप अति उत्कृष्टो, देवजणी बोल्या ठाणांग जी ॥ स्या० ॥ १० ॥
 सूत्र नवि घटे प्रकरण विघटे, प्रश्न पूढीजें तेहने एह जी ॥ ऋषज बाहुवल
 शिवपुर पहोता, एकण दिन जांज्यो संदेह जी ॥ स्या० ॥ ११ ॥ सात ज
 णाशुं मल्ली दीक्षा, सातम ठाणे श्रीठाणांग जी ॥ ठठे अंगें सात सयाशुं,
 कोण खोटो कोण साचो अंग जी ॥ स्या० ॥ १२ ॥ नारी सहस वत्तीसैं
 ज्ञाता, सुगडांग सोल हजार जी ॥ किसनतणी अंतेउर जांखी, किम मेळी
 जें एह प्रकार जी ॥ स्या० ॥ १३ ॥ कुलघर पनरे जंबुपन्नति, समवायांगे
 कुलघर सात जी ॥ हरि बारमा जिन आठमे अंगें, तेरमे चोथे अंग क
 हात जी ॥ स्या० ॥ १४ ॥ चारित्र विराधी ज्युं पांचमें अंगें, जवनपतिमांहे
 सुर थाय जी ॥ तो सुखमालिका ठठे अंगें, किम डूजे देवलोक कहाय जी
 ॥ स्या० ॥ १५ ॥ सूत्र टीका निर्युक्ति वखाणो, चूर्णि जाण्य ए मेलो पंच
 जी ॥ पंच कहे तो ते मत साचो, तिण अर्थें म करो खल खंच जी ॥ स्या०

॥१६॥ जीवाजिगमें असंघयणी, जाख्या नारकी श्रीजगवंत जी ॥ उगणीश
में श्रीउत्तराध्ययने, मांसपिंन बोल्या सिद्धांत जी ॥ स्याण ॥ १९ ॥ विण व्याकर
णें अर्थ करे जे, अर्थ नहिं पण अनरथ जाण जी ॥ जांजे नावें नदी केम तरि
यें, दशमे अंगे कंह्यो जिनजाण जी ॥ स्याण ॥ २० ॥ श्री जिनप्रतिमानुं वयाव घ,
करे कर्म निर्जेरा काजें जी ॥ दशमे अंगें साधु जणी ए, अर्थ विचार कह्या जिन
राजें जी ॥ स्याण ॥ २१ ॥ हेय गेय उपादेय वखाण्यो, तिम उत्सर्ग अने अप
वाद जी ॥ विधिचरितानुवादनयसंस्थित, निश्चयनय व्यवहार मर्जाद जी
॥ स्याण ॥ २२ ॥ अनेकांत नयवादी जिनवर, आगममांहि वद्या दश बोल जी
कहे श्रीसार समजि के परिखो, श्री सिद्धांत रतन बहु मोल जी ॥ स्याण ॥ २३ ॥

॥ अथ श्रीशांतिकुशलजीकृत सनत्कुमारनी सद्याय ॥

॥ सरस्वति सरस वचन रस मागुं, तौरे पाये दाशुं ॥ सनत्कुमार
चक्री गुण गाउं, जिमहुं निर्मल थाउं ॥ १ ॥ रंगीला राणा रहो, जीवन
रहो रहो, मेरे सनत्कुमार, विनवे सवि परिवार ॥ ए आंकणी ॥ रूप
अनोपम इंद्र वखाण्युं, सुर जाणे ए माया ॥ ब्राह्मण रूप करी दोष
आयां, फरि फरि निरखत काया ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ २ ॥ शुं निर
खो तुमें दाल रंगीले, खेल जरी मोरी काया ॥ नाइ धोइ जव उत्र
धराव्युं, तव फरि ब्राह्मण आया ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ ३ ॥ देखी जोतां
रूप पलटाणं, सुण हो चक्री राया ॥ शोल रोग तेरे देहमें उपना, गर्वम कर
कूडि काया ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ ४ ॥ कलमलियो घणुं चक्री मनमां,
अमर तणी सुणि वाणी ॥ तुरत तंबोल नाखीने जोवे, रंग जरी काया पल
टाणी ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ ५ ॥ गढ मढ मंदिर पोल मालियां, ठंकी सवि ठकु
राइ ॥ नवनिधि चउद रतन सवि ठंकी, ठंकी संयल सजाइ ॥ रं० ॥ जी० ॥
मे० ॥ ६ ॥ धनपुर नयर अंतेजरी महेली, महेली ममता माया ॥ संयम खेइ
फरे एकीला, केड न मूके राणा राया ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ ७ ॥ तुम पाखे
मोरुं तन मन ठीजे, दिन केही परें लीजें ॥ एक लखने सहस बाणं, नयन
जरी जरी ठीजें ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ ८ ॥ पाय घूघरी घम घम वाजे, ठम ठम क
रती आवे ॥ दश आंगुली मुखें देइने, विनति घणी कराये ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे०
॥ ९ ॥ पुरोहित महेता परजां कुरे, अंतेजरी सवि रोवे ॥ एक बार तुमें सामुं
जोवो, सननकुमार नवि जोवे ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ १० ॥ उत्र धरे शिर चा

मर ढाले, रावत प्रतपो रूडे ॥ षट्खंरु पृथ्वी निरंतर, ठमास लगे फरे
केडे ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ ११ ॥ देव ठले माया नवि पडीयो, वैद्यरूप ल
हि आवे ॥ तपशक्तियें करी लब्धि उपनी, थुके करी रोग गमावे ॥ रं० ॥
जी० ॥ मे० ॥ १२ ॥ वरस बे लाख मंरुलिक चक्री, लाख वरसनी दीक्षा ॥
पन्नरमा जिगवरने वारे, नरदेव करे जीवरक्षा ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ १३ ॥
श्रीविजयसेन सूरीश्वरवाणी, तपगह्य राजे जाणी ॥ विनय कुशलपंक्ति
वर खाणी, तस चरणे चित्त आणी ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ १४ ॥ वरस
सातशें रोगहीयासी, सूधो संयम पाळे ॥ मुनि शांतिकुशल एम प्रजंपे,
देवलोक त्रीजो संजाले ॥ रं० ॥ जी० ॥ मे० ॥ १५ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीज्ञानविमलजीकृत एवंतीसुकुमारजीनी सद्वाय प्रारंभः ॥

॥ लाठलदे मात मढहार ॥ ए देशी ॥ मनोहर मालव देश, तिहां
बहुनयर निवेश ॥ आज हो अठे रे ऊजेणी नयरी सोहती जी ॥ १ ॥
तिहां निवसे धनशेठ, लष्ठी करे जस वेठ ॥ आज हो जडा रे तस घरणी
मनडुं मोहती जी ॥ २ ॥ पूरव जवें ऊष एक, राख्यो धरिय विवेक ॥
आज हो पाम्यो रे तेह पुण्यें सोहम कढपमां जी ॥ ३ ॥ नखिनीगुल्म
विमान, जोगवी सुख अजिराम ॥ आज हो ते चवीयो रे उप्पन्नो जडा
कुखें जी ॥ ४ ॥ एवंतीसुकुमार, नामे अतिसुकुमार ॥ आज हो दीपे रे जीं
पे निज रूपें रतिपति जी ॥ ५ ॥ रंजाने अनुकारि, परण्यो बत्रीस ना
री ॥ आज हो जोगी रे जामिनीशुं जोगज.जोगवे जी ॥ ६ ॥ नित्य नव
ला शणगार, सोवन जडित सफार ॥ आज हो पहेरे रे सुंवाळुं चीवर
सामटुं जी ॥ ७ ॥ नित नवलां तंबोल, चंदन केशर ठोल ॥ आज हो
चरचे रे जस अंगे आंगी फूटरी जी ॥ ८ ॥ एक पखाले अंग, एक करे
नाटक चंग, आज हो एकज रे सुंहाळी सेज समारती जी ॥ ९ ॥ एक
बोले मुख जाख, मीठी जाणे डाख ॥ आज हो लावण्यें लटकाला रूडा
बोलडा जी ॥ १० ॥ एक करि नयन कटाक, एक करे नखरा लाख ॥ आ
ज हो प्रेमें रे पन्होती पियु पियु उच्चरे जी ॥ ११ ॥ एक पिरसे पकवाभ्र,
एक समारे पान ॥ आज हो पिरसे रे एक सारां खारां सालणां जी ॥
१२ ॥ एक वली गूथे फूल, पंच वरण बहुमूल ॥ आज हो जामे रे केस
रीये कस एक वांधती जी ॥ १३ ॥ एक कहे जीजीकार, करती काम

विकार ॥ आज हो रूडी रे रढियाली वेण वजावती जी ॥ १४ ॥ इत्या
दिक बहु जोग, विलसे स्त्रीसंयोग ॥ आज हो जाणे दोगुंदक पृथिवी
मंमलें जी ॥ १५ ॥ एवे समे समता पूर, श्रीआर्यमाहागिरिसूरि ॥ आज
हो आढ्या रे उजेणी पुरनें परिसरें जी ॥ १६ ॥ वसति अनुग्रह हेत,
चैला चतुर संकेत ॥ आज हो मेले रे जडा घर स्थानक याचवा जी ॥
१७ ॥ वारू वाइन शाल, पोढी वली पटशाल ॥ आज हो आपे रे उतर
वा काजें साधुने जी ॥ १८ ॥ शिष्य कथन सुणी एम, सपरिवारे धरि
प्रेम ॥ आज हो पुण्ये रे पटशाळे आवी उतस्या जी ॥ १९ ॥ सकल मुनि
समुदाय, करे पोरिसिं सद्याय ॥ आज हो सुणियां रे श्रवणें रे सुख नलि
नीगुढमनां जी ॥ २० ॥ तेह सुणी वृत्तांत, जातिसमरणवंत ॥ आज हो
चिते रे चित्तमांहि ए केम पामीयें जी ॥ २१ ॥ पूठे गुरुनें नेह, केम ल
हियें सुख एह ॥ आज हो चांखे रे गुरु तव वयण सुधारसे जी ॥ २२ ॥
चरणथी निश्चे मोख, जो पाले निर्दोष ॥ आज हो अथवा रे सरागें वैमा
निकपणुं जी ॥ २३ ॥ कहे गुरुने दियो दीख, गुरु कहे विणु माय शीख ॥
आज हो न हुवे अनुमति विणु संयमकामना जी ॥ २४ ॥ तिहां माता
आलाप, स्त्रीना विरह विलाप ॥ आज हो कहेतां रे ते सघलो पार न पा
मीयें जी ॥ २५ ॥ आपे पहेरे वेश, लही आग्रह सुविशेष ॥ आज हो धारे
रे तिहां पंच महाव्रत गुरुकने जी ॥ २६ ॥ जिम कर्म खेरू थाय, दाखो
तेह उपाय ॥ आज हो आपे रे उपयोगी गुरु परिसह तिहां जी ॥ २७ ॥
कंधेरी वनमांहि, पहोतो मन उत्साहिं ॥ आज हो करे रे काउस्सगग क
र्मने तोडवा जी ॥ २८ ॥ माठी जवनी नार, करी जवत्रमण अपार ॥ आ
ज हो थइ रे ते श्यालणी व्यालणनी परे जी ॥ २९ ॥ नवप्रसूति विकरा
ल, आवी वनह विचाल ॥ आज हो निरखी रे ते मुनिने रीषें धडहडे
जी ॥ ३० ॥ निश्चलमनें मुनि ताम, कर्म दहननें काम ॥ आज हो जूखें
जडजडती मुनिचरणे अडे जी ॥ ३१ ॥ चारे पहोर निशि जोर, सह्यो
परिसह घोर ॥ आज हो करडी रे श्यालणें शरीर वळूरीयुं जी ॥ ३२ ॥
धरतो धर्मनुं ध्यान, नलिनीगुढम विमान ॥ आज हो पहोतो रे पन्हो
तो पुण्यप्रजावथी जी ॥ ३३ ॥ सुरजिकुसुमजल वृष्टि, सुर करे सम
कित दृष्टि ॥ आज हो महिमा रे ते ठामें सबलो साचवे जी ॥ ३४ ॥

जडा ने सवि नार, प्रजातें तिण वार ॥ अज हो आवी रे गुरु वांदी पूढे
 वातडी जी ॥ ३५ ॥ गुरु कहे एक रातमांहि, साध्या मनना उत्साह ॥
 आज हो निसुणी रे दुःख वारे संयम आदरे जी ॥ ३६ ॥ गर्जवती एक
 पुत्र, तेणे राख्युं घरसूत्र ॥ आज हो थापे रे मुनि काउस्सग्ग ठामें सुंदर
 जी ॥ ३७ ॥ ते माहाकाल प्रासाद, आज लगें जसवाद ॥ आज हो पास
 जिनेसर केरो रूयडो तिहां जी ॥ ३८ ॥ धन धन ते मुनिराज, साख्यां आत
 म काज ॥ आज हो वरशे रे शिवरमणी जवने आंतरे जी ॥ ३९ ॥ धीर
 विमल कवि शिष्य, ललि ललि नामे शीश ॥ आज हो तेह रे नयविमल
 गावे गुणो जी ॥ ४० ॥ इति श्री एवंतीसुकुमार सद्यप संपूर्ण ॥

॥ अथ श्रीपद्मविजयजीकृत वयरमुनिनी सद्यप प्रारंभः ॥

॥ सांजलजो तुमें अद्भुतवातो, वयरकुमार मुनिवरनी रे ॥ ए आंकणी ॥
 खट महिनाना गुरु जोलीमां, आंबे केलि करंता रे ॥ त्रण वरसना साधवी
 मुखथी, अंग अग्यार जणंता रे ॥ सां० ॥ १ ॥ राजसजामां नहिं क्षोत्राणा,
 मात सुखडली देखी रे ॥ गुरुयें दीधो उंधो मुहपत्ती, लीधो सर्व उवेखी
 रे ॥ सां० ॥ २ ॥ गुरुसंघातें त्रिहार करे मुनि, पाले शुद्ध आचार रे ॥ बाल
 पणार्थी महा उपयोगी, संवेगी शिरदार रे ॥ सां० ॥ ३ ॥ कोलापाक ने घे
 वर जिहा, दोय ठामें नवि लीधी रे ॥ गगनगामिनी वैक्रियलब्धि, देवें
 जेहने दीधी रे ॥ सां० ॥ ४ ॥ दश पूरव जणिया जे मुनिवर, जडगुप्त गुरु
 पासे रे ॥ खीरास्त्रव प्रमुख जे लब्धि, परगट जास प्रकासे रे ॥ सां० ॥ ५ ॥
 कोडि सेंकडा धनने संचे, कन्या रुक्मिणी नामें रे ॥ शेष धनावो दिये प
 ण न लीये, वधते शुभपरिणामे रे ॥ सां० ॥ ६ ॥ देइ उपदेशने रुक्मिणी
 नारी, तारी दीक्षा आपी रे ॥ युगप्रधान जे विचरे जगमां, सूरजतेज प्र
 तापी रे ॥ सां० ॥ ७ ॥ समकितशियल तुंब धरि करमां, मोहसायर क
 ख्यो ठोटो रे ॥ ते केम बूडे नरयनदीमां, एतो मुनिवर महोटो रे ॥ सां०
 ॥ ८ ॥ जेणे दुर्जिह संघ लेईनें, मूक्यो नगर सुगाल रे ॥ शासनशोत्रा
 उन्नतिकारण, पुष्पपद्म विशाल रे ॥ सां० ॥ ९ ॥ बोधरायने पण प्रतिबो
 ध्यो, कीधो शासनरागी रे ॥ शासन शोत्रा जयपताका, अंबर जडनें लागी
 रे ॥ सां० ॥ १० ॥ विसख्यो शुंठगांठियो कानें, आवश्यकवेला जाण्यो रे ॥
 विसरे नहिं पण ए विसरियो, आयु अल्प पिठान्यो रे ॥ सां० ॥ ११ ॥

लाख सोनइये हांकि चडे।जिम, कीजे दिन सुगाख रे ॥ एम संनखावी
वीरसेनने, जाणी अणसण काल रे ॥ सां० ॥ ११ ॥ रथावर्त गिरि जइ
अणसण कीधुं, सोहम हरि तिहां आवे रे ॥ प्रदक्षिणा पर्वतने देइने,
मुनिवर वंदे जावे रे ॥ सां० ॥ १३ ॥ धनसिंहगिरि सूरी उत्तम, जेहना
ए पटधारी रे ॥ पद्मविजय कहे गुरुपद पंकज, नित्य नमियें नर नारी
रे ॥ सां० ॥ १४ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीरामविजयजीकृत मेतारज मुनिनी सधाय प्रारंभः ॥

॥ धन धन मेतारज मुनि, जेणें संयम लीधो, जीवदयाने कारणें, ते
णें कोप न कीधो ॥ ध० ॥ १ ॥ मास खमणने पारणें, गोचरीयें जाय ॥
सोवनकार तणे घरे, पद्मोता मुनिराय ॥ ध० ॥ २ ॥ सोवन जव श्रे
णिकना, रुषि पासें मूकी ॥ घरजींतर ते नर गयो, एक वात न चूकी
॥ ध० ॥ ३ ॥ जव सधवा पंखी गले, मुनिवर ते देखे ॥ तव सोनी घर
आवियो, जव तिहां न देखे ॥ ध० ॥ ४ ॥ कहो मुनिवर जव किहां गया,
कहोने केणें लीधा ॥ मुनि उत्तर आपे नहिं, तव चपेटा दीधा ॥ ध० ॥
५ ॥ मुनिवर उपशम रस जस्यो, पंखीनाम न चासे ॥ कोप धरीने इम
कहे, जव ठे तुम पासे ॥ ध० ॥ ६ ॥ जव चोख्या राजा तणा, तूंतो म
होतो चोर ॥ आला चर्म तणो करी, बांध्यो मस्तकें दोर ॥ ध० ॥ ७ ॥
नेत्रयुगल तणी वेदना, निकलियां ततकाल ॥ केवलज्ञान ते निर्मळुं, पा
मी कीधो काल ॥ ध० ॥ ८ ॥ शिवनगरी ते जइ चढ्यो, एहवो साधु
सुजाण ॥ गुणवंतना गुण जे जंपे, तस घर कढ्याण ॥ ध० ॥ ९ ॥ नव
कन्या तेणें तजी, तजी कंचन कोडि ॥ नव पूरवधर वीरना, प्रणमुं कर
जोडी ॥ ध० ॥ १० ॥ सिंह तणी परें आदरी, सिंहनी परें शूरो ॥ संयम
पाली शिव लही, जस जगमें पूरो ॥ ध० ॥ ११ ॥ जारी काठ तणी तिहां,
उंचेथी नाखे ॥ धडकी पंखी जव वम्या, ते देखी आंखे ॥ ध० ॥ १२ ॥
तव सोनी मन चिंतवे, कीधुं खोटुं काम ॥ वात राजा जो जाणशे, तो टा
खशे ठाम ॥ ध० ॥ १३ ॥ तव ते मनमां चिंतवे, जयथो जिनहाथे ॥ सोव
नकार दीक्षा लीये, निज कुटुंब संघातें ॥ ध० ॥ १४ ॥ शिवनगरी ते जइ
चढ्यो, एवो साधु सुजाण ॥ गुणवंतना गुण जे जंपे, तस घर कोडि कढ्याण
॥ ध० ॥ १५ ॥ श्री कनकविजय वाचकवरु, शिष्य जंपे राम ॥ साधुतणा

गुण गावतां, लहियें उत्तम ठाम ॥ ध० ॥ १६ ॥ इति ॥

॥ अथ श्रीज्ञानविमलजीकृत सातव्यसननी सव्वाय प्रारंभः ॥

॥ देशी कडखानी ॥ वार तुं वार तुं व्यसनसप्तकमिदं, जीव तुं जोय म
नमां विचारी ॥ द्यूत मांसं सुरा वारविनता वली, चोरी मृगया परकीयनारी
॥ वार० ॥ १ ॥ रूपवंती बहुगुणयुता कुलवती, सुतवती निजपति प्रेमें
लीधी ॥ एहवा द्यूतना व्यसनथी निजवशा, परवशा तोय सानलें कीधी
॥ वा० ॥ २ ॥ मांसना व्यसनथी वनमांहि हरिणली, बाणें वेधी पराक्रम
वखाणें ॥ श्रेणिको नरपति श्रमणपति जक्तियुत, नरकें गयो ते सहू लो
क जाणें ॥ वा० ॥ ३ ॥ द्वारका द्वारिका स्वर्ग नगरी तणी, वासिता याद
वापति मुरारि ॥ विस्तृता बार जोयण धनें पूरिता, चूरिता तेह छैपाय
नारि ॥ ए सुरापाननो जुळ विकार ॥ वा० ॥ ४ ॥ नयर वसंत वसंतबंधव
समो, वसति धम्मिल जस डविण कोडी ॥ सकल निजगेह सुख ठोडी
वेश्यातणी, संगति पामियो दुःख कोडी ॥ वा० ॥ ५ ॥ चोरिका व्यसन
थी दुःख दुर्गति तणा, जाजनं ते जना जवनमांहि ॥ चोर मंशुक हरि
चित्रक प्रमुखने, राजदंकादि दुःख नरक प्राहिं ॥ वा० ॥ ६ ॥ दुःखनुं
घर थयो जेह मृगयाथकी, राघवो वनमांहि मेलि सीता ॥ हरणने मा
रवा निजवशा हारवा, रावणें तेह निज नयरी नीता ॥ खंपटी रावणें
लीधी सीता ॥ वा० ॥ ७ ॥ वासुदेवार्क सम रुद्रि सेनायुतो, जास
महिमांहि महिमा विराजे ॥ प्रबल लंकाधिनाथो परस्त्रीथकी, नारकी तत्र
अद्यापि गाजे ॥ वा० ॥ ८ ॥ एम अनेकें थया एक व्यसनथकी, दुःख
संततितणां तत निकेतं ॥ जेहने सात व्यसन होय मोकलां, ते लहे
दुःख कहेवाय केतुं ॥ ते लहे दुःख वली मेरु जेतुं ॥ वा० ॥ ९ ॥ एम
जाणी करी व्यसनने वारियें, धारियें धर्मवर धरिय नेहा ॥ संयमें धीर गुरु
चरण आराहियें, नय कहे जिम लहियें सुख समूहा ॥ वा० ॥ १० ॥ इति ॥

॥ इति श्री सव्वायमालाग्रंथः समाप्तः ॥